

चौथीय तथा चौथि

संग्रह

सर्व जैनधर्मना रागी भाइयोने सार

छनावी मासिद्ध करनार.

सा. प्रेमचंद केवलदास

—००००००—

अमदावाद मध्ये

अमदावाद माणकचोक आगल कागदोभोडनी तामे

शा हीराभाई पुनासाना मकानमां

अमदावाद टाइम्स प्रेसमां

काजीदास सांकलचंदे छाप्यो

—००००००—

संवत १९५९ संने १८७९

कीमत रु. ५.

विनंतीपत्र.

—❀❀❀❀❀—

सर्वे जैनधर्माजिलाखी पुरुषो प्रते मारी, वि
नती छे जे आ चोवीशि तथा वीशि संग्रहनुं पुस्तक
के जेमां एक वीतराग परमउपगारी तरण तारणी
जुदा जुदा जावथी जुदा जुदा राग रागणीमां स्तुती
छ ते मन वचन कायानी एकाग्रता करी तेनो जावा
र्थ सदगुरु पंचमहाव्रतना धारक यथार्थ वातना क
थक पासे धारी ते हृदयमां धारवो के जेथी "आनंद
घनजी महाराजे कह्युंछे के जिनसरुपथइजिनआराधे
तेसहीजिनवरहोवेरे" आ संसार रुपी समुद्रमांथी मु
क्ति पंथनो आरौ नजीक आवे.

आ पुस्तक सोधतां केटलीक बीजी प्रतो न
मलवाथी तथा मतीमंदना दोषे करी तथा आंख दो
पथी जे कोइ भुल रही हशे तेने माटे मारां उपर म
तीवंत पुरुषोए मेहेरवानी करी क्षमा करवुं अने जुल
होय ते सुधारी वांचवुं.

आ पुस्तकमां जे कांइ भुल रही होय तेनुं
फल मिथ्या दुकृत थाव. (सही.) प्रे. के.

(२)

अनुक्रमणिका.
चौवींशियो.

नंबर.	कर्त्तानुंताम.	स्तवनोती- संख्या.	पृष्ठ.
१	आनंदघनजी.	२४	१
२	जसोविजयजी. १	२४	२२
३	जसोविजयजी. २	२४	३७
४	जसोविजयजी ३	२४	४६
५	विनयविजयजी.	२९	६२
६	मोहनविजयजी.	३१	७६
७	कांतिविजयजी.	२४	१०४
८	रामविजयजी.	२४	११९
९	न्यायसागरजी. १	२४	१३७
१०	न्यायसागरजी २	२४	१५०
११	मानविजयजी.	२४	१६५
१२	जिनविजयजी. १	२४	१८३
१३	जिनविजयजी २	२४	२००
१४	पदमविजयजी. १	२४	२१८
१५	पदमविजयजी २	२४	२३३
१६	ज्ञानविमलसूरी.	२४	२५१

नंबर.	कर्तानुनाम.	स्तवनाती	पृष्ठ.
		संख्या.	
१७	विजयलक्ष्मीसूरी.	२४	२६७
१८	नाणविजयजी.	२४	२८८
१९	देवचंदजी.	२४	३०३
२०	देवचंदजीकृतश्रितितचोवीशी.	२१	३४८
२१	नयविजयजी.	२४	३२७
२२	हंसरतनजी.	२४	३६७
२३	लक्ष्मीवीमलजी.	२४	३८७
२४	प्रमोदसागजी.	२४	४०५
२५	वीनीतवीजेजी.	२४	४२०
२६	चतुरवीजेजी.	२५	४३६
२७	रामवीजेजी बीजा.	२४	४५१
२८	श्रमृतवीजेजी	३३	४६८
२९	हरखचंदजी.	२४	४८२
३०	गुणवीलासजी.	२४	४९२
३१	जाववीजेजी.	२४	५०१
३२	आनंदवरधनजी.	२४	५१५
३३	उदयरत्नजी.	२४	५२५

(२)

आनंदघनजीकृत.

मारुमनमाह्युरेश्रीवीमलाचलरे एदेशी ॥ पंथडोनिहा
लुरेबीजाजिनतणारे अजितअजितगुणधाम जेतेंजीत्या
रेतिणेंहुंजीतियोरे पुरुषकिसुंमुजनाम १ पं० चरम
नयणकरिमारगजोवतारे भुलोसयलसंसार जेणेनय
णेकरिमारगजोइयेंरे नयणतेदिव्यविचार २ पं० पुरु
षपरंपरअनुभवजोवतारे अंधोअंधपुलाय वस्तुविचारे
रेजोआगमकरिरे चरणधरणनहीठाय ३ पं० तर्कविचा
रेरेवादपरंपरारे पारनपोंहचेकोय अभिमतवस्तुरेवस्तु
गतेंकहेंरे तेविरलाजगजोय ४ पं० वस्तुविचारेरेदिव्य
नयणतणारे विरहपडचोनिरधार तरतमजोगेरेतरत
मवासनारे वासितबोधआधार ५ पं० काललबधिल
हीपंथनिहालसुरे एआशाअवलंब एजनजीवेरेजिन
जीजाणज्योरे आनंदघनमतअंब ६ पं० इति ॥

॥ अथश्रीसंभवनाथजीनस्तवन ३ ॥ रामगि
री ॥ रातडीरमीनेकिहांथीआवीयारे एदेशी ॥ संभ
वेदेवतेधुरसेवोसवेरे लहीप्रभुसेवनभेद सेवनकार
णपहिलीभूमिकारे अभयअद्वेषअखेद १ सं० भय
चंचलताहोजेपरणामनीरे द्वेषअरोचकभाव खेदप्रवृति
होकरतांथाकीयेरे दोषअबोद्धिलखाव २ सं० चर्मा
वर्तनहोचरमकरणतथारे भवपरिणतिपरिपाक दोष

टलेवलिदृष्टिखुलेभलीरे प्राप्तिप्रवचनवाक ३ सं०
 परिचयपातकहोघातकसाधुसुरे अकुसलअपचयचे
 त ग्रंथअध्यातमश्रवणमननकरीरे परिसीलननयहेत
 ४ सं० कारणजोगेहोकारजनीपजेरे एहमांकोइनवा
 द पिणकारणविणकारजसार्थीयेरे तेनिजमतउनमाद
 ५ सं० मुग्धसुगमकरिसेवनआदरेरे सेवनअगमअ
 नूप देयोकदाचितसेवकयाचनारे अनदघनरसरूप ६
 सं० इति ॥ अथ श्री अभीनंदनस्वामी
 स्तवन रागधन्यासीसींधुओ ॥ आजनिहेजोरेदीसेंना
 हिलो एचाल ॥ अभिनंदनजिनदरसणतरसीये दर
 सणदुरलभदेव मतमतभेदेरेजोजइपुळीये सहुथापेअ
 हमेव १ अ० सामान्येकरीदरिसणदोहिलुं निरणय
 सकलविशेष मदमंघेरचोरेअंधोकिंमकरे रविशसिरुप
 विलेष २ अ० हेतुविवादेहोचितधरिजोइये अतिदुर
 गमनयवाद आगमवादेहोगुरुगमकोनही एसेवलोवि
 षवाद ३ अ० घातीडुंगरआडाअतिघणा तुझदरस
 णजगनाथ धीठाइकरिमारगसंचरुं सेंगूकोइनसाथ
 ४ अ० दरसणदरसणरटतोजोफिरुं तोरणरोझसमा
 न जेहनेपिपासाहोअमृतपाननी किमभांजेविषपान
 ५ अ० तरसनआवेहोमरणजीवनतणो सीझेजोदरस

(६)

आनंदघनजीकृत.

परमपुरुषपरमात्मा परमेश्वरपरधान ल. परमपदार
थपरमिष्टी परमदेववरमान ल० ६ श्री० विधिविरं
चिविश्वंभरु रूपीकेशजगनाथ ल० अघहरअघमोच
नधणी मुक्तपरमपदसाथ ल० ७ श्री० इमअनेकअ
भिधाधरे अनुभवगम्यविचार ल० जेजाणतेहनेकरे
आनंदघनअवतार ल० ८ श्री० इति ॥

अथ श्रीचंद्रप्रभुजीनस्तवन रागकेदारोगोडी ॥ कुमरी
रोवेआक्रंदकरेमुनेकोइमुकावे एदेशी ॥ चंद्रप्रभुमुखचं
द्र सषीमुनेदेषणदे उपसमरसनोकंद स० सेवेसुरन
रवृंद स० गतकलिमलदुखदंद स० १ सुहमनिगोदे
नदेखियो स० बादरअतिहिंविसेस स० पुढवीआउनले
खीओ स० तेउवाउनलेस स० २ वनसपतिअतिघण
दीहा स० दीठोनहीयदीदार स० बितिचउरिंदीजल
लीहा स० गतसत्रीपणधार स० ३ सुरतिरिनिरय
निवासमां स० मनुजअनारजसाथ स० अपज्जत्ताप्र
तिभासमां स० चतुरनचढियोहाथ स० ४ इमअनेक
थलजांणीये स० दरिसणविणजिणदेव स० आगमथी
मतिआणीये स० कीजेनिरमलसेव स० ५ निर्मलसा
धुभगतिलही स० योगअवंचकहोय स० किरियाअवं
चकतिमसही स० फलअवंचकजोय स० ६ प्रेरकअ

आनंदघनजकृत. (७)

वसरजिनवरु स० मोहनीयक्षयथाय स० कामितपुर
 णसुरतरु स० आनंदघनप्रभुपाय स० ७ इति ॥
 अथ श्रीसुविधिनाथजीनस्तवन ॥ रागकेदारो इमध
 नोधननेपरचावे एदेशी ॥ सुविधिजीणेसरपायनमनि
 शुभकरणीइमकीजेरे अतिघणउलटअंगधरीने प्रहउ
 ठीपूजीजेरे १ सु० द्रव्यभावसुचीभावधरीने हर
 पैदेहरेजइयेरे दहतिगपणअहिगमसाचवतां एकम
 नाधुरिथइयेरे २ सु० कुसम१अक्षतरवरवाससुगंधो३
 धुप४दीप५मनसाखीरे अंगपुजापणभेदसुणीइम
 गुरुमुखआगमभाखीरे ३ सु० एहनुंफलदोयभेदसुणी
 जे अनंतरनेपरंपररे आणापालणचित्तप्रसत्ती मुग
 तिसुगतिसुरमंदिररे ४ सु० फल१अक्षतरवरधुप३
 पईवो४ गंध५नैवेद्य६फल७जलभरीरे८ अंगअग्रपु
 जामिलिअडविध भावेभविकसुभगतियरिरे ५ सु०
 सत्तरभेदइकवीसप्रकारे अष्टोत्तरसतभेदेरे भावपुजा
 बहूविधनिरधारी दोहगदुरगतिछेदेरे ६ सु० तुरीय
 भेदपडिवत्तीपूजा उपसमखीणसयोगीरे चउहापूजा
 इमउत्तराध्ययणे भाखीकेवलभोगीरे सु० ७ इमपुजाब
 हुभेदसुणीने सुखदाइकसुभकरणीरे भविकजीवक
 रस्येतेलहिस्ये आनंदघनपदघरणीरे ८ सु० इति ॥

पजेकिरियासाधे तेअध्यातमलहियेरे जेकिरियाकरि
चउगतिसाधे तेनअध्यातमकहियेरे ३ श्री० नामअ
ध्यातमठवणअध्यातम द्रव्यअध्यातमळंडोरे भावअ
ध्यातमनिजगुणसाधे तोतेहथीरढिमंडोरे ४ श्री० श
ब्दअध्यातमअरथसुणीने निरविकलपत्रादरज्योरे श
ब्दअध्यातमभजनाजाणी दानग्रहणमतिधरज्योरे ५
श्री० अध्यातमजेवस्तुविचारी बीजाजाणलवासीरे व
स्तुगतेजेवस्तुप्रकासे आनंदघनमतवासीरे ६ श्री०
इति ॥ ॥ अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तवन ॥ राग
गोडी ॥ तूंगीयागिरसिपरसाहे ॥ एदेशी ॥ वासुपूज्य
जिनत्रिभुवनस्वामी घननामीपरिणामीरे निराकारसा
कारसचेतन करमकरमफलकामीरे १ वा० निराकार
अभेदसंग्राहक भेदग्राहकसाकारोरे दर्शनज्ञानदुभेद
चेतना वस्तुग्रहणव्यापारोरे २ वा० कर्तापरिणामीप
रिणामो कर्मजेजीविकरीयेरे एकअनेकरूपनयवादे निय
तेनयअनुसरीयेरे ३ वा० दुखसुखरूपकरमफलजाणो
निश्चयएकआनंदोरे घेतनतापरिणामनचूके घेतनकहे
जिनचंदोरे ४ वा० परिणामीचेतनपरिणामो ज्ञानक
रमफलभावीरे ज्ञानकरमफलचेतनकहीये लेष्योतेहम
नावीरे ५ वा० आतमज्ञानीश्रमणकहावे बीजातोद्

(८) आनंदघनजीकृत.

अथ श्रीशीतलनाथजिनस्तवन ॥ रागधन्यासीगो
डी ॥ गुणहविसाला मंगलीकमाला वामानोसुतसाचो
जी ॥ एदेशी ॥ शीतलजिनपतिललितत्रिभंगी विवि
धभंगीमनमोहेरे करुणाकोमलता १ तीक्षणता २ उदा
सीनता ३ सोहेरे शी० १ सर्वजंतुहितकरणीकरुणा १ क
र्मविदारणतीक्षणरे २ हांनादांनरहितपरिणामी उदा
सीनता ३ तीक्षणरे शी० २ परदुखछेदनइच्छाकरुणा १
तीक्षणपरदुखरीझेरे २ उदासीनताउभयविलक्षण एक
ठामेंकिमसीझेरे शी० ३ अभयदानतेकरुणामलक्षय १
तीक्षणतागुणभावेरे २ प्रेरणविनकृतिउदासीनता ३ इ
मविरोधमतिनावेरे शी० ४ शक्तिव्यक्तित्रिभुवनप्रभुता
निग्रंथतासंयोगेरे योगीभोगीवक्तामौनी अनुपयोगि
उपयोगिरे शी० ५ इत्यादिकबहुभंगत्रिभंगी चमतका
रचितदेतीरे अचरिजकारीचित्रविचित्रा आनंदघनप
दलेतीरे शी० ७ ॥ ॥ अथ श्रीश्रेयांसजिनस्त
वन ॥ राग गोडी ॥ अहोमतवालेसाजनां ॥ एदेशी ॥
श्रीश्रेयांसजिनअंतरजामी आतमरामीनामीरे अध्या
तममतपूरणपामी सहजमुगतिगतिगामीरे १ श्री० स
थलसंसारीइंद्रियरामी मुनिगुणआतमरामीरे मुख्यप
णेजेआतमरामी तेकेवलनिःकामीरे २ श्री० निजस्वरु

(१२)

आनंदघनजीकृत.

रे देषेपरमनिधान जि० इदयनयणनिहालेजगधणी
महिमामेरुसमान जि० ३ ध० दोडतदोडतदोडतदो
डीओ जेतीमननीरेदोडय जि० प्रेमप्रतीतविचारोदू
कडो गुरुगमलेज्योरेजोड जि० ४ ध० एकपयीकिम
प्रीतवरेपडे उभयमिल्याहोवेसंध जि० वुरागीहुंमोहे
फंदीयो तुंनिरागीनिरबंध जि० ५ ध० परमनिधिप्र
गटमुखआगलें जगतओलंघीहोजाय जि० ज्योतिवि
नाजुओजगदीसनी अंधोअंधपुलाय जि० ६ ध० नि
रमलगुणमणिरोहणभूधरा मुनिजनमानसहंस जि०
धन्यतेनगरीधनवेलाघडी मातपिताकुलवंस जि० ७ ध०
मनमधुकरवरकरजोडीकहे पदकजनिकटनिवास जि०
घननामीआनंदघनसांभलो एसेवकअरदास जि०
८ ध० इति ॥ अथशांतिनाथजिनस्तवन ॥
रागमल्हार ॥ चतुरचोमासोपडकमी एदेशी ॥ शांति
जिनएकमुझवीनती सुणोत्रिभुवनरायरे शांतिसरुप
किमजाणीये कहोमनकिमपरषायरे शां० १ धन्यतुआत
मजेहने एहवोप्रश्नअवकासरे धीरजमनधरीसांभलो
कहुंशांतिप्रतिभासरे शां० २ भावअविशुद्धसविसुद्धजे
कह्याजिनवरदेवरे तेतिमअवितथसदहे प्रथमएशांति
पदसेवरे शां० ३ आगमधरगुरुसमकिती क्रियासंव

रसाररे संप्रदाईअवंधकसदा शुचिअनुभवाधाररे
 शां० ४ शुद्धआलंबनआदरे तजीअवरजंजालरे ताम
 सीवृत्तिसविपरिहरी भजेसात्विकीसालरे शां० ५ फ
 लविशंवादजेहमांनही शब्दतेअर्थसंवांधिरे सकलनय
 वादव्यापीरह्यो तेसिवसाधनसंधिरे शां० ६ विधिप्र
 तिषेधकरिआतमा पदारथअविरोधरे अहणविधिम
 हाजनेपरिअह्यो इसोआगमेबोधरे शां० ७ दुष्टज
 नसंगतिपरिहरी भजेसुगुरुसंतानरे जोगसामर्थ्यचि
 तभावजे धरेमुगतिनिदांनरे शां० ८ मानअपमान
 चितसमगणे समगणेकनकपापाणरे वंदकनिंदकस
 मगणे इसोहोयतूंजाणरे शां० ९ सर्वजगजंतुनेसम
 गणे गणेतृणमणिभावररे मुगतिसंसारविद्वुसमगणे
 मुणैभवजलनिधिनावरे शां० १० आपणोआतमाभा
 वजे एकचेतनाधाररे अवरसविसाथसंयोगथी एहनिज
 परिकरसाररे शां० ११ प्रभुमुखथीइमसांभली कहै
 आतमरामरे ताहरेदरिसणेनिस्तरघो मुज्जसीध्यासवि
 कामरे शां० १२ अहोअहोहूंमुझनेकहूं नमोमुजन
 मोमुज्जरे अमितफलदानदातारनी जेहनेभेटथईतुझ
 रे शां० १३ शांतिसरुपसंक्षेपथी कह्योनिजपररुपरे
 आगममांहिविस्तरघणो कह्योशांतिजिनभूपरे शां०

(१४)

आनंदघनजीकृत.

१४ शांतिसरूपइमभावस्ये धरीशुद्धप्रणिधानरे आनंद
घनपदपामस्ये तेलहिस्येबहुमानरे शां० १५ इति ॥

अथ श्रीकुंथुनाथजीनस्तवन ॥ रागरामकली ॥

अंबरदेहोमुरारी एदेशी ॥ कुंथुजिनमनडुंकिमहनिवा
जे जिम२जतनकरीनेराखूं तिम२अलगुभाजेहो कु०

१ रजनीवासरवसतीउजड गयणपायालेजायें साप
खायनेमोहडुंधोधुं एहउखांणोन्यायेहो कुं० २ मुगतित

णाअभिलाषीतपीया ज्ञाननेध्यानअभ्यासे वयरीडुं
काईएहवंचिते नांखेअलवेपासेहो कुं ३ आगमआग

मधरनेहाथे नावेकिणविधिआंकुं किहांकिणजोहठक
रीनेहठकुं तोव्यालतणीपरेवांकुहो कुं ४ जोठगकहुं

तोठगतुंनदेखुं साहुकारपिणतांहि सर्वमांहेनेसर्वधी
अलगुं एअचरिजमनमांहिहो कुं० ५ जेजेकहुंतेकान

नधारे आपमतेरहेकालो सुरनरपंडितजनसमझावे
समझेनमाहरोसालोहो कुं० ६ म्हेजाणुंएलिंगनपुस

क सकलमरदनेठेले बीजीवातेसमरथछेनर एहनेको
इनझेलेहो कुं० ७ मनसाध्युंतिणेसघळूंसाध्युं एहवा

तनहिखोटी इमकहेसाध्युंतेनविमानुं एकहिवातछेमो
टीहो कुं० ८ मनडुंदुराराध्यतेवासिंआण्युं तेआ

गमधीमतिआणूं आनंदघनप्रभुमाहरुआणो तोसा

चुकरिजाणुहो कुं० ९ इति ॥ अथ
 श्रीअरनाथजीनस्तवन ॥ रागपरजीयोमारु ॥ रु
 पभनोवंशरयणायरु एदेशी ॥ धरमपरमअरनाथनो
 किमजाणुंभगवंतरे स्वपरसमयसमझावीये महिमावं
 तमहंतरे १ ध० शुद्धातमअनुभवसदा स्वसमयएहवि
 लासरे परवडिछांहडीजिहांपडे तेपरसमयनिवासरे २
 ध० तारानक्षत्रग्रहचंदनी ज्योतिदिनेसमझाररे दर्शन
 ज्ञानचरणथकी शक्तिनिजातमधाररे ३ ध० भारीपी
 लोचीकणो कमकअनेकतरंगरे पर्ययदृष्टिनदीजीये ए
 कजकनकअभंगरे ४ ध० दर्शनज्ञानचरणथकी अलख
 सरुपअनेकरे निरविकलपरसपिजीये शुद्धनिरंजनएक
 रे ५ ध० परमारथपंथजेकहे तेरंजेएकतंतरे व्यवहारे
 लखजेरहे तेहनाभेदअनंतरे ६ ध० व्यवहारेलखेंदोहि
 ला कांइनआवेहाथरे शुद्धनयथापनासेवतां नविरहेंदु
 विधासाथरे ७ ध० एकपखीलखप्रीतनी तुमसाथेज
 गनाथरे कृपाकरीनेराखज्यो चरणतलेंग्रहीहाथरे ८
 ध० चक्रीधरमतीरथतणो तीरथफलततसाररे तीरथ
 सेवेतेलहें आनंदघननिरधाररे ९ ध० इति ॥
 अथ श्रीमल्लिनाथजिनस्तवन ॥ रागकाफी ॥ सेवक
 किमअवगणियेहो ॥ मल्लिजिन ॥ एअवसाभासारी

अवरजेहनेआदरअतिदियें तेहनेमूलनिवारीहो १
 म० ज्ञानसुरूपअनादितूंम्हारुं तेलीधुंतुमेतांणी जुओ
 अज्ञानदशारीसावी जातांकांणनआणीहो २ म० नि
 द्रासुपनजागरउजागरता तुरियअवस्थाआवी निद्रासु
 पनदशारीसाणी जांणीननाथमनावीहो ३ म० समकि
 तसाथेसगार्डकीधी सपरिवारसुंगाढी मिथ्यामतीअप
 राधणजांणी घरथीबाहिरकाढीहो ४ म० हास्यअरति
 रतिसोगदुगंछछा भयपामरकरसाली नोकपायश्रेणी
 गजचढतां श्वानतणीगतिझालीहो ५ म० रागद्वेषअवि
 रतिनीपरणीत एचरणमोहनायोधा वीतरागपरिणति
 परणमतां उठीनाठाबोधाहो ६ म० वेदोदयकामा
 परिणामां कामकरमसहुत्यागी निःकामीकरुणारससा
 गर अनंतचतुष्कपदपागीहो ७ म० दानविघनवारी
 सहुजनने अभयदांनपददाता लाभविघनजगविघन
 निवारक परमलाभरसमाताहो ८ म० वीर्यविघनपंडि
 तवीर्येहणी पूरणपदवीजोगी भोगोपभोगदोषविघन
 निवारी पूरणभोगीसुभोगीहो ९ म० इमअढारदूषण
 वरजिततणुं मुनिजनवृंदेगाया अविरतिरुपकदोषनि
 रुपण निरदूषणमनभायाहो १० म० इणविधिपरखी
 मनविसरांमी जिनवरगुणजेगावे दीनबंधुनीमहिरनि

जरथी आनंदघनपदपाषेहो म० ११ इति ॥

अथ श्रीमुनिसुब्रतस्वामीजिनस्तवन ॥ रागकाफी ॥

आघाआमपधारोपूज एदेशी ॥ मुनिसुब्रतजिनराय

एकमुझवीनतीनिसुणो आतमतलक्युंजाणुंजगतगुरु,ए

हविचारमुझकहीयो आतमतलजाण्याविणनिरमल चि

तसमाधिनविलहियो १ मु० केईअबंधआतमततमाने

किरियाकरतोदीसे क्रियातणुंफलकहोकुणभोगवे इम

पूछुंचितरीसे २ मु० जडचेतनएआतमएकज थाव

रजंगमसरिखो दुखसुखसंकरदुषणआवे चितविचा

रजोपरषो ३ मु० एककहेनित्यजआतमतत आतम

दरसणलीणो कृतविनाशअकृतागमदूषण नविदेखेम

तिहीणो ४ गु० सुगतमतरागीकहेवादी क्षिणकएआ

तमजाणो बंधमोषसुखदुखननघटे एहविचारमनआ

णो ५ मु० भूतचतुष्कवरजीतआतमतत सत्ताअलगी

नघटे अंधसकटजोनिजरनदेखे तोस्युंकीजेसकटे ६

मु० इमअनेकवादीमतिविभ्रम संकटपडियोनलहे चि

तसमाधितेमाटेपूछुं तुमविणततकोइनकहे ७ मु० व

लतुंजगगुरुइणपरैभाषे पक्षपातसविछंडी रागद्वेपमो

हपषवरजित आतमसुंरठिमंडी ८ मु० आतमध्यान

करेजोकोउ सोफिरिइणमांनावे वागजालवीजूसदूजा

(१८)

आनंदघनजीकृत.

णै एहतत्वचितचावे ९ मु० जिणेविवेकधरिएपषग्रहिए
तेतत्वज्ञानीकहियें श्रीमुनिसुवृतकृपाकरोतो आनंदघ
नपदलहियें १० मु० इति ॥ अथ श्रीनमिनाथजि
नस्तवन ॥ रागआसाउरी ॥ धनधनसंप्रतिसाचोरा
जा एदेशी ॥ षट्दरसणजिनअंगभणीजे न्यासखडंग
जोसाधेरे नमिजिनवरनाचरणउपासक षट्दरसणआ
राधेरे १ ष० जिनसुरपादपपायवखाणुं सांख्ययोग
दोयभेदेरे आतमसत्ताविवरणकरता लहोदुगअंगअ
खेदेरे २ ष० भेदअभेदसुगतमीमांसक जिनवरदोय
करभारीरे लोकालोकअवलंबनभजियें गुरुगमथीअ
वधारीरे ३ ष० लोकायतिककूखजिनवरनी असवि
चारजोकीजेरे तत्वविचारसुधारसधारा गुरुगमविणकि
मपीजेरे ४ ष० जैनजिनेश्वरवरउत्तमअंग अंतरंगव
हिरंगेरे अक्षरन्यासधराआराधक आराधंधरिसंगेरे
५ ष० जिनवरमांसघलादरिसणछे दर्शनजिनवरभज
नारे सागरमांसघलीतटनीसही तटिनीसागरछजनारे
६ ष० जिनसरुपथइजिनआराधे तेसहीजिनवरहोवे
रे भृंगीईलिकानेचटकावें तेभृंगीजगजोवेरे ७ ष० चूर
णिभाष्यसूत्रनिर्युक्ति वृत्तिपरंपरअनुभवरे समयपुरुष
नाअंगकह्याए जेछेदेतेदुरभवरे ८ ष० मुद्राबीजधार

णाअक्षर न्यासअरथविनियोगेरे जेध्यावैतेनविंवची
जे क्रियाअवंचकभोगेरे ९ ष० श्रुतअनुसारविचारी
बोलुं सुगुरुतथाविधिनमिलेरे क्रियाकरीनवीसाधीस
कीये एविखवादचितसघलेरे १० प० तेमाटेउभाकर
जोडी जिनवरआगलकहियेरे समयचरणसेवाशुचीदे
ज्यो जिमआनंदघनलहियेरे ११ प० इति ॥

अथ श्रीनेमीनाथजिनस्तवन ॥ रागमारुणी ॥ धण
राढोला एदेशी ॥ अष्टभवंतरवालहीरे तूंमूझआतम
राम मनरावाला मुगतिनारीसुंआपणेरे सगपणको
इनकाम म० १ धरिआवोहोवालिमधरिआवो मा
रीआसानाविसराम म० रथफेरोहोसाजनरथफेरो
साजनमाहरामनोरथसाथ म० आंकणी नारीपखो
स्योनेहलोरेवाला साचकहेजगनाथ म० इश्वरअर
धंगेधरीरेवा० तूंमूझझालेनहाथ म० २ पशुजननेकरु
णाकरिरेवा० आंणीरीदयविचार म० माणसनीकरु
णानहीरेवा० एकुणधरआचार म० ३ प्रेमकलपतरु
छेदीयोरेवा० धरियोयोगधतूर म० घतुराईरोकुणक
होरेवा० गुरुमिलिआजगसूर म० ४ माहरंतोएमां
क्युंनहीरेवा० आपविचारेराज म० राजसभामाबिस
तारिरेवा० कीसडीवधसीलाज म० ५ प्रेमकरेजगजन

(२०)

आनंदघनजीकृत.

सहूरेवा० निरवाहेतेअोर म० प्रीतकरीनेछांडिदेरेवा०
तेहसुंचालेनजोर म० ६ जोमनमांएहवुंहतुरेवा० नि
सपतिकरतनजाण म० निसपतिकरीनेछांडतारेवा०
माणसहुयेनुकसाण म० ७ देतांदानसंवत्सरीरेवा० स
हुलहेवंछितपोष म० सेवकवंछितनविलहेरेवा० तेसे
वकनोदोष म० ८ सखीकहेएसामलोरेवा० हुंकहुंल
क्षणस्वेत म० इणलक्षणसाचीसखीरेवा० आपविचा
रेहेत म० ९ रागीसुरागीसहूरेवा० वैरागीस्योराग म० रा
गविनाकिमदाखवोरेवा० मुगतिसुंदरीमाग म० १० एक
गुह्यघटतुंनहीरेवा० सघलोइजाणेलाग म० अनेकांतिक
भोगवोरेवा० ब्रह्मचारीगतसोग म० ११ जिणजोगेतुझने
जोउंरेवा० तिणजोगेजोवोराज म० एकवारमुझनेजुवोरे
वा० तोसीझेमुझकाज म० १२ मोहदसाधरिभावतारेवा०
चितलहेतखविचार म० वीतरागताआदरीरेवा० प्राण
नाथनिरधार म० १३ सेवकपिणतेआदरेरेवा० तोर
हेसेवकमांम म० आसयसाथेचालीयेरेवा० एहिजरु
हुंकाम म० १४ त्रिविधयोगधरिआदर्योरेवा० नेम
नाथभरतार म० धारणपोषणतारणोरेवा० नवरसमु
गताहार म० १५ कारणरूपीप्रभुभज्योरेवा० गण्या
नकाजअकाज म० कृपाकरीप्रभुदीजीयेरेवा० आनंद

घनपदराज म० १६ इति ॥ अथ श्रीपार्श्वना
 थजिनस्तवन ॥ रागसारंग देशीरसियानी ॥ ध्रुवप
 दरामीहोस्वामीमाहरा निःकामीगुणरायसुग्यानी नि
 जगुणकामीहोपामीतुंधणी ध्रुवआरामीहोथाय सु० १
 ध्रु० सर्वव्यापीकहोसर्वजाणगपणे परपरणमनस्वरुप
 सु० पररुपेकरीतत्वपणुंनही स्वसत्ताचिदरुप सु० २
 ध्रु० ग्येयअनेकहोग्यानअनेकता जलभाजनरविजेम
 सु० द्रव्यएकतत्वपणेगुणएकता निजपदरमतांहोखेम
 सु० ३ ध्रु० परक्षेत्रंगतग्येयनेजाणवे परक्षेत्रीथयुंग्या
 न सु० अस्तिपणुंनिजक्षेत्रंतुमेकह्यो निर्मलतागुणमान
 सु० ४ ध्रु० ग्येयविनाशहोज्ञानविनश्वरु कालप्रमा
 णेरेथाय सु० स्वकालेकरीस्वसतासदा तेपररीतेनजा
 य सु० ५ ध्रु० परभावेकरीपरतापामता स्वसत्ताथिर
 ठाण सु० आत्मचतुष्कमयीपरमानही तोकिमसहुनो
 रेजाण सु० ६ ध्रु० अगुरुलघुनिजगुणनेदेखतां
 द्रव्यसकलदेखंत सु० साधारणगुणनीसाधम्म्य
 ता दर्पणजलनेदृष्टांत सु० ७ ध्रु० श्रीपारसजिनपार
 सरससमो पिणइहांपारसनांहि सु० पूरभरसिओहो
 निजगुणपरसनो आनंदघनमुझमांहि सु० ८ ध्रु० इति ॥

अथ श्रीमाहावीरजिनस्तवन ॥ रागधन्यासी ॥

(२४) जसोविजयजीकृत.

विजयसुगुरुतणो वाचकजसहो नितनितगुणगायके ५
अ० इति ॥ अथ श्रीसंभवनाथजिनस्तवन ॥
मनमधुकरमोहीरह्यो ॥ एदेशी ॥ संभवजिनवरविन
ती अवधारोगूणग्यातारे स्वामीनहिंमुजखिजमते कहि
यहोस्योफलदातारे १ सं० करजोडीउभोरहुं रातिदि
वसतुमध्यामरे जोमनमांआणोनही तोसुंकहियेंछानेरे
२ सं० खोटखजानेकोनही दीजेवंचीतदानारे करुणा
निजरेप्रभुतणी वाधेंसेवकवानारे ३ सं० काललवध
नहीमतिगणो भावलवधतुजहाथेरे लडथडतुंपणगज
बधुं गाजेगजवरसाथेरे ४ सं० देस्योतोतुमहीभला बी
जातो नवियाचुंरे वाचकजसकहेसांडिसुं फलस्येएमनसा
चुंरे ५ सं० इति ॥ अथ श्रीअभिनंदनजिनस्त
वन ॥ सुणयोप्रभु ॥ एदेशी ॥ दीठीहोप्रभुदिठीजगु
रुतुझ मूरतिहोप्रभुमूरतमोहनवेलडीजी मीठीहोप्रभुमी
ठीताहरीवाणि लागेहोप्रभुलागेजेसीसेलडीजी १ जा
प्युंहोप्रभुजाणुंजनमकयथ्य जोउंहोप्रभुजोउंतुमसा
थेंमिल्योजी सुरमणीहोप्रभुसुरमणीपाम्योहथ्य अंग
णहोप्रभुअंगणमुजसुरतरुफलयोजी २ जाग्याहोप्रभु
जाग्यापुण्यअंकुर माग्याहोप्रभुमोहमाग्यापासाढल्या
जी बुठाहोप्रभुबुठाअमीयेंमेह नाठाहोप्रभुनाठाअशुभ

जसोविजयजीकृत. (२५)

शुभदिनवल्याजी ३ भूष्याहो प्रभुभूष्यामिल्याघृतपुर त
रस्यांहो प्रभुतरस्यां दिव्यउदकमिल्यांजी थाक्यांहो प्रभु
थाक्यांमिल्यासुखपाल चाहतांहो प्रभुचाहतांसजनहेजे
हल्याजी ४ दीवोहो प्रभुदीवोनि सावनगेह शापीहो प्रभु
शापीथलेजलनौमिलिजी कलियूगेहो प्रभुकलियूगेदुल
होमुझदरिसणहो प्रभुदरिसणलह्युंआसाफलीजी ५ वाच
कहो प्रभुवाचकजसतुमदास वीनवेहो प्रभुवीनवेअभितं
दनसुणोजी कहीयेंहो प्रभुकहीयेंमदेस्योछेह देयोहो प्र
भुदेयोसुखदरिसणतणोजी ६ इति ॥ अथ श्रीसु
मतिजिनस्तवन ॥ झांझरीयामुनीवरनीदेशी ॥ सुमति
नाथगुणसुंमिलीजी वाधेमुजमनप्रीत तेलविंदुजिमवि
स्तरेजी जलमांहिभलिरित १ सोभागीजिनसुंलागो
अविहडरंग सजनसुंजेप्रीतडीजी छानीतेनरखाय प
रिमलकस्तुरीतणोजी महिमांहिंमहकाय सो० २ अं
गुलीयेंनविमेरुठंकायें छावडीयेंरवितेज अंजलीमांजि
मगंगनमाए मुजमनतिमप्रभुहेज सो० ३ हुअोछपेन
हीअधरअरुणजिम खातांपानसुरंग पवित्रभरप्रभु
गुणप्याले तिममुजप्रेमअभंग सो० ४ ढांकीइक्षुप
ठालसुंजी नरहेलहीविस्तार वाचकजसकहेप्रभुतणो
जी तिममुजप्रेमप्रकार सो० ५ इति ॥ अथ श्रीप

(२६) जसोविजयजीकृत.

दमप्रभुस्तवन ॥ सहजसलुणाहोसाधूजी एदेशी ॥ पद
मप्रभुजिनजइअलगारह्या जिहांथीनावेलेखोजी काग
लनेमिसितिहांनविसंपजे नचलेवाटविसेखोजी १ सुगु
णसनेहारेकदीयनवीसरे इहांथीतिहांजइकोइआवेन
ही जेहकहेसंदेसोजी जेहनंमिलवुंतेहस्युंदोहिलुं नेहते
आपकिलेसोजी २ सु० वीतरागस्युरेरागतेएकपखी
कीजेकवणप्रकारोजी घोडोदोडेरेसाहिबकाजमां मन
नाणेअसवारोजी ३ सु० साचिभगतिरेभावनरस
कह्यो रसहोयेंतिहांदोएरीझेजी होडाहोडेरेबेहुरसरीझ
थी मननामनोरथसीझेजी ४ सु० पणगुणवतारेगो
ठेगाजीए मोटातेविश्रामोजी वाचकजसकहेएहजआ
सरे सुखलहुठामोठामजी ५ सु० इति ॥

अथ श्रीसुपार्श्वजिनस्तवन ॥ लछलदेमातमलार ए
देशी ॥ श्रीसुपासजिनराज तुंत्रिभुवनसिरताज आ
जहोछाजेरेठकुराइप्रभुतुझपदतणीजी १ दिव्यध्व
नीसुरफूल चामरछत्रअमूल आजहोराजेरेभामंडल
गाजेदुंदुभिजी २ अतिसयसहजनाच्यार करमखप्या
थीइग्यार आजहोकीधारे ओगणीसेसुरगुणभासुरिं
जी ३ वाणीगुणपांत्रीस प्रातिहारजजगदीस आजहो
राजेरेदीवाजेछाजेआठसुंजी ४ सिहासनअसोक बे

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and illegible due to low contrast and blurring. It appears to be a list or series of entries, possibly containing names and dates, but the specific content cannot be discerned.

(३०) जसोविजयजीकृत.

विमलजिनस्तवन ॥ सेवोभवियांविमलजिणोसर दुल
हासजनसंगाजी एहवाप्रभुनुंदरसणलहेवुं तेअालस
मांगंगाजी १ अवसरपामीअालसकरस्ये तेमुरखमांप
हीलोजी भूरूयानेजिमघेवरदेतां हाथनमांडेगहिलोजी
२ भवअनंतमांदरसणदीठुं प्रभुएहवादेखाडेजी विक
टग्रंथजेपोलिपोलियो कम्मविवरउघाडेजी ३ तत्वप्री
तिकरीपाणिपाए विमलालोकेअांजिजी लोयणगुरुप
रमान्नादिएतव अमनाखेसविभाजिजी ४ अमभागोत
वप्रभुसुप्रेमै वातकरुमनखोलीजी सरलतणेजेहीयडे
आवे तेहजणावेबोलीजी ५ श्रीनयविजयविवूधपयसे
वकवाचकजसकहेसाचूजी कोडकपटजोकोएदेखावे तो
हीप्रभुविणनविराचूजी ६ इति ॥ अथ श्रीअनंत
तजिनस्तवन ॥ श्रीअनंतजिनसुंकरो साहेलडिया चो
लमजीठनोरंगरे गुणवेलडियां साचोरंगतेधर्मनो सा०
बीजोरंगपतंगरे गु० १ धरमरंगजीरणनहि सा० देह
तेजीरणथायरे गु० सोनुंतेविणसेनहि सा० घाटघडाम
णजायरे गु० २ त्रांबूजेरसवेधीउं सा० तेहोएजाबुहे
मरे गु० फरित्रांबुतेनविहोइं सा० एहवोजगगुरुप्रेम
रे गु० ३ उत्तमगुणअनुरागथी सा० लहिएउत्तमठाम
रे गु० उत्तमनिजमहिमावधे सा० दीपेउत्तमधामरे

गु० ४ उदकविंदुसायरभत्यो सा० जिमहोयअखय
 अभंगरे गु० वाचकजसकहेप्रभुगुणे सा० तिममुझ
 प्रेमप्रसंगरे गु० ५ इति ॥ अथ श्रीधर्मनाथजीनस्त
 वन ॥ बेडलेभारघणोछेराजवातोकेमकरोछोएदेशी ॥
 थासुंप्रेमवन्योछेराजनिरवहेस्योतोलेखे मॅरागीथेछो
 निरागी अणजुडतेहोएहासी एकपखोजेनेहनिरवही
 स्यो तेमांहिकीसीस्यावासी १ था० निरागीसेवेक्यांइं
 होवे इमंमनमेंनविआणुं फलेअचेतनपणाजिमसुरमणी
 तिमतुमभंगतिप्रमाणु २ था० चंदनशीतलताउपजावे
 अगनतेशीतमिटावे सेवकनांतिमदुखगमावे प्रभुगुण
 प्रेमस्वभावे ३ था० व्यसनउदघजेजलधीअणुहरे श
 सिनोतेजसबंधे अणुसबंधेकुमुदअणुंहरे शुद्धस्वभावप्र
 वंधे ४ था० देवअनेरातुमथीछोटा थेजगमांआधिकेरा
 जसकहेधर्मजिणेसरथासुं दलमान्याहेमेरा ५ था० इ
 ति ॥ अथ श्रीशांतिनाथजिनस्तवन ॥ घोडलियो
 मुंक्योसरोवारिचारीपाल एदेशी ॥ धनदिनवेलाघन
 वलीतेह अचिरारोनंदनजिनजदीभेटस्युंजी लहेस्युरे
 सुखदेखीमुखचंद विरहव्यथानादुखसचिमेटस्युंजी जा
 प्यारेजेणेतुजगुणलेश धीजारेरसतेहनेमननविगमेजी
 चारुयारेजेणेअमीलवलेश चाकसबुकसतसनरुचेकिमे

(३२)

जसोविजयजोक्तः

जी २ तुझसमकितरसस्वादनोजाण पापकुभत्तनेबहु
दिनसेवीउजी सेवेजोकरमनेयोगेतोहि वांछेतेसमकि
तअमृतधुरेलिख्युंजी ३ ताहरुंध्यानतेसमकितरुप ते
हजज्ञाननेचारित्रतेहछेजी तेहथीरेजाएसवलापाप ध्या
तारेध्येयस्वरुपहोयेंपछेजी ४ देखीरेअदभुतताहरुंरुप
अचरिजभाविकअरुपीपदवरेजी ताहरीगततुंजाणेदेव
समरणभजनतेवाचकजसकरेजी ५ ॥ इति ॥

अथ श्रीकुंधूनाथस्तवन ॥ साहेलांहेकुंधुजिणेसरदेव र
तनदीपकअतीदीपतोहोलाल साहेलांहे मुझमनमंदि
रमांहे आवेजोअरीबलजीपतोहोलाल १ सा० मिटेतो
मोहअंधार अनुभवतेजेजलहलेहोलाल सा० धुमक
खायनरेख चरणचित्रामणनविचलेहोलाल २ सा०
पात्रकरेनहिहेठ सूरजतेजेनविछपेहोलाल सा० सर्व
तेजनुंतेज पहेलांथीवाधेपछेहोलाल ३ सा० जेहनम
रुतनेगम्य चंचलताजेनविलहेहोलाल सा० जेहस
दाछेरम्य पुष्टगुणेनविकृसरहेहोलाल ४ सा० पुदगलते
लनखेप तेहनशुद्धदसादहेहोलाल सा० श्रीनयाविजय
सुसीस वाचकजसएणिपरेकहेहोलाल ५ सा० इति
अथ श्रीअरनाथस्तवन ॥ आसणरायोगी एदेशी ॥

श्रीअरजिनभवजलनोतारु मुझमनलागेवारुरे मनमो

हनस्वामी बाहेअहीएभविजनतारे. आणेशिवपुरआ
 रेरे म० १ तपजपमोहमहातोफाने. नावनचालेमाने
 रे म० पणनवीभयमुझहाथोहाथे तारेतेछेसाथेरे म०
 २ भगतनेस्वर्गस्वरगथीअधीकु ज्ञानीनेफलदेइरे म०
 कायाकष्टविनाफललहीए मनमांध्यानधरीयेरे म० ३
 जेउपायबहुविधनीरचना योगमायातेजाणोरे म० शु
 द्द्रव्यगुणपर्यायध्याने शिवदेप्रभुसपराणोरे म० ४
 प्रभुपायवलगातेरह्याताजा अलगाअंगनसाजारे म०
 वाचकजसकहेअवरनध्याउ एप्रभुनागुणगाउरे म०
 ५ ॥ इति ॥ अथ श्रीमल्लिनाथस्तवन ॥ नाभी
 रायकेवार एदेशी ॥ तुझमुझरिझनीरीझ अटपटएह
 खरीरी लटपटनावेकाम खटपटभांजपरीरी १ मल्ली
 नाथतुझरीझ जनरिझेंनहुंयेरी दोएरिझणनोउपाय सा
 हमुंकांडंनजुयेरी २ दुराराध्यछेलोक सहुनेसमनसरी
 री एकटुहवाएनाढ एकजोबोलेहसीरी ३ लोकलोको
 त्तरवात रिझवेदाइझूइरी तातचक्रधरपूज चिंताएहहु
 इरी ४ रिझववोएकसांडं लोकतेवातकरिरी श्रीनय
 विजयससीस एहजचीत्तधरीरी ५ ॥ इति ॥ अथ
 श्रीमुनिसुव्रतस्तवन ॥ पांडवपांचेवंदतां ॥ एदेशी ॥

मुनिसुव्रतजितवंदतां अतिउलसीततनमनथायरे वद

(३४) जसोविजयजीकृत.

नअनोपमनिरखतां माहाराभवभवतांदुखजायरे १
माहरा० जगतगुरुजागतोमुखकंदरे सुखकंदअमंद
आनंद ज० आंचली निसदिनसूताजागतां हीषडा
थीनरहेदूररे जबउपगारसंभारीये तवउपजेआणंदपू
ररे २ ज० प्रभुउपगारगुणभरचा मनअवगुणएकन
समायरे गुणगुणअनुबंधीहुआ तेतोअक्षयभावकहा
यरे ३ ज० अक्षयपददीयेप्रेमजे प्रभुतेअनुभवरु
परे अक्षरस्वरगोचरनहि एतोअकलअमात्रअरुपर
४ ज० अक्षरथोडागुणधणा सजनतातेनलखायरे वाच
कजसकहेप्रेमथी पणमनमांहेपरखायरे ५ ज० इति ॥

अथ श्रीनमिनाथस्तवन ॥ श्रीनमिजिननीसे
वाकरतां अलियविघनसविदुरेनासेजी अष्टमहासिध
नवनिधीलीला आवेबहुमहमूरपासेजी १ श्री० मय
मत्ताअंगणगजगाजे राजेतेजीतुपारचंगाजी बेटाबेटी
बंधवजोडी लहीयेबहुअधीकाररंगाजी २ श्री० बल्ल
भसंगमरंगलहजे अणवाहलाहोयेदूरसहजेजी वांछा
तणोविलंबनदूजो कारजसीझेभूरिसहजेजी ३ श्री०
चंद्रकिरणयसउज्वलऊलसे सूरयतूल्यप्रतापदीपेजी जे
प्रभुभगतकरेनितविनया तेअरीयाबहुतापजीपेजी ४

श्री० मंगलमालालछिविशाला बालाबहूलेप्रेमरंगेजी

श्रीनयविजयविबुधपयसेवक कहेलहीएसुखप्रमअंगे
 जी ५ श्री० इति ॥ अथ श्रीनेमिनाथस्तवन
 ॥ तोरणधीरथफेरीगयारेहां पसूअदिइदोस मेरेवा
 लिमा नवभवनेहनिवारीयारेहां स्योजोइआव्याजोस
 मे० चंद्रकलंकीजेहथीरेहां रामनेसीतावियोग मे० ते
 हकुरंगनेवयणडरेहां पतिआवेकुणलोक मे० २ उता
 रीहंचीतथीरेहां मुगतिधूतारीहेत मे० सिद्धअनंतेभी
 गवीरेहां तेहस्युंकवणसंकेत मे० ३ प्रीतकरंतांसोह
 लीरेहां निरवहतांजजाल मे० जेहवोव्यालखेलाववो
 रेहां जेहवीअगननीझाल मे० ४ जोविवाहअवसर
 दिउरेहां हाथउपरनविहाथ मे० दीक्षाअवसरदीजी
 यरेहां शिरउपरजगनाथ मे० ५ इमविलवतीराजुलग
 इरेहां नेमकनेत्रतलोध मे० वाचकयसकेहेप्रणमीयेरे
 हां एदंपतीदोइसिद्ध मे० ६ ॥ इति ॥ अथ
 श्री पार्श्वनाथ स्तवन ॥ रागमल्हार ॥ वामानंदन
 जिनवर मुनिवरमांडोरे के० सु० जिमसुरमांहिसो
 हे नरगतिपरयडोरे के० सु० जिमगिरिमांहेसुराबल
 नृगनांर नरिरे के० सु० जिमचंदनतरुमाहे सुभटमांही
 सुरअरीरे के० सु० १ नदीयांमांहिजिमगंग अनंग
 सरुपमारे के० अ० फूलमांहिअरविंद भरतपतीभूप

(३८) जसोविजयजीकृत.

णेतोजाण्युंफोकटवाधीरे सुगुणमैलावेजेहउछाहारे म
णुअजनमनोतेहजलाहारे २ सुगुणशिरोमणिसंभव
स्वामीरे नेहनिवाहधुरंधरपामीरे वाचकजसकहेमुज
दिनवलियोरे मनहमनोरथसघलोफलीयोरे ३ इति ॥

अथ श्रीअभिनंदनजिनस्तवन ॥ गोडीगाजेरे
एदेशी ॥ शेठसेवारेअभिनंदनदेव जेहनीसाररेसुर
किंनरसेव एहवोसाहिवसेवेतेहहजुर जेहनांप्रगटेरे
कीधांपुन्यपडुर १ से० जेहसुगुणसनेहीसाहिवहेज
दृगलीलार्थीलहियेंसुखसेज तृणसरखुंलागेसघलेसाच
तेआगलिआव्युंधरणीराज२से अलवेमंपाम्योतेहवो
नाथ तेहथीहूंनिश्रयहुओरेसनाथ वाचकजसकहेपामी
रंगरेलि मानुफालिय अंगणडेसुरतरुवेली ३ स. इति ॥

अथश्री सुमतिनाथजिनस्तवन ॥ घूघरिआलोघाटएदे
शीसुमतिनाथदातारकीजेओलगतुमतणीरे दीजेशिव
सुखसार जाणीओलगजगधणीरे अखयखजानोतुझ
देतांखोडिलागेनहिरे किसीविमासणगुज जाचकथाके
उभारहीरे २ रयणकोडतेदीध ऊरणविश्वतदाकीओरे
वाचकजससुप्रसिद्ध मागेतीनरतनदीओरे ३ इति ॥

अथ श्रीपदमप्रभुजिनस्तवन ॥ आजअधिकभावे

करी एदेशी ॥ पदमप्रभुजिनसांभलो करेसेवकएअरदा

सहो पांतिविसारिओजोतुम्हे तोसफलकरेयोआसहो
 १ प० आंकणी ॥ जिनसासनपांतितैठवी मुजआप्यु
 समकीतथालहो हवेभाणाखडिखडिकुणखमे शिवमो
 दकप्रीसेरसालहो २ प० गजघासनगलितसीथिकरी
 जीवेकीडीनावंशहो वाचकजसकहेइमचितधरी दी
 जेनिजसुखएकअंसहो ३ प० इति ॥
 अथ श्रीसुपासजिनरस्तवन ॥ एगुरुवाल्होरे ॥ एदेशी ॥
 श्रीसुपासजिनराजनोरे मुखदीठसुखहोइरे मानुसक
 लपदमेलहारो जोतानेहनजरिभरिजो १ एप्रभुप्यारो
 रे माहाराचितनोठारणहार मोहनगारोरे सिंचेविश्व
 सुधारसेरे चंदरह्योपणदूरीरे तिमप्रभुकरुणाद्रष्टिथीरे
 लहियेसुखमहमूर २ ए० वाचकजसकहेतिमकरोरे र
 हियेजेमहजुररे पीजेवाणीमीठडीरे जेहवोसरसखजूर
 ३ ए० इति ॥ अथ श्रीचंद्रप्रभुजिनस्तवन ॥
 भोलासंभु ॥ एदेशी ॥ मोरास्वामीचंद्रप्रभजिनराय वी
 नतडीअवधारीयेजीरेजी मोरास्वामीतुम्हेछोदीनदया
 ल भवजलथीमुजतारीये १ जी० मोरास्वामिहूं आव्योतु
 जपास तारकजाणीग्रहग्रही जी० मोरास्वामीजोतां
 जगमांदिठ तारककोबीजोनहि २ जी० मोरास्वामी
 अरजकरतांओजलाजवधेकहोकेणिपरि जी० मोरास्वा

(४०) जसोविजयजीकृत.

मीजसकहेगोपयतुल्ल भवजलतिकरुंणाधरी ३ जी. इति
॥ अथ श्रीसुविधिजिनस्तवन ॥ रागमल्हार ॥ जिमप्री
तिचंद्रचकोरने जिममोरनेमनिमेहरे अह्मनेतेतुह्मस्युं उ
ल्लस्येतिमनाहनवलोनेह १ सुविधिजिणेसरु सांभलोच
तुरसुजाण अतिअलवेसरु आंकणी. अणदीठेअलजोध
णोदीठेतेतृपतिनहोइरे मनतोहिसुखमानीलियें वाहला
तणुंमुखजोइ २ सु. जिमविरहकहियेंनविहुयें किजियेंते
हवोसंचरे करजोडीवाचकजसकहे भाजोतेभेदप्रपंच ३
सु० इति ॥ अथ श्रीशीतलनाथजिनस्तवन भो

लुडारेहंसा ॥ एदेशी ॥ शीतलजिनतुजमुजविचिआंत
रुं निश्चयथीनहिकोय दंसणनाणचरणगुणजीवने सह
नेपूरणहोयें १ अंतरयामीरेस्वामीसांभलो पणिमुज
मायारेभेदिभोलवे बाज्यदेखाडीरेवैस हियडेजूठीरेमुख
अतिमीठडी जेहवीधुरतवेस २ अं० एहनिस्वामी
रेमुजथीवेगली कीजेदीनदयाल वाचकजसकहेजिमतु
ह्मस्युंमिली लहियेंसुखसुविशाल ३ अं० इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ मुखनेमरकलडे ॥ एदे
शी ॥ श्रेयांसजिणेसरदाताजी साहिवसांभलो तुह्मेज
गमांअतिविरुयाताजी सा० माग्युंदेतांतेकिस्युंविमासो
जा सा० मुजमनमांएहतमासोजी १ सा० तुम्हदेतांस

विदेवाथेजी सा० तोअजरकरिस्युंथायेजी सा० यशपु
रणकेमलहिजेजी सा० जोअजरकरिनेदीजेजि २ सा.
जोअधिकुंघोतोदेज्योजि सा० सेवककारिचित्तधरेज्यो
जी सा० जसकहेतुम्हपदसेवाजी सा० तेमुजसुरतरु
फलमेवाजि सा० ३ इति ॥ अथ श्रीवासुपुज्य
जिनस्तवन ॥ विपयनगंजीये एदेशी ॥ वासुपुज्याजि
नवालहरि संनारोनिजदास साहिवस्युंहठनविहोयेरे
पणकीजिअरदासोरे १ चतुरविचारीये आं. सासपहिला
सांनरेरे मुखदीठसुखहोय वसिसास्थानवीवीसरेरे तेह
स्युंहठकिमहोयेरे २ च० आमणदुमणनविटलेरे खणवि
णपूरिरेआस सेवकजसकहेदीजीयेरे निजपदकमलना
वासोरे ३ च० इति ॥ अथ श्रीविमलनाथजिन
स्तवन ॥ ललनानीढाल ॥ विमलनाथमुजमनवसे जि
मसीताननरामललना पिकवंचेसहकारने पंथामिन
जिमधामललना १ वि० कुंजराचितरेवावसे दुमला
मनगोविंद ल० गौरीमनशंकरवसे कुमुदिनिमनजि
मचंद ल० २ वि० आलिमनिविकसितमालती कमल
णिचित्तदिणंद ल० वाचकजसनेवालहो तिमश्रीवि
मलजिणंद ल० ३ वि० इति ॥



अथश्री अनंतजिन स्तवन ॥ ढाल रायादानी ॥ श्री
 अनंतजिनसेवियेरेलाल मोहनवल्लीकंद मनमोहनां जे
 सेव्योशिवसुखदियेरेलाल टालिमवभयफंद १ म० श्री०
 मुखमटकेजगमोहिओरेलाल रुपरंगअत्तिचंग म० लो
 चनअतिअणीयालडारेलाल वांणीगंगतरंग म० श्री०
 २ गुणसघलाअंगेवस्यारेलाल दोपगयासविदुर म०
 वाचकजसकहेसुखलहूरेलाल देखीप्रभुमुखनुर म०
 श्री० ३ इति ॥ अथ श्री धरमनाथ स्तवन
 राग मल्हार ॥ धरमनाथतुझसरखो साहिवाशिरथकरे
 साहिवाशिरथकरे चोरजोरजेफोरवे मुझस्युइकमनेरेके
 मु० गजनेमीलीकाकरवी तुझनेनविघटरेके तु० जेतु
 झसनमुखजोउतां अरिनुंवलामिटेरेके अ० १ रविउगे
 गयणगणिं तिमिरतेनविरहेरेके ति० कामकुंभघरिआ
 वे दालिद्रकिमदहेरेके दा० वनिंविचरेजोसीहतो बी
 हनगजतणीरेके बी० कर्मकरेस्युंजोर प्रसन्नजोजगध
 णीरे प्र० २ सुगुणानिगुणनोअंतर प्रभुनविचितेधरेरे
 के प्र० निर्गुणपणिशरणागतजाणीहितकरेरेके जा० चं
 दत्यजेनविलंछनमृगआतिसामलोरेके मृ० जसकहेति
 मतुहजाणी मुझअरिबलदलोरेके मु० ॥ इति ॥

अथ श्रीशांतिनाथजिनस्तवन ॥ सुणिपसुआवाणीरे

(४२) जसोविजयजोक्त.

एहाल॥जगजनमनरंजरे मनमथवलभंजरे नविरागनदी
सतूअंजैचितस्थूरे १ शिरछत्रविराजेरे देवदुंदुभिवाजेरे
ठकुराइइमछाजेतोहिंअकिंचनारे २ थिरताधृतिसारीरे
वरीसमतानारीरे ब्रह्मचारीशिरोमणितोपणतुंसुण्यारे
३ नधरेभवरंगारे नविदोषासंगारे मृगलंछनचंगोतोप
णतूसहीरे ४ तुझगुणकुणआखेरे जगिकेवलिपाखेरे
सेवकजसभाखेत्रचिरासुतजयोरे ५ ॥ इति ॥

अथ श्रीकुंथुनाथजिनस्तवन ढाल वीछियानी ॥ सुख
दायकसाहिवसांभलो मुझनेतुमस्युंअतिरंगरे तुझेतो
नीरागीहुइरह्या एस्योएकंगोटंगरे सु० १ तुम्हचितमां
वसवुंमुजघणूं तेतोउवरफुलसमानरे मुजचितमांवसहो
जोतुम्है तोपाम्यानवैनिधानरे २ मु० श्रीकुंथुनाथअ
ह्ननिरवहुं इमएकंगोपणनेहरे इणिआकीदेफलपामस्युं
वलीहोस्येदुखनोछेहरे ३ मु० आराध्योकामितपूरवे
चिंतामणिपाषाणरे वाचकजसकहेमुजदिजिये इमजां
णीकोडिकल्याणरे ४ मु० ॥ इति ॥ अथ श्रीअ

रनाथजिनस्तवन ॥ प्रथमगोवालानीढाल ॥ अरजिन
दरिसनदीजियेजी भविककमलवनसुर मनतरसेमिल
वाघणुंजी तुम्हेतोजइरह्यादूर सोभागी तुम्हस्युंमुज

मननेह १ तुमस्युंमुजमननेहलोजी जिमवपइयांमेह

जसोविजयजीकृतः (४३)

सो० आवागमनपथिकतणुजी नहिशिवनगरनिवेश
 कागलकुणहाथिलिखूजी काणकहेसंदेह सो० २ जो
 सेवकसभारस्योजी अंतरयामीरेआप जसकहेतोमुजम
 नतणोजी टलसेसघलोसंताप सो० ३ ॥ इति ॥ अथ
 श्रीमल्लिनाथस्तवन ॥ ढालरसियानी ॥ मल्लिजिणेस
 रमुजनेतुहोमिल्या जेहमांहिंसुखकंदवाल्हेसर तेकलि
 युगअहोगिरुओलेखवुं नविबीजायुगवृंद वाल्हेसर १
 म० आरिसारोरेमुझपांचमोजिहांतुमदरिसणदीठ वा.
 मरुभूमिपणितिसुरतरुतणी मेरुथकीहुइइठ वा० २
 पंचमआरिरेतुहमेलावडे रूडोराख्योररंग वा० चोथो
 आरिरोफिरिआव्योगणू वाचकजसकहेचंग वा० ३ ॥
 इति ॥ अथ श्रीमुनिसुव्रतजीनस्तवन ॥ वीर
 माताप्रितिकरिणी एदेशी ॥ आजसफलादिनमुझतणो
 मुनिसुव्रतदीठा भागीतेभावठिभवतणी दिवसदुरित
 नानीठा १ आ० आंगणेकल्पवेलीफली घनअमिय
 नावुठा आपमाग्यातेपासाढल्या सुरसमकिततुठा २
 आ० नियातिहितदानसनमुखहुये स्वपुण्योदयसाथे
 जसकहेसाहिबेमुगतिनू करिउंतिलकनिजहाये ३
 आ० ॥ इति ॥ अथ श्रीनामिनाथस्तवन ॥ रुपम
 नोवंशरथ० एदेशी ॥ मुजमनपंकजभमरले श्रीनामिजि

(४४) जसोविजयजीकृत.

नजगदीसोरे ध्यानकरुनिततुम्हतणूं नामजपूनिसदि
सोर १ मु० चितथकीकहियेनवीसरे देखीयेआगलिंध्या
निरे अंतरतापथीजाणिये दूररह्याअनुमानिरे २
तुंगतितुंमतिआसिसे तुंहिजबंधवमोटारे वाचकजसक
हेतुझविना अवरप्रपंचतेखोटारे ३ मु० ॥ इति ॥
अथ श्रीनेमनाथस्तवन ॥ राजाजोमिले एदेशी ॥ क
हाकियोतुम्हेकहोमेरेसाइं फेरिचलेंरथतोरणआइ दि
लआनिअरे मेरानाहनत्यजियनेहकछुअजांनि १ दि०
अटपटाइंचलेधरिकछुरोस पसुअनकोशिरदेकरिदोस
दि० २ रंगबिचीभयोयाथिभंग सोतोसाचोजांनोकुरंग
दि० ३ प्रीतितनकामितोरतआज किउंनावेसनमेंतुम्ह
लाज दि० ४ तुम्हब्रह्मनायकजांनोनपीर विरहलागि
जिउवडंरीकोतीर दि० ५ हारठारसिंगारअंगार अस
नवसननसुहाइलगार दि० ६ तुझविनलागेसूनिसेज
नहीतनुंतेजनहारदहेज दि० ७ आआनिमंदिरविलसो
भोग वृढापनमेंलीजेयोग दि० ८ छोरुंगीमेनहितेरो
संग गइलिचलुजिउंछायाअंग दि० ९ येमविलवतिगइग
ढगिरनार देखेपीतमराजुलनार दि० १० कंतेदीनुकेव
लन्यान कीधाप्यारीआपसमान दि० ११ मुमतिमहल
मेखेलेदोइ प्रणमेंजसउलसितहोइ दि० १२ ॥ इति ॥

अथ श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवनः ॥ ढालफागनी ॥ चउक
सायपातालकलसजिहां तिसनापवनप्रचंड बहुविक
ल्पकलोकचढतुहे आरतिफेनउहंड १ भविसायरभीपण
ताशीइहो अहोमरेललनापासजि त्रिभुवननाथादिलमें
एविनतीधारीयेंहो आंकणी ॥ जरतउदीमकामवरवान
नल परतसीलगिरिश्रृंगी फिरतव्यसुनबहुमगरतिमिं
गिंल करतहेनिमगउमंग २ भ० भमरीयाकत्रीचिंभ
यंकर उलटीगुलटीवाच करतप्रमादपिशाचनसहित
जिहां अविरतिव्यंतरीनाच ३ भ० गिरजतअरतिफुरति
रतिविजुरी होतबहुततोफान लागतचोरकेगुरुमलबारी
धरमजिहाजनिदान ४ भ० जुरेमाटियेजिउंअतिजोरि
सहसअठारसीलग धर्मजिहाजतिउंसजकारिचलवो
जसकहेशिवपरिचंद्र ५ भ० गाइति ॥ अथ श्री
महावीरजिनस्तवन्त ॥ दुखटलियांसुखदीठेमुजसुखउप
नारे भेट्याभेट्याविरजिणंदरे हवेमुजमनमंदिरसांप्र
भुआवीवसरि पामुरपरमानंदरे दु० १ पीठबंधइहांकी
धोसमाकितवजनेरे काढचोरकचरेनेभ्रांतिरे इहांअ
तिउंचासाहेचारित्रचंद्रुआरे रूडीरसंवरभातिरे दु० २
कर्मविवरगोपिइहांमोतीझूवनरे झलइरधीगुणआठ
रे बारभावनापंचालीअचरयकरेरे कोरि२कोरणिका

(४८)

जसोविजयजीकृत.

महाविदेहखेत्रसोहामणुं एदेशी मातासेनाजेहनी तात
जीतारीउदारलालरे हेमवरणहयलंछनो सावथिशि
णगारलालरे १ संभवभवभयभंजणो आंकणी सहस
पुरुषसुंभ्रतलिये चपारसैधनुषतनुमानलालरे साठला
खपुरवधरें आउखूसुगुणनिधानलालरे २ सं० दोइ
लाखमुनिवरभला प्रभुजीनोपरिवारलालरे त्रणलाख
वरसंयती उपरछत्रीसहजारलालरे ३ सं० समेतशि
खरशिवपदलह्युं तिहांकरेमहोछवदेवलालरे दुरिता
रिसासनसुरी त्रिमुखयक्षकरेसेवलालरे सं० ४ तुं
मातातुंमूजपीता तूबंधवत्रिणुंकाललालरे श्रीनयवि
जयविवुधतणो सीसकहेदूखटाललालरे सं० ५ इति ॥
अथ श्रीअभिनंदनजिनस्तवन अभिनंदनचंदनसीत
लवचनविलास संवरसिद्धारथानंदनगुणमणिवास त्र
णसैधनुप्रभुतनुंउपरअधिकपंचास एकसहसस्युंदिक्षा
लियेछांडीभवपास १ कंचनवनसोहैवांनरलंछनस्त्रा
मि पंचासलाखपूरवत्रायुधरेशिवगामी वरनथरीअ
योध्याप्रभुजीनोअवतार समेतशिखरगिरिषाम्याभ
वनोपार २ त्रणलाखमुनाश्वरतपजपसंयमसार ख
टलक्षसत्रीससाध्वीनोपरिवार शासनसुरइश्वरसंघ
नांविघननिवारें कालीदुखटालीप्रभुसेवकनेतारें ३

जसोविजयजीकृतः (४९)

तूभवभयभंजनजनमनरंजनरूप मनमथगदगंजनं
जनरतिहितसरूप तूभवतेविरोचतगतसोचनजगदी
से तुझलोचनलीलालहिमुखनितदीसे ४ तुंदोलतदा
यकजगतायकजगबंधु जिनवानिसाञ्जीतितरियाभवसिं
धु तूमनिमनपंकजभमरअमरतरराय उभातुझसेवेंबुध
जनतुझजसगायें ५ ॥ इति ॥ अथ श्रीसुमति
नाथजिनस्तवन ॥ भोलीडारेहंसा एदेशी ॥ नयरीअ
योध्यारेमातामंगला मेघपिताजसधीर लंछनकौचकरे
पदसेवना सोवनवानशरीर १ मुझमनमोह्युरेसुमति
जिणेसरे नरुचेकोपरदेव खिणखिणसमरुरेगुणप्रभु
जीतणा एमुझलागीरेटेव २ मु० त्रिणसेधनुतनुआयु
धरेंप्रभु पूरवलाखच्यालीस एकसहसस्युंदिक्षाआदरी
विचरेश्रीजगदीस ३ मु० समेतशिखरगिरिशिवपदवी
लही त्रिणलाखवीसहजार मुनिवरपणलखप्रभुनीसं
यती त्रीससहसवलीसार ४ मु० शासनदेवीमहाका
लीभली सेवेंतुंबुरुयक्ष श्रीनयविजयबुधसेवकभणें
होयोमुझतुझपक्ष ५ मु० ॥ इति ॥ अथ श्रीप
द्मप्रभुजिनस्तवन ॥ ढालझांझरीआनी ॥ कोसंबीनय
रीभलीजी धरराजाजसतांत मातसुसमाजेहनीजी लं
छनकमलविरुयात १ पद्मप्रभुस्युंलाग्योमुझमनरंग

(५०) जसोविजयजीकृत.

आंकणी ॥ त्रीसलाखपूरवधरेंजी आउखुंनवरविवन्न ध
नुषअढीसेंउंचताजी मोहेजगजनमन्न २ प. एकसहस
स्युंन्रतलियेजी समेतशिखरशिवठाम त्रण्यलाखत्रीस
सहसभलाजी प्रभुनामुनिगुणधाम ३ प० शीलधारि
णीसंयतीजी च्यारलाखवीसहजार कुसुमयक्षत्रयामा
सुरीजी प्रभुसासनहितकार ४ प० एप्रभुकामितसुरत
रुजी भवजलतरणजिहाज कविजसविजयकहेइहांजी
सेवोएजीनराज ५ प० ॥ इति ॥ अथ

श्रीसुपासजिनस्तवन ॥ नंदनकुंत्रिसलाहुलरावे एदे
शी ॥ तातप्रतिष्ठनेपृथ्वीमाता नयरवाणारसीजायरे
स्वस्तिकलंछनकंचनवरणो परतक्षसुरतरुपायारे १ श्री
सुपासजिनसेवाकीजे एआंकणी ॥ एकसहसस्युंदिक्षा
लीधी बेसयधनुषप्रभुकायारे वीसलाखपूरवनूजीवित
समेतशिखरशिवपायारे २ श्री० त्रणलाखप्रभुनामुनि
गिरुआ च्यारलाखत्रिसहजाररे गुणमणिमंडीतशी
लअखंडित साध्वीनोपरिवाररे ३ श्री० सुरमातंगने
देवीशांता प्रभुसासनअधिकारीरे एप्रभुनीजेणेशेवा
कीधी तेणेनिजदुरगतिवारीरे ४ श्री० मंगलकम
लामंदीरसुंदर मोहनवल्लीकंदारे श्रीनयविजयाविबुध
पदसेवक कहेंएप्रभुचिरनंदारे ५ श्री० ॥ इति ॥

अथ श्रीचंद्रप्रभुजिनस्तवन ॥ वादलदहदिशीउनयो
सखि एदशी ॥ श्रीचंद्रप्रभुजिनराजीत्रो मुखसोहेंपु
निमचंद लंछनजसदीपेचंद्रनुं जगजननयनानंदरे प्र
भुटालेभवभयफंदरे केवलकमलाअरविंदरे एसाहिव
मैरेमनवरुयो १ महसेनपितामातालक्षमणा प्रभुचंद्रपुरी
शिणगार डोढसैघनुतनुंउच्चता शुचिवरणेशशीअनुका
ररे उतारेभवजलपाररे करेजननेवहुउपगाररे दुखदा
वानलजलधाररे ए. २ दसलाखपुरवआउधुं व्रतएकस
हसपरिवार समेतशिखरशिवपदलहुं ध्यायीशुभध्यान
उदाररे टालीपातिकविस्ताररे हूआजगजननाआधार
रे मुनिजनमनपिकसहकाररे ए. ३ मुनिलाखअठीप्रभुजी
तणा तेमसंयमगुणहनीधान त्रिणलाखवरसाहुणीवली
असीअसहसनुंमानरे कहेकविअणजसगुणगानरे जि
णेजीत्याक्रोधनेमानरे जेणेदीधुंवरसीदानरे वरपाजल
धरअनुमानरे ए० ४ सुरविजयनामभूकूटीसुरी प्रभु
सासनरखवाल कविजसविजयकहेसदा एप्रणमोप्रभु
त्रिहुकालरे जसपदप्रणमभुपालरे जसअष्टमीशाशिसम
भालरे जेटालेभवजंजालरे ए० ५ ॥ इति ॥ अथ
श्रीसुविधिजिनस्तवन ॥ भावनामालतीचुसीए एदेशी
सवधिजिनराजमुझमनरमो सविगमोभवतणोतापरे

(५२) जसोविजयजीकृत.

पापप्रभुध्यानथीउपशमो वीसमोचितशुभजापरे १
सु० रायसुग्रीवरामासुतो नयरीकाकंदीअवताररे म
छलंछनधरेआउखूं लाखदोइपूर्वनिरधाररे एकशतध
नुषतनुंउंचता व्रतलिअंसहसपरिवाररे समेतशिखर
शिवपदलहें फटीकसमकांतिविस्ताररे ३ सु. लाखदोइ
साधुप्रभुजीतणा लाखएकसहसवलीवीसरं साहुणचिर
णगुणधारिणी एहपरिवारजगदीसरे ४ सु. अजीतसुर
वरसुतारासुरी नितकरेप्रभुतणीसेवरे श्रीनयविजयबुध
सीसनें शरणएस्वामिनितमेवरे ५ सु० इति ॥

अथ श्रीसीतलजिनस्तवन ॥ कपूरहोइंअतिऊजलूरें
एदेशी ॥ शीतलजिनभद्विलपूरिरे दृढरथनंदाजात ने
उधनुषतनुंउंचताजी सोवनवानविस्थातरे जिनजी
तुझस्युंमुजमननेह १ जिमचातकनेमेहरे जिनजी० तुं
छेगुणमणिगेहरे जि० तुं० एआंचली श्रीवछलंछनसो
हतोजी आयुपुरवलखएक एकसहसस्युंव्रतलीयेंजी
आणीरदयविवेकरे जि० २ तु० समेतशिखरशुभध्या
नथीजि पास्यापरमानंद एकलखखटसाहुणीजी एक
लाखमुनिवृंदरे जि० ३ तु० सावधानब्रह्मासदाजी शा
मनविघनहरेइ देविअशोकाप्रभुतणीजी अहनिशिभग
तिकरेइरे जि० ४ तु० परमपुरुषपुरुपोतमोजी तूंनरसीह

नीरीह कविअणतुझजसगावतांजी पवित्रकरेनिजजी
हरे जि० ५ तु० ॥ इति ॥ अथ श्रीश्रेयांसजि
नस्तवन ॥ नयरीअयोध्याजयवतीरे एदेशी ॥ सींहपु
रीनयरीभलीरे विस्नुनृपतिजसतात माताविशुमहा
सतीरे लीजेनामप्रभातोरे १ जिनगुणगाइये श्रीश्रेयां
सजितेसरुरे कनकवरणशुचिकाय लाखचोराशीवरंस
नुरे पालेप्रभुनिजआयोरे २ जि० एकसहसस्युंव्रत
लीयेरे असियधनुषतनुमान खडगीलंछनशिवलहरे
समेतशिखरशुभध्यानरे ३ जि० सहसचोरासीमुनिव
रारे त्रणसहसलखएक प्रभुजनिविरसाहूणारे अदभु
तविनयविवेकरे ४ जि० सुरमनुजेश्वरमानवीरे सेवेप
यअरविंद श्रीनयविजयसुसीसनेरे एप्रभुसुरतरुकंदरे
५ जि० ॥ इति ॥ अथ श्रीवासपूज्यजिनस्तवन
रुपभनोवंसरयणायरु एदेशी ॥ श्रीवसुपूज्यनरेसरु
तातजयाजसमातारे लंछनमाहिखसोहामणो वरणेप्र
भुअतीरातारे १ गाईयेजिनगुणगहगही एआंकणी.
श्रीवासुपूज्यजिणेसरु चंपापूरीअवताररे वरसबोतेर
लखआउखुं सत्तरिधनुतनुंसाररे २ गा० खटशतसा
थेसंयमालिये चंपापूरिशिवगामरीरे सहसवहोतरप्रभुत
णा नमियेमुनिशिरनामीरे ३ गा० तपजपसंयमगुण

(५४) जसोविजयजीकृत.

भरी साहूणीलाखवखाणीरे यक्षकुमारसेवाकरे चंडा
देवीमांजाणीरे ४ गा० जनमनकामितसूरमणी भवद
वमेहसमानरे कवीजसविजयकहेसदा हृदयकमलधरो
ध्यानरे ५ गा० ॥ इति ॥ अथ श्रीविमलजि
नस्तवन ॥ सजनीविमलजिनेसरपूजीये लेइकेसरघो
लाघोल सजनी भगतिभावनाभाविये जिमहोइघरेरंग
रोल १ सजनी वीमल० एआंकणी ॥ स० कंपिलपूर
कृतवर्मनो नंदनश्यामाजात स० अंकवराहविराजतो
जेहनाशुचिअवदात स० २ वि० स० साठधनुषतनुउं
च्चता वरपसाठलाखआय स० एकसहसस्युंत्रतालिये
कंचनवरणीकाय स० वि० ३ स० समेतशिखरशिव
पदलह्युं मुनीअठसठहजार स० एकलाखप्रभु
साहूणी वलीअठसतनिरधार स० वि० ४ स०
षणमुखदिताप्रभुतणे शासनधरअधीकार स० श्री
नयविजयविबुधतणा सेवकनेजयकार स० वि०
५ ॥ इति ॥ अथ श्रीअनंतनाथजिनस्तोत्र ईडर
आंवाआंवलीरे एदेशी ॥ नयरीअयोध्याउपनारे सिं
हसेनकुलचंद्र सींचाणोलंछनभलोरे सुयसामातानोनंद
भविकजिनसेवोदेवअनंत १ वरसत्रीसलखआउखुरे
उचाधनुषपंचास कनकवरणतनुसोहतारे पूरेजगजन

आस भ० २ एकसहसस्युंत्रतग्रहीरे समेतशिखर
 निरवाण छासठसहसमुनिश्वरुरे प्रभुनाश्रुतगुणजाण
 भ० ३ वासठसहससुसाहूणीरे प्रभुजीनोपरिवार
 शासनदेवीअंकुशीरे सुरपांतालउदार भ० ४ जाणे
 मननिजद्रासनूरे तूजिनजगहितकार बुधजसप्रेमेंवि
 नवेरे दीजेमुजदीदार भ० ५ ॥ इति ॥ अथ श्रीधर्म
 नाथजीनस्तोत्र ॥ रतनपुरीनयरीहूउरेलाल लंछनवज्र
 उदारमेरेप्यारेरे भानुनृपतिकुलकेसररीरेलाल सुव्रता
 मातमल्हार १ मेरेप्यारेरे धर्मजिनेसरध्याइधेरेलाल
 एअंकाणी आयुवरसदसलाखनूरेलाल धनुपणयाल
 प्रसिद्ध मे० कंचनवरणविराजतोरैलाल सहससाथेव्र
 तलीध मे० ध० २ सिद्धिकामिनीकरग्रहेरेलाल समेतशि
 खरअतिरंग मे० सहसचोसठसोहामणारेलाल प्रभु
 नासाधुअभंग मे० ध० ३ वासठसहससुसाहूणीरेलाल
 वलीउपरिसंतच्यार मे० कंदरपाशासनसुरीरेलाल कि
 तरसुरसुविचार मे० ध० ४ लटकालेतुजलोअणेरेला
 ल मोह्याजगजनचित मे० श्रीनयविजयविवुधतणो
 रेलाल सेवकसमरेनित मे० ध० ५ ॥ इति ॥
 अथश्रीशांतिनाथस्तवन ॥ त्रिभुवनतारणतीरथ एदे
 शां ॥ गजपुरनयरविभूषणदूषणटालतारे केदूषण०

(५६) जसोविजयजीकृत.

विश्वसेननरनाहनोकुलत्रजूत्रालतारे केंकु० अचिरा
नंदनवंदनकीजेनेहस्युरे केकि० शांतिनाथमुखपूनिम
शशिपरिउल्लस्युरे केश० १ कंचनवरणीकायामायाप
रिंहरेरे केमा० लाखवरसनूत्राउखुमृगलंछनधरेरे के
मृ० एकसहेसस्युं व्रतग्रहेंपातिकवनदहेंरे केपा० स
मेताशिखरशुभध्यानथीशिवपदवीलहेंरे केशि० २ च्या
लीसधनुतनुराजेंभाजेभयघणारे केभा० वासठिसह
समुनीसरविलसेंप्रभुतणारे केवि० एकसठसहसछसें
वलीअधिकीसाहूणारे केत्र० प्रभुपरिवारनीसंख्या
एसाचीमुणीरे केए० ३ गुरुडयक्षनिरवांणीप्रभुसेवा
करेंरे केप्र० तेजनबहुसुखपावसेंजेप्रभुचित्तधरेरे के
जे० मदझरतागजगाजेंतसवरिंआंगणरे केत०
तसजगहिमकरसमजसकविअणभणारे केज० ४ दे
वगुणाकरचाकरहूंछूंताहरोरे केहूं० नेहनजरभारिमुज
रोमानोमाहरोरे केमा० तिहुअणभासनशासनचितकरु
णाकरोरे केचि० कविजसविजयपयंपें मुजभवदुखह
रोरे केमु० ५ ॥ इति ॥ अथश्री कुंधुनाथ स्त
वन ढाल मरकलडानी ॥ गजपुरनयरीसोहियेंजी साहि
वगुणानिलो श्रीकुंधुनाथमुखमोहियेंजी सा० सूरनृप
तिकुलचंदोजी सा० श्रीनंदनभावेवंदोजी सा० १

अजलंछनवंछितपूरेजी सा० प्रभुसमारिओसंकटचूर
 जी सा० पात्रीसधनुषतनुमानेजी सा० व्रतएकसह
 सअनुमानेजी सा० २ आयुवरससहसपंचाणुजी सा०
 तनुसोवनेवानवखाणुजी सा० समेतशिखरशिवपाया
 जी सा० साठसहसमुनीश्वररायाजी सा० ३ खटशत
 वलीसाठहजारजी सा० प्रभुसाध्वीनोपरिवारजी सा०
 गंधर्वबलाअधीकारीजी सा० प्रभुसासनसानीधिकारी
 जी सा० ४ सुखदायकमुखनेमटकेजी सा० लाखेणेलो
 अणलटकेजी सा० बुधश्रीनयविजयमुणिंदोजी सा०
 सेवकनेदिओआणंदोजी सा० ५ इति ॥

अथ श्रीअरनाथजिनस्तोत्र ॥ समरथारिसाददिइरेदे
 व ॥ एदेशी ॥ अरजिनगजपुरवरशिणगार तातसू
 दर्शनदेविमल्हार साहिवसेविये मेरोमनकोप्यारोसे
 वीये त्रीसधनुषप्रभुउंचीकाय ० वरससहसचोराशीआ
 य सा० १ नंदावर्तविराजेअंक टालेप्रभुभवर्नाआ
 तंक सा० एकसहसस्युंसंघमलीध कनकवरणतनुज
 गतप्रसिद्ध सा० २ समेतशिखरगिरिसवलउछाह
 सिधिवधुनोकरेरेवीवाह सा० प्रभुनामुनिपंचासहजा
 र साठसहससाध्वीपरिवार सा० ३ यक्षइंद्रप्रभुसेवा
 कार धारिणीशासननीकरेसार सा० रविउगैनासेजिम

(५८) जसोविजयजोकृत.

चोर तिमप्रभुनाध्यानेकरमकठोर सा. ४ तूसुरतरुचिंता
मणिसार तुंप्रभुभगतिमुगतिदातार सा० बुधजसविन
यकरेअरदास दीठेपरमानंदविलास सा० ५ ॥ इति ॥
अथ श्रीमल्लिनाथजिनस्तोत्र ॥ प्रथमगोवालात
णेभवेजी एदेशी ॥ मीथिलानयरीअवतरचोजी कुंभ
नृपतिकुलभाण राणीप्रभावतिउरधरचोजी पंचवीस
धनुषप्रमाण भविकजिन. १ वंदोमल्लिजिणंद जिमहोये
परमआनंद भविकजिनवंदोमल्लिजिणंद आंकणी लंछ
नकलसविशजतोजी नीलवरणतनुंकांति संयमलीयेश
तत्रणस्युंजी भाजेभवनीआंति भ. २ वं. वरसपंचावनस
हसनूंजी पालीयेपूरणआय समेतशिखरशिवपदलडुं
जी सुरकिंनरगुणगाय भ० ३ वं० सहसपंचावन
साहूणीजी मुनिच्यालिसहजार वैरोट्यासेवाकरेजी
यक्षकुबेरउदार भ० ४ वं० सुरतिमोहनवेलडीजी
मोहेजगजनजाण श्रीनयविजयसुशीसनेजी दियेंप्रभु
कोडिकल्याण भ० ५ वं० इति ॥ अथ श्रीमुनि
सुव्रतस्तोत्र ढालरसीयानीदेशी ॥ पद्मादेवीनंदनगुण
निलो रायसुमित्रकुलचंद कृपानिधि नयरीराजग्रीप्रभु
जीअवतयो प्रणमैंसुरनरचंद क० मुनिसुव्रतजिनभा
वेवंदीये आंकणी कछपलंछनसाहिबसामलो वीसधनुष

जसोविजयजीकृत. (५९)

तनुमान कृ० त्रीससहससंवच्छरआडखूं बहुगुणरयण
निधानं कृ० २ मु० एकसहसस्युंप्रभुजीव्रतग्रहि स
मेतशिखरलहिसिद्धि कृ० सहसपंचासविराजेसाहू
णी त्रीससहसमुनिप्रसिद्धि कृ० ३ मु० नरदताप्रभुशा
सनदेवता वरुणयक्षकरेसेव कृ० जेप्रभुभगतिराताते
हना विघनहरेनितमेव कृ० ४ मु० भावठभंजनजनम
नरंजनो मुरतिमोहनगार कृ० कविजसविजयपयंपेभ
वभवे एमुजएकआधार कृ० ५ मु० इति ॥

अथ श्रीनमिस्तोत्रं काजसीधांसकलहवेसार एदेशी ॥
मिथिलापुरविजयनरेंद्र वप्रासुतनमिजिनचंद्र नीलुप्प
ललंछनराजें प्रभुसेव्योभावठभाजे १ धनुपपन्नरउं
चसुरीर सोवनवनसाहसधीर एकसहसस्युंलियेनिर
माघ व्रतवरससहसदसआय २ समेतशिखरआरोहि
पुहताशिवपुरनिरमोही मुनिविससहसशभनाणी प्रभु
नाउतमगुणखाणी ३ वलीसाध्वीनोपरीवार एकता
लीससहसउदार सुरभ्रकुटिदेवीगंधारी प्रभुशासनसा
निधकारी ४ तुझकीरतिजगमांव्यापी तपतपेप्रवलप्र
तापी बुधश्रीनयविजयसुमीस येमदियेनितनितआसी
स ५ ॥ इति ॥ अथ नेमीस्तोत्र ॥ ढालफाग

नी ॥ समुद्रविजयशिवादेवी नंदननेमिकुमार सुरीय

(५८) जसोविजयजीकृत.

चोर तिमप्रभुनाध्यानैकरमकठोर सा. ४ तूसुरतरुचिंता
मणिसार तुंप्रभुभगतिमुगतिदातार सा. बुधजसविन
यकरेअरदास दीठैपरमानंदविलास सा. ५ ॥ इति ॥
अथ श्रीमल्लिनाथजिनस्तोत्र ॥ प्रथमगोवालात
णेभवेजी एदेशी ॥ मीथिलानयरीअवतरचोजी कुंभ
नृपतिकुलभाण राणीप्रभावतिउरधरचोजी पंचवीस
धनुषप्रमाण भविकजिन. १ वंदोमल्लिजिणंद जिमहोयें
परमआनंद भविकजिनवंदोमल्लिजिणंद आंकणी लंछ
नकलसविशजतोजी नीलवरणतनुंकांति संयमलीयेंश
तत्रणस्युंजी भाजैभवनीआंति भ. २ वं. वरसपंचावनस
हसनूंजी पालीयेंपूरणआय समेतशिखरशिवपदलडुं
जी सुरकिंनरगुणगाय भ. ३ वं. सहसपंचावन
साहूणीजी मुनिच्यालिसहजार वैरोट्यासेवाकरेंजी
यक्षकुत्रेरउदार भ. ४ वं. मुरतिमोहनवेलडीजी
मोहेंजगजनजाण श्रीनयविजयसुशीसनेजी दियेंप्रभु
कोडिकल्याण भ. ५ वं. इति ॥ अथ श्रीमुनि
सुव्रतस्तोत्र ढालरसीयानीदेशी ॥ पद्मादेवीनंदनगुण
निलो रायसुमित्रकुलचंद कृपानिधि नयरीराजश्रीप्रभु
जीअवतयो प्रणमैसुरनरचंद कृ. मुनिसुव्रतजिनभा
वेवंदीयें आंकणी कछपलंछनसाहिबसामलो वीसधनुष

जसोविजयजीकृत. (५९)

तनुमान कृ० त्रीससहस्रसंवच्छरआउखूं बहुगुणरयण
निधांन कृ० २ मु० एकसहस्रस्युं प्रभुजीव्रतग्रहि स
मेतसिखरलहिसिद्धि कृ० सहस्रपंचासविराजिसाहू
णी त्रीससहस्रमुनिप्रसिद्धि कृ० ३ मु० नरदत्ताप्रभुशा
सनदेवता वरुणयक्षकरेसेव कृ० जेप्रभुभगतिराताते
हना विघनहरेनितमेव कृ० ४ मु० भावठभंजनजनम
नरंजनो मुरतिमोहनगार कृ० कविजसविजयपयंपेभ
वभवे एमुजएकआधार कृ० ५ मु० इति ॥

अथ श्रीनमिस्तोत्रं काजसीधांसकलहवेसार एदेशी ॥
मिथिलापुरविजयनरेंद वप्रासुतनमिजिनचंद नीलुप्प
ललंछनराजें प्रभुसेव्योभावठभाजे १ धनुपपन्नरउं
चसुरीर सोवनवनसाहसधीर एकसहस्रस्युंलियेंनिर
माय व्रतवरससहस्रदसआय २ समेतशिखरआरोहि
पुहताशिवपुरनिरमोही मुनिविससहस्रशुभनाणी प्रभु
नाउतमगुणखाणी ३ वलीसाध्वीनोपरीवार एकता
लीससहस्रउदार सुरभ्रकुटिदेवीगंधारी प्रभुशासनसा
निधकारी ४ तुझकीरतिजगमांव्यापी तपतपेप्रवलप्र
तापी बुधश्रीनयविजयसुसीस येमदियेंनितनितआसी
स ५ ॥ इति ॥ अथ नेमीस्तोत्र ॥ ढालफाग

नी ॥ समुद्रविजयशिवादेवी नंदननेमिकुमार सुरीय

(६०) जसोविजयजीकृतः

पूरदशधनुषनु लंछनशंखसफार एकदिनरमतोत्रा
व्यो अतुलीवलअरीहंत जिहांहरीआयुधशाला पुरेशं
खमहंत १ हरीभयभरितिहांआवे पेखेनेमिजिणंद स
रिखेंश्रमबलपरखें तिहांजीतेजिनचंद आजराजएहर
स्यें करस्येंअपयसभुरि हरीमनजाणीआणी तवथइग
गनेअदूरि २ अणपरणेंव्रतलेस्ये देस्येंजगसुखएह ह
रीमतवीहेईहे प्रभस्युंधर्मसनेह हरीसनकारीनारि तव
जनमज्जनजंति मान्युंमान्युंपरणवुं इमसविनारिकहंति
३ गुणमणिपेटीखेटी उग्रसेननृपपास तवहरीजाचेंमा
चें माथेप्रेमविलास तूरदिवाजेगार्जे छाजेचामरकंति ह
वेप्रभुआव्यापरणवा नवनवाउछवहुंति ४ गोखेचढी
मुखदेखे राजिमतिभरप्रेम रागअमीरसवरपें हरखेंपे
खीनेम मनजाणेएटाणे जोमुझपरणेएह संभारेतोरंभा
सबलअचंभातेह ५ पसुअपुकारसुणीकरी इणिअवस
रेजिनराय तसदूखटालीवाली रथव्रतलेवाजाय तव
बालादूखझाला परवशिकरेंरेविलाप कहियेंजोहवेहुंछं
डी तोदेस्योव्रतआप ६ सहसपुरुषस्युंसंयम लियेंसाम
लतनुंकंति ज्ञानलहीव्रतआपें राजिमतिसुभसंति वरस
सहेसआउखं पालीगढगिरिनार परण्यापूर्वमहोछव भ
वछांडीशिवनार ७ सहसअठारमुनीसर प्रभुजीनागुण

वंत च्यालीससहससुसाहूणी पामोभवनोअंतत्रिभुवन
 अंवाअंवादेवीसुरगोमेधं प्रभुसेवामानिरताकरतापा
 पनिपेध ८ अमलकमलदललोचन शोचनरहितनिरी
 ह सीहिमदनगजभेदवा एजिनअकलअवीह श्रृं
 गारीगुणधारी ब्रह्मचारीशिरलीह कविजसविजय
 निपुणगुण गावेतुझानिसदीह ९ ॥ इति ॥
 अथ श्रीपार्श्वनाथजिनस्तोत्र ॥ नयरीवाणारसीअव
 तरचोहो अश्वसेनकुलचंद्रवामानंदनगुणनिलोहो पास
 जोशिचतरुकंद १ परमेसरगुणनितुगाईयेहो आंकणी
 फणिलछननवकरतनुजिनजी सजलयनाघनवन्न संय
 मलियेशततीनस्युहो सविकहेजुंधनधन्न २ प० वर
 सएकशतआउखूहो सिद्धीसमेतगिरीस सोलसहस
 मुनिप्रभुतणाहो साहूणीसहसअडतीस ३ प० धरण
 राजपदमावतीहो प्रभुशासनरखवाल रोगशोगसंकट
 टलेहो नामजपतजपमाल ४ प० पासआसपुरण
 अवमरी अरजएकअवधार श्रीनयविजयविवुध
 पदसेवी जसकहेभवजलतार ५ प० इति ॥
 अथ श्रीमाहावीर जिन स्तवन ॥ राग धन्यासी ॥
 आजजिनराजमुझकाजसीधांसवे तुंकृपाकुंभजोमुजतू
 ठो कल्पतरुकामघटकामधेनुमिल्यो अंगणेअमियर

(६२) विनयविजयजीकृत.

समेहवूठो १ आंकणी वीरतूंकुंडपुरनयरभुषणहुत्रो
रायासिद्धार्थात्रिसलातनूजो सीहलंछनकनकवर्णकरस
प्ततनु तुझसमोजगत्रमांकोनदूजो २ आ० सीहपरे
एकलोधीरसंयमग्रहें आयुवोहोत्तरवरसपूर्णपाली पु
रीआपायैनिःपापशिववहुवरचो तिहांथकीपर्वप्रगटी
दीवाली ३ आ० सहसतुझचउदमुनिवरमहासंयमी
साहुणीसहसछत्रीसराजें यक्षमातंगसिद्धायिकावरसु
री सकलतुझभविकनीभोतिभांजे ४ आ० तुझवचन
रागसुखसागरेझिलतो पीलतोमोहमिथ्यातवेली आ
वीत्रोभावित्रोधरमपथहुंहवें दीजीयेंपरमपदहोइवेली
५ आ० सीहनिसिदीहजाहृदयागिरिमुझरमें तूसुगु
णलीहअविचलनिरीहो तोकुमतरंगमातंगनायूथथी
मुझनहीकोइलवलेशबीहो ६ आ० चरणतुझशरणमें
चरणगुणनिधिग्रह्या भवतरणकरणदमसरमदाखो हा
थजोडीकहेंजसविजयबुधइस्युं देवनिजभुवनमांदास
राखो ७ आ० इति श्री जसविजयजीकृत चौउद
बोलनी चोवीसी संपूर्ण ॥

अथ श्रीविनयविजयजी कृत चोवीसी.

अथ श्रीरुपभदेवभास १ ॥ छबीलेलालन एदेशी ॥ से

विनयविजयजीकृत. (६३)

त्रुजासिरसेहर दुखहरआदिजिणंद सोभागीसुंदर म
रुदेवीनोनंदन सुखसुरतरुनोकंद रमोमनमंदिर १ स
कलकलाजिणेसीखवी वर्ताव्योविवहार सो० युगलाध
र्मनिवारीओ देखाड्योआचार सो० २ नमिविनमि
निवाजीया कीधाविद्यावंत सो० बाहुबलीप्रतिबुझव्यो
तुमोटोभगवंत सो० २ सेवाकरतांस्वामीनी लहीयेंमुग
तिनिवास सो० कीर्तिविजयउवझायनो विनयकरेंअ
रदास सो० ४ ॥ इति ॥ अथ श्रीरुपभदेवजि
नस्तवन २ ॥ कायापुर एदेशी ॥ विमलगिरिविमल
तासमरीयें कमलदलनयनजगदीसरे त्रिभुवनदिप
कदीपतो जिहांजयोश्रीयुगादीसरे पापनातापसविउ
पसमें प्रहसमेसमरंतांनामरे पूजतांपायश्रीरुपभना सं
पजेवंछितकामरे २ वि० रिद्धिराणिमघणीघरमिलें पय
तलेंकनकनीकोडिरे नाभिनरनाथसुतसमरणे इमभ
णेविनयकरजोडिरे ३ वि० ॥ इति ॥ अथ श्री
अजितजिनभास ॥ रागमारुणी ॥ साधुशिरोमणि
सहगुरुवंदीयेंरे एदेशी ॥ विजयसमोपेंसुतविजयात
णारे हरखघणोजसनाम अजितजिनेसरभुवनदिणेसरू
रे गुणमंडलअभिरमि १ वि० गजपतिलंछनगजग
तिचालतोरें गजवरपतिसमरथ सोहमहरुहमूलउमे

(६४) विनयविजयजीकृत.

लवारे वडहयवाहेहथ २ वि० मनमंदिरमांआवा
मुझरमारे विनयकहेमोरानाथ रातदिवसहुंतुमसेवाक
रुरे नहीछंडुतुमसाथ ३ वि० इति ॥ अथ श्री
संभवनाथस्तवन ॥ रागसिंधुआो ॥ सेनानंदननंदन
वनजिस्यारे संभवसुखदातारतारिनरे सरणेआव्योहुं
समरथभणीरे म्हारीदुरगतिदूरेनिवारवारिनरे १
से० सोवनचंपकवानेसोहामणारे सरससलूणोदेहजेह
नरे नेहथयोमुझचरणेभेटवा केवलकमलागेहएहनर
२ से० हयवरलंछनकुंअरजितारीनारे कामितसुरवरवे
लिवेलिनरे विनयकरेकरजोडीवीनतीरे भवसायरनी
रेलिठेलिनरे ३ से० इति ॥ अथ
श्रीअभिनंदनभास रागआसाउरी ॥ आजआ
णंदभयोतपगछमां एदेशी ॥ संवरनंदनश्रीअभिनंदन
चंदनशीतलवाणीरे केसरअगरकपुरेपुजो भावभगति
मनआणीरे १ सं० द्वेषनिवारोरागमधारी एछेदुखनी
खाणीरे वीतरागनाचरणआराहो पारलहोजिमप्राणी
रे २ सं० सिद्धारथाकुंअरनीसेवा मुगतिहेतइमजाणी
रे तनमतवचनविमलकरिवंदो विनयवदेइमवाणीरे
सं ३ इति ॥ अथ श्रीसुमतिनाथभास ॥ गिरु

आगुणवीरजी एदेशी ॥ वंदुजिनवरपांचमोजी विरति

विनयविजयजीकृतः (६५)

वधूभरतार मुगतिपथदेखाडवाजी जिणेलीधोअवता
 र पूजारेभविजनसुमतिसुमतिदातार १ धनधनमाता
 मंगलाजी जससुतजगआधार करुणासायरसुंदरुंजी
 घरमलताजलधार २ पू० मेघमहिपतिकुलतिलोजी
 मुखजितपूनिमचंद सरणहयोमुझताहरुंजी विनयभणे
 आणंद ३ पू० इति ॥ अथ श्रीपद्मप्रभुभास ॥

रागमल्हार ॥ पद्मप्रभनीसेवाकरतां लहीयेंसुखनीको
 डीरेलाल पुत्रकलत्रपरिवारविराजें अवहडबंधवजोडि
 रेलाल १ प० रोगवियोगसयलभयनासे अंगेनआ
 वेखोडिरेलाल मातसुसीमानंदननमतां संपदाआवेदो
 डिरेलाल २ प० सुणरेप्राणीहितूइवाणी कर्मतणा
 मदमोडिरेलाल विनयकहेधरभूधरकुंअर सेवोबेक
 रजोडिरेलाल ३ प० ॥ इति ॥ ॥ अथ

श्री सुपासस्वामी भास ॥ ढालपनानी ॥ जीरेम्हारे
 समरुस्वामिसुपास पृथ्वीमाताउरेघरचारेजीरेजी जीरे
 म्हारे पइठनरेसरकुलतिलो मुगतिवधूयेसइंवर्यो जी
 रेजी १ जी० सोभागीसुखसागरु गुणमणिनोआवा
 सडारे जीरेजी जी० सुरनरकिन्नरसुंदरी हरपेगायेंरा
 सडारे जीरेजी २ जी० दरिसणप्रभुनंदेखतां नयणां

अमियेंअंजियेंरेजीरेजी जी० कीर्तिविजयवाचकतणा

(६६) विनयविजयजीकृत.

विनयतणुमनरंजीयेरेजीरेजी ३ इति ॥ ॥ अथ

श्री सुपासस्वामीभास॥ मेघमनिचिंतवे एदेशी॥ समर
थसामीसातमारे स्वस्तिकलंछणपाय यइठनरेसरकुल
तिलोरे पृथवीधनधनमायोरे १ देवसुपासजीनामेली
लविलासोरे पुण्यप्रकासजी आंकणी परमेसरपग
लांठवे कंचणकमलेंसार इतिसकलनासेतिहां जिहांप्र
भुकरेएविहारोरे २ दे० इंद्रध्वजअतिलहलहे जोअण
सहसतसमान तसवायेंमानुंदुखपरां नासैंजिमसूकांपा
नोरे ३ दे० कीर्तिविजयउवझायनो विनयविजयगुण
गाय भवेभवेभगतितुम्हारडी हिअडेअधिकीसुहा
यरे ४ दे० ॥ इति ॥ अथश्री चंद्रप्रभुभास ॥

चालोसखीरेप्रभुनेपूजवारे चंद्रप्रभजिनरायमोरालाल
रे चंदतणीपरिनिरमलीरे चंदसुकोमलकायमोरालाल
रे १ वदनपूनमनोचांदलोरे चांदोलंछणपायमोरालाल
रे चंदतणीपरेमहमहेरे सासउसाससुहायमोरालालरे
२ चंदचकोरतणीपरेरे वंध्याचलजिमनाग मो० विन
यकहेतिममुजहयोरे भवेभवेतुझस्युराग मो० इति ॥

अथश्रीसुविधिजिन भास ॥ सुविधिजिननाथनामथी
ए परघलमंगलमालतो भावेपूजाकरुंए केसरचंदन
मृगमदेए तिलककीजेप्रभुभालतो १ भा० मालंब

विनयविजयजीकृत. (६७)

हुवर्णनाफूलनीए सोहिएउजलेंअंगतो भा० रजतगि
रिसिखरउपरयथाए सुरपतिधनुषनोरंगतो भा० २
पुष्यदंताभिधजिनवरुए सुग्रीवरायकुलचंदतो भा०
विनयकरतांप्रभुथीलहुंए परमपदपरमआनंदतो भा०

३ इति ॥ अथश्रीशीतलनाथभास ॥ आव्यो
मासवसंत एदेशी ॥ शीतलसरोवरतीलकनीरनदीत
णुरे शीतलसारकपुरनुंपूरसोहामणुरे शीतलसज्जनमन
केवननंदनवणुरे शीतलकदंमलकदंबकेसज्जनपेखणुरे
१ शीतलजननीहेतजकेतेजमयंकनुरे शीतलअगेविले
पनचंदनपंकनुंए शीतलजलधरछांहकेवांहवालिमनीए
शीतलसरसउदारकेवाडीरंभनीरे २ एहथीशीतलसं
तकेशीतलदेवनारे चरणकमलस्युंप्रीतिकेभावेसेवना
रे पापतणासंतापकेंजेहथीउपसमेरे विनयविजय
करजोडिकेंप्रभुचरणेनमेरे ३ ॥ इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसभास ॥ वंदुजिनश्रेयांस हंसतणीपरि
मुनिजनमनकमलेंरमेंए १ मुझमनतरुअरछांह सा
मीअनुसरो जनमसफलमहारोकरोए २ विश्वुनरेसर
वंसधजातणीपरे जेणेकीधोजगेगाजतोए ३ निसु
णिवयणमुजतात हुंभमीयोघणुं भवसायरनापुरमांए

४ हवेनिजपासेराखो दाखोसुभमति विनयकरेइम

(६८) विनयविजयजीकृत.

विनतीए ५ ॥ इति ॥ अथ श्रीवासुपूज्यजिन
भास ॥ परवपजूसणआवीयारे एदेशी ॥ श्रीविसुपूज्य
नरेसरुरे नंदजयाजसमाय श्रीवासुपूजनेपूजतरि मंदि
ररिद्धीभराय १ भविकजनपुजोएजिनराय जिमभव
जलधितराय भ० मुगतिनोएहउपाय भ० आंचली
सोहेसोवनसिंहासनैरे कुंकुमवरणीकाय जिमकंचणगि
रिउपरैरे नूतनभाणसुहाय २ भ० लंछणमिसिमिन
तिकरैरे महिषीसुतजसपाय लोकेंहुंसंतापीओरे छुटंतु
म्हपसाय ३ भ० मनरंजेएरातडोरे एतो जुगतोन्याय
पणजेउज्वलमनकरैरे तेतोअचरिजथाय ४ भ० बारउघा
डेंमुगतिनारै बारसमोजिनराय कीर्त्तिविजयउवझायनो
रै विनयविजयगुणगाय ५ भ० इति ॥ अथ श्रीविमलना
थभास बहिनीजेहनेजेहस्युरंग एदेशी ॥ रमलकरेमनमं
दिरेरे विमलकमलमुखदेव विमलजनमकरवाभणीरे सु
रनरसारैसेवरे १ सुरिजनसेवोविमलजिणंद भवसंकट
रयणीदिणंद जनलोचनसारदचंदरे सु० आंचली विमल
चरणनखसोहीयैरे अरुणवरणजिमचोल मानुदसदि
सिनारीनारै रयणअरिसाओलरै २ सु० विमलचर
णनखदरपणेरे जेजोयैनिजरूप मंगलमालातसामिलेरे
मंदिररीद्धिअनूपरे ३ सु० विमलवचनरसवरसतोरै

विनयविजयजीकृत। (६९)

विमलनयणअदभूत दीपाविकुलआपणुरे श्रीकृतवरमा
 पूतरे ४ सु० शामाराणीएजनमीयारे कंचणवीमलस
 रीर विनयवसेंतुमपाउलरे जिमसहकारेकोररे ५ सु०
 ॥ इति ॥ अथ श्रीअनंतनाथभास ॥ रूपभजी
 अमकुंताररे एदेशी ॥ गुणअनंतअरिहंतनारे जिनप
 तितेजअनंत सुखअनंतसहजेदीयरे सेवतांभगवंतअ
 नंतजीआवाअधिकउछाह मुजमनमंदिरमांहि अ०
 आ० १ मुखअनंतजोमुजहोयरे मुखेमुखेजीभअन
 त गुणअनंतनाबोलतारे तोहेनआवेअंत अ० आ०
 २ नाणअनंतमुजदीआरे दरिसणरिद्धिअनंत विनय
 भणेतुम्हथीहयारे मुजनैपुण्यअनंत अ० आ० ३ ॥
 इति ॥ अथ श्रीधरमनाथभास ॥ ढालधुआरि
 ना ॥ धर्मनाथनेसेवतारे होयधर्मअपार धर्मथकीसुख
 पामीयरे एहछेवातैनिरधार १ सखिआवाजिनवरपू
 जीयरे सखिकेसरचंदनल्याव सखिफूलनामूलकरावि
 येहो सखि० आंकणी पन्नरमोजिनपूजवारे सुरनर
 किन्नरकोडि आवैगावेप्रभुतणीरे कीरतिवेकरजोडि २
 सखी० धनधनमातासुत्रतारे जेणिजायोएपूतसोभागी
 सुखदायकारे दोलतअतिअदभूत ३ सं० भानुराय
 कुलपुष्कररे मेरोप्रभुभानत्तमान प्रथमदानवरसीदी

(७०) विनयविजयजीकृत.

उरे हवेदीयेंसमकितदान ४ स० कीरतिविजयउ
वज्ञायनारे विनयनमेतुम्हपाय बोधबीजदेयोस
दारे मागेछेंएहपसाय ५ स० ॥ इति ॥

अथशांतीनाथभास॥ रुषभनोवंसरयणायरो एदेशी॥
शांतिजिनेसरसोलमो पांचमोचक्रवर्तिजाणारे चोसठ
सहसवधूधणी प्रणमोखटखंडराणारे १शां०घोरविघन
घनसंहरे जिमपरचंद्रसमीररे दूखदावानलओल्हवें
जिमनवजलधरनीररे २ शां० कीर्तिविजयउवज्ञायनो
विनयवदेंइमवाणीरे शांतिजिनेसरसेवना अविहडपु
प्यनीखाणीरे ३ शां० ॥ इति ॥ अथश्रीकुंथु

जिनभास ॥ उत्तरदखिणहुंतिहरणलि एदेशी कुंथुजि
नेसरवंदीए सखिसत्तरमोदेवरे सखिदेवनीसेवकरोम
नरंगसूए १ पुररायसुतसुंदरु श्रीराणीनोनंदरे साखि
नंदनेचंद्रजिरुयुंमुखसोभीयेंए नवेनिधिचउदरयणतणी
जेणेसंपदाछांडीरे सखिछांडिनेमांडीप्रीतिविरतीस
मीए २ नामजपतांजिनतणुं सखिपातकजायेंरे स
खिजायेंनेथायेंवंच्छीतमनतणुंए ३ कीर्तिविजयउवज्ञा
यनो सखिसेवकबोलेरे सखिबोलेंनेनहीकोतोलेप्रभु
तणेए ४॥इति ॥ अथश्री अरनाथभास ॥ भावनामा

लतीचुसीए एदेशी॥अरतणागुणघणासमरतां नरहुयें

विनयविजयजीकृतः (७१)

निरमलगातरे दिनकरकिरणनासंगथी जिमहुयेंविम
लप्रभातरे १ अ० करमनुंपंजरजाजरु जिमकरचुंतेजग
नाथरे तिमअम्हभवबंधछेदवा कानवाहोप्रभुहाथरे २
अ० प्रभुनिवारोअम्हआपदा जिमनिवारचाघनघा
तीरे जिमतुम्हेकेवलपामीयुं तेअन्ननेकहोभातिरे ३
अ० कर्मनाकाठीयाअम्हनडे तेहनेस्वामीतुंवाररे का
मिनिनदिअनररोलवे तेहथीनाथअम्हताररे ४ अ०
कीर्तिविजयउवझायनो विनवेसीसएकबोलरे देविरा
णीतणापुतंतु वाराशिवपुरतणुंखोलरे ५ अ० इति
अथ श्रीमल्लीजिनभास ॥ म्हारागुरजीतुम्हस्युंधरम
सनेह एदेशी ॥ मल्लितणागुणगायवाजी उलटअंगे
थाय उल्कंठाधिकीहुयेंजी हड्डुंहरखेभरायसुणिजी
खिणमनआणोठाम समरोप्रभुनुंनाम सु० जिमसीझे
तुमकाम १ सु० कुंभरायकुलदीपिकारे दीपावीस्त्री
जात सुरनरपतिसेवाकरेरे मोटीअचरिजवात २ सु०
करीसोवननीपूतलीरे मांहिमुकावीयोआहार पूरव
मित्रसमझावीयारे तेदेखाडिविकारं ३ सु० तिमअम्ह
नेंप्रतिबोधवाजी मांडोकोइउपाय विनयकहेप्रभुतिम
करोजी जिमअम्हमोहपलाय ४ सु० इति ॥

अप श्रीमुनिसुव्रतजिनभास ॥ मारगेवहेउताबलो

एदेशी ॥ मनमधुकरसुणवातडी तजिअवरसवाद जि
नगुणकुसुमसवादथी टलेंसविविखवाद १ मन० वि
षयधंतूरोमुकिये तेमांहिनथीगंध नारीविजयापरिहरे
ममथाइशअंध २ म० सोलकषायएकेरडा तेथीरहजे
दूर तेकंटकछेवांपडा तुन्हेकरसेंचूर ३ म० विसमोपणत
पकेवडो आदरिगुणजाण जेपरिणामेरुअडो तेहनीम
करसिकाण ४ म० मुनिसुव्रतपदपंकजे जोतुपूरेवास
विनयभणेतोताहरी पोहोंचेसघलीआस ५ म० इति ॥

अथ श्रीनमिनाथभास ॥ तेतरीयोभाइतेतरी
यो एदेशी ॥ श्रीनमिनाथनेचरणेनमतां मनगमतांसु
खलहीयेरे भवजंगलमांभमतांरहीए कर्मनिकाचितद
हीएरे १ श्री० समकितशिवपुरमांहिपोहोचाडे स
मकितधरमआधाररे श्रीजिनवरनीपूजाकरीये एसम
कितनुसाररे २ श्री० जेसमकितथीहोयेउपराठा तेसु
खजायेनाठारे जेकहेजिनपूजानहीकीजे तेहनुंनामन
लीजेरे ३ श्री० वप्राराणीनोसुतपूजा जिमसंसारेन
धूजारे भवजलतारककष्टनिवारक नहीकोइएहवोदू
जारे ४ श्री० श्रीकिर्तिविजयउवझायनोसेवक विनय
कहेप्रभुसेवारे त्रणतत्वमनमांहिअवधारी वंदोअरि
हंतदेवारे ५ श्री० इति ॥ अथ श्रीनेमनाथभास

विनयविजयजीकृत. (७३)

सः ॥ रागरामगिरी ॥ रायकहेराणाप्रितेसुणोकांम्य
नी एदेशी ॥ महेरकरोमनमोहन दुखवारणजी आ
वोआणागेह चितठारणजी रोसनकीजैराजीया दु०
आणोहइडेनेह चि० १ कालजसकेहांणीरह
से दु० जगविस्तरसेवात चि० कोइमुझनेनरतकिह
से दु० कोइवलीतुम्हनेकुभात चि० २ पहिलीवातवि
मासीये दु० तोनहोयउपहास चि० जोहोयेघरआ
पवा दु० तोहिजदीजेआस चि० ३ विणतरुअरवनवे
लीनि दु० कुणराखेनिजछांहि चि० कंतविनातेमना
रिने दु० कुणअवलंबेवांही चि० ४ नेहनथीमुझका
रमो दु० निश्रेजाणोनाथ चि० देहतणीजिमछांह
डी दु० तहीछांडुतिमसाय चि० ५ दुखीयानादुख
टालवा दु० स्युंस्युंनकरेसंत चि० तोमुजआपउत्तमथ
इ दु० कांउवेखकंत चि० ६ इमकहतीराजीमती दु०
पोहतीगढगिरनार चि० विनयकहेजइमुगतिमां दु०
भेटयोनिजभरतार चि० ७ ॥ इति ॥ अथश्री
नेमनाथस्तवन ॥ रागरामगिरी छांनोरेछपीनेकंताकि
हांरहारे एदेशी रहोरेरहोरथफेरवारे आवोआवोआ
णेआवासरे जोरेहतुंइमजायवुंरे कांइतोकरावीएवडी
आसरे १ रा० आंकणी प्रीसिनेभोजनथालनताणीयेरे

सीचीनेनखणीएमूलरे खंधेचढावीभुंइंननांखीयेंरे धो
इनेनभरीएधूलरे २ र० चिगटविणतलवुंकिस्युरे आ
दिविनाकिसाछेहरे परण्याविणवैधवकिस्युरे रोसकि
स्योविणनेहरे ३ र० पाणीविणपरवालढीरे कहोकेणी
परेवीधायरे भीनाविणकहोलुगडारे तापेंकिमदेवायरे
४ र० आछिविनालाछानहीरे जुओनीविचारीआपरे
प्रेमसुधाविणचाखवेरे स्योकरोएवडोसंतापरे ५ र०
दीठेंभूखनभाजीयेंरे लूखांनहोयेंलाडरे आवीगयेनप
लेंप्रीतडीरे सींच्याविणजिमझाडरे ६ र० एहवेंराजु
लबोलडरे जसनचल्युंमनरेखरे विनयभणेप्रभुनेम
जीरे नारीनेदैनियवेषरे ७ र० ॥ इति ॥

अथ श्रीनेमनाथस्तवन ॥ सामलीयानेमजी पातली
यानेमजी सोभागानेमजी रंगीलानेमजी नेमहियेरे
विमासो कांडपडरेवरांसो जबकेस्युंनासो मुजपडरेत
रासो १ सा० पा० सो० रं० आंकणी नेमहुंतोरीदासी
जुत्रोवातविमासी इमजातांहोनासी जगेथासेहोहांसी
२ सा० एकवारपधारो वीनतीअवधारो मुजमामवधा
रो पछेवेहलासिधारो ३ सा० शिवनारिधूतारी साधार
णतारी मुजकीधीशुवारी नेमिलीधोउदारी ४ सा०

कहतीइमवाणी राजुलऊजाणी भेटयोनेमनाणी पहो

विनयविजयजीकृतः (७५)

तांनिरवाणी ५ कीर्तिविजयउवझाया लहीतासपसा
या नेमजीगुणगाया विनयसुखपाया ६ सा० इति ॥

अथ श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवन ॥ सुणोमेरीस
जनीरजनीनजावेरे एदेशी ॥ पासजिणेसरपूजोवहोनिरे
जगमांकीरतिसवलीजेहतीरे केसरचंदनअगरकपूरेरे
पूजतांसविआसापूरेरे मेहथकिजिमजायेखेहरे १ पा०
त्रेवीसमोसविकष्टनिवाररे संकटथीसेवकनेताररे नाम
जिणंदतणुंमनधाररे तेपोतानीमामवधाररे २ पा० स
वलसोभागीगुणभंडाररे वामानंदनजगआधाररे मुग
तिपंथदेखाडणहाररे मुगतिरमणिकंठेवरहाररे ३ पा०
सुरनरनायकसेवंपायरे भावसहितप्रभुनागुणगायेरे
विनयकरीसेवकमनध्यायरे मागेसमाकितरयणपसाय
रे ४ पा० इति ॥ अथ श्रीपार्श्वनाथजि

नस्तवन ॥ पूजरेपुजुंपासचिंतामणी एदेशी ॥ आ
सपूरेसदापासपरमेसरुं दासपरिजाससुरसेवसारं भी
मभवसागरुघोरभयआगरु वाहणपरेलोकनाथोकता
रे १ आ० मातवामासती पुतहुलरावती नव
नवांहालरंगीतगावे रुपअदभूतनिजपूतनुंदेखतां आ
नंदउलटअंगआवे २ आ० पाससुरदेविप्रदसावतीगु
णवती भगतजनवंछितसर्वआपे कीर्तिविजयउवझाया

(७६) मोहनविजयजीकृत.

नोसेवक विनयनिजचितप्रभुपासथापे ३ आ० इति ॥

अथ श्रीमहावीरस्वामीस्तवन भोलिडारेहंसा
एदेशी ॥ सिद्धारथनारेनंदनविनवुं वीनतडीअवधार
भवमंडपमारेनाटकनाचीओ हवेमुजदानदेवार १ सि०
त्रणरतनमुझआपोतातजी जिमनावेरेसंताप दानदेयं
तारेवलिकोसरकिसी आपोपदवीरेआप २ सि० चर
णअंगूठडेमेरुकंपाविआो सुरनुंमोडचुंरेमान कर्मतणा
तेरेझगडाजितिया दीधुंवरसीरेदान ३ सि० सासन
नायकसवेसुखदायक त्रिसलाकुखेरतन सिद्धारथनारे
वंसदिपाविआो साहिवतुंधनधन ४ सि० वाचकसेख
रकीर्तिविजयगुरु पामीतासपसाय धर्मतणेरसेजिन
चौवीसना विनयविजयगुणगाय ५ सि० ॥ इति श्री
विनयविजयकृत चौवीसी संपूर्ण ॥

अथ श्रीमोहनविजयकृतचौवीसी

अथ श्रीरिषभदेवनुंस्तवन ॥ प्रभुजीआोलभडेमतस्वी
जो आंकणी बालपणेआपणससनेहि रमतानव२वेसे
आजतुमोपास्याप्रभुताइ अमेतोसंसारनविसेहो १ प्र०
जोतुमध्यातांशिवसुखलहीये तोतुमनेकेइध्याये पणभव
स्थितीपरीपाकथयाविण कोइनमूगतिजायेहो २ प्र०

मोहनविजयजीकृतः (७७)

सिद्धनिवासलहेभविसिद्धि तेहमांस्योपाडतुमारो तोड
 पगारतुमारोवहिए अभव्यसिद्धनेतारोहो ३ प्र० नां
 णरथणपामीएकंते थइवेठामेवासि तेमांहेलोएकअं
 सजोआपो तेवातेस्यावासीहो ४ प्र० अक्षयपददेतां
 भविजनने संकीर्णतानविथाय शिवपददेवाजोसमरथ
 छो तोजसलेतांस्युंजायहो ५ प्र० सेवागुणरंज्योभवि
 जनने जोतुमेकरोवडभागी तोतुमेस्वामीकेमकहावो नी
 रममनेनिरांगीहो ६ प्र० नाभिनंदनजनवंदनप्यारो
 जगगुरुजगजयकारी रुपविवूधनोमोहनपभणे वृपभ
 लंछनवलहारीहो ७ प्र० ॥ इति ॥ अथ श्रीरी
 पभदेवस्तवन ॥ आजहजारीढोलोप्राहुणो एदेशी ॥
 प्रथमतिर्थंकरसेवना साहिवाउदीतहृदयससनेह जिणं
 दमोराहे प्रीतपुरातनसांभरे साहिवारोमांचितशुचि
 देह जि० १ अगमअलोकिकसाहिवा साहिवाकागं
 लपणनलखाय जि० अंतरगतनीजेवातडी साहिवा
 जणरनेनकहाय जि० २ कोडिटकानीहोचाकरी सा
 हिवाप्रापतिविणनलहाय जि० मनडोजीमलवानेउम
 ह्यो साहिवाकिमकरीमेलोथाय जि० ३ साहिवाहुर
 थकापणसाजणा साहिवासांभरेनवरंगरीत जि० पुरवपु
 न्येपामीये साहिवापरमपुरुपस्युंप्रीत जि० ४ मतमत

(७८) मोहनविजयजीकृत.

नयनयकल्पना साहिवाइतरइतरपरिमाण जि० रूप
अगोचरनविलहे साहिवाविवादएमहित्राण जि० ५
समदमशुद्धस्वभावमां साहिवाप्रभुतुमरूपअखंड जि०
भगतिवदितसंलीनता साहिवाएथीप्रगटप्रचंड जि० क
रुणारससंजोगथी साहिवादिठोनवलदिदार जि० रूप
विवूधकविराजनो साहिवामोहनजयजयकार जि० ७ इ
ति ॥ अथ श्रीअजितनाथजिनस्तवन ॥ कांबलरोपाणी
लागणो एदेशी ओलगअजितजिणंदनी माहरेमनमानी
मालतिमधुकरनिपरे बनीप्रीतअछानी १ वारीहुंजीत
सत्रुसुततणा मुखडानेमटके एआंकणी अवरकोइजा
चूनही विणसामीसुरंगा चातुकजिमजलधरविना न
विसेवेगंगा २ वा० एगुणप्रभुकिमविसरे सुणीअन्य
प्रसंसा छीलरकीणविधरतिधरे मानसरनाहंसा ३ वा०
शिवएकचंदकलाथकी लहीईश्वरताइ अनंतकलाघरमे
धरयो मुजअधिकपुन्याई ४ वा० तुंधनतुंमनतनतुंही स
सनेहास्वामी मोहनकहेकवीरुपनो जिनअंतरजामी ५
वा० इति अथश्रीअजितजिनस्तवन मोतिडानीदेशी ॥
अजितअजितजिनअंतरजामि अरजकरुंछुं प्रभुसिरना
मि साहिवाससनेहीसुगुणजी वातडीकहुंकेही १ आपण

बालपणानास्वदेशी तोहवेकिमथाओछोवीदेशी सा०

मोहनविजयजिकृतः (७९)

पुन्य अधिकतुमेहु आजिणंदा आदिअनादिअमेतोबंदा
 सा० २ ताहरेआजमणाछेस्यानी तुंहिजलिलावं
 ततुंजानी सा० तुझविणअन्यनेकांनथीध्याता तोजोतुं
 छेलोकविरूपाता सा० ३ एकनेआदरएकनेअनादर
 इमकिमघटेतुझनेकरुणाकर सा० दक्षणवामनयनवि
 हूसरखी कुणओछीकुणअधिकीपरखी सा० ४ स्वा
 स्यतामुझथीनराखोस्वामी सीसेवकमाराखोछोखामी
 सा० जेनलहेसनमानस्वामिनो तोतेहनेकहेसहूकोका
 मीनो सा० ५ रुपातितजोमुझथीथास्यो ध्यासुरुपक
 रीकिहांजास्यो सा० जडपरीमाणुंअरुपीकहीयें गहत
 संजोगेस्युरुपीनथायें सा० ६ धनजोओलगेकिमपि
 नदेवे जोदिनमाणिकनकाचलसेवे सा० एहवुंजाणीतुझ
 नेसेवुं ताहरेहाथछेफलनुदेवुं सा० ७ तुझपयपंकजमु
 झमनवलगुं जायेकिहांछंडीनेअलगुं सा० मधुकरमय
 गलयद्यपीराचे पणसुनेमुखेलालतविमाचे सा० ८ तारु
 कवीरुदकहावाछोमोटा तोमुझथीकिमथास्योखोटा सा०
 रुपविबुधनोमोहनभाखे अनुभवरसआणंदसुंचाखे सा०
 ९ इति॥ अथ श्रीसंभवजिनस्तवन॥ आघाआमिपधारो
 एदेशी॥ समकितदातासमकीतआपो मनमांगेधइमीठु
 छतिवस्तुदेतास्युंसोचो मीठुजेसहुएदीठु १ प्याराप्राण

(८०) मोहनविजयजीकृतः

थकिछोराज संभवजिनजीमुझने आंकणी. इममतजा
णोजेआपेलहीए तेलाधूंशुंलेवुं पणपरमारथप्रीछीआ
पे तेहजकहीयेंदेवुं प्या० २ अर्थीहुंतुंअर्थसमर्थक इम
मतकरज्योहासुं प्रगटहतुंतुजनेपणपहिलां एहासानुं
पासुं प्या० ३ परमपुरुषतुमेप्रथमभजिने पाम्याइम
प्रभुताइ तेणेरुपेतुमनेएभजीयें तिणेतुमहाथवडाइ
प्या० ४ तुमेस्वामीहुंसेवाकामी मुजरेस्वामीनिवाजे
नहितोहठमांडीमांभंतां किणविधसेवकलाजे प्या० ५
जोतेजोतिभिलेमनप्रीछो कुणलहसेकुणभजसे साची
भक्तितेहंसतणीपरे खीरनीरनयकरसे प्या० ६ ओल
गकिधिजेलेखेआवी चरणभेटप्रभुदीधी रुपविबुधनो
मोहनपभणे रसनापावनकीधी प्या० ७ ॥ इति ॥

अथ श्रीअभिनंदनजिनस्तवन आछेलालनीदेशी ॥

अकलकलाअविरुद्ध ध्यानधरेप्रतिबूध आछेलालअ
भिनंदनजिनचंदनाजी रोमांचितथइदेह प्रगटचोपुरण
नेह आ० चंद्रयुंवनअरवदनाजी १ एकोखीणमनरंगपर
मपुरुषनेसंग आ० प्राप्तिहोविसोपामीयेंजी सुगुणसलु
णीगोठ जिमसाकरभरीपोठ आ० विणदामेविवसाइयें
जी२स्वामीगुणमणीतुज निवसोमनडेमुज आ० पणक

हिंयेंखटकेनहीजी जिमरजनयणेविलग निरझरेनिरवं

मोहनविजयजीकृतः (८१)

ग आ. पणप्रतीवंबरहेसंसहीजी ३ मेंजाच्याकेइलक्ष ता
रकभोलेप्रतक्ष आ. पणकोसाचनाव्योवगेजी मुझबहुमी
त्रिदेख प्रभुकांमुकोउवेख आ० आतुरजनबहूओलगेजी
४ जगजोताजगनाथ जिमतिमआव्योछोहाथ आ० पण
हवेरखेकुमयाकरोजी बीजास्वारथीदेव तुपरमारथहे
व आ० पांम्योहवेहुंपटंतरोजी ५ तेंतारच्याकेइकोड
तोमुजथीशीहोड आ० मेंएवडोस्योअलेहणोजी मु
जअरदासअनंत भवतीछेभगवंत आ० जाणनेसुंकहे
वोधणुंजी ६ सेवाफलद्योआज भोलवोकांमाहराज
आ० भुखनभागेभांमणेजी रुपविवुधसुपसाय मोहन
एजिनराय आ० भुरव्योउमाहेघणोजी ७ इति ॥
अथश्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ वारीहुंउदयापुरतणे ए
देशी ॥ प्रभुजीसूबांधीप्रीतडी एतोजीवनजगदाधार
सनेही साचोतेसाहेबसांभरे खीणमांहेकोटिकवार स
नेही १ वारीहुंसुमतिजिणंदने प्रभुथोडावालोनेनिपू
णघणो एतोकाजअनंतकरनार स० आलगजेहनीजे
वडी फलतेहवोतसदेनार स० २ वा० प्रभुअतिधीरोली
जेभरयो जिमसिंच्योसुकृतमाल स० एकणकरुणानी
लेहेरमां सुनिवाजेकरेनिहाल स० ३ वा० प्रभुभव
स्थीतपाकेभक्तने कोइकहेकिनरेपसाय स० रतुविना

(८२) मोहनविजयजीकृत.

कहोकीमतरुवरे फलपाकीनेसुंदरथाय स० ४ वा. अति
भूर्योपणसुंकरे कांडबिहुंहाथेनजमाय स० दासतणी
उतावले प्रभूकिणविधरीइयोजाय स० ५ वा० प्रभुल
खीतहोयेंतोलाभीयें मनमान्यानोमाहाराज स० फ
लतोसेवाथीसंपजे वीणखयणनभाजेखाज स० ६ वा०
प्रभूविसारचानविविसरो साहमुंअधिकहोवेछेनेह स०
मोहनकहेकवीरुपनो मुजवालोछेजिनवरएह स० ७
वा० इति ॥ अथश्रीपद्मप्रभजिनस्तवन ॥ ढो

लामारुघडीएककरहोझीकारहो एदेशी ॥ परमरसभी
नोमाहरो नीपुणनगीनोमाहरो साहेवोप्रभूमोरापदमप्र
भुप्राणाधारहो ज्योतीरमाआलिंघीने प्र. अछकछकयो
दिनरातहो अोलगपणनविसांभले प्र. तोसिदरसण
वातहो १ प० नी० सा० निरभयपदपाम्यापछे प्र.
जाणीयेंनहोवितेहहो तोनेहजाणेआगले प्र. अलगाते
नीसनेहहो २ प० प्र. पदलेहतातोलह्योविभू प्र. प
णनिज२द्रव्यकहायहो अमेसुद्रव्यसुगुणघणुं प्र. स
हितोतिणसरमायहो ३ प० प्र. तिहांरह्याकरुणानय
णथी प्र. जोतांशुंओछुंथायहो जिहांतिहांजिनलाव
प्यता प्र. देहलीदीपकन्यायहो ४ प० प्र. जोप्रभुता

अमेपामता प्र. केहवूनपडेतोएमहो जोदेशीतोजा

मोहनविजयजीकृत. (८३)

पुत्रमे प्र० दरिसणदलीद्रताकेमहो ५ प० प्र० हा
 थेतोनाविसक्यो प्र० नकरोकोइतोविश्वासहो पणभो
 लवीयेजोभक्तिथी प्र० कहेज्योतोस्याबासहो ६ प०
 प्र० कमललंछनकीधीमया प्र० गुनहकरीवगसिसहो
 रुपविवूधनामोहनभणी प्र० पुरजोसकलजगीसहो
 प० ७ प्र० ॥ इति ॥ अथ श्री

सुपासजिनस्तवन ॥ शीणामारुजीनीकरहलडी
 एदेशी ॥ वाल्हामेहबपीयडाअहिकुलनेमृगकुलने
 तिमवलित्तादेवाह्योहोराज मधुकरनेनवमल्लिका तिम
 मुजनेघणीवाहली सातमाजिननीसेवाहोराज १ अ
 न्यउधिकसुरछेघणा पणमुजमनडुंतेहथी नावेएकणरा
 मेहोराज राच्योहुंरुपातितथी कारणमनमान्यातुं स्थुं
 कांडआपोहाथेहोराज २ मुलनीभक्तेरीजसे नाहितोअ
 वरनीरीते क्यारेपणनवीखीजेहोराज ओलगडीमोंधी
 थस्येकंवलहोवेभारी जिमजिमजलथीभीजेहोराज ३ म
 नथीनीवाजसनहिकरे जोकरग्रहिनेलीजे आवसेतेलेखे
 होराज मोटानेकेहवुंकिस्थुं पगदोडिअनुचरनी अंतर
 जामदेखेहोराज ४ एहथीस्थुंअधीकोयछे आवीमन
 डेवसीओ साहामोसुगुणसनेहीहोराज जेवस्थहोस्थे
 आपणे तेहनेमाग्युंदेता अजररहेकहोकेहीहोराज ५

(८४) मोहनविजयजीकृत.

अतिपरचेविरच्चेनही नीतनीतनवलोनवलो प्रभुजीमु
जथीभासेहोराज एप्रभुताएनिपुणता परमपुरुषजेजेह
वी किहांथीकोइपासेहोराज ६ भीनोपरममहारसे मा
हरोनाथनगीनो तेहनेतेकुणनिंद्येहोराज समकीतदृढता
कारणे रुपविवूधनोमोहन स्वामीसुपासनेवंदेहोराज ७
इति॥ अथ श्रीचंद्रप्रभजिनस्तवन॥ नंदसलुणानंदनारे
लो ॥ एदेशी ॥ श्रीसंकरचंद्रप्रभुरेलो तुंध्याताजगनो
विभुरेलो तिणेहूंआलगेआविआरेलो तुंमेपणमुजनेम
याकरिरेलो १ दिधीचरणनीचाकरीरेलो हुंसेवुंहरषेक
रिरेलो साहिवसाहमुंनिहालज्योरेलो भवसमुद्रथीता
रज्योरेलो २ अगणितगुणगणवातणीरेलो मुजमनहों
सधरेघणीरेलो जिमनभनेपाम्यापखीरेलो दाखेबाल
ककरथीलखीरेलो ३ जोजिनतुंछेपांसरोरेलो करमत
णोस्योआसरोरेलो जोतुंभेराखसोगोदमांरेलो तोकिम
जासुंनिगोदमांरेलो ४ जवताहरीकरुणाथइरेलो कुम
तिकुगतिदूरेगइरेलो अध्यातमरवीउगीपोरेलो पाप
तिमिरकिहांपूगीओरेलो ५ तुजमुरतिमायाजिसिरेलो
उर्वसिथइउअरेवसिरेलो रखेप्रभुटालोएकघडिरेलो
निजरवादलछांहडीरेलो ६ ताहरीभक्तिभलीबनिरेलो
जिमओषधीसंजीवनीरेलो तनमनआणंदउपनोरेलो

मोहनविजयजीकृत. (८५)

कहेमोहनकविरुपनोरेलो ७ ॥ इति ॥
 अथ श्रोसुविधिजिनस्तवन ॥ मोतीडानीदेशी ॥ अ
 रजसूणो एकसूवद्धिजिणेसर परमकृपानीधीतुमेपरमेस
 रसाहवांसूग्यानिजोवोतो वातछेमान्यानी आंकणी
 कहेवाओपंचमचरणनाधारी कीमआदरीअस्वनीअस
 वारी सा० १ छोट्यागीशिववासवसोछो दृढरथसुतर
 थेकीमवेसोछो सा० आंगीप्रमुखपरिग्रहमांपडसो
 हरिहरादिकनेकीणवीधनडस्यो २ सा० धुरथीसकल
 संसारनिवारथो किमफरिदेवद्रव्यादिकधारथो सा०
 तजीसंजमनेथास्योगृहवासी कुणआशातनातजशेचोरा
 शी सा० ३ समकीतमीथ्यामतमेंनिरंतर इमकीमभांजसे
 प्रभुजीअंतरसा० लोकतोदेखसेतेहवुंकहेस्ये इमजिनता
 तुमकिणवीधरहस्ये सा० ४ पणहवेशास्त्रगतेमतीपोह
 ची तेहथीमेंजोयुंडुआलोची सा० इमकीधेतुमप्रभु
 ताइनघटे सांहमुंइमअनुभवगुणप्रगटे सा० ५ हयग
 ययद्यपितुंआरोपाए तोपणसीधपणुंनलोपाए सा०
 जिममुगटादीकभुषणकहेवाए पणकंचननीकंचनतान
 जाए सा० ६ भक्तनीकरणीदोसनतुमने अघटीतेके
 हवुंअजुक्ततेअमने सा० लोपाएनहितुकोईथीस्वामी
 मोहनविजयकहेसीरनामी सा० ७ ॥ इति ॥

(८६) मोहनविजयजीकृत.

अथश्रीसीतलजिनस्तवन ॥ घोडीतोआइथारादेशमां
एदेशी॥ शीतलजिनवरसेवना साहेबजी शितलजीमश
शीबिंबहो ससनेही मुरतमाहरेमनवशी सा० सापुरी
सासुंगोठडी सा० मोटोतेआलालुबहो स० १ खीण
एकमुजनेनवीविसरे सा० तुमगुणपरमअनंतहो स०
देवअवरनेस्यंकरुं सा० भेटथइभगवंतहो स० २ तु
मेछोमुगटत्रिहुलोकना सा० हुंतुंमपगनीखेहहो स०
तुमेछोसघनरुतुमेहूलो सा० हुंपछीमदिशित्रेहहो स०
३ निरागीप्रभुरिझवुं सा० तेगुणनहिमुजमांहिहो स०
गुरुगुरुतासांहमुजुओ सा० गुरुतातेमुंकेनांहिहो सु०
मोटासेतीवरोवरी सा० सेवककीणवीधथायहो स०
आसंगोकिमकीजीये सा० तिहांरह्याआलुभायहो
स० ५ जगगुरुकरुणाकीजीये सा० नलरुयोआभार
विचारहो स० मुजनेराजनिवाजसो सा० तोकुणवा
रणहारहो स० ६ ओलगअनुभवभावथी सा० जाणो
जाणसूजाणहो स० मोहनकहेकविरुपनो सा० जि
नजीजीवनप्राणहो स० ७ इति ॥ अथश्रीश्रेयांसजि
नस्तवन ॥ कंकणनिदेशी ॥ श्रेयांसजिनसुणोसाहेबारे
जिनजीदासतणीअरदास दिलडेवसीरह्यो दुररह्यां
जाणुंनहिरे प्रभुतुमारेपास दि० १ हारिमृगनेज्युंमधु

मोहनविजयजीकृत. (८७)

रआलाप दि० मोरनेपीछकलाप दि० दुररद्वाराजाणे
 नहारे प्रभुतुमारिपास दि० जलथलमहियलजोवतारे
 जि० चिंतामणीचढचोहाथ दि० उन्नतसीहवेमाहरेरे
 जी० नीरुख्योनयणेनाथ दी० २ चरणतेहनेविलंबी
 येरे जी० जेहथीसीझेकाम दी० फोगटसूफेरोतिहारे
 जी० पुछेनहिपिणनाम दी० ३ कुडोकलीयूगछोडिनेरे
 जी० आपरह्याएकांत दी० आपोपुराखेघणारे जी०
 परराखेतेसंत दी० ४ देवघणामेंदेखिघारे जी० आडं
 वरपटराय दि० निगयनहिपणसोडथारे जी० आ
 घापसारेपाय दि० ५ सेवकनेजोनिवाजीयेरे जी०
 तोतीहांस्यानेजाय दि० निपटनिरागीहोवतारे जी०
 स्वामीपणुंकिमथाय दि० ६ मेंतोतुजनेआदरघारे
 जी० भावेंतुंजाणमजाण दि० रुपविजयकवीरायनारे
 जी० मोहनवचनप्रमाण दि० ७ ॥ इति ॥

अथ श्रीवासुपुज्यजिनस्तवन चुनडीतोभीजेहोसाहि
 वाजीप्रेमनी एदेशी ॥ प्रभुजीस्युंलागीहोपुरणप्रीतडी
 जीवनप्राणआधार गिरुआजिनजीहोराज साहेवसु
 णज्योहोमाहरीविनती दरिसणदेज्योदिलभरीस्याम
 जी अहोजगगुरुसिरदार १ सा० चाहीनेदीजेहोचर
 णोनीचाकरी द्योअनुभवअमसाज गि० इमनविकी

(१०) मोहनविजयजीकृत.

बरेजोथइ कीमउवेटेहोकरारीछोट ५ आ० नायकनि
जनिवाजीये हवेलानीयेहोकरतारसलुट अध्यातमप
दआपवा कांइनहीपडेहोखजानेखुट ६ अ० जिमतु
मेतरचातिमतारज्यो सुंबेसेहोतुमनेकांइदाम नहीतारो
तोमुजने तोकिमतुमहोतारककहेस्योनाम ७ आ० हुंतो
जिनरुपस्थथी रहुहोइहोअहनिसअनुकुल चरणतजी
जइयेकीहां छेमाहरीहोवातलडीनोमुल ८ अ० अष्टा
पदपदमकरे अन्यतरिथहोजासैंजिमहेड मोहनकहेक
वीरुपनो विनाउपसमहोनविमुकुकेड ९ अ० ॥ इति ॥
अथ श्रीअनंतजिनस्तवन २ ॥ आदिपूरुषएआदजी
एदेशी ॥ अनंतजिणंदअवधारीये सेवकनीअरदास
जिनजी अनंतअनंतगुणतुमतणा सांभरेसासोसास
जि० १ सुरमाणिसमतुमसेवना पामीयेपुन्यपडुर जि०
किमप्रमादतणेवसे मुकुंअधखिणदूर जि० २ भगति
जुगतिमनमेंवसो मनरंजनमहाराज जि० सेवकनीतुं
मनेअछे बाह्यग्रह्यानीलाज जि० ३ स्युंमीठाधिठादि
ये तेहनोनहिहूदास जि० साथेसेवकसंभवी किजेज्ञानप्र
कास जि० ४ जाणनेस्युंकहवुंघणुं एकवचनमेलाप जि०
मोहनकहेकविरुपनो भक्तिमधुरजिमद्राख जि० ५ इति ॥

अथ श्रीधर्मनाथजिनस्तवन ॥ हारेमारेजोवनयानोल

टकोदहाडाचारजो एदेशी ॥ हारिमारेधर्मजिणंदसूंला
गीपूरणप्रीतजो जीवडलोललवाणोजिनजीनीओलगरे
लो हारिमुनेथासेकोइकसमेप्रभुसुप्रसन्नजो वातडलीमा
हारिरेसंवीथासेवगरेलो १ हारिप्रभुदुरीजननोभंभेरचो
माहरोनाथजो ओलवस्येनहफियारेकीधीचाकरीरेलो
हारिमारास्वामीसरखोकुणछेदुनीयांमांहजो जइयेरे
जीमतेहनेघरआस्याकरीरेलो २ हारिजससेवासेती
स्वारथनीनहीसीद्वजो ठालीरेशीकरवीतेहथीगोठडी
रेलो हारिकांडजुठुखायतेमीठाइनेमाटेजो कांडरेपरमा
रथवीणनहीप्रीतडीरेलो ३ हां० अंतरजामीजिवनप्रा
णआधारजो वायारेनवीजाण्योकलीयुगवायरोरेलो
हां० लायकनायकभगतवछलभगवंतजो वारुरेगुणकेरो
साहिवसायरुरेलो ४ हां० लागमिजनतेताहरीमायाजो
रजो अलगारेरह्याथीहोयत्रोसंगलोरेलो हारिकुणजा
णेअंतरगतनीविणमहाराजजो हेजेरेहसीवोळोछांडी
आंमलोरेलो ५ हारितारेमुखनेमटकेअटफ्युंमाहरुंमनजो
आंखडलीअणीयालीकामणगारडीरेलो हारिमारा नय
णालंपटजोवेखीणस्तुझजो रातेरेप्रभुरूपेनरहेवारीयो
रेलो ६ हारिप्रभुअलगातोपणजाणज्योकरिनेहजुरजो
ताहरीरेवलीहारीहुंजाउवारणरेलो हारिकवीरुपविवुध

(९२) मोहनविजयजीकृत.

नोमोहनकरेश्ररदासजो गिरुआथीमनआणीउलटअ
तीघणेरलो ७ ॥ इति ॥ अथ श्रीशांतीजिनस्त
वन १ ॥ इणेश्ररवरीआरीपा० एदेशी ॥ सोलमाश्री
जिनराजओलगसूणोअमतणीललनां भगतथीएवडी
केमकरोछोभोलामणीललनां चरणेविलग्योजेहआवी
नेथइखरो ल० निपटतेहथीकोणराखेरसआंतरो ल०
१ मेंतुजकारणस्वामीउवेरूयासूरघणा ल० माहरीदी
शाथीमेंतोनराखीकांडमणा तोतुमेमुजथीकेमअपुठाथ
इरहो ल० चुकहोवेजोकोयसुखेमुखथीकहो ल० तुज
थीअवरनकोयअद्विकजगतीतले ल० जेहथीचितनीवृ
तिएकांगीजइमले ल० दीजेदरसनवारघणीनलगावी
ए ल० वातलडीअतीमीठीतेकिमरवीरमावीए ल० ३तु
जोजलतोहुंकमलकमलतोहुंवासना ल० वासनातोहुं
भमरनचुकुआसना ल० तुंछोडेपणहुंकेमछोडुंतुजभणी
ल० लोकोतरकोइप्रतिआवीतुजथीबनी ल० ४ धुरथी
स्यानेसमकीतदेइनेभोलव्यो ल० खोटेहवेकीमजाउ
दिलासेओलव्यो ल० जाणीखासोदासविमासोछोकी
सू ल० अमेपणखीजमतमांहिखोटाकिमथायस्यूं ल०
५ बीजीखोटीवातअमेराचुनही ल० मेंतुजआगलमा
हरामनवालीकही ल० पूरणराखोप्रेमविमासोशुंतमे

हरामनवालीकही ल० पूरणराखोप्रेमविमासोशुंतमे

ल. अक्सरलहीएकांतवीनवीएछीए ल० ६ अंतरजामी
 स्वामीअचिरानंदना ल. शांतिकरणश्रीशांतिजीमान
 ज्योवंदना ल० तुजस्तवनाथीतनमनआणंदउपन्या
 ल० कहेमोहनमनरंगकेपंडितरुपनो ल० ७ इति ॥
 अथ श्रीशांतिनाथजिनस्तवन२ ॥ नंदसलूणानंदनारेजो
 एदेशी ॥ शांतिजिणंदसोहामणारेजो जो सोलमाश्री
 जिनराय मोरासाहिवारे ठकुराइत्रिहूंलोकनीरेजो जो
 सेवेसुरीनरपाय मो० १ शां० मुखसारदकोचंदलारे
 जो जो हसतललितानिसदीस मो० आंखडीअमीअ
 कचोलडीरेजो जो पुरवोसकलजगीस मो० २ शां०
 आंगीअनोपसहेमनीरेजो जो अगमगविविधजडाव
 मो० देखीमुरतसुंदरुरेजो जो भजेअनमीपताभाव मो०
 ३ शां० छत्रत्रयसिरशोभतारेजो जो महिमानोअवतं
 स मो० अजूआल्योतीरिथआपणारेजो जो विश्वसेननृ
 पनावंस मो० ४ शां० अकलकलाजिनजीतणीरेजो
 जो मनोहररुपअमीत मो० शीतलपूरेशोभतारेजो जो
 भगतीविछलभगवंत मो० ५ शां० केवलनाणदीवाक
 रुरेजो जो समकीतगुणभंडार मो० पारेवोतेउगारीआ
 रेजो जो एमअनेकउपगार मो० ६ शां० हूंबलीहारी
 ताहरीरेजो जो जिनतुमेदेवाधिदेव मो० मोहनकहेकवी

द्वयाविनावारता कहोनेजिकेमवकाय सा० ३ प० दे
 वघणादुनीआमांअछे पणदिलमेलोनवीथाय सा० जि
 णगामेजावुंनही तेवाटकहोसुंपूछाय सा० ४ प० मु
 जमनअंतरमूहूर्तनो मेंग्रह्याचपलतादाव सा० प्रीती
 समेतोजुउकहो एसोस्वामीस्वभाव सा० ५ प० अंतर
 सोमलीयांपछे नविमलीयेप्रभुमुल सा० कुमयाकिम
 करवीघटे जेथयोनिजअनुकुल सा० ६ प० जांगीहवे
 अनुभवदिसा लागीप्रभुसुंप्रीत सा० रुपविजयकवी
 रायनो कहेमोहनरसरीत सा० ७ प० इति ॥

अथश्रीकुंथुजिनस्तवन २ ॥ जादवपतितोरणआव्या
 एदेशी ॥ मुजअरजसुणोमुझप्यारा साचीभगतिथीकि
 मरहोन्यारारे सनेहीमोरा कुंथुजिणंदकरोकरुणा १
 हुंतोतुमदरिसणनोअरथी घटेकिमकरसकेकरथीरे
 स० थइगिरुआयेमजेमिमांसो तेतोमुझनेहोअछेतमा
 सोरे स० २ ललयाविनेजेकिजे किमदासनेचित
 पतिजेरे स० पदमोटिकहावोमोटा जिणतिणवातेनहु
 ओखोटारे स० ३ मुझभावमहेलमेंआवो उपसमर
 सप्यालोचखावोरे स० सेवकनोतोमनरीझे जोसेवक
 कारजसीझेरे स० ४ मनमेलुथईमनमेलो ग्रहेआ
 वीमगअवहेलारे स० तुमेजाणोछोएकरुंलिला पण

(९६) मोहनविजयजीकृत.

अरथीसरदहेकेरीसीलारे स० ५ प्रभुचरणसरोरुलेहवुं
फलप्रापतीलेहणूलेवुरे स० कवीरुपवीबूधजयकारी
कहेमोहनजिनबलिहारि स० ६ ॥ इति ॥

अथ श्रीअरनाथजिनस्तवन ॥ भटीआणीनीदेशी ॥

अरनाथअवीन्यासीहो सुविलासीखासीचाकरी कांड
चाहूंअमेनीसदीस अंतरायनेरागेहोअणुरागेकीणपरे
कीजीये कांडशुभभावेसुजगीस १ अ० सीद्धस्वरुपी
स्वामीहोगुणधामीअलखअगोचरु कांडदीठाविणदि
दार कीमपतीजेकीजेहोकीमलीजेफलसेवातणुं कांडदी
सेनप्राणआधारअ० २ ज्ञानविनाकुंपेखेहोसंखेपेसूत्रेसां
मल्या कांडअथवाप्रतमारुप सागेजोसंपेखुंहोप्रभुदेखुं
दिलभरलोयणे कांडतोमनमहूचेचुप ३ अ० जगना
यकजिनरायाहोमनभायामुजआवीमल्या कांडमहिर
करीमहाराज सेवकतोससनेहीहोतीसनेहांप्रभुकिम
कीजीये कांडइसडोइवहीयेरेलाज ४ अ० भक्तिगुणेभ
रमावीहोसमजावीप्रभुजीनेभोलवी कांडराखुरुदयम
झार तोकहजोस्यावासीहोप्रभुभासीजाणीसेवना कांड
एअमचोएकतार ५ अ० पाणीनीरनेमेलेहोकीणखेले
एकंतहोयेरहूं कांडनहिरेमीलणनोजोग जोप्रभुदेखुं

नयणेहोकहिवयणसमजावुंसहि कांडतेनमिलेसंजोग ६

मोहनविजयजीकृतः (१७)

अ० मनेमेलुकीमरीझेहोस्युंकीजेअंतरायएवढो कांड
नीपटनहेजानाथ सातराजनेअंतेहोकीणपाखेतेआवी
नेमीलुं कांडविकटतुमारोजीसाथ ७ अ० ओलगए
अनुभवनीहोमुजमननीवातांसांभली कांडकीजेआज
निवाज रुपविवूधनोमोहनहोमनमोहनसांभलवीन
ती कांडदीजेसीवपुरराज ८ अ० ॥ इति ॥
अथ श्रीमल्लीनाथस्तवन ॥ थारामोहलाउ० एदेशी ॥
सुगुरुसुणीउपदेशध्यायोदलमेंधरीहोलाल ध्या० की
धीभगतिअनंतचवी२चातुरीहोलाल च० सेव्योरेवीस
वावीसउलटधरीउलस्योहोलाल उ० दिठोनवीदिदा
रकांनकीणहीलग्योहोलाल कां० १ परमेसरसुंप्रीत
कहोकीमकीजीयेंहोलाल क० नीमखनमेलेमीटेदोप
कीणदीजीयेंहोलाल दो० कोनकेरेतकसीरसेवामांसा
हिवाहोलाल से० कीजेनओकरवादभगतभरमायनेहो
लाल भ० २ जाणुंतमारुजाणपुरुपनापारिखुंहोलाल
पु० सुगुणनीगुणनोराहकरचोस्युंसांरिखुंहोलाल क०
दीयोदीलासोदिनदयालकहावसोहोलाल द० करुणा
रसभंडारत्रिरुदकीमपावस्योहो० वि० ३ स्युंनिचस्या
तुमेसीद्वसेवकनेअवगुणहि० से० भाखोअवीहडप्रीत
जावाद्योभोलामणीहो० जा० जोकोइराखेरागनिराग

(१८) मोहनविजयजीकृत.

नराखीएहो० नि० गुणअवगुणनीवातकहीप्रभुभा
खीएहो० क० ४ अमचादोषहजारतिकेमतभालज्यो
हो० ति० तुमेछोचतूरसुजाणप्रीतमगुणपालज्योहो०
प्री० मल्लिनाथमहाराजमराखोअंतरोहो० म० द्योद
रिसणदीलधारमिटेज्युंखांतरोहो० मि० ५ मनमंदि
रमहाराजवीराजोदीलमलीहो० वी० चंद्रातपजिमकम
लरिदयवीकसेकलीहो० री० कवीरुपविबूधसुपसाय
करोअमरंगरलीहो० क० कहेमोहनकवीरायसकलआ
साफलीहो० स० ६ इति ॥ अथ श्रीमुनिसुव्रत
जिनस्तवन ॥ होपीउपंखीडा एदेशी ॥ होप्रभुमुज
प्यारा न्याराथयाकेइरीतजो ओलगुआनेआलालुंबन
ताहरोरेलो हो० भक्तीवछलभगवंतजो आयवसोमन
मंदिरसाहिबमाहरेरेलो १ हो० खीणनविसारुतुजजो
तंबोलीनापत्रतणीपरेफेरतोरैलो हो० लागीमुनेमाया
जोरजो दीणयरवासीसुसाहिबतुमनेहेरतोरैलो २ हो०
तुनीसनेहीजिनरायजो एकपखीप्रतिलडीकीणपरेरा
खीयेरेलो हो० अंतरगतिनीमहाराजजो वातलडीवि
णसाहिबकेहनेदाखीयेरेलो ३ हो० अलखरुपथइआ
पजो जायवस्योशिवमंदिरमाहेतुंजइरेलो हो० लाध्यो
तुमारोभेदजो सुत्रसिद्धांतगतिनेसाहिबतुमलहीरेलो

मोहनविजयजीकृतः (९९)

४हो. जगजिवनजिनरायजो मुनीसूत्रतजिनमुजरमान
जोमाहरोरे लो० हो० पयप्रणमीजिनरायजो भवभवसर
णोसाहिवस्वामीताहरोरेलो० ५हो. राखसूरुदयमझारजो
आपोसामलीयाद्योपदवीताहरीरेलो० हो. रुपविजयनो
सीसजो मोहननेमनलागीमायाताहरीरेलो० ६हो० इति
अयश्रीनमिनाथस्तवन ॥ आसणरारेयोगी एदेशी ॥
आजनमिजिनराजनेकहीये मीठेवचनप्रभुमनलहीयेरे
सुखकारीसाहेबजी प्रभुछेनीपटनिसनेहीनगीना तो
हीघडछुंसेवकअधिनारे सु० १ सुनीजरकरसोतोवरसोव
डाइ सुकहीसेप्रभुनेलडाइरे सु० तुमेअमनेकरस्योमो
टा कुणकहेसेप्रभुतुनेखोटारे सु० २ निसंकथइसुभव
चनकहेस्यो जगसोभाअधिकीलहेस्यारे सु० अमतोर
ह्याछुतुमनेराची रखेआपरहोमतखांचीरे सु० ३ अ
म्हेतोकोसुअंतरनविराखुं जेहोवेरुदयकहीदाखुरे सु०
गुणीजनआगलगुणकहीवाये जेवारेप्रीतप्रमाणेथायेरे
सु० ४ विपधरइसरुदयेलपटाणो तेहवोअमनेमल्यो
छेटाणारे सु० निरवहेस्योजोप्रीतअमारी कलीकीरत
थास्यंतमारीरे सु० ५ धूताइचितडेनविधरस्यो कांइअ
वलोविचारनकरस्यारे सु० जिमतिमजाणीसेवकजाणे
न्यो अवसरलहीसुधलहेज्यारे सु० ६ आसंगेकहीएछेतु

(१००) मोहनविजयजीकृतः

मने प्रभुदीजेदिलासात्रमनेरे सु० मोहनविजयसदामन
रंगे चितलाग्योप्रभुनेसंगेरे सु० ७ इति ॥

अथ श्रीनेमनाथजिनस्तवन १ ॥ दक्षणदोहीलोहोराज
एदेशी ॥ कारथवालोहोराज साहमुंनीहालोहोराज प्री
तसंभालोरे वाल्हायदुकुलसेहरा जीवनमीठाहोराज
मतहोजोधीठाहोराज दीठाअलजेरेवाहलानिवहोनेह
रा १ नवभवभज्जाहोराज तीहांसीलज्जाहोराज तज
तभज्जारे कंसेरणकावाजीया सीवादेवीजायाहोराज
मानील्योमायाहोराज कीमहीकपायारे वाहलामधुक
रराजीया २ सुणीहरणीनोहोराज वचनकामिनिनाहो
राज सहीतोबीहन्नारे वाहलाआघाआवतां कुरंग
कहांणाहोराज चुकेनटाणाहोराज जाणोवाहलारे दे
खीवर्गवरंगनो विणगुन्हेचटकीहोराज छांडोमांछटकी
होराज कटकीनकीजेरेवाहलाकीडीउपरे रोसनीवारो
होराज महेलपधारेहोराज कांडवीचारोरेवाहलाडाबु
जीमणुं ४ एसीहासीहोराज होएवीकासीहोराज जु
ओवीमासीरे अतीहेरोसनकीजीयें आचित्रशालीहो
राज सेजसुंआलीहोराज वातहेतालीरे वाहलामहारस
पीजीयें ५ मुगतिवहिताहोराज सामान्यवनीताहोराज
तजीपरिणतारे वाहलाकांतुंमेआदरो तुमनेजेभावेहो

राज कुणसमजावेहोराज कीमकरीआवेरेताण्यो
 कुंजरपाधरो ६ वचनेनभीनोहोराज नेमनगीनो
 होराज परमखजानोरे वाहलानाणअनुपनो व्र
 तसीवसामीहोराज राजुलपामीहोराज कहेहीतका
 मोरे मोहनरुपअनुपनो ७ ॥ इति ॥
 अथ श्रीनेमीनाथजिनस्तवन २ ॥ अंवरीअनेंगाजेहो
 भटियाणिवडचूए एदेशी ॥ राजुलकहेरथवालोहो न
 णदीरावीराहठतजो कांडप्रालोपुरवप्रीत मुकोविणगुन
 हेहो नणदीरावीराविलपतां कांडएशीशीख्यारीत रा.
 १ हूंतोतुमचरणारीहो नणदीरावीरामोजडी कांडसां
 भलोआतमराम तोमुजनेउवेखोहो नणदीरावीरास्या
 वती नहीएसुगणोराकाम रा० २ पसुअनेकरकिरु
 णाहो नणदीरावीरामुकीया तोमैसीचोरीकीध पसु
 आंधीस्युंहिणीहो नणदीरावीरात्रेवडी जेमुजनेविछो
 होदीध रा० ३ एहवुंजोमनखोटुंहो नणदीरावीराजोहतुं
 तोपाडीकानेहनेफंद उलझुंतेनवीसुलझेहो नणदीरा
 वीरामनडुं कांडकोडिमिलेजोइंद्र रा० ४ मेंतोकहोकि
 णवातेहो नणदीरावीरानदूहव्या इयानेराखोछोरोप
 माहरेतोतुमसाथेहो नणदीरावीराअलेहणूं तोकेहने
 दाखुरेदोप रा० ५ तांतत्रूट्यानीपरेहो नणदीरावीरा

(१०२) मोहनविजयजिकृत.

जोडीये कतुआरीनाजेम ठेलीजेनहिपाखेहो नणदीरा
वीरावलगतां कांइनेहनचालेयेंम रा० ६ इमकहेतीव्र
तलेतीहो नणदीरावीरानेमजी कांइशिवपहिलेकीआो
वास धनधनतेजगमांहेहो नणदीरावीराप्रीतडी कां
इमोहनकहेस्याबास रा० ७ ॥ इति ॥

अथ श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवन ॥ कानुडोवेणवजावरे
कालीनदीनेकांठे ॥ एदेशी ॥ वामानंदनहोप्राणथकी
छोप्यारा नांहीकीजेहोनयणथकीपीणन्यारा आंकणी.
पुरसादाणीसामलवरणो सुधसमकीतनेभासे शुद्धपूज
जिणेकीधोतेहने उज्वलवरणप्रकासे १ वां० तुमचर
णोविषधरपिणनिरविष दंसणेथाएवीडोजा जोताअम
शुधस्वभावीकानहूवे एहअमेग्रह्याछोजी २ वां० कमठ
रायमदकीणगिणतिमां मोहतणामदजोतां ताहरीश
कीअनंतीआगल केइ२मरगयागोता ३ वां० तेजिमता
रचातिमकुणतारे कुणतारककहूं एहवो सायरमानतेसा
यरसरीखो तिमतुंपिणतुंजेहवो ४ वां० किमपिनबेसो
करुणाकरते पिणमुजप्राप्तीअनंती जेमपडेकणकुंजर
मुखथी कीडीबहूधनवंती ५ वां० एकआवेएकमोजां
पावे एककरेआोलगडी नीजगुणअनुभवदेवाआग
ल पडखेनहीतुंबेघडी ६ वां० जेहवीतुमथीमाहरी

माया तेहवीतुमेपीणधरज्यो मोहनवियजकहेकवी
रुपनो परतक्षकरुणाकरज्यो ७ वां० इति ॥
अथश्रीमहावीरस्वामीस्तवन ॥ पछेडानीदेशी ॥ दुर्ल
भभवलहीदोहलोरे कहोतरीयेकेणउपायरे प्रभुजीने
वीनवुरे आंकणी समकितसाचोसाचवुरे तेकरणीकीम
थायरे प्र० १ असुभमोहजोमेटीयेरे कांडसुभप्रभुने
जायरे प्र० निरागेप्रभुध्याइयेरे कांडतोपीणरागकहा
येरे प्र० २ नामध्याताजोध्याइयेरे कांडप्रेभविनात
वीतान प्र० मोहवीकारजिहांतिहारि कांडकीमतरिये
गुणधामरे प्र० ३ मोहबंधजबंधीओरे कांडबंधजिहां
नहीसोयरे प्र० कर्मबंधनकीजीयेरे कर्मबंधनगयेजो
येरे प्र० ४ तेहमांशोपाडचढावियेरे कांडतुमेश्रीमहा
राजरे प्र. वीणकरणीजोतारस्योरे कांडसाचाश्रीजिनरा
जरे प्र० ५ प्रेममगननीभावनारे कांडभावतिहांभव
नासरे प्र. भावतिहांभगवंतछेरे कांडउदस्येआतमसा
ररे प्र० ६ पुरणघटाभ्यंतरभरचोरे कांडअनूभवअ
नुहाररे प्र० आतमध्यानेओलखीरे कांडतरस्युंभव
नोपाररे प्र० ७ वर्द्धमानमुजवीनतीरे कांडमानजोनी
सदीसरे प्र. मोहनकहेमनमंदिरेरे कांडवसीयोतुंवीसवा
वीसरे प्र० ८ ॥ इति श्रीमोहनवीजेजीकृत चोवीशी ॥

अथ श्रीकांतिविजयजीकृतचोवीशी

अथ श्रीरुषभजिनस्तवन ॥ अरजरसुणोनेरुडारा
 जीयाहोजी एदेशी ॥ सुगुणरसोभागीसाचोसाहिबो
 होजी मीठडोआदिजीणंद मोहनरसूरतीरुडीदेखतां
 होजी वाधेपरमआणंद सु० १ सुंदररजिनचितडेच
 डचोहोजी चोकसपदठहराय वेद्वकरतनमननोथयोहो
 जी उतारचोकीमजाय सु० २ तुजगुणरकहीवामुज
 जीभडीहोजी रातीरंगेरहंत अंतररगतनीजेवातडी
 होजी तेमुखेआवीचडंत सु० ३ कामणरगारोप्यारोप्राण
 थीहोजी भेटणऊजमअंग चंदनरथीअतिशीयलोहोजी
 जगमाउत्तमसंग सु० त्रीकरणरस्यंतुजथीकरचोहोजी
 नवलोप्रेमप्रकास दीलभरीरकांतिविजयतणाहोजी पू
 रोप्रेमप्रकास सु० ५ इति ॥ अथ श्रीअजितजिनस्तवन ॥
 देशीपछेवडानी ॥ बीजाअजीतजीणंदजीरे रुडीअरजसु
 णोअरीहंतरे रसीयाराजवीरे राजवीतुजिननाथरे मे
 लेमुगतीनोसाथरे रसी० आंकणी हरषनयणेहेजालू
 आंरे हवेलागीलगनअनंतरे र० १ जेहथीतनमनवेधी
 उरे कहोतेवीणकेमसुहायरे र० लाखाणालखजोहुवे
 रे पणतेकोइनआवेदायरे र० २ कारजसारेआपणा
 रे प्रभूमुंकीयेंकिमतसंकेडिरे र० करुणानयणनीहाल

कांतिविजयजीकृत. (१०५)

तारि तूंतोनांखेकूगतिठखेडीरि २० ३ मनमोटुंकरिमो
हनारि मुनेकीजेसेवकप्रमाणरे २० माहरेमनएकतूव
स्योरे वाल्हाभाविजाणमजाणरे २० ४ चीतठारणज
गजीवनोरे रुडाविजयाराणीनानंदरे २० सफलहोज्यो
अमवीनतीरे आछाजीतशत्रुनृपकुलचंदरे २० ५ आ
सधरीमैताहरिरे तुंतोमनओछुंनकरेसरे २० सबलातू
जसोभागथीरे वारीहुंतोसहजेतरेसरे २० ६ सेवकक
हीनेबोलावतारि वाल्हादीधीसंपदकोडिरे २० प्रेमवीबु
धसुपसायथीरे इमकांतिकहेकरजोडिरे २० ७ इति ॥

अथ श्रीसंभवजिनस्तवन ॥ हारिकेकांइज्योवनिया
नोलटकोदाडाच्यारजो एदेशी ॥ हारिप्रभुसंभवस्वा
मीत्रीजाश्रीजगनाथजो लागीरितूजथीदृढधर्मनीप्रीतडी
रेलो हारि० सरससुकोमलसुरतरुदीधीवाथजो जाण्युं
रेसेभूखेलीधीसूखडीरेलो १ हां० सकलगुणेकरीगीरु
ओतुंहीजएकजो दिठारेमनमीठोइठाराजीओरेलो हां.
तुजस्युंमिलतांसाचोमुजस्युंविवेकजो हुंतारेधणीआतो
थइनेगाजीओरेलो २ हां० नहिछेमाहरेहवेकेहनीपर
वाहजो जोतारिसाहीमूजहेजेवांहडीरेलो हां० तुजपा
सेधीअलगोनरहुंनाहजो द्रोडिरेकुणतावडछांडिछांह
डिरेलो ३हां० भाग्येलहीयेंतूजसरीखानोसंगजो आ

(१०६)

कांतिविजयजीकृत.

णे२जमवारेफिरि२दोहिलोरेलो हां० जोतिमनोहरचिं
तामणीनोनंगजो जोतारेकिमनहीजगमांसोहिलोरेलो
४हां० उतारोमतचितडाथीनिजदासजो चिंतारेचूरंतांप्र
भूनकरोगइरेलो हां० प्रेमवधारणकांतितणीअरदास
जो गणतारेपोतानोसविलेखेथाइरेलो ५ इति ॥

अथ श्रीअभिनंदनजिनस्तवन ॥ मनमधुकरमोहिर
ह्यो ॥ एदेशी ॥ रागउदयगारीउगीओ श्रीअभीनंद
नसुररे विमलदिशापूरवदिशे अनुभवकीरणपंडूररे
रा० १ मोहतिमीरदुरेछीपे कपेचोरविभावेरे कूमति
निशानासेवूरी विकसेपदमसूभावेरे रा० २ निजगुण
परिमलमहमहे बोधभमरतीहांराचेरे परप्रणतीबंधन
मीटे विषमविषयरसमाचेरे रा० ३ राहुग्रहेनविरागते
अशुचिघटानविठंकेरे विभ्रमविकलपतासिका अतीस
यरुपथीसंकेरे रा० ४ सूर्यअपूरवआदिना अनुपमए
प्रभुआपरे कांतिसकलनिजतेजथी सोषेकादिमपापरे
रा० ५ इति ॥ अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ पिउडा
जिनचरणारिसेवा प्यारिमुनेलागे एदेशी ॥ जिवडात
जविषयारिहेवा हियेक्युंनजागे अकलसरुपसकलजि
ननीरस्यो अवरस्युंदिलकिंमलागे १ जी० जनममरण

दूखकांइविसारी पडिओदुरगतिठागे२ जी० मोहमहा

कांतिविजयजीकृतः (१०७)

मदधारिसूतो सिपरिथास्येआगे ३ जी० सकलपदा
रथछोडिएकाकि जाइशतुंतननागे ४ जी० प्रभुगुणमु
गताफलमनमोदे गुंथिभगतिनेधामे ५ जी० प्रेमप्र
कासनपंचमजिननी कांतिसेवानितमागे ६ जी० इ
ति ॥ अथ श्रीपदमजिनस्तवन ॥ उंचेटेवेदेर
डीरे एदेशी ॥ श्रीपद्मप्रभराजीआरे अभिनवसोभा
वंत मोहताजातेजथी प्यारोमुजहियडेभावंत १
जगतगुरुलंबांझूंवांराज आछोलागेएजिनराज दिपे
त्रिभूवननोसिरताज ज० निरखतमटकोमुखतणारे
अमरधूणावेसिस चीरंजीवोइमहेजस्यूं इंद्राणियेआ
सीस ज० २ ललि२लखकरिलुंछणारे लगनलोभाणा
लाख रुपतणिमीठासमां हुंतोवारुसाकरद्राख ज०
३ बाहिरअंतरगुणभरचारे अवगुणनोनहिलवलेश झुं
वकवनीमहाराजनी एआगेछेवीजीपेश ज० ४ प्रेमप्रस
न्नप्रभुदीठडेरे दाइनआवेअन्य कांतिकहेमुजआज
थी विहुंनेणहुआंधन्यधन्य ज० ५ ॥ इति ॥
अथ श्रीसूपाश्वनाथजिनस्तवन ॥ झूबखडानीदेशी ॥
शकलसमीहितसुरतरुरे सातमास्वामिसूपास जिणेशर
सांभलो भगतवचननिहोरडेरे उभोकरुअरदास जि०
१ रातदिवसभरीआलगुरे एकतालीलयलाय जि०

७८) कांतिविजयजीकृतः

नायकनामधराविनेरे खबरनलेतुंकांय जि० २ पोताव
टकिमजाणियेरे जोनसूणेकांडवात जि० निपटनिरागी
थइरह्योरे एसिताहरीधात जि० ३ जेपूठेजेसरजीआरे
तेहनेतेहनीलाज जि० छांडंतांकिमछूटियेरे जाणोछोम
हाराज जि० ४ प्रेमप्रकासोआपणारे तोराखोनिज
पास जि० कांतिविजयलहस्योघणीरे लोकामांस्यावा
स जि० ५ ॥ इति ॥

अथ श्रीचंद्रप्रभजिनस्त

वन ॥ नानोनाहलोरे एदेशी ॥ श्रीचंद्रप्रभचित्तथीरे
नरहेअलगोनाह स्वामिआठमोरे तोपणप्रतक्षभेटवा
रे नमिटेचित्तनीचाह स्वा० १ रंगतरंगउमंगनारे लख
आवेलखजाय स्वा० मिलनमनोरथपंथीआरे झूकि२
झोलाखाय स्वा० २ लिखतांनचढेलेखमारे नावेवचन
विचार स्वा० जेहमांवितुंतेलहेरे लगनतणोविवहार
स्वा० ३ मिलवूंमोटालोकथीरे तेआभभरवीवाथ स्वा०
आलंबनद्येदुबलारे निपटभलातेनाथ स्वा० ४ चंद्रलंछ
नजिननीचाकरीरे पोहतीप्रेमप्रमाण स्वा० कांतिविजय
जयवादनारे वाग्यांगुहिरनीसान स्वा० ५ इति ॥

अथश्रीसुविधिजिनस्तवन ॥ मालाक्यांछेरे एदेशी ॥

ताहारीअजबसीजोगनीमूंदारे लागेमुनेमीठीरे एतो

टालेमोहनीनींदारे परतक्षदीठीरे लोकोत्तरथीजोगनी

७९

मुद्रा वाल्हामारा निरुपमआसनसोहे सरसरचितशुक्ल
 ध्यानतीधारे सूरनरनामनमोहरे ला० १ त्रिगडामारं
 तनसिंहासनवेसी वा० चिहूँदिसेचामरढलावे अरिहंतप
 दप्रभुतानोभोगी तोपणजोगीकहावेरे ला० २ अमृतझर
 णिमीठीतूझवाणि वा० जेमआसाढोगाजे कानमारग
 थइहियडेपेसी संदेहमनताभाजेरे ला० ३ कोडिगमे
 उभादरवारे वा० जयमंगलसूरवोले त्रणभुवननि
 रिद्धितूझआगे दिशेइमतृणातोलेरे ला० ४ भेदलहुन
 हिंजोगजूगतिनो वा० सूविद्धीजिणंदवतावो प्रेमस्यूं
 कांतिकहेकरिकरुणा मुझमनमंदिरआवारे ला० ५ इति॥

अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥ बेडलेभारघणो
 छेराज ॥ एदेशी ॥ तंदानंदनपापनीकंदन शीतलशी
 तलवाणी बलिहारिलयोमोहनताहरी भावभगतिचि
 तत्राणि १ मिठुडामुझलागोछोराज तूमसेवामारंहेस्यूं
 खांतिखजमतिकरताखासि जेकहिस्यांतेसहेस्यूं मि०
 २ महिमासागरदेवदयागर राजरुचोछोअमने विक
 टीदुरेकरस्योतोहि छोडेस्यूंनहितूमने मि० ३ दिलरं
 जनखिणादिलमांआवि दुररहोछोहटकी नाचतरंसभ
 रिलाजविराजे कहोकिणपरेबूंधटकी मि० ४ आल्य
 मरुपथकितूंन्यारो माल्यमभवसागरनो कालिमरहि

(११०) कांतिविजयजीकृत.

तमहितनूनायक जालिममुगतिनगरनो मि० ५ छेदे
दुरीतभवभयभेदे तूझकरुणानाअंस प्रेमसरोवरमांड
मझीले कांतिधवलगुणहंस मि० ६ ॥ इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ गढडामेझूलेसहियांहा
थणि एदेशी ॥ मनडुंतेसहियांमोरुमोहियूं देखीनोजि
नवरश्रीश्रेयांस म्हारेआंगणेएहिसहियांआंवांमोरि
आं भावठभागीसहियांमोरडी प्रगट्यांछेपुन्यनारुडा
अंश म्हा० १ दूधेतेवूठासहियांमेहुला फुलीछेआंग
णेमोहनवेल म्हा० अमियेस्यूसैच्यासहियांनयण
लां वधतिछेअमचेघररंगरेल म्हा० २ साचोएसाहि
बसहियांसेवतां मनडानादेस्येरुडाकोड म्हा० जोतां
नदिस्येसहियांएहवो विजोनहिजगमांएहनीजोड म्हा०
३ राणिश्रीविश्वसहियांजनमिआं राजाश्रीविश्वतणो
कूलभाण म्हा० लंछनतेखडगीसहियांजेहने वालोते
जिनवरजगनोमाण म्हा० ४ लागीहेसहियांपूरणप्री
तडी मुखडार्थितोनकहेवाय म्हा० रंगहेसहियांजिनने
वांदतां प्रेमेहेकांतिविजयसुखथाय म्हा० ५ इति ॥

अथ श्रीवासुपुज्यजिनस्तवन ॥ विज्ञासेणमारु एदेशी
॥ मोहनजीहो गुणबहुलावुधथोडलीहो साहिबा किम
करीकरंरेप्रकाश रायनिकाशेणम्हारा मो० भुजबलतर

वासायरुरे सा० मांडचोमेंएहवोप्रयाश रा० १ मो०
 चंद्रकिरणकरस्युग्रहीरे सा० चाहुहुंचढणआकाश रा०
 मो० सुरगिरितोलणत्राजयेहो सा० बांध्योएवालवि
 लास रा० २ मो० थोडाहितुझगूणभाखतांहो सा०
 मुझवंछितथाय रा० मो० गजभोजननाअंशथीहो
 सा० कीडीनाउदरभराय रा० ३ मो० ओलगडीगि
 रुआतणीहो सा० निफलकदीहीनथाय रा० मो० तृण
 बलगाजेमेरुनेहो सा० तेपणकनककहाय रा० ४ मो०
 प्रेममगनमनमाहरुहो सा० श्रीवसुपुज्यसूतध्यान रा०
 मो० कांतिवद्वेकिधेघणेइहो सा० भगतसुधारसपान
 रा० ५ मो० इति ॥ अथ श्रीविमलजिनस्तव
 न ॥ उधाजीकहीसोबहुरि एदेशी ॥ प्रभुजीमुजअवगु
 णमतदेखो आंकणी रागदिशाथीतूरहिन्यारो हुंमनरा
 गेघालूं द्वेपरहिततुसमतांभिनो द्वेषमारगहुंचालूं प्र०
 १ मोहलेशफरस्योनहितूंहि मोहलगनमुझप्यारी
 तुंअकलंकीकलंकीतहुंतो एपणरहिणीन्यारी प्र० २ तु
 हिनीराशभावपदशाधे हुंआस्यासंघविलूद्धो तुंनिश्च
 लहुंचलतंसुद्धो हुंआचरणेउंधो प्र० ३ तुझशुभावथी
 अवसामाहरा चरित्रसकलजगजाण्या भारेखमाप्रभु
 नेंतेकहेतां नघटेमुहढेआण्या प्र० ४ प्रेमनवलजोहोये

(११२) कांतिविजयजीकृत.

सवाइं विमलनाथमुखआगे कांतिकहेभववनउत
रतां तोवेलानविलागे प्र० ५ इति ॥

अथश्रीअनंतजिनस्तवन ॥ उंबरीओनेगाजेहोभटी
आंणिराणिवडचूरे एदेशी ॥ ओलगडिचितआंणोहो
मतजाणोशेवकपारका चाहोनकांचितचाल होवेवली
कांडकिणोहो मनझीणोपिणोजोमाहरे तोजोवोनथण
निहाल ओ० १ करितोस्युंएकतारिहो वलीहारीतुझ
धारिरहुं आसायेअनुकुल इमकेतादिनजासेहो किम
थास्येकामउवेखतां कांडककरस्योशुल ओ० २ मनडा
नेसमजावुंहो समजाउंकिहांलगेभोलवि त्यांतुंथायेंअ
धीर आतुरतेअकूलातेहो मुखवातेकिमकररिआवियें
जिमतरस्योविणनीर ओ० ३ शेवामांकांडखामिहो
होयेंस्वामितेदेखाडतां लाजनकरस्योकांड व्यवहारेजे
वाचिहो किमकाचीवातवरेपडे साचीहीठराय ओ० ४
विनतडीचितसाचिहो प्रभुसाहिप्रेमेछांहडी विकस्या
वंछीतकोड चउदशमाजिनआगेहो अतिरागेकांतिवि
जयकहे भगतिवेकरजोड ओ० ५ इति ॥ अथश्री
धर्मजिनस्तवन ॥ देशीरसीयानी ॥ धर्मजिनेसरमुज
मनडेवस्यो रागउमंगेरेअंग साहिवजी कालेपलटेहो

रंगपतंगनो चोलनोनलहेरेभंग सा० १ ध० लाख

गमेदीठासुरअभिनवा तेहथीनराचरेचित्त सा० माझि
 अंतरगतीनीतूमिल्यो मनमानितोरेमित्त सा० २ धः
 संभारेवादेवहुमोहनी विसारघोकिमजाय सा० संच
 रतांफिरतांमुझहियलडे खिण२वेसेरेआच सा० ३ धः
 जिवनतोविणजंपनजीवने आतसतूझगुणलीन सा० त
 पि२कलपेतलफेजीवडो अलपजलेजिममनि सा० ४
 धः प्रेमसंभालीटालीआंमलो वातलडीधरीकांत सा०
 कांतिकहेकरुणानिद्धीकरीकृपा शेवकनेसनमान सा०
 ५ धः इति ॥ अथ श्री शांतिजिनस्तवन ॥
 माहाराजाअजितथास्युरंगछेजीराज एदेशी ॥ मेरा
 शांतिजिणंदथास्युरंगछेजीराज प्रभुचरणकमलशेवामां
 रंगछेजीराज थारिखजमतीमांहिउमंगछेजीराज मे०
 प्रभुजीवीराजेसहजमहेलमें करीदृढज्ञानदुरंगछेजीरा
 ज मे० १ अलेखअवेध्यनेकीधोप्रसंगी तूंप्रभुयद्यपि
 अनंगछेजीराज मे० ध्यानधारातूजज्योतिदिपकनी ति
 हांपातिकर्पाक्तिपतंगछेजीराज मे० २ अममनलोभी
 भंगसमानो प्रभूगुणफुल्योकुडंगछेजीराज मे० भग
 तवछलतूकरुणासिंधू भक्तीनिभक्तीसूगंगछेजीराज मे०
 ३ जगतजनेतासरणराखो जिमरास्योचरणेकूरंगछे
 जीराज मे० प्रेमप्रसन्नप्रभूकांतिकहेमें सिसधरघोएउ

(११४) कांतिविजयजीकृत.

छंगछेजीराज मे. ४ इति ॥ अथ श्रीकुंथुजि
नस्तवन ॥ कठिनलगनकीप्रीत एदेशी ॥ कठिनभ
गतकीप्रीत हेरीबोकरिसोइजाणे क. लाखजंजालभ
गतिकरनमे ओछीनआवेचित हेरीबो. १ छिन२खवरप
रेनहिघटकी तासोरहेचितभिता हे. भगतीलगनमोम
नमांवेठी ज्यंराघवमनसीता हे. २ जेसीतेसीमेरीभ
गतिउगनकु मानिलेमोहनमित्त हे. प्रेमस्युंकांतिक
लाकूंजगावे कुंथुभगतिरसप्रीत हे. ३ इति ॥

अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ तटजमूनानोरेअतिरली
आंमणोरे एदेशी ॥ कागलतुनेरेकीमकरीमोकलूरे ली
खतांकीमहीनआवेदाय अगनसुंभावेरेवरतेजोगनेरे
त्रिणगुणगुहिरनकलिओजाय का० १ त्रिभूवनमांहे
रेनहीकोउपमारे जेहथीजोडुंतुजसोभाग तागनदीसेरे
जिहांखगमगनोरे आगलतिहांतिमलागेलाग का०
२ अंजननाहीरेजेहनारुपमारे तेअंजमांआवेकेमव्यंज
नतोहीरेव्यंजनवर्णमारे नचढेनिरव्यंजनथइतेम का०
३ उगतिउपाइरेसूद्धसूभावनीरे रीझवस्युंदुरांथीनाथ जे
हथीजमावेरेतेहनीसाधनारे रुडेतेविधीकरीयेंहाथ का०
४ अरजिनजाणोरेप्रेमजोसाचीलोरे तोमुजनेमुकोनवि

सार कांतिपनोतोरेसेवकस्वामिनोरे वारुजगसाचोव्य

वहार का. ५ इति अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन
 ॥ कांनसीघावोचंद्रावनको एदेशी ॥ संजमलेवामल्लि
 उमाहो मित्रमिल्याखटआय पुरवप्रीतिसंभालोजी
 तारोअमनेस्वामी करुणानयणनिहालोजी ता. कूगति
 पडतांपालोजी ता. शेवाथीमतटालोजी ता. आयुशि
 द्वावेपल२प्रभुजी योवनदोडचोजाय पू. १ कू. से. अ
 थिरकूटंबएसूपनसरीखो जातांनहींकांडवार पू. कू.
 से. जनममरणयीइणसंसारे नहिकोइराखणहार पू.
 २ कू. से. चारीत्रदेइअमसेवकने तारोजीजगनाथ पू.
 स्वामिसलूणोहीतसीक्षास्यं येदिक्षानिजहाथ पू. ३
 कू. से. मुगतिवधुनाभोगीकीघा भगतिवछलतेतेह पू.
 आजअमारिवारेकीहांथो आवीघाढिमएह पू. ४ कू.
 से. समदरासिनेकरवनिघटे भिन्नपणानिद्रेठ पू. प्रेम
 प्रकाशिकांतिनास्वामी तारिशतुहिजने पू. ५ कू. से.
 इति ॥ अथ श्रीमुनीसुव्रतजिनस्तवन ॥ मदने
 श्वरमुखबोल्पोत्रटकी एदेशी ॥ गुणबोलंतांजोनविभी
 जे तोउलंजडेमतखीजेहे ससनेहीरिसुंदर मुनिसुव्रत
 मुजराखिले बगस्युहोपेकांडआजलगेजी तेसंभाली
 लीजेहे ससनेहीरोजिनवर गुणकीघातेभाखीने १ मु.
 प्रभुताथारीपीठनजाणे मुजमहीनतमननाणेहे स. मु.

दांनतणोअवसरपामीने दिन२आघाताणेहे स० २
 मु० आराधूंअहनीशएकध्याने त्यांतूनयणनजोडेहे स०
 मु० जिमअसवारनजाणेपंथे यद्यपितूरंगमदोडेहे स०
 ३ मु० मोटाजनथीमांडिजोरो किमलीजीयेंतेताणीहे
 स० मु० कुंजरकानग्रह्योकिमआवे रहीयेंइममनजा
 णीहे स० ४ मु० प्रेमप्रतीतअछेजोसाची तोवाजीन
 हिंकाचीहे कांतिचरीतमुजजलधरसरीखा करतप
 लकमांअजाचीहे स० ५ मु० ॥ इति ॥

अथश्रीनमिजिनस्तवन ॥ देशीघडूलानी ॥ विषमवि
 षयनीवासनाहेसांमि लागेअमृतसीमोहीहे शीवगांमि
 सामीभवोदधीहां साहिवभवोदधीकेमतरस्यांहोरा
 ज परिणतिविरुद्धमोहनिहेसामी मोनेरुचेछेतोहिहे
 शी० १ भ० क्रोधउपाधेहुरंहुंहेसांमि मानअनलस्युंप्रीतीहे
 शी० भ० मायादासीवालहीहेसांमी लोभनिलार्गीरीतिहे
 शी० २ भ० जनमजरानिपिडनाहेसांमी तेहथीनबिहुकां
 इहे शी० भ० समकीतसरिखीसुखडीहेसांमी तेपिणनावे
 दायहे शी० भ० ३ परमसुधानिनालीकहेसांमी आग
 मतेनसूहायहे शी० भ० विकल्पभावनीकल्पनाहेसां
 मी तोपणदूरेनजायहे शी० भ० ४ ढंगएसाएमाहराहे
 सामी आवेकहेतांलाजहे शी० भ० नामधरावुंताहरुंहे

कांतिविजयजीकृतः (११७)

सांमी आएतलूछेमुजसाजहे शी०भ० ५शेवकजाणीआ
 पणोहेसांमी तारिशतूहिजएकहे शी०भ० अवगुणनजु
 एआदथीहेसांमी मोटानीमोटीटेकहे शी०भ० ६प्रेमप्र
 माणेपालज्योहेसांमी जाणिनेखासादासहे शी०भ०
 कांतिकहेनमिनाथजीहेसांमी होज्योतूमपदवासहे शी०
 भ० ७ इति ॥ अथश्रीनेमिजिनस्तवनः ॥ साहो
 बारमाहराराजिंदकवधरिआवैरे एदेशी ॥ कालीनेपि
 लीवादलीराजीद वरशेमंहीलाशरलाग राजूलभेजेनेह
 लेराजिंद पिउभेजेवेरागबापीडारे मारोप्रीतमचित्तचढी
 आवैरे मोडेसूबोळि वा० १ जलधरपीउनेसंगमेराजिंद
 विजझकोलाखाय इणरतमारोसांहिवोराजिंद मुज
 नेछोडीजाय वा० २ मोहलचूवेनदियांवहे रा० मोर
 करेकललाट भरपाउसमांपदमनि रा० जोवेरपिउनी
 वाट वा० ३ अवगुणविणनाहेकरचो रा० अवलामा
 थेरोस तोरणथीपाछाविल्या रा० पशुआंचढावीदोस
 वा० ४ मुलथकीजोजाणती रा० पिउलूखोमनमांहि ला
 जतजिनेराखती रा० प्रीतमनोकरसांहि वा० ५ नाह
 सलूणोभोलव्यो रा० मुगतिधूतारीनार फीरीपाछो
 जोवेनहि रा० मुकीमुझनेवीशार वा० ६ राजूलराति
 प्रेमस्यू रा० पोहतीगढगीरनार संयमलेइमुगतेगइ

(११८) कांतिविजयजीकृत.

रा० कांतिनमेवारंवार वा० ७ ॥ इति ॥

अथ श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवन ॥ कांडपाज्यो२रे गुसाइ
मानेतूबीनो रामरसपाज्यो एदेशी ॥ कांडजोज्योकां
इजोज्योरे सामिडामुनेनेहभरजोज्यो आंकणी मुज
रोल्योकेपाशजिणंदा टालीजेभवफेरोरे सा. १ मोहन
मोहरसेललचाणो ज्युंमृगरागस्युंधेरचोरे सा. २ सा
चीसेवारेवारंगी आयोज्युंगजनेडोरे सा. ३ मेंमनदि
धोहाथतिहारे पेनाहिदिलप्रभुकेरोरे सा० ४ जीवन
सूरतीदेखीरसीली मनहरपीतहोइमेरोरे सा० ५ आ
ठेकरमकीगांठछिनुंकमें चुंपेचतूरउद्धेरोरे सा० ६ प्रेम
विवूधनोकांतिकहेहुं भवरशेवकतेरोरे सा० ७ इति ॥

अथश्रीमहाविरजिनस्तवन ॥ ढाल सालुडानि एदे
शी ॥ वीरजीउभोमदमोडि बेकरजोडिअरजकरुरेलो
म्हारावीरपीआरारेलो वीरजीराजेसरराणा. आणाता
हरीसीरधरुरेलो मा० १ वीरजीमीठलडेवयणे नयणे
इणराचीरहुरेलो मा० वीरजीवातोमनरुषनी सुखनी
तूजआगेकहुरेलो मा० २ वी० पीत्रपरलोकेगया ती
णसोकेदीहागमुरेलो मा० चिंतातुरनीतमोचितमां जि
मसूनोभमुरेलो मा० ३ वी० तुजवीरहेमोटिकां वली
छेहदेइरेलो मा० संजमजोलेस्योदेस्यो गुंबडखारतेइरे

लो मा० ४ वी० भोजननवीभावेथावे अतिआसंगलो
 रेलो मा० नीदरडीनविध्यावे मनउधाधलैरेलो मा०
 ५ वी० छातीमांघातीकाती जेणेसारनीरेलो मा० फी
 डावीणवागेलागे मोटीमारनीरेलो मा० ६ वी० वेद
 ननवीजाणे टाणेआणेकठीनहियारेलो मा० थायोक
 रुणालावाला व्रतनामूकीदियारेलो मा० ७ वी० वी
 नव्याइमआईभाई भाइनंदीवरधनेरेलो मा० भीतान
 हिमनसुधनसु पोखेजगतनेरेलो मा० ८ वी० चारित्र
 लेस्युमेंपांसी अवसरआपणारेलो मा० केवललहीसी
 धोलीधो सास्वतसुखधणारेलो मा० ९ वी० प्रेमजेध्या
 वेगावे जिनगुणआदररेलो मा० कांतिविजयजय
 बाला मालानेवररेलो मा० १० वी० इति ॥ इति
 कांतिवीजयजीकृत चोवीसी समाप्त ॥

अथ श्रीरामविजयजीकृतचोवीशी

अथ श्रीरूपभजिनस्तवन ॥ योगमायागरवेरमेरेजो
 एदेशी ॥ ओलगडीआदिनाथनिजो कांडकीजीपिमन
 नेकोडजो होडकरेकुणनाथनीजो जेहनापायनमेशुर
 कोडजो आ० १ वाहलोमरुदेवीनोलाडलोजो राणी
 सुनंदाहइडानोहारजो व्रणभुवननोनाहलोजो साहरा

(१२०) रामविजयजीकृत.

प्राणतणोत्राधारजो ओ० २ वाहलेवीसपुरवलखभो
गव्युंजो रुडुंकुमरपणुंरंगरोलजो मनडुंमोदुंगेजिनरु
पसुंजो जाणेजगमांमोहनवेलजो ओ० ३ पांचसेध
नुषनीदेहडीजो लाखपुरवत्रेसठराजजो लाखपुरवस
मतावरचाजो थयाशिवसुंदरिवरराजजो ओ० ४ ए
हनानामथीनवनिद्वसंपजेजो वलिअलियवीघनसवि
जायजो श्रीशुमतिविजयकविरायनोजो इंमरामविज
यगुणगायजो ओ० ५ इति ॥ अथ श्री
अजितजिनस्तवन ॥ हवेनजाउमहिवेचवारेलो ए
देशी अजितजिनेसरसाहिवारेलो वीनतडीअव
धार मारावालाजीरे हवेनछोडुंतोरिचाकरीरेलो तूमन
रंजनमाहरोरेलो दिलडानोजाणणहार मा० १ लाख
चोरासीहुंभम्योरेलो कालअनंतोअनंत मा० अोलग
लिधिमेंताहरीरेलो भागीछिभवतणीभ्रांत मा० २ क
रिसुनजरहवेसाहिवारेलो दासधरोदिलमांह मा०
लाखगुणनहिपणताहरोरेलो सेवकहुंमाहाराय मा० ३
अवगुणगणतांमाहरारेलो नहिआवेप्रभुपार मा० ५
णजिनप्रवहणनीपरैरेलो तुमेछोतारणहार मा० ४ न
यरिअज्योध्यानोधणिरेलो विजयाउयेसरहंस मा०
अजितशत्रुरायनोनंदलोरेलो धनइक्षांगनोवंश मा० ५

धनुसयसाढाच्यारतीरेलो देहडिरंगसनुर मा० बहो
 तरपुरवलाखनुरेलो आयअधीकसुखपुर मा० ६ पांच
 मेअरेतुमल्योरिलो प्रगट्याछेपुन्यनिद्वान मा० सुमति
 मुरुपदसेवतारेलो रामअधिकतनुवान मा० ७ इति ॥
 अध श्रीसंभवजिनस्तवन ॥ तुनेगोकुलबोलावेकानगो
 बंदगोरिरे एदेशी ॥ मुनेसंभवजिनस्युंप्रीत अविहड
 लागीरे कांडदेखतप्रभुमुखचंद भावठभांगीरे १ जिन
 सेनानंदनदेव दिलडेवसयिरे प्रभुचरणनमेकरजोड
 अनुभवरसीयोरे २ तोरीधनुसयच्यारप्रमाण उंची
 कायारे मनमोहनकंचनवान लागीतोरीमायारे ३ प्रभु
 रायजितारीनंद नयणेदीठारे सावथ्यापुरसणगार ला
 गेमुनेमीठारे ४ प्रभुब्रह्मचारिभगवान नामसुणावेरे
 पणमुगतिवधुवसीमंत्र पाठभणवेरे ५ मुजरढलागीम
 नमाहे तुजगुणकेरीरे नहितुजमुरतनेतोल सुरतभले
 रीरे ६ जिनमेहेरकराभगवान वानवधारारे श्रीसुमति
 विजयगुरुसीस दिलमाधारारे ७ इति ॥ अ
 थ श्रीअभिनंदनजिनस्तवन ॥ घमघमघमकेघुघरारे
 घुघरेहीरनीद्वारके घम० एदेशी ॥ श्रीअभिनंदनस्वा
 मीनेरे सेवेसरकुमरीनीकोडके प्रभुनीचाकरीरे मुखम
 टकेमाहिरहारे उभीआगलवेकरजोडके प्र० १ स्वर

(१२२)

रामविजयजीकृत.

झिणेआलापतिरे गातीजिनगुणगितरसालके प्र० ता
लमृदंगवजावतिरे देतीजमरीभमरीबालके प्र० २ घ
म२घमकेघुघरिरे खलकेकटिमेखलसारके प्र० ना
टिकनवनवानाचतीरे बोलेप्रभुगुणगीतरसालके प्र०
३सुतसीद्वारथमातनारे संवरभुतिकुलसिणगार प्र० ध
नुसेसाढात्रणनारे प्रभुजीनेदीपेदेहअपार प्र० ४ पु
रवलाखपचासनुरै पालीआयुलद्वंसुभठाम प्र० नय
रीअजोध्यानोराजीयोरै दरसणनाणरयणगुणखाण
प्र० ५ सेवोसमरथसाहिबोरै साचोसीवनयरीनोसा
थ प्र० मुजहयडामांहिवस्यारे वालोतीनभुवननोनाथ
प्र० ६ इणीपिरेजिनगुणगावतारै लहोएअनुभवसुखर
साल प्र० रामबीजेप्रभुसेवतारै करतांनीतनीतमंगल
माल प्र० ७ इति ॥ अथश्रीसुमतिनाथस्तवन
गरबोकेणेनेकेाराव्योकेनंदनजीनालाल एदेशी ॥ पंच
मासुमतिजिणेसरस्वामीके सुणिजिनरायरे तुमथी
नवनीद्वरीद्वमेपामीके सीवसुखदायरे तुंतोपावनधरम
नगीनोके सुरगुणगायरे अहनीससमतारसमांभीनो
के सुरगुणगायरे १ मंगलामावडीएप्रभुजायाके सु०
उपनदिगकुमरीहुलरायाके सु० तुतामेघनृपतिकुलही
रोके हरीनीतपायरे २त्रणसेधनुषनीउंचीकायाके सु०

चालसिलाखपुरवनुंआयु नागरायरे तारीसेवकरे सु
 रस्वामीके सु० तुंतोसुरसुंदरीसुखकामीके नीर्मलकाय
 रे ३ तुतोभगतवछलभयटालेके सु० तुतोत्रीभुवनअ
 जुपालेके जिमदिनरायरे तुतोमुनीजिनमांनीसदीवाके
 सु० अविचलद्रुमंडलचिरंजीवाके जिमगरीरायरे ४
 प्रभुजीनीवाणीअमीरसमीठीके सुर० जिनजीनीमोहन
 मुरतीदीठीके अतिसुखथाइरे श्रीगुरुसुमतिविजेकविरा
 याके सु० सेवकरामवीजेगुणगायाके जयोजिनरायरे ५ इ
 ति॥ अथश्रीपद्मप्रभुजिनस्तवन॥ कमलरसझुमडुं एदेशी
 श्रीपदमप्रभुसेवीधरे सीवसुंदरीभरतार कमलदलआं
 खडीयां मोहनसुंमनमोहीरहंरे रुपतणोनहिपार भमु
 हधनुंवांकडीयां १ असणकमलसमदेहडीरे जगजीव
 नजिनराज वयणरससेलडीयां त्रीसपूरवलखआउखुं
 रे सारोवंचीतकाज मोहनसुंवेलडीयां २ सहिरोसविटो
 लेमलीरे सोलसजीसिणगार मलीसखीसेरडीयां गुण
 गातीधुमरीदीयेरे करेचुडीखलकार कमलमुखगोरडी
 यां ३ मातासुसीमाउरेधरचारे मुजदलडामादेव व
 स्योदीनरातडीयां कोसंबीनयरीतणारे नाथनमोनीतमे
 व सुणोसखीवातडीयां ४ घनुषअडीसेंसोभतीरे उंचप
 णेजगदीस नमोसाहेलडीयां रामविजेप्रभुसेवतारे ल

हीयेसयलजगीस वधेसुखवेलडीयां ५ इति ॥

अथ श्रीसुपासजिनस्तवन ॥ नातारेतुमेचात्यागढआ
गरेरेलो एदेशी ॥ सेवजोरेसामीसुपासजिणेसरुरेलाल
पूजीयेधरीमनरंगरेलाल मोरेमनमान्योसाहिबोरेलाल
प्रेमथीरेप्रीतवनीजिनराजसुरेलाल जेहवोचोलनोरंग
रेलाल मोरेमनमान्योसाहिबोरेलाल १ धरजोरेधनप्र
थवीराणीसतीरेलाल जायोजेणेरत्नरेलाल मोरे० दीपति
रेदीसकुमरीआवेतीहारेलाल करतिकोडजतन्नरेलाल
मो० २ जोरथीरेजिनमुखनरखीनाचतीरेलाल हरखती
दीएआसीसरेलाल मो० चाहतीरेचीरंजीवोतुंबालुडारे
लाल त्रणभुवननाईसरेलाल मो० फावतिरेफरतिफुंदडी
दीयेरेलाल मदभरमातीजेहरेलाल मो० नाथनेरेनेहन
यणेभरजोवतीरेलाल गुणगातिसंसनेहरेलाल मो० ४
आदरेरेइमहुलरावतिबालनेरेलाल पोतीतेनीजनीजघे
रेरेलाल मो० प्रेमसुरेप्रभुवोधेमोहतारेलाल दोष
सेधनुषनीदेहरेलाल मो० ५ रागथीरिराजकुमारिर
लीयामणीरेलाल परण्याप्रभुसुवीलासरेलाल मो०
मानयोरेमोहतणेवसमांहिरेलाल नाथरहेएघरवासरे
लाल मो० ६ भावथीरेभोगतज्यादक्षावररेला

ल वीसपूरवलखआपरेलाल मो० जागतोरेजोती

स्वरूपीजगदीश्वरुरेलाल । रामविजयगुणगायरेलाल
 मो० ७ ॥ इति ॥ अथ श्रीचंद्रप्रभुजिनस्त
 वन ॥ रायजीअमेनहिदुवाणाके राजगरासीयारेलो ॥
 एदेशी ॥ जिनजीचंद्रप्रभुअवधारोके नाथनीहालजोरे
 लो बमणीबीरुदगरीवनवाजके वाचापालजोरेलो हरखे
 हुंतुमशरणेआव्योके मुजनेराखजोरेलो चोरटाच्यार
 चूगलजेभुंडाके तेहदुरेनाखजोरेलो १ प्रभुजीपांचत
 णीपरसंसाके रुडीथापजोरेलो मोहनमेरकरीनेदरसण
 मुजनेआपजोरेलो तारकतुमपालवमैझाल्योके हवेमुने
 तारजोरेलो कुतरीकुमातिथइछेकेडेके तेहनेवारजोरेलो
 २ सुंदरीसुमतिसोहागणसारीके पीयारीछेघणरिलो
 तातजीतेविणुजीवेचौद भुवनकरुआंगणुरेलो लखगु
 णलखमणारानीजायोके मुजमनआवजोरेलोल अनू
 भवअतोपमअमृतमठीके सुखडीलावज्योरेलो ३ दी
 पतीदोडसोधनुषप्रमाणके प्रभुजीनीदेहडीरेलो देव
 नीदसपूरवलखमानेके आउखुवेलडीरेलो नीरगुण
 नीरागीपणहुंरागीके मनमहिरहारेलो सुभगुरुसुमति
 बीजेसुपसायके रामेसुखलह्योरेलो ४ ॥ इति ॥

अथ श्रीसुविधिजिनस्तवन ॥ सोवनलोटाजलेभरचा

रुडलीदोरी सआसआदातणदेसरे लेयो रामलोनेदो

(१२६)

रामविजयजीकृतः

री एदेशी ॥ सुबधिजिणेसरजागतो मोहनस्वामी रा
एसुग्रहीनोनंदनरे वंदोलालअंतरयामी १ भरीयक
चोलीकुंकमे मांहेमृगमदघोली पूजाप्रभूनवअंगरे रं
गेलालसहीयरटोली २ केसरनीआंगीरची मांहेहीरा
दीपे जोरबन्योजिनराजरे तेजेलालसूरजजिपे ३ मुग
टधरचोसीरसोभतो मणीरयणविराजे झलकेकुंडलजो
डरे हड्डेहारनिर्मलछाजे ४ करीपूजामनभावसुं प्रभु
हड्डेधरती धरतीउठवतीपायरे जोयेलालजिनमुखफर
ती ५ काकंदीनयरीधणी सतधनुषनीकाया लाखपूर
वनोआयरे नवमोलालएजिनराया ६ श्रीसुमतिवि
जेप्रभुनामथी नीतमंगलमाला रामविजेजयकाररे ज
पतांलालजिनगुणमाला ७ इति ॥ अथ श्रीसी
तलनाथजिनस्तवन ॥ पाटणनीपटोलीराजंदलावजो
रेलो एदेशी ॥ श्रीभदलपूरवासीरेसाहिबमाहरारे श्र
वणेनेसुणीयारेगुणबहुताहरारे सुणोमोरामीठडासीभ
गवंत केवलकमलानाहोकंत सेवकनीजचरणेरेराजंदरा
खजोरे १ सातेनेवलीराजरेराजंदअलगावसोरे ती
हांकणनेआवणनेरेमनडुउलसेरे सुणमोरासाहिबलाल
गुलाल सेवकनेनयणेनीहाल नयणनीलिलारेतारीतार
सेरे २ श्रीसीतलजिनमुझमनमांदिरआवजोरे सीवरम

णीरसीयादलमांलावजोरे प्रभुजीमोरातारुअकलस्वरु
 प तुजथीअगमनहीमनरुप जीवडोललचाणोप्रभुजी
 नीसुरतेरे ३ नेवुंधनूपप्रमाणेरेनंदामातनोरे श्रीवछ
 लंछनरेदृढरथतातनोरे प्रभुमाराअवधारोगुणगेह जि
 नजीतुझशुंमुजमननेह नेहलडानीवातुरेराजंददोहली
 रे ४ वीनतडीसांभलीनेरेसामुभालजोरे भवभवनापा
 तकरेअलगाटालजोरे प्रभुमोरातुमेछोगरीबनीवाज
 श्रीगुरुसुमतीवीजेकवीराज बालकसेवकनेलेखेआण
 जोरे इति ॥ अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ वी
 जलवालावाहुंगइकांडभीसेरीवीच वीजलवालमा ए
 देशी ॥ तारकवीरुदसुणीकरी हुंआवीउभोदरवार श्री
 श्रेयांससाहिबा प्रभुतणोताणनकीजिए मुझउतारोपार
 श्री० १ कालादिकदुषणदाखता दातारपणुंकीमिथाय
 श्री० जोविणअवलंबनतारीए तोजगसघलोजसगाय
 श्री० २ बालकनेसमजाववा कहेसोभोलामणीवात
 श्री० पणहठकिधोमुंकीसनही वीणतारेत्रोभूवनतात
 श्री० ३ जोमनतारणणुअछे तोढीलितणुंसुकाम श्री०
 चातुकनीरमुखदूखणे थईमेघघटाजगस्याम श्री० ४
 तुझदरसणथीताहरो हुंकहेवाणोजगमांहे श्री० हवेमु
 झकुणलोपीसके वलीयानीझालीवांहे श्री० ५ वीशुनुकु

(१२८)

रामविजयजीकृत.

मरवालेसरु प्रभुसिंहपूरीनोराय श्री० लाखचोरासी
वरसनुं प्रभुपाल्युंपूरणआय श्री० ६ धनुषएसी
तनुसोभतुं खडगीलंछनजगदीस श्री० हरषधरीनेवी
नवुं श्रीसुमतिविजेकविसीस श्री० ७ इति ॥

अथ श्रीवासुपूज्यजिन स्तवन ॥ नंदगोवालीयानी
देशी ॥ श्रीवसुपूजनरिंदना नंदनजिननयणानंद श्री
जिनवालहा प्रभुकिमत्रावुंतुमउलगे मारेकुडोकुटंब
नाफंद श्रीजिनसांभलो १ कुमतीरमणीमोहनंदनी
मुझकेडनमुकेतेह श्री० मीत्रमल्योतेलोभीयो लागो
तेहसुंबहुनेह श्री० २ त्रेवीसमल्याधूतारडा तेहनाव
लीनवनवारंग अहनिशतेनेहुंभोलव्यो नधरद्योप्रभु
साथेरंग श्री० ३ प्रभुदरशणतरसेवणु जिनमुजमनडु
दीनरात श्री० पणपंन्नरआडारहे जेनीचघणुंकमजा
त श्री० ४ कुडोकलीयुगआजनो बहुभाडरीयोपर
वाह श्री० ताहररुपनओलखे नहिसुधधर्मनीचाह
श्री० ५ प्रभुदरिसणविणजीवडा करतादीसेविवहार
श्री० तेणेभ्रमेभुलाघणा प्रभुदोहलोलोकाचार श्री०
६ वरससीतेरलखआउखुं तोरीसीतेरधनुपतनुसार
श्री० रामविजेकरजोडीनें कहेउतारोभवपार श्री० ७

इति ॥

अथ श्रीविमलजिनस्तवन ॥ कुलावा

लीआवालीयासुकरो एदेशी ॥ जिनविमलवदनरली
 यामणु जाणेकनककमलनारायरे विमलजिणंदर्जी जि
 नअधरअमीरसभुमीनो प्रतिविंवीतविंवसुहायरे वि०
 १ जिनअनुरूपनीरेखमां नवीआवेसुरनाइंदरे वि०
 जिनमुखटीकोनीकोवन्यो मानुउग्योउजलचंदरे वि०
 २ जिमदाडमकलिओपति अतिदिपेदांतनीओलरे वि.
 एअरुणअधरछविथीमल्या मानुमुगताफलसमतोलरे
 वि० ३ जिनअकलअरुपीरुपछे पणसकलसरुपीजाण
 रे वि० जिनअगणीतगुणनादोरथी मनमांकडुंवांध्यु
 ताणरे वि० ४ जिनसीवसुखदायकसांभली हुंहर
 रूयोहइडामांहिरे वि० जिनएकतारीतुझसुंकरी जिम
 चंदचकोरिथायरे वि० ५ प्रभुएवडीविमासणसुंकरो
 नहिखोटखजानेतुझरे वि० जोनांपोतोसाहमुंजुओतो
 वंछीतफलसेमुझरे वि० ६ सुतकृतब्रमास्यामातणो
 साठलाखधनुसतनुआयरे वि० श्रीसुमतीविजेकविरा
 जनो येमरामविजेगुणगायरे वि० ७ इति ॥

अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ सावरमतिआवीछेपूरजो
 एदेशी ॥ सुजसानंदनजगआनंदनदेवजो नेहेरेनवरं
 गेनीतनितभेटीयैरे भेटथाथीसुंथायैमोरीसैओरे भव

भवनापातिकडांअलगामेटीयैरे १ सुंदरसारीपेरीचर

(१३०) रामविजयजीकृत.

णाचीररे आवोरेचोवटडेजिनगुणगाइयेरे जिनगुणगा
येसुंथायेमोरीबेनरिरे परभवरसुरपदवीसुंदरपामीयेरे २
सहियरटोलीभोलीपरिघलभावेरे गावेरेगुणवंतीहइडे
गहगहीरे जयजगनायकसीवसुखदायकदेवरे लायक
रेतुझसारिखोजगमांकोनहीरे ३ परमनीरंजननीजितभ
गवंतरे पावनरेपरमातमश्रवणेसांभलोरे पामीहवेमेंतुझ
सासनपरतीतरे ध्यानेरेएकतानेप्रभुआविमल्योरे ४
उंचपणेपंचासधनुषनोमानरे पाल्युरेवलिआउखूलाख
तीसनुरे श्रीगुरुसुमतीविजयकविरायपसायरे अहनी
सरेदलध्यानवसेजगदीसनुरे ५ इति ॥

अथश्रीधर्मजिनस्तवन ॥ बाइरेगरवडो एदेशी ॥ ध
रमजिणेसरसेवीयेरे भानुनरेसरनंद बाइरेजिनवडो जि
नध्यानेदूखवीसरुरे हुंपामीपरमाणंद बा. १ रतनजडीत
सिंघासनरे बेसेश्रीभगवान बा० मोहोआगलनाचेसु
रीरे इद्रंकरेगुणगान बा० २ प्रभुवरसेतीहांदेसनरे
जिमअसाढोमेह बा० तापटलेतननोपररे वाधेबम
णोनेह बा० ३ अणवायागअणेपुरेरे वाजीत्रकोडाको
ड बा० ताथेइनाचेकिंनरीरे हीडेमोडामोड बा० ४
आयुदसलाखवरसनुरे धनुषपिसतालीसमान बा० रा

मविजेप्रभुनामथीरे लहीयेनवनीधान बा० ५ इति ॥

रामविजयजीकृत. (१३१)

अथश्रीशांतिजिनस्तवन ॥ अंवावीराजेछे एदेशी ॥ सुं
 दरशांतिजिणंदनी छवीराजेछे प्रभुगंगाजलगंभीर की
 रतगाजेछे १ गजपुरनयरसोहांमणुं घणुंदीपेछे वी
 श्वसेननरिंदनोद कंद्रपजीपेछे २ अचिरामातायेंउरे
 धर्यो मनरंजेछे मृगलंछनकंचनवान भावठभंजेछे ३
 प्रभुलाखवरसचोथेभागे वृतलीधुंछे प्रभुपाम्याकेवल
 ज्ञान कारजसिधुछे ४ धनुपचालीसनीइसनी तनुसो
 हेछे प्रभुदेसनाधुनीवरसंत भवीपडीवोहेछे ५ भगत
 वछलप्रभुताभणी जनतारेछे बूडंताभवजलमांहिं पा
 रउतारेछे ६ श्रीसुमतिविजेगुरुनामथी दुखनासेछे क
 हेरामविजेजिनध्यान नवनीधीपासेछे ७ इति ॥

अथ श्रीकुंयूजिनस्तवन ॥ रसीयानीदेशी ॥ र
 सीयाकुंयूजिणसरकेसर भीनीदेहडीरेलो मारानाथजी
 रेलो रसीयामनवंछीतवरपुरण सुरतरुवेलडीरेलो मा.
 १ रसीयाअंजनरहीतनीरंजन नामहीयेंधरेरेलो मा०
 रसीयाजुगतकरीमनभगते प्रभुपूजाकरेरेलो मा० २
 रसीयाश्रीनंदनआनंदनचंदनथीसिरेरेलो मा. रसीया
 तापनीवारणतारण तरणतरीपरेरेलो मा० ३ रसीया
 मनमोहनजगसोहन कोहनहीकिस्येरेलो मा० रसी
 पाकुडाकलीयुगमांही अवरनकोइस्येरेलो मा० ४

रसीयागुणसंभारीजाउं बलिहारीनाथनेरेलो मा० र
 सीयाकोणप्रमादेछांडे सीवपुरसाथनेरेलो मा० ५ र
 सीयाकाचतणेकोणकारण नांखेसुरमणीरेलो रसीया
 कोणचाखेवीखफलने मेवाअवगणीरेलो मा० ६ रसी
 यासुरनरपतिसुतठावो चावोचउदिसेरेलो मा० रसी
 यावरससहसपंचाणुं जिनप्रथवीवसेरेलो मा० रसीया
 त्रीसधनुषपणउपर उंचपणेप्रभुरेलो मा० रसीयात्रण
 भुवननानाथके थइवेठोवीभुरेलो मा० ८ रसीयाअज
 लंछनगतलंछन कंचनवानछेरेलो मा० रसीयारीद्विपुरे
 दुखचुरे जेहनेध्यानछेरेलो मा० ९ रसीयाबुद्धश्रीसुम
 तिविजयकवी सेवकविनवेरेलो मा० रसीयारामकहे
 जिनसासन नवीमुकुहवेरेलो मा० १० इति ॥

अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ गायजोरेगुणनिरास एदे
 शी ॥ गायजोरेधरीउल्लास अरजिनवरजगदीसरुरे
 मानजोरेएहमहंत महियलमांहिंवालेसरुरे १ धाइयो
 रेदढकरीचीत मनवंचीतफलपुरसेरे वारजोरेअवरनीसे
 व एहीजसंकटचुरसेरे २ सिंचजोरेसुमतनीवेल जिनगुण
 ध्याननीरे घणुंसंपजेरेसमाकितफुल केवलफलरलीया
 मणुरे ३ पुन्यथीरेदेवीनंद नयणेनरखोनेहथीरे उप

नोरेअतिआणंद दूखअलगांथयांजेहथीरे ४ सोभती

रेत्रीसधनुपनीकाय रायसुदरीसनवंसनोरे आउखुरे
 जिनजीनुंसार सहसचोरासीवरसनुरे ५ जिनराजनेरे
 करुप्रणाम काजसरेसवीआपणुरे भावथीरेभगतिप्रमा
 ण दरिसणफलपामेघणुरे ६. सेवजोरेअरपदअरवी
 द जोसीवसुखनीकामनारे राखजोरेप्रभुरदयमोझा
 र रामवधेजगनामनारे ७ ॥ इति ॥

अथश्रीमल्लीनाथस्तवन ॥ मेघअंधारीरेरातडीनेमी
 ठढावेअसवार एदेशी ॥ मिथुलानयरीरेअवतरीया
 नेकुंभनरेसरनंद लंछनसोहेरेकलसतणुने नीलवरण
 सुखकंद १. मल्लीजिनेसररेमनवस्योने ओगणीसमो
 अरीहंत कपटधरमनारेकारणथी प्रभुकुमरीरुपधरंतर
 सहसपंचावनरेवरससुणोने आउतणोपरीमाण मात
 प्रभावतीरेउदरेधरचा पणवीसधनुपतनुमान ३ सह
 सपंचावनरेसाधवीओने मुनीचालीसहजार सभेतसी
 खरेरेमुगतगयाने त्रिणभुवनआधार ४ अडभघटा
 लीरेआपयकीने जिणेवांधीअविहडप्रीत रामविजय
 नारेसाहिवनी छेअविचलएहीजरीत ५ इति ॥

अथश्रीमुनीसुव्रतजिनस्तवन ॥ हरनीहमचीरे एदे
 शी ॥ आवाओनेसखीदेहेरेजइयें प्रभुदरीसणकरीने
 नरिमलयइयें गावोगावोरेहरपअपार जिनगुणगर

(१३४)

रामविजयजीकृत.

बारे तुमपेरोसोलसिणगार जि० मारेलाखेणीएवा
र जि० दोहलोमानवअवतार जि० १ पदमादेवीनो
नंदननीकोछे प्रभुरायसुमीत्रकुलटीकोछे नमोनमारेए
हजनाथ जि० फोगटशीकरवीवात जि० कुडीलागे
छेतेहनीलात जि० २ कछपलंछनप्रभुपायछे जिनवी
सधनुषनीकायछे त्रीससहस्सवरसनुंआय जि० मारे
हइडेहरखनमाय जि० एहनीसेवार्थीसुखथाय जि०
मारेदूखडांदुरेजाय जि० ३ प्रभुस्यामवरणवीराजेछे
मुखडुदेखीवीधुलाजेछे एहनेमोहीहरिनीनार जि० ते
करेलुछणडासार जि० प्रभुनयणतणेमटकार जि० तेह
थीलागोप्रेमअपार जि० ४ प्रभुहृदयकमलनोवासी
छे सीवरमणीजेहनिदासीछे हुंतेहतणिछुंदास जि० मा
रेपुरेमनडानीआस जि० प्रभुअवीचललीलवीलास
जि० रामविजयकहेउलास जि० ५ इति ॥ अथ
श्रीनमिजिनस्तवन ॥ दोसीडानेहाटेजाजोलाल ला
लकसंबोभिंजेछे एदेशी ॥ वीजयनरेसरनंदनलाल वी
प्रासुतमनमोहेछे नीलोपललंछनपाएलाल सोवनवान
तनुसोहेछे १ मीथुलानयरीनोवासीलाल सीवपुरनो
मेवासिछे मुनीवीससहस्सजसपासेलाल तेजकलासु
वीलासीछे २ प्रभुपतरधनुषपरीमाणेलाल जगमांकी

रतवापीछे प्रभुजीवदयानेंयाणेंलाल सुमतिलताजिने
 थापीछे ३ नमीनाथनमोगुणखाणीलाल अपसेवलीअ
 वीनासीछे तेणेवातसकलएजाणीलाल जेहनेआ
 सादाशीछे ४ श्रीसुमतिविजेगुरुनामेलाल अवीच
 ललीलालाधिछे कहेरामवीजयजिनध्यानेलाल की
 रतकमलावाधिछे ५ ॥ इति ॥ अथ
 श्रीनेमनाथस्तवन ॥ तुमेतमाराछुरडानागुणमानो
 केना एदेशी ॥ राजुलकहेपीउनेमजी गुणमानोछोके
 ना कीमछोडीचाल्यानरिधार हेगुणजाणोछोकेना पु
 रषअनंतेभोगवी गु० पीउस्युंमोह्यातेणनार हेगु० १
 कोडीगमेजेहनेचाहे गु० स्योतेनारीथीरंग हे० पणजग
 उखांणोकहो गु० होवेसरीसासरसोसंग हे० २ हुंगु
 णवंतीगोरडी गु० तेनीगुणनहेजीनार हे० हुंसेवक
 छुरावली गु० तेसामुनजोवेलगार हे० ३ जगमांतेगु
 णआगली गु० जेणेवसकीधोभरतार हे० मनवैरागे
 वालीयो गु० लीएराजुलसंयमभार हे० ४ वेहेनीनेम
 लवाभणी गु० पीउपेहलीतेजाय हे० संघलहतिना
 रीनो गु० रहिअनुभवसुलयलाय हे० ५ समुद्रविजे
 कुलचंदलो गु० सीवादेवीमातमल्लार हे० वरससहस

६ एकआवखू गु० सोरीपुरसिणगार हे० ६ देहधनुषद

सदिपती गु. प्रभुब्रह्मचारीभगवान हे. राजुलवरम
नेवालहो गु. रामवीजयजयवंत हे. ७ इति ॥

अथश्रीप्रार्श्वजिनस्तवन ॥ पाटणनागीतनीदेशीछे ॥

सेवोभवीजनजिनत्रेवीशमो लंछननागविख्यात जल
धरसुंदरप्रभुजिनीदेहडी वांमाराणीनोजात से० १ चउ

दीसेघोरघटाघनशुंमल्यो कमठेरच्योजलधार मुसल
धारेजलवरसेघणुं जलथलनलहुंजीपार से० २ वडहेठ

लवालोकाउसगरद्यो मेरुतणीपेरेधीर ध्यानतणीधा
रावाधेतीहां चडीयाउंचाजीनीर से० ३ अचलनचली

योप्रभुजीमाहरो पास्योकेवलनाण समोवसरणसुरको
डमल्यातीहां वाज्यांजितनीसान से० ४ नवकरउंच

पणेप्रभुसोभता अश्वसेनरायनोनंद प्रगटपरतापु
रणपासजी दीठेहोवेआणंद से० ५ एकशतवरस

नुंआउखूभोगवी पास्याअवीचलरीद्ध बूधश्रीसुमति
विजेगुरुनामथी रामलहेवरसीद्ध से० ६ इति ॥

अथश्रीमाहावीरजिनस्तवन ॥ गरवीपुछेरेमारागरव
डारे एदेशी ॥ चरणनमीजिनराजनारे मागुएकपसा

य मारालाखेणास्वामीरेतुनेविनवुरे मेहेरकरोमारानाथ
जीरे दासधरोदीलमांहे मा० १ पतीतघणातेउधरचा

रे वीरुद्रगरीवनीवाज मा० एकमुझनेवीसारतारे सें

तावेप्रभुलाज मा० २ उतमजिनघनसारीखोरे नवीजो
 वेठामकुठाम मा० प्रभुसुनजरकरुणाथकीरे लहीयेंअ
 वीचलधाम मा० ३ सुतसीधारथरायनोरे त्रीसलानंद
 नवीर मा० वरसबहुतेरआउखूरे कंचनवानशरीर मा०
 ४ मुखदेखिप्रभुताहरुरे पांम्योपरमाणंद मा० रद
 यकमलनोहंसलोरे मुनीजनकैरवचंद मा० ५ तुसमरथ
 सीरनाहलोरे तावाधेजसपूर मा० जीतनीसाणनानाद
 धोर नाठादुशमनदूर मा० ६ श्रीसुमतिसुगुरुपद
 सेवनारे कल्पतरुनीछांह मा० रामप्रभुजिनवीरजी
 रे छेअवलंबनवांह मा० ७ ॥ इति ॥

अथ कलस ॥ इमभुवनभासन दुरितकासन विमल
 सासनजयवरो भवीभीतचुरण आसपूरण सुगतिका
 रणसंकरो १ मैथुणियाभगते वीविधजुगते नगरमही
 राणेरही श्रीसुमतिवीजयगुरु चरणसानिध रामवीज
 यजयसीरिलहि २ इति श्रीरामवीजयकृतचोवीशी
 संपूर्ण ॥

अथ श्रीन्यायसागरजी कृत चोवीसी १

अथ श्रीआदिनायजिनस्तवन ॥ प्रभुताहरिसुरतिमेंध

रिध्यानमां धा ३ आंकणी वृपभलंछतजिनवनीतावा

सी पणशतधनुतनुमानमां प्र० १ जगउरणसविकी
 धोतेतो धनवरसीवरसीदानमां प्र० २ नाभीरायाकुल
 मंडनगाउ मरुदेवीसुतगानमां प्र० ३ चरणोत्सवइंद्रा
 दिकसारे श्रीजिनवेसेजानमां प्र० ४ गीतग्यांनप्रभु
 आगेनाचे साचेराचेतांनमां प्र० ५ पंचमहाव्रतलेवाअ
 वसर समझावेसूरसानमां प्र० ६ न्यायसागरप्रभुसे
 वकमाचे वाणीअमृतपानमां प्र० ७ इति ॥ अ
 अथश्रीअजितजिनस्तवन ॥ नीलीपीलीपामरीनें ॥
 एदेशी ॥ विजयानंदनसाहिववंदो भावभवियांआंणि
 गजलंछनकंचनवनकाया चितधारुंआंणी झबकजोर
 वनीछेरे सांइजोरगुनीछे १ केसरघोरघसीसुचीचंदन
 लेइवस्तुउदार अंगीचंगीअवलवनाइ मेलवीघनसार
 झ० २ जाइजुइचंपकमरुओ केतकीमचकुंद वोलासि
 रीवरदमणोआणी पुजीयेंजिणंद झ० ३ मस्तकमुगटप्र
 गटविराजे हारहीयेंसार कानेकुंडलसूरयमंडल जाणी
 येमनुहार झ० ४ द्रव्यस्तवइमपूरणविरची भावोभा
 वउदार अलखनिरंजनजनमनरंजन पूजंतांभवपार
 झ० ५ चिदानंदपूरणगुणपावन न्यायसागरइश परम
 पुरुषपरमातमनिरमल ध्याइयेंजगदीश झ० ६ इति ॥

अथश्रीसंभवजिनस्तवन ॥ द्वारिकामांराजकरेरणछोड

एदेशी ॥ संभवजिनमनमंदिरतेडी सकलदेवसिरमोडी
 भावपुजानितकरोकरजोडि १ आंकणी. समरसंगगा
 जलनवरावो भावतणिनहिखोडि भा. २ भक्तिरागके
 सरथइसुखड औरशिआमनमोडि भा. ३ ध्यानसुगं
 धकुसमपूजो टालीनिजमनदोडि भा० ४ धूपरुप
 जिनकोघटवासो दुरटलेदुखजोडि भा० ५ महा
 नंदघृतमनवर्ति भक्तिथालमांछोडि भा० ६ ज्ञानप्रदि
 पजगाविजोते आरात्रिककरजोडि भा. ७ इणिपरेपूज
 करीजिनजीकी काढेमिथ्याओडी भा. ८ न्यायसागर
 प्रभुसुयसमहोदय वाधेहोडाहोडी भा० ९ इति ॥

अथ श्रीअभिनंदनजिनस्तवन ॥ जैनकोमारगम
 स्तहे सुणिअरथीलोको आंकणी. अडदशदूखणवर्जि
 तदेवा अभिनंदनवरपन्नहे सु० १ दुविधपरिग्रहनध
 रेकबहुं गुरुगुसासोभिततन्नहे सु. २ खंत्यादिकदशगु
 णशुचिदेहा धर्मभुवनमेमन्नहे सु. ३ मिथ्यामतिनितहिं
 सामयलो दूरतज्योज्यंसन्नहे सु० ४ शुद्धधरमतेरोहि
 जसाचो जगउपमनहिअन्नहे सु० ५ न्यायसागरप्र
 भुभगतेशकति दिनदिनवधतेवन्नहे सु० ६ इति ॥

अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ कोइमोरलीवालोवतावे
 रेनागरनंदनारे एदेशी ॥ कोइसुमतिसुधारसपावेरे

आतमसोहनारे भविपडिबोहनारे भविआनंदनारे शी
 तलचंदनारे को० आंकणी. परमनिरंजनदरशनपावे
 मुगतिवधुवरथावेरे आ० १ मेघनृपतिसुतअप्सरगा
 वे सुरपतिमलीयवधावेरे आ० २ विषयकपायेकलुषि
 तपरसुरतेहस्युंकिमदिलभावेरे आ. ३ अखयखजानो
 ताहरोजगमां तुंदीपेवडदावेरे आ० ४ न्यायसागरप्रभु
 पदकजसेवा ज्योतिसुंज्योतिमिलावेरे आ. ५ इति ॥ अ
 थ श्रीपद्मप्रभजिनस्तवन ॥ रागकाफी ॥ अरेबोलस्यां
 निमाणां चवीसठीतालबोल अरेबोल३ आसकनमिली
 यामोल३ छप्पोरागकाफी रागिणीपंजाबी एदेशी ॥
 अरेबोलतुंतीमाणां अप्पणाप्यारेमालखोल३ आंकणी
 दंसणनाणचरणबहुमूले स्यणहुयेसोबोल३ नी० १
 खरिदारखासीहेदुनियां मुत्तिलहेदामोल३ नी० २ बी
 चदलालसांडहेवेगे पद्मप्रभनहितोल३ नी० ३ नर
 भवानिरुपमसहेरवडाहे याहिंमुगतीकीपोल३ नी० ४
 न्यायसागरप्रभुपदकजसेवा रंगेरातोचोल३ नी० ५
 इति ॥ अथश्रीसुपार्श्वजिनस्तवन ॥ चाल्यो
 जापाधरिवाटे रोकेछेंस्यांनेमाटे एदेशी ॥ सांभलो
 स्वामिरेमीठडामोहन दाससाथेस्योभेद एकनेआप

स्योसिद्धनेसिद्धी एकनेकाढस्योषेद १ आपोनेपाध

रिवाते स्वामीनेत्रावशेषातेरे आखरतो आपस्येजोरे
 आवेछेचितडेमोरेरे आंकणी सरवनेसारिखापरखीभा
 लो आकरिचाकरिस्वामि चाकरिवालोचितडेघालो
 राखयुंतेहनुंनाम आ० २ एकतोआकरिचाकरिवालो
 द्रव्यथीभावथीगौण एकतोसावथीभावथीउंचो मुंक
 स्योराखस्योकौण आ० ३ एकलीद्रव्यनीचाकरिसा
 रुं भाखरीपावस्योमोले द्रव्यनेभावथीचाकरीवालो
 आवस्येआपसेतोले आ० ४ साथलेसाथीओहाथीओ
 चालें हेमतेरुयडेवांन न्यायसागरप्रभुदासनेवहिलुं
 दीजीयेमुक्तिनुंदान आ० ५ इति ॥ अथश्रीचं
 द्रप्रभजिनस्तवन ॥ नयणमटकडेवाडलोयोगी दारुडो
 पिलावे एदेशी ॥ नयणमटकडेमीठडोवाहलोदी
 ठडोसुहावे आंकणी १ मेरोस्वामीसाधुनामविश्वमंध
 रावे तीनलोकलछिछओत्रिगंडेदिखावे नय० २ वीत
 रागरागविरुदसेमिलावे सेवेतासमोक्षवासओरकुंडूलां
 वे न० ३ लोकलाखवोलेभाखएकलोकहावे अणहूंतेएक
 कोडिदेवदोडिआवे न० ४ तुंअनाथविश्वनाथसंपदाच
 लावे तुंअनेकरुपएकजोगसेजगावे न० ५ तुंअलीह
 तुंअबीहकौनभेदपावे न्यायपौनचंद्रज्यौतिज्योतीसेमि
 लावे न० ६ इति ॥ अथ श्रीसुविधिजिनस्त

(१४२)

न्यायसागरजीकृतः

वन ॥ सेत्रुंजानोवासीप्यारोलागेमाहराराजिंदा ए
देशी ॥ दरसनीयानोवासीप्यारोलागेम्हाराराजिंदा
१ तुहिजब्रह्माब्राह्मणजाणे वैश्रवविशुवखाणे म्हा०
द० २ रुद्रतपस्वीतुजनेभाखें सघलातुजदिलराखे
म्हा० ३ द० जैनजिनेंद्रकहेसिवदाता बुद्धबोधमतरा
ता म्हा० ४ द० कौलिककौलकहिगुणगाता खटद
रसनोत्राता म्हा० ५ द० रुपअनेकफटिकमांभासे
वर्णउपाधीनेपासे म्हा० ६ द० खटदरसनसवितुजने
ध्यावे एकअनेककहावे म्हा० ७ द० विविधरुपजभू
मिविभागे तिमतुंदरसनलागे म्हा० ८ द० केवल
ध्यानगम्यदिलराजे केवलज्ञानविसजे म्हा० ९ द० न्या
यसागरप्रभुसुविधिमल्हावे महानंदपदपावे म्हा० १०
अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥ निजरभरजोवोकचुंन
हि एदेशी निजरीभरीजोवोकचुंनहिराजहोमाराराज
थेमानेप्यारालागो वालहालागो आछालागो नीकाला
गो थेमा० १ आंकणी श्रीशीतलजिनसाहिवारे कांड
अरजकरुंमहाराज थे० २ हुंसेवकछुंताहरोरे कांड
सुणियेंगरीवनीवाज थे० ३ अंतरयांमीउलगुरे कांड
रातदिवसादिलमांहिं थे० ४ तुम्हदरसनबिनकचुंसरे
कांडशिवरमणीकरसांहिं थे० ५ एकघडिपणविरह

नीरे कांडवेदनमेंनखमाय थ० ६ सघलीमननीवातडी
 रे कांडकहीयेंजिमसुखथाय थ० ७ जोतुमछांडोसाहि
 वारे कांडमेंछोडांनहिराज थ० ८ चरणसरणथाहरो
 कियोरे कांडनिजसेवकतुमलाज थ० ९ थेछोमाहरा
 साहिवारे कांडमेंछांथाहरादास थ० १० न्यायसागर
 प्रभुवीनवरे कांडआपोशिवपुरवास थ० ११ इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ हारंरिहरीवरणा
 सूडासेत्रुंजोगिरवरीयोकेतिकदुर एदेशी ॥ हारंसाहि
 वश्रेयांसा आपोनेजिनवरीयासुखभरपुर हारंमुझमा
 नसहंसा हारंमुनिकुलअवतंसा हारंटालेभाविसंसा
 हारंसा० १ तुहिसकलेअकलपणतुहि तुझकर्मकलानवि
 लागीरे सा० २ तुहिसगुणनिर्गुणवरतुहि तुंअनंतके
 वलनोभागीरे सा० ३ तुंहिंस्थुलसूक्ष्मपणतुंहिं तुझ
 चिदानंदमतिजागीरे सा० ४ व्यक्तरुपेअव्यक्तनगी
 नो तुंसदानंदवैरागीरे सा० ५ तुंसूवर्णपणवर्णविवर्जि
 त लघूगुरुतानोत्यागीरे सा० ६ नित्यसनातनब्रह्मस
 रुपी प्रभुन्यायानिपुणसोभागीरे सा० ७ इति ॥

अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तवन ॥ ब्रजमंडलदेशदेखा
 औरसीया एदेशी ॥ मनुमंदिरनाथवसा औरसिया म०
 आंकणी तुंहिजहजाणेलिखोकरिचोपुं दुरितदोहगरज

जायेंघसिया म० मनमंदिरसाहिवजवसिया गुणआ
वेसविधसमसिया म० २ दर्शनफरशनदुर्लभपामी रु
दयकमलमुझउल्लसीया म० ३ मनमोहनमनमंदिर
बेसि कर्मअहितकोल्येतसीया म० ४ वासुपुज्यजिनम
नमथजाणी विषयविकारअलगाखसीया म० ५ न्याय
सागरप्रभुसेवाकरतां अंतरंगगुणसविहसिया म० ६ इ
ति॥ अथश्रीविमलजिनस्तवन॥प्यारेसज्जनसांडतुंआ
वरे आवरेसज्जनसांडतुंआवरे ३मेबोल्याइहरिदाण्यामे
सुंकासनभाए प्यारेसज्जन एदेशी ॥ प्यारेविमलगोसा
इं तुंमनामरे ३ अहनिसध्याउनवनिधिपाउं हारेसांडप
तितपावनगुणधामरे प्या० १ विमलगुसाइंसेवापाइं
हारेसाइं विमलमहोदकठामरे प्या० २ अवलंबनाओ
अंगियांल्याउ हारेप्यारे ध्यानघुसृणयशदामरे प्या० ३
निर्मलमनक्रिधोतिपहिनुं हारेबावाभावउदकअभिराम
रे प्या० ४ धूपघटातनुंज्योतिमहातप हारेसाइंकीर्ति
सुवासउदामरे प्या० ५ न्यायसागरप्रभुचितप्रसत्ती
हारेसाइंथयथुइंकामितपामरे प्या० ६ इति ॥ अथ
श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ मुजरोतेमानो मानोहोबंधूजी
एदेशी ॥ जिनजीप्यारो ३होसिंधूजी गुणनोवालोम्हारो

जि० आंकणी, सुयसानंदनपापनिकंदन जगदानंद

नदेवहो जि० १ सुरतरुसूरमणीसुरगवीतुंहिज कुणकरे
 अवरनसिेवहो जि० २ रातदिवसखिणरसंभारुं वी
 सारुंपलकनएकहो जि० ३ माहरेदीलतोतुंहिजवसी
 यो जगजीवनजगछेकहो जि० ४ प्रीतपुराणीकहिये
 नहोवे देहडीजिरणथायहो जि० ५ जरकसीजुनिक
 बहिहोवे पिणसोनारंगनजायहो जि० ६ श्रीअनंत
 जिनसाहिवमाहरे थास्युंअविहडनेहहो जि० फेडयो
 तोकीमफाटिलागो जिमपथरसीररेहहो जि० ८ गुण
 अनंतप्रभुताहराघटमें कहितांनआवेपारहो जि० ९
 न्यायसागरप्रभुसेवकखासो वांहिग्रहानितारहो जि०
 १० इति ॥ अथ श्रीधर्मजिनस्तवन ॥ धर्मजिनं
 दतरेधर्मकीमेरा मेटतहेभवभटकाफेरा परमधरमहेसा
 हिवतेरा पर० १ आंकणी. घरघरढुंढतसबहिमेहरचा
 एसानधरममरमकावेरा प० २ नामधरमकछुकामन
 आवे ठवणधरमतिमसिद्धिनपावे प० ३ द्रव्यधरमप
 णमुक्तिनदेवे भावधरमविनुंकोइंसेवे प० ४ शब्दधरम
 जिउकामसुधारे दुरगतिप्रडतानिजकरिधारे प० ५
 उत्तमथानिकउनहिकुंजोडे पापकरमसविउनकेतोडे
 प० ६ भावधरमतेसहिजेसाचे मेरामनउनहिसैराचे प० ७
 मिथ्यामतिमोजूठेइंमाचे पणउनधर्मसुकर्मतीकाचे प०

८ भावधरमनिजआतमदेखे कष्टक्रियासवहीतबलेखे
 प० ९ उत्तमसागरसाहिबआगे न्यायसागरशिवपदवी
 मागे प० १० इति ॥ अथश्री शांतिजिन स्तवन ॥
 आजिमकबमिलेपरदेशीमाताहो आ० एदेशी ॥ सा
 हिबकबमिलेससनेहीप्याराहो सा० आंकणी कायाका
 मिनिजीउसेन्यारा एसाकरतविचाराहो सा० १ सुन
 सांइजबत्रांनमिलावें तवहममोहनगाराहो सा० २ में
 तोतुमारीखिजमतगारी जूठनहिजेलाराहो सा० ३ श्र
 मनकहेसुनवेनहमारा टारोविषयविकाराहो सा० ४
 संयमपालोनिजतनगालो लेइअनुभवलाराहो सा० ५
 पिउकेसाचेहममनमाचे घटमेहोतउजाराहो सा० ६ कहि
 नाकीनासंयमलाना नरह्याकरनउधाराहो सा० ७ वेद
 उछेदीजातिअभेदी मेलेशांतिसुधाराहो सा० ८ अचिरा
 नंदनशीतलचंदन न्यायसागरसुखकाराहो सा० ९ इति ॥
 अथश्री कुंथुनाथजिन स्तवन ॥ तुमरहोरेआजिमदो
 घरीयां एदेशी ॥ तुम्हरहोरेपीतमपायपरियां आंकणी
 रुपेरतिश्रीरांनीजाया अरजकरेंअंतेउरीयां तु० १ सु
 रनृपतिकेघोटेमोटे क्युंनकरोहमदिलवरीयां तु० २
 नाहविवाहउछाहकरिआए अवगुंनविनक्युंपरहरियां
 तु० ३ खटखंडजितिअरिबसकीनें भुंजेविनक्युंफलह

रियां तु. ४ विलपतिनेहदीवानीललनां त्यजिजिनसंय
मस्त्रीवरीयां तु. ५ केवलपांमीत्रिगडेवेठे वानिसुनि
भविदिलठरियां तु. ६ न्यायसागरप्रभुलीलाबहुली
महानंदपदअनुसरियां तु. ७ इति ॥

अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ गीरीराजकुंसदामेरीवं
दना एदेशी ॥ अरनाथकुंसदामेरीवंदना. जगनाथकुं
सदा. जिनराजकुं. आंकणी जगउपगारिघनज्यौवरसे
वाणीशीतलचंदनारे जि. १ रुपेरंभाराणीश्रीदेवी भुप
सुदर्शननंदनारे जि. २ भावभगतिसुंअहनिसिसवे
दूरितहरेभवफंदनारे जि. ३ छखंडसाधीद्वेधाकीधी
दुर्जयशत्रुनिकंदनारे जि. ४ न्यायसागरप्रभुसे
वामेवा मागेपरमानंदनारे जि. ५ इति ॥

अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ कुंनभरेरीजलकुंनभरे द
लवादलीरोपाणीकौणभरे एदेशी ॥ कुंनरमेचितकौन
रमे मल्लिनाथजीविनाचितकुंनरमे आंकणी मातप्रभा
वतीराणीजायो कुंभनृपतिसुतकामदमे म० १ काम
कुंभजिमकामितपूरे कुंभलंछनजिनमुखगमे म० २
मीथीलानयरीजनमप्रभुको दर्शनदेखतदुखशमे म०
३ घेवरभोजनसरसांप्रीस्यां कुकसवाकसकुणजिमे म०

५ नीलवरणप्रभुकांतिकेआगे मरकतिमणीछविदूरभ

(१४८) न्यायसागरजीकृत.

में म० ५ न्यायसागरप्रभुजगनोपासि हरिहरब्रह्मा
कोणनमे म० ६ इति ॥ अथ श्रीमुनिसुव्रतजि
नस्तवन ॥ जिनमुखदेखनजाउंरे प्रभुकोजनमभयोहे
एदेशी ॥ दिनभरिदरिसनपाउरे प्रभुकोरुपवन्योहे
दि० आंकणी पदमानंदनहरिकृतवंदन चरनकमलवल
जाउरे प्र० १ नीलकमलदलकोमलवाने सेवनमेचित
लाउरे प्र० २ चुनीचुनीकलीयांचंपककी हाथसेमाल
बनाउरे प्र० ३ श्रीमुनिसुव्रतसुव्रतसेवि नाथसमानक
हाउरे प्र० ४ न्यायसागरप्रभुसुव्रतसेवा नियतफले
दिलभाउरे प्र० ५ इति ॥ अथ श्रीनिमिनाथ
स्तवन ॥ मोतिडोविराजेगोरिथारानथमां एदेशी ॥ पु
रुषोतमसत्ताछेथाहरिघटमां वप्रानंदनवंदनकीजे तुज
समअवरनयतिवटमां पु० १ हरिहरब्रह्मपुरंदरपमुहा
मगनहुआसविभवनटमां पु० २ उपसमरतिप्रभुताहरी
जगने जीतीकरावीयरिघटमां पु० ३ वीतरागतातुजत
नुआखै समरसवरसेभविवटमां पु० ४ विजयनृपतिसु
तसेवाखिणमां आंणेसेवकभवतटमां पु० ५ न्यायसागरप्र
भुसहजविलासी अजरअमरलहिलटपटमां पु० ६ इति ॥
अथ श्रीनिमनाथजिनस्तवन ॥ सोलसहसगोपीमांप
टराणी कागललरुयोकेइनेरे सीदजाओछोदीलासादे

इनेरे एदेशी ॥ आठभवनतुमेप्रतिजपालीजी नवमें
 भवसाथेलेइनेरे कांनजाओछोदिलासादेइनेरे कांन०
 १ आंकणी अमनेमुकीनेतुमेरैवतपधारचाजी संजम
 सुंदरिलइनेरे कां० २ परण्याविणअम्हेप्रीतजपालु
 जी एतोवरेछेकेइनेरे कां. ३ एतोदुतिकासिद्धवधूनीजी
 तुमेआदरघोछोवेइनेरे कां. ४ सोकडलीरेमुनेदीठीन
 सुहावेजी तुमेआदरकरस्योकेइनेरे कां. ५ अनुभवमीत्रे
 मनमेलकराव्योजी अनुभवघरमालेइनेरे कां. ६ नेमरा
 जुलशिवमंदिरपधार्याजी न्यायसागरसुखदेइनेरे कां०
 ७ इति ॥ अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन ॥ कानुडा
 मारमांकांकरडी मीठडाफुटस्येगागरडी एदेशी ॥ चिं
 तामणपासजिगमेरे पासजिगमेरे ३ वाहलोध्यानमां
 मेरे आंकणी. प्रहउठीप्रभुमुखडुदीठें दुखडुसम्मरे
 चिं० १ चिंतामणीपरेकांमितपूरे दुखझमेरे चिं० २
 त्रिभुवननायकसुरपतिपायक कामदमेरे चिं० ३ पा
 मीअमृतभोजनकुकस कौणजमेरे चिं० ४ साहिवसम
 रथसमकितपामी कौणवम्मरे चिं० ५ मीध्यामुकीमु
 झमनराचे शुद्धधरमेरे चिं० ६ अधीकुंओछुंसेवकभाखे
 स्वामिखम्मरे चिं० ७ न्यायसागरप्रभुअहानिसिचर
 णे सीसनमेरे चिं० ८ इति ॥ अथ श्रीमहावी

(१५०)

न्यायसागरजीकृत.

रजिनस्तवन ॥ जरिजरिजरकसीरीदोरि हजटीकाभ
लका होराजप्यारेलागो एदेशी ॥ निरखीनिरखीसा
हिवकीसूरति लोचनकेरेलटकेहोराज प्यारालागो मा
नेबावाजीरीआण प्या० मानेदादाजीरीआण प्या०
१ तुमबानीमोयेंअमीयसमानी मनमोह्युंमुखमटकेहो
राज प्या० २ मुझमनभमरिपरिमलसमरी चरणकम
लजइअटकेहोराज प्या० ३ सूरतिदीठीमुझमनमीठी
परसुरकिमनविखटकेहोराज प्या० ४ जैनउवेखीगु
णीनाद्वेषी त्यांथीमुझमनछटुकेहोराज प्या० ५ त्रिस
लानंदनतुमपयवंदन शीतलताहुइघटकेहोराज प्या० ६
उत्तमसीसेन्यायजगीसे गुणगाधारंगरटुकेहोराज प्या०
७ इति ॥ इतिन्यायसागरकृत चोवीशी १ संपूर्ण ॥

अथ श्रीन्यायसागरजीकृत चोवीशी २ जी.

अथश्रीआदिजिनस्तवन ॥ माहरुंमनमोहयुरेश्रीविम
लाचलेरे एदेशी ॥ जगउपगारीरेसाहिवमाहरौरे अ
तिशयगुणमणिधाम आदिजिणेशरअतिअलवेसरुरे
अहनिसिध्याउरेनाम १ मोरुमनमोहयुरेमरुदेवीनंद
स्युरे आंकणी. दोयकरजोडीरितुमसेवाकरेरे सुरनर
किनरकोड प्रातिहारिजआठेअहनिसिरे कवणकरेतु

ह्रहोड मो० २ च्यारेरुपैरेचौवीधदेसनारे देताभांवि
जनकाज मानुंएचउगतिनाजनतारवारे छाजेज्युंजलध
रगाज मो० ३ तेधनप्राणीरेजिणेतुमदेसनारे समये
निरख्युंनूर कर्णकचोलेरेवाणीनीसुधारे पीथीजेणेभर
पूर मो० ४ हुंतोतरख्युरेतुमचाध्यानथीरे अनोप
मएहउपाय न्यायसागरगुणआगरसाहिवारे ल
लि२नमेनितुपाय मो० ५ ॥ इति ॥
अथ श्रीअजितजिनस्तवन ॥ सखीरेसयानीसाहि
वसखीरेसयानी एदेशी ॥ अजितजिणंदासाहिवअ
जितजिणंदा तुमेरासाहिवमैतेरावंदा साहिवअजित
जिणंदा आंकणी जितशत्रुनृपविजयादेनंदा लंछनच
रणेसोहेगयंदा सा० १ सकलकरमजीतीअजितकहा
या आपवलेथयासिद्धसहाया सा० २ मोहनृपतिजे
अटिलअटारो तुमआगेनरह्योतसचारो सा० ३ वि
पयकपायजेजगनेनडिया तुमझाणानलशलेभज्युप
डीआ सा० ४ दुसमनदावनकोइफावे तिणथीअजि
ततुमनामसुहावे सा० ५ अजितथाउंहुंतुमचेनाम बहो
तवधारोप्रभुजगमांहिमाम सा० ६ सकलसुरासुरप्र
णमेपाया न्यायसागरेप्रभुनागुणगाया सा० ७ इति॥

अथ श्री संभवजिनस्तवन ॥ सूनोमेरीसज

नीरजनीनजावेरे एदेशी ॥ रागकेदारो ॥ संभवजिन
 वरशिवसुखदातारे भूपजातारीसेनामातारे हयलंछन
 कंचनवनकायारे जेहेनेनामेनवनिधिपायारे १ भवभ
 यभंजेपातिकमंजेरे त्रिभुवनमाहिमाजासअगंजेरे स
 जनजननांमनडारंजेरे हितकरभविनेहेतुप्रयुंजेरे २ प
 दमसरोवरतेरहोदूरेरे पणतसमारुततापनेचूरेरे पण
 तुमध्यानेकामितपूरैरे भक्तिकरेवाकहोकुणसूरैरे ३ अं
 जलिमांजिमजलनविथाहरैरे तिमभवसंचितपातिकवा
 रैरे प्रभुतुमकरुणारसनिधाररे सींच्योसेवकहोयेंसु
 खकाररे ४ चरणतुम्हारेशरणेराखोरे साचोसेवकमुझ
 नेदाखोरे तोमुझसीध्यांसघलांकाजरे न्यायसागरप्र
 भुमहिमाविराजेरे ५ ॥ इति ॥

अथश्रीअभिनंदनजिनस्तवन ॥ वाडिफुलीअतिभ
 लीमनभमरारे एदेशी ॥ रागगोडी ॥ अभिनंदनजी
 नवंदीए गुंणखांणीरे अतिघणउलटआंणि सुणोभवी
 प्राणीरे पुरुषारथच्यारसाधिया गु० जाणीच्यारप्र
 माण सु० १ चंचलपणुमुझथीघणुं गु० तेंवशकीधुम
 न्न सु० इमजाणीकपिपदेरह्यो गु० लंछनमिसिंतेधन्न
 सु० २ संवरनृपनोवेटडो गु० संवरकरेनिरमाय सु०
 तेहमांअचिरजकोनहि गु० सिद्धारथाजसमाय सु० ३

नन्दनवतं मांजिमवसे गु० चंदनसुरतरुव्रंद सु० तिम
 तुमतनुमांसोहीये गु० अतिशयअंतुलअमंद सु० ४
 चोथाजिननेसेवतां गु० लहीयेचोथोवर्ग सु० न्याय
 सागरप्रभुनीकृपा गु० एहसभावनिसर्ग सु० ५ इति ॥
 अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ रागसारंग ॥ जीहोनी
 देशी ॥ जीहोसुमतिजिनेसरसेवतां जीहोसुमतिवर्धेनि
 सदिस जीहोसुगुणांकेरीसंगति जीहोपसरेवहुतजगी
 स १ सुणोभविसेवोसुमतिजिणंद जिहोजेघर२नाप्रा
 हुणा जीहोखिणमांहेपलटाय जीहोत्रोछाअथिरसभा
 वना जिहोतिणस्युंमिलेवलाय २ सु० जीहोवातांनीमो
 टिमकरे जीहोकामपडेंकुमलाय जीहोजेदेउलनादेवता
 जीहोएहवानावेदाय ३ सु० जीहोमेंतारिजअपरांधी
 ओ जीहोक्रौंचविहंगनीजात जीहोतेअपराधनेमांजवा
 जीहोलंछनमिसिविख्यात ४ सु० जीहोमेघनृपतिमा
 यमंगला जीहोसायरपरिगंभीर जीहोन्यायसागरप्रभु
 सेवतां जीहोहोवेंसुखशरीर ५ सु० इति ॥
 अथ श्रीपद्मप्रभजिनस्तवन ॥ रागसारंगमिश्र ॥ को
 इलोपर्वतधुंधलारेलो एदेशी ॥ श्रीपद्मप्रभजिनराजने
 रेलो वीनतीकरुंकरजोडरे जिणंदराय माहरेतूंप्रभुए
 कछेरेलो मुझसमताहरेकोडरे जिणंदराय १ श्री० लो

(१५४)

न्यायसागरजीकृत.

कालोकमांजाणीयैरेलो इमनसरेमुझकामरे जि० दा
ससभावेजोगिणैरेलो तोआवेमनठांमरे जि० २ श्री०
कहवायेंपणतेहनेरेलो जेहराखेमुहलाजरे जि० प्रार
थीयांपहिडियेनहिरैलो साहिवगरीवनिवाजरे जि०
३ श्री० करपदमुखकजशोभथीरेलो जीतीपंकज
जातरे जि० लछनमिसिसेवाकरैरेलो धरनृपसुसी
मामातरे जि० ४ श्री० उगतअरुणतनुवानछैरेलो
छठादेवदायलरे जि० न्यायसागरमनकामनारेलो
पुरणसूखरसालरे जि० ५ श्री० इति ॥

अथ श्रीसुपार्श्वजिनस्तवन ॥ रागकाफी ॥ श्रीसुपा
सजिनसातमाहो टालेभवभयसात पृथवीसुतमंगलक
रेहो अचिरजएअवदात १ सुखदायकसामिसोहाम
णाहो अहोमेरेप्यारे अहनिसलिउंतसभांमणांहो आं
चली स्वस्तिकलंछनतेभणीहो साथीआनंगलमुल ल
घूपणवृद्धपणुंलहेहो जेहनेप्रभुअनुकूल२सु. सुप्रतिष्ठ
नृपनंदनोहो आनंदीतित्रिहुलोक कोकदिणंदतणीपरे
हो चितधरेंभाविकनाथोक ३ सु० सातेसुखआवीमी
लेहो अखयअचलसविसिद्ध इमअनेकगुणभाखतांहो
पामेवलीनवनिद्धरिद्ध ४ सु० नवपणफणसीरसोहियें

हो सहजसभावप्रमाण न्यायसागरप्रभुनाकरेहो भा

वथीगुणवखाण ५ सु० इति ॥ अथ श्रीचंद्र
 प्रभजिनस्तवन ॥ मेडिउपरमेहझरुंखेवीजली होला
 लझरुखेवीजली एदेशी ॥ श्रीचंद्रप्रभजिनराज उदि
 तमनअंवरहोला उदित० वदनेजितध्विजराज रह्यो
 सेवाकरहोला रह्यो० १ लंछनमिसिनितुपाय रह्योक
 रेवीनतीहोला रह्यो० नित्यउदयनीकलंक करोमुझ
 जिनपतीहोला करो० २ श्रीमहसेननरेस कुलांबुज
 चंद्रमाहोला कुलां लखमणामातमल्हार जिणंदछो
 आठमाहोला जिणंद० ३ विधुरुचिदेहअनेह अगेहअ
 संगछेहोला अ० आठमोचंदनेसुखकर अचिरजएहछे
 होला अ० ४ आठकर्मनोनाश करिअडसिद्धिह्या
 होला करि० न्यायसागरकविराजे प्रभुनागुणकह्या
 होला प्रभु० ५ इति ॥ अथ श्रीसुविधीजिन
 स्तवन ॥ लाछिलदेमातमल्हार एदेशी ॥ नवमासुवि
 धीजिणंद समतासुरतरुकंद आजहो नेहेरेसयदेहेआ
 वीनेमिल्योजी १ सुग्रीविनृपजसताय रामाराणीमाय
 आ० गंगारितरंगापरप्रभुउजलोजी २ जीत्योकामविका
 रनरह्योजासप्रचार आ० मानुरेमकरध्वजधार्यैतेभणी
 जी ३ नामेनवहानिधान आयमिलेएकतान आ० जेह
 नीरेआणाछेनवतत्वेमिलीजी ४ अवमअविधिकरेनाश

प्रगटेबुद्धिविलाश आ० न्यायेरेइणेंसुविधिनामधरावि
उंजी ५ इति ॥ अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥

रागरामगीरी देशीसाहेलडीनी ॥ श्रीशीतलजिनवंदि
ये अरिहंताजी शीतलदर्शनजास भगवंताजी विषय
कषायनेशामवा अ० अभिनवजाणेवरास १ भ० वा
वनाचंदनपरिकरे अ० कंटकरुखसुवास भ० तिमकंट
कमनमाहरुं अ० तुमध्यानेहोयेंसुभवास २ भ० नंद
ननंदांमातनो अ० करेआनंदितलोक भ० दृढरथनृप
कुलदिनमणी अ० जितमदमाननेशोक ३ भ० श्रीव
छलंछनमिसिरहे अ. पगकमलेसुखकार भ. मंगली
कमांतेथयो अ. तेगुणप्रभुआधार ४ भ. केवलकम
लाआपीये अ. तोवाधेजगमाम भ. न्यायसागरनी
वीनती अ. सुणोत्रिहुजगनास्वाम ५ भ. इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ देशी वींछीयानी राग
सिंधूं ॥ श्रेयांसजिणंदइग्यारमा तेहस्युंमुजलाग्युंमन्नरे
तेअलगुंकदहीनविरहे जिमभातिपटोलेवन्नरे १
श्रे० प्रभुनिरागीजाणीकरी मेंजोडचुंएएकंगरे हवेंए
करुपजेएहोयें एतलेइमनाह्यागंगरे शुभध्यानतागंग
तरंगरे २ श्रे० विश्नुभूपविश्वनुमावडी नंदनगुणम
णिखांणरे एकलमलनाउपमानथी खडगिनूलंछनजा

णारे ३ श्रे० प्रभूचोलरंगनविउतरे जायेंतेरंगपतंगरे
 ओछाकाचावहुकरे गिरुआहोयेंसहजअभंगरे ४ श्रे०
 इमजाणीनिजदासने निजसमगुणकीजेनाथरे एती
 न्यायसागरवीनती तारोमुजनेग्रहीहाथरे ५ श्रे. इति ॥
 अथश्री वासुपुज्यजिनस्तवन ॥ देशी पारधीयानी
 रागमल्हार ॥ श्रीवासुपुज्यजिनराजीयारे आवोमुजम
 नमांहिरे मनवशीया शुद्धकरिछेभूमिकारे मिथ्याकंठक
 नाहीरे शिवरसीया १ समकितगुणशुद्धदृष्टिछेरे किरि
 यारुचिसुभवासरे म० विरतिचरित्रसिहासनैरे मैत्रीप
 टविछायरे शि. २ ज्ञानपरमरसस्वादनारे पारनवो
 ल्याजायरे म. थोडेझाझुजाणजारे तुमआवेंसर्वसुहायरे
 शि. ३ श्रीवसुपूज्यनरेसरुरे जयाराणीजसमायरे म.
 महिपधजेमनुजाणीयैरे सेवेपदजिमरायरे अजरअम
 रजिनथायरे शि. ४ जिनदर्शनसुखकारीयोरे खटवि
 धजीवनीकायरे म० ललि२सिरनामिकहेरे न्याय
 सागरकविरायरे शि० ५ इति ॥ अथश्री विमल
 जिनस्तवन ॥ देशी योगनानी इडरआंवाआंवलीरे रां
 ग. सारंगमल्हार ॥ विमलजिनेसरताहरोरे अंतुलअ
 चिंतप्रभाव गुरुपणनिजपरसमकह्यारे तरवाभवजल

नाव १ विमलजिनतुमरुंधर्मसनेह जिमचातकनेमे

ह विमलजिन जिमप्राणीनेदेह वि० आंकणी अबुध
 विबुधकरेतुरतमारे रुपीअरुपीकीध करमीअकरमीक
 रेरे योगीअयोगीसिद्ध वि० २ लंछनमिसिसेवाकरेरे
 वीनतीकरणवराह भूमीभारथीउभगारे दिआसुखनितु
 जगनाह वि. ३ श्रीकृतवर्मनृपनंदनारे इयामामाता
 जात विमलमतिप्रभुध्याइयेरे तोहोयेविमलअवदात
 वि० ४ तेरक्रियाटालिजिणेरे तेरसमाजिनभाण न्या
 यसागरकहेभवभवरे शिरधरुतेहनीआण वि० ५
 इति अथश्री अनंतजिनस्तवन ॥ देशी कडखा
 नी आस्याउरीमध्ये ॥ श्रीअनंतप्रभोसंतरिदयोविभो
 गुणअनंतरहेध्यानरुपा अतिशयवंतमहंतजिनराजी
 या वाजीयापरिसदासकलरुपा १ ज्ञानदर्शनसुखसम
 किताखयथिती अरुविअवगाहनाअखयभावे वीर्यअ
 नंतएअष्टकउपनु आठकृतकर्मकरेअभावे श्री० २ इये
 ननिजक्रुरताटालवातुमपदे लंछनमिसिरह्योसेवसारे
 सदयतासुभगतादिकगुणतुमतणी सेवनापावनानेआ
 धारे श्री० ३ सिंहसेनभूपसुजसातणोनंदनो चौद
 मोचौदभूयगामपाले चउदगुणठाणसोपानचढीनिजगु
 ण आवताआपमांहिसंभाले श्री० ४ अनंतजिनसेव
 थीअनंतजिनवरतणी भक्तिनीबक्तनिजशक्तिसारुं न्या

यसागरकहेअवनीतलेजोयतां एहसमअवरनहीको
यतारुं श्री० ५ इति ॥

अथ श्रीधर्मजिनस्तवन ॥ वेडलेभारघणोछेराज वातां
केमकरोछो एदेशी ॥ धर्मजिनेसरधर्मतुमारो जगजन
नेदिपावें दर्शनज्ञानचरिततपचउविध एविनुंअवरदि
लनावें १ जिनजीथेछोमोटाराज जगजननेउपगारी
तोरापायनमुहुंआज जाउमेंवलिहारी आंचली कुगति
पडतांप्राणीराखे धर्मअर्थतेसाचो नामधर्मपरिणामक
लुपित तेपामीमतराचो २ जि० सुव्रतानंदनसुव्रतध
में वरतेतेतोयुगतुं भानुंभूपसुतकर्मतमत्रासें एपणप
दतुमलगतुं ३ जि० भवभयभ्रमणकदापिनहोवें धर्मश
रणजोराखें इंद्रसदासेवामिसिलंछन वज्रतणुंतिणेदा
खें ४ जि. पनरेभेदेसिद्धदेखावे पन्नरमोजिनदिपे न्याय
सागरकहेधर्मपसायें सकलविघननेजीपे ५ जि० इति ॥
अथ श्रीशांतिजिनस्तवन ॥ त्रिभूवनतारणतीरथपास
चिंतामणीरे एदेशी ॥ रागमल्हार ॥ शांतिजिनेसर
देवदयालसिरोमणीरे केदयालशिरोमणी सोलमोजि
नवरपंचमचक्रीजगधणीरे केचक्रीजगधणी १ पारेवा
संप्रितिकरीतिणिपरेकरोरे केति० जनमजराभयमरण
सूचाणाथीउद्वरोरे केसी० २ तिणेकांडदीधूंहोयेंते

मुझनेकहारे केते० जोशरणकरचानीलाजतोमुझनेनि
 रवहारे केमु० ३ पारेवापरिहरणकरेतुझसेवनारे के
 क० सिहिकेयसुतभीतिनिवारणकामनारे केनि० ४
 तिणकारणहुंसेवकस्वामितुंमाहरोरे केस्वा० तेहथीहुंछुं
 अधीकसेवापरताहरोरे केसे० अचिरामाताविश्वसेन
 पिताछेताहरोरे केसे० ५ शांतिनामगुणरहस्येमुझनेता
 रतारि केमु० न्यायसागरकहेइष्टप्रभुदिलधारतारि के
 दि० ६ इति ॥ अथ श्रीकुंथूनाथजिनस्तवन ॥

रागकाफीबंगालो ॥ किसकेचलेकिसकेपूत एदेशी ॥
 कुंथूजिणेसरप्रणमेपाय सकलसुरासुररायाराय १ प्र
 भूपूजीये० हारिमेरेभवभयकलिमलजाय सविमंजीये
 आंकणी. सत्तरभेदेसंयमआराधि पामीरेजेणेसहजस
 माधि २ प्र० मेषलंछनमिसेकरतारेसेव दीनपशुपणु
 टालोदेव ३ प्र० श्रीनंदनपणकामनोमर्म नहिअचिर
 जएदियेसहुसर्म ४ प्र० शूरपूत्रजीतेखटखंड युगतुंछेज
 सत्राणअखंड ५ प्र० चक्रीछठोसतरमोजिनहोय
 न्यायसागरकहेसनमुखजोय प्रभु० ६ इति ॥

अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ शीलसुरंगारिमयणरेहास
 ती एदेशी ॥ श्रीअरजिनदेवअढारमा वसियामुझम

नमांहिजी खिण२मांहेतेनितुसांभरे वीसारचानविजा

यजी १ श्री० पापस्थानअठारनिवारता धारेवंभअ
ठारजी सातमोचक्रिरेभवचक्रेनही जसनामेनिरधार
जी आणेभवजलआरेजी २ श्री० लंछननंदावर्ततणुं
अछे मंगलमांहिंप्रधानजी भूपसुदर्शनदेवीनंदनो अ
तिशयगुणउद्दामजी ३ श्री० तंतुपटोजिमघृतवसेंदूध
मां गुणपर्यायअभेदजी तिणिपरेमुझचितमांआवीव
स्यो एविनतीध्रुवेदजी ४ श्री० जिमनिरवहस्योतिमते
वाघस्ये सुगुणांसाथेनेहजी न्यायसागरकहेउत्तमआ
दरे तेनापिकवहीछेहजी ५ श्री० इति ॥ अथ
श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ झांझारियामुनिवरधन्य२तुमअ
वतार एदेशी ॥ रागगोडिमित्र ॥ मल्लिनाथमुझविन
तीजी अवधारोअरिहंत दंभविनाहुंदाखवुंजी अचि
रजएहअत्यंत १ गुणवंतासाहिवदर्शनज्ञाननिधान
तेआपीनेकीजीयेजी सेवकआपसमान गुण० आंचली
वीतरागतादाखवोजी रंजोसविभाविचित अपरिग्रही
त्रिगडेवसोजी भोगवोसुरनांवित्त २ गु० कुंभकरेपदे
सेवताजी लंछनमिसिंप्रभुपाय तेंतारकगुणआपी
ओजी घटमांतुह्यपसाय ३ गु० कुंभयकीजेउपनो
जी मुनिपतीमहिमांह प्रभावतीनोनंदनोजी महिमा
अंतअथाह ४ गु० लीलालछिदियेघणीजी नीलावाने

अदिन न्यायसागरप्रभुपदकजेजी मनमधुकरलयली
 न ५ गु० इति ॥ अथ श्रीमुनिसुव्रतजिनस्त
 वन ॥ देशीफागनी ॥ मुनिसुव्रतविसमा वीसमीयाम
 नमांहिं जिमनंदनवनसुरतरु सुरतरुसमजसबांहिं १
 कछपलंछनजाणीयें चरणोन्नतगुणहार पामिओधामी
 ओसेवे पायकमलमनोहार २ ज्युंघनमोरचकोर शशी
 चकवादिनकार पावसपंथीगेहा कुलवंतीभरतार ३ म
 धूकरमालतिपंकज गजरेवाजिमप्रीति गौरिगिरिशह
 रिकमला कमलासुतरतिप्रीति ४ चातकमेहानेहा एस
 घलाउपचार प्रेमतणाएउपमनही तिमअंतरचार ५
 पणप्रभूस्युंएकतानजे ज्ञानीलहेनिरधार एकसरुपे
 ध्याइयें पाइयेंतोनिरधार ६ पद्मानंदनवंदन कीजेंथ
 इसावधान सुमित्रनरेसरवंशें मुक्ताफलउपमान ७
 तुंमुझशंकरकिंकर हुंतुमचोनिसदिस न्यायसागप्रभु
 ध्याने पामेअधीकजगीस ८ इति ॥

अथ श्रीनमिजिनस्तवन ॥ देशीझूबकडानी ॥ श्रीन
 मिनाथसोहामणा नमियेंअतिआणंद सलुणोसाहि
 बो अवरदेवतुमअंतरो जिमसुरतरुपिचुमंद सोभागी
 साहिबो स० १ पाचकाचमणिपथ्थरा जिमदिनकर

खद्योत सो० खीरसिंधुनेछीलरुं जिममृगपतिमृगपो

त सलू०२ वप्राराणीनंदनो विजयनरेसरजात सो०
 नीलकमलदललंछनो कंचनवानविरूयात स० ३ अरि
 नमियातिणेकारणे नामठव्युंनमिनाथ सो० गर्भथकां
 महिमाइस्यो सोसाहिवशिवसाथ सो० ४ तोध्यानेअं
 तरनथी किमरहेनिश्चयएह सो० न्यायसागरनमिना
 थने दरिशनसुखअछेह स० ५ इति ॥

अथ श्रीनेमिजिनस्तवन ॥ धणराढोला एदेशी ॥ नेमि
 निरंजनसाहिवारे निरुपाधिकगुणखाणि मननामान्या
 जन्मथकीजेणेतज्यारे राज्यराजीमातिराणि १ म० आ
 वो२होप्रीतमवातांकीजे प्रीतमलाहोलीजेहो प्रीतमर
 सपीजे होप्रीतमआपणकीजेजनमप्रमाण म० आंक
 णी. विणपरण्येपणताहरीरे नारीकहेसहुलोक म०
 साचीहुंछुंपतिव्रतारे गायेथोकेथोक २ म० समुद्रविज
 यशिवादेवीनारे नंदनयदुकुलचंद म० शंखलंछनअंज
 नवनैरे बावीसमोजिनचंद ३ म० संबंधनेसकेतवारे
 आवीतोरणवार म० फिरिपाछाव्रतसांहिउरे चढिआ
 गढगिरिनार ४ म० राजुलपणपतिअनुलहेरे संयम
 केवलसार म० दंपतिदोउएकणिविलिरे अखचपणेए
 कतार ५ म० अष्टभवंतरप्रीतडीरे पालीपूरणप्रेम म०
 न्यायसागरसुखसंपदारे प्रगटेंसकलसुखखेम ६ म०

इति ॥ अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन देशीमाधवी
यानी ॥ मननोमानीतोमित्तोजोमिले हारिसाहिवजो
मिले तोकहुंमननीवातजो दुखभंजनजिनआगलेजी
सुखीणीसातेधातजो १ मनमोहनमुझवाल्होजी स्वामी
श्रीपासजिणंदजो होजीहोजससानिधेंजी तुरतथयोध
रणेंदजो २ म० मनमिलियांसूवातडीजी तेअमृतर्था
पणमीठजो जेहथितनमनवांधिउंजी तसदरिसनसहु
थीउक्किठजो ३ म० लंछनमिसीकरेंवीनतीजी फणध
रीरहीआनागजो विषधरपणुंदूरेंकरोजी माहरुंप्रभुव
डभागजो ४ म० श्रीअश्वसेनसुतसुंदरुजी वामामातम
ल्हारजो नीलवरणचरणेरहुंजी सेवककरिनेसंभारजो ५
म० भविमनवंछीतपूरवाजी कलिकल्पद्रुमसमानजो न्या
यसागरकहेमाहरेजी प्रभुध्यानेवधतोवानजो ६ म० इति
अथश्री महावीरजिनस्तवन ॥ राग धन्यासी ॥ वं
दुवीरजिनेसरराया वर्द्धमानसुखदायाजी शाशननाय
कजेहकहाया जगजसवादसवायाजी १ वं० हरिलंछन
कंचनवनकाया सिद्धारथनृपतायाजी सिद्धारथथया
कर्मखपाया तिसलाराणीमायाजी २ वं० लघुवयथीजे
णेमेरुचलाया वीरवेतालहरायाजी दुर्द्धरमोहजोहजीति
ने ज्योतिमेज्योतिमिलायाजी ३ वं० जसशासनथीखट

द्रव्यपाया स्यादवादसमज्ञायाजी अभिनवनंदनवन
 नाछाया दर्शनज्ञानउपायाजी ४ वं० जासवजीरछेगौ
 तमराया लब्धिनिधानमनभायाजी न्यायसागरप्रभु
 नागुणगाया सुजससुबोधसवायाजी ५ वं० इति ॥
 अथ कलस ॥ चोविशजिनवरभाविकहितकर सकल
 मंगलसुरतरु विविधदेशीबंधीगाया भक्तिवशीथीसूद
 रुं तपगच्छशोभाकरणकविवर उत्तमसागरपदकजे र
 सिकमधुकरन्यायसागर सीसजिनगुणनेभजे १ इति ॥
 इति न्यायसागरकृतचोविसीस्तवनसंपूर्ण ॥

अथ श्रीमानविजयउपाध्यायकृत चोवीसी.

अथ श्रीरुपभदेवजिनस्तवन ॥ रागप्रभाति ॥ रुपभ
 जिणंदारुपभजिणंदा तुमदारिसणहुयेपरमाणंदा अह
 निशिध्याउंतुमदीदारा महिरकरनेकरज्योप्यारा १
 रु० आपणनेपुंटेजेवल्गा किमसरतेहनेकरतांअलगा
 अलगाकीधापणरहेवल्गा मोरपीछपरेंनहुएउभगा २
 रु० तुम्हपणअलगेथयेंकिमसरस्यें भगतीभलिआकर
 शीलेस्ये गगनेउडेदुरेपडाइ दोरीवलेहाथेरहीआइ
 ३ रु० मुजमनडुंछेचपलस्वभावे तोहेअंतर्मुर्तप्रस्तावे
 तंतोसमयसमयवदलाये इमकिमप्रीतिनिवाहोथाये ४

(१६६) मानविजयजीकृत.

रु० तेमाटेतूंसाहिवमाहरो हुंछुंसेवकभवोभवताहरो ए
हसंबंधमांमहस्योखामी वाचकमानकहेशिरनामी ५

रु० इति ॥ अथ श्रीअजितजिनस्तवन ॥ आ

घाआमपधारोराज एदेशी ॥ अजितजिणेसरचरणनी

सेवा हेवायेहुंहलिआो कहिएअणचाख्योपणअनुभव

रसनोटाणोमलिआो १ प्रभुजीमहीरकरीनेआजकाज

हमारांसारो मुंकाव्योपीणहुंनविमुकुं चुकुएनविटाणो

भक्तिभावउठचोजेअंतर तेकिमरहेशरमाणो २ प्र०

लोचनशांतिसुधारसशुभगा मुखमटकालुसुप्रसन्न यो

गमुद्रानोलटकोचटको अतिसयनोअतिधन्न ३ प्र०

पिंडपदस्थरुपस्थेलीनो चरणकमलतुजग्रहीयां भमर

परेरसस्वादचखावो विरसोकांकरोमहीयां ४ प्र० बाल

कालमांवारअनंती सामग्रीयेहुंनविजाग्यो योवनका

लेतेरसचाख्यो तूंसमरथप्रभुमाग्यो ५ प्र० तूंअनुभव

रसदेवासमरथ हुंपणअरथतिहनो चित्तवित्तनेपात्रसं

बंधे अजररह्योहवेकेहनो ६ प्र० प्रभूनीमहीरितेर

सचाख्यो अंतरंगसुखपाख्यो मानविजयवाचकइमजं

पे हूओमुजमनकाम्यो ७ प्र० इति ॥

अथ श्रीसंभवजिनस्तवन ॥ सुमतिसदादिलमंधरु ए

देशी ॥ सांभलसाहिवनीनती तूंछेचतुरसुजाण सनेही

कीधिसुजाणनेविनती प्रायेचढेतेप्रमाण स० १ संभव
 जिनअवधारीयें महीरकरीमेहेरवान स० भवभयभा
 वदृभंजणो भगतिवछलभगवान स० २ सं० तुंजाणे
 विणुंविनवे तोहेमेंनरहाय स० अरथीहोएउतावलो
 क्षणवरसांसोथाय स० ३ सं० तूंतोमोटिममांरहे वि
 नवियेंपणविलंबाय स० एकधिरोएकउतावलो इम
 किमकारजथाय स० ४ सं० मनमान्यानीवातडी स
 घलेदीसेनेट स० एकअंतरपइसीरहे एकनपामेभेट
 स० ५ सं० जोग्यअजोग्यजेजोइवा तेअपूरणनूंकाम
 स० खाइनाजलनेपणकरे गंगाजलनिजनाम स० ६ सं०
 कालगयोवहुवायदे तेतोमेंनखमाय स० योगवाइएफि
 रिफिरी पामविदुरलभथाय स० ७ सं० भेदभावमूंकी
 परो मुझस्यूरमोएकमेक स० मानविजयवाचकत
 णी एवीनतीछेछेक स० ८ सं० इति ॥

अथ श्रीअभिनंदनजितस्तवन ॥ ढाल मोतीडानि
 एदेशी ॥ प्रभुमुझदरिसनमलियोअलवे मनथयोहवे
 हलवेहलवे साहिवाअभिनंदनदेवा मोहेनाअभिनंद
 न० पुण्योदयएहमोटोमाहरो अणचित्तयोथयोदरिसण
 ताहरो १ सा० देखतखेवहरीमनलीधुं कामणगारे
 कामणकोधुं सा० मनडूंजायेनहीकोइपासे रातदिव

मदेवता वाहलोकीधेआहवान भ० ४ श्री० ध्या
नपदस्थप्रभावथी चारूयोअनुभवस्वाद भ० मानवि
जयवाचककहे मुंकोबीजोवाद भ० ५ श्री० इति ॥

अथ श्रीसुपार्श्वजिनस्तवन रंगीलेआतमा एदेशी ॥

निरखीनिरखीतुझबिबने हरखितहुयेमुझमन्न सुपास
सोहामणो निरविकारतानयनमां मुखडूंसदासुप्रसन्न

१ सु० भावअवस्थासांभरे प्रातिहारजनीशोभ सु०

कोडिगमेदेवासेवा करतामूंकीलोभ २ सु० लोकालो

कनासविभावा प्रतिभासेपरतक्ष सु० तोहेनराचे

नविदुसें नविअविरतिनोपक्ष ३ सु० हासनरतिनअर

तीनही नहींभयशोकदुगंछ सु० नहींकंदर्पकदर्थना

नहीअंतरायनोसंच ४ सु० मोहमीथ्यातनिंद्रागइ ना

ठादोषअढार सु० चोत्रीसअतिशयराजतो मूलातिश

यच्यार ५ सु० पांत्रीसवाणीगुणेकरी देतोभविउपदे

श सु० इंसतुझबिबेताहरो भेदनोनहिलवलेस ६ सु०

रुपथीप्रभुगुणसांभरे ध्यानरुपस्थविचार सु० मा

नविजयवाचकवदे जिनप्रतिमाजयकार ७ सु० इति ॥

अथ श्रीचंद्रप्रभजिनस्तवन ॥ दिनज्युंनजुंन

साहिबारे एदेशी ॥ तूंहीसाहिबारेमनमान्या तुंतोअ

कलस्वरुपजगतमां मनमांकेणेनपायो शबदेबोलावि

मानविजयजीकृतं. (१७१)

ओलखायो शबदातीतठरायो १, तूही० रुपनिहालि
 परिचयकीनो रुपमांहीनहिआयो प्रातिहारजअतिश
 यअहिनाणे शास्त्रमांबुधेनलखायो २, तू०, शबदनरुपन
 गंधनरसनही फरसनवरणनवेद नहिसंगन्याछेदनभेद
 न हासनहीनहीखेद ३, तू०, सुखनहीदुखनहीव
 लीवांछानही नहीरोगयोगनेभोग नहीगतिनहीथि
 तिनहीरतिअरति नहीतुझहरपनेशोग, ४, तू०, पुण्य
 नपापनबंधनदेहन जनमनमरननत्रिडा रागनद्वेपन
 कलहनभयनही नहिसंतापनक्रीडा ५, तू०, अलखअगो
 चरअजअविनाशी अविकारीनिरुपाधी पुरणब्रह्मचि
 दानंदसाहिव ध्यायोसहजसमाधी ६, तू०, जेजेपूजातेते
 अंगे तूतोअंगथीदूरे तेमाटेपूजाउपचारीक नघटध्यान
 नेपूरे ७, तू०, चिदानंदयनकेरीपूजा निरविकल्पउपयोग
 आतमपरमातमनेअभेदे नहीकोइजडतोजोग, ८, तू०, रु
 पातितध्यानमांरहेतां चंद्रप्रभुजिनराय मानविजयवाच
 कइंमबाले प्रभुसरिखाइथाय, ९, तू०, इति ॥ अथ श्री
 सुविधिजिनस्तवन ॥ रागसिंधुडो चित्रोडिराजा
 रे एदेशी ॥ तुझसेवासारीरे शिवसुखनत्वारिरे
 मुझलागेप्यारीरे पणन्यारीछेताहरीप्रकृतिसुविद्धिजि
 नारे १ हेजेनविवालेरे स्तवियोनविडालेरे हीयडो

(१७२) मानविजयजीकृतः

नविखोलरे तुझतोलेत्रिणजगमांकोनहीनीसंगीयोरे २
नजूयेजोतानेरे नरीझेसोतानेरे रहमेलेपोतानेरे श्रो
तानेजोतानेतोहेवालहोरे ३ नवितूसेनरुसेरे नवखाणेन
दूसेरे नविआपेनमूसेरे नविभूंसेनमंडेरेकोइनेकदार ४
नजणाएधातरे तेहस्युंसीवातरे एहजाणुंकहेवातरे र
हिवातनतोहेतुझविणुंमाननेरे ५ इति ॥ अथ श्री
शीतलजिनस्तवन ॥ मनरंगधरी० एदेशी ॥ तुझमुख
सनमुखनिरखतां मुझलोचनअमीठरंतांहो शीतलजि
नजी तेहनीशीतलताव्यापे किमरहिवायेंकहोता
पेहो १ शी० तुझनामसुप्युंजवकाने हडयडुंआवेतव
सानेहो शी० मुरछायोमाणसवाटे जिमसज्जहुयेअमृतछां
टेहो २ शी० शुभगंधनेंतरतमयोगे आकुलताहुइभो
गेहो शी० तुझअदभुतदेहसुवासे तेहमिटिगइरहतउ
दासेहो ३ शी० तुझगुणसंस्तवनेरसना छांडेअन्यलवनी
त्रसनाहो शी० पूजायेंतुझतनुंफरसे फरसनशीतलथइउ
ल्हसेहो ४ शी० मननीचंचलताभागी सविछंडीथयोतुझ
रागीहो शी० कविमानकहेतुझसंगे शीतलताथइअंगोअं
गेहो ५ शी० इति॥ अथश्रीश्रेयांसजिनस्तवन॥ देशीवां
हांणनीरागमल्हार ॥ श्रीश्रेयांसजिणंदघनाघनगहग

ह्योरे घना० वृक्षअशोकनीछायासुभरछाइरह्योरे सु०

भामंडलनीझलकझवुकेवीजलीरे झ० उन्नतगढतिगइ
 द्रधनुपशोभामिलिरे ध० १ देवदुंदुहिनोनादगुहिर
 गाजेघणुरे गु० भाविकजननांनाटिकमोरक्रीडाभणुरे
 मो० चामरकेरीहारचलंतीवगततीरे च० देशनासरस
 सुद्धारसवरसेजिनपतीरे व० २ समकितिचातकचुंद
 तृपतिपामेतीहारिरे तृ० सकलकपायदावानलशांतिहु
 इजिहारिरे शां० जनाचित्तवृत्तिसुभुमित्रेहालीथईरहीरे
 त्रे० तेणिरोमांचअंकुरवतीकायालहीरे व० ३ श्रमण
 कृषीवलसज्जहुयेतवउजमारे हु० गुणवंतजनमनक्षेत्र
 समारेसंयमीरे स० करतावजाधानसुधाननीपावतारे
 सु० जेणेजगनालोकरहेसविजीवतारे र० ४ गणधर
 गिरितटसंगीथइसूत्रगूंथनारे थ० तेहनदीपरवाहेहुइ
 बहुपावनारे हु० एहजमोटोआधारविपमकालेलह्योरे
 वि० मानविजयउवझायकहेमेंसदह्योरे क० ५ इति ॥

अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तवन ॥ सीतातोरुपेरुडी ॥ ए
 देशी ॥ वासुपूज्यतुंसाहिवसाचो जेहवोहुयेहीरोजाचो
 हो सुंदरसोभागी जसहोयेविरोद्धीवाचो तेहनीकरेसे
 वाकाचोहो सुं० १ अछतिओवातउपावे वलिभवछता
 नेछिपावेहो सुं० काईनुंकांइबोले परनीनिंदाकरीडोले

हो सुं० २ इमचउविहमिथ्याभाखी तेदेवनकुणभरे

(१७४) मानविजयजकृत.

शाखीहो सुं० प्राणिनामर्मनाघाती हइयामांमोटीका
तीहो सुं० ३ गुणविणरह्याउंचेठाणे किमदेवठहरायप्र
माणेहो सुं० प्रासादशिखररह्योकाग किमपामेगुरुड
जसलागहो सुं० ४ तुंतोवीतरागनीरीह तुझवचनयथा
रथलीहहो सुं० कहेमानविजयउवझाय तुंसाचोदेवठ
रायहो सुं० ५ इति ॥ अथ श्रीविमलजिनस्त

वन ॥ रागमल्हारनी एदेशी ॥ जिहोविमलजिनेसर
सुंदरु लालाविमलवदनतुझदिठ जिहोविमलहुत्रोमुझ
आतमा लालातेणेतुंअंतरपइठ १ जिनेसरतुंमुझप्राण
आधार जिहोसकलजंतुहितकार जिनेसरतुंमुझप्राण
आधार आंकणी. जिहोविमलरहेविमलेथले लालास
मलेंसमलरमेय जिहोमानसरेरमेहंसलो लालावायस
खाइजलेय जि० २ जिहोतिममीथ्यालीचित्तमां लाला
तुझकिमहोयेआभास जिहोतिहांकुदेवरंगेरमे लाला
समकितमनेतुझवास जि० ३ जिहोहीरोकुंदनस्युंजडे
लालादूधनेसाकरयोग जिहोउलटयोगेवस्तुनो लाला
नहोयेंगुणआभोग जि० ४ जिहोविमलपुरुषरहेवातणुं
लालाथानकविमलकरेय जिहोगृहपतिनेतिहांसीत्रषा
लालाभाटकउचितग्रहेय जि० ५ जिहोतिमतेमुझमननि

रमलूं लालाकीधुंकरतेरेवासजिहोपुष्टीशुद्धिभाटकग्रही

लालाहंसुखीयोथयोदास जि० ६ जिहोविमलेविमलमि
 लीरह्या लालाभेदभावरह्योनांहि जिहोमानविजयउव
 झायने लालाअनुभवसुखथयोत्यांहि जि० ७ इति ॥
 अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ रागमारु देशीगीतझू
 लणनीगुजराति ॥ ज्ञानअनंतूताहरेरे दरिसनता
 हरेअनंत सुखअनंतमयसाहिवारे विरजपणउल्हस्युं
 अनंत १ अनंतजिनआपजोरे मुझएहअनंताच्यार
 अ० मुझनेनहीअवरस्युंप्यार अ० तुझनेआपतांसी
 वार अ० एहछेतुझयज्ञानोठार अ० आपखजीनोन
 खोलवारे नहिमीलवानीचिंत माहरेप्रोतेछेसेवेरे पण
 विचेअवरणनीभित अ० २ तपजपकिरियामोगरेरे
 भांजीपणभागीनजाय एकतुझआणलहेथकेरे हेलामां
 परहीथाय अ० ३ मातभणमिरुदेवीनेरे जिनरुषभखि
 णमांदिध आपपियारुविचारतारे इमकीसंवीतराग
 तांसिद्ध अ० ४ तेमाटेतसअरथीआरे तुझप्रार्थनाजे
 कोइलोक तेहनेआपोआंफणीरे तिहांनघटेकराववीटोक
 अ० ५ तेहनेतेहनुंआपवूरे तिहांस्योउपजेछेखेद प्रारथ
 नाकरतेताहरेरे प्रभुताइनोपणनाहिछेद अ० ६ पास्योपा
 मेपामसेरे ज्ञानादिकजेहअनंत तेतुझआणाथीसवरे क
 हेमानविजयउलसंत अ० ७ इति ॥ अथ श्री

(१७६) मानविजयजीकृत.

धर्मजिनस्तवन ॥ मुखनेमरकलडे एदेशी ॥ श्रीधरम
जिणंददयालजि धरमतणोदाता सविजंतूतणोरखवाल
जि धरमतणोत्राता जसअमीयसमाणीवाणीजि ध०
जेहानिसुणेभावेप्राणीजि ध० तेहनावित्तनोमेलजाय
जि ध. जिमकतकफलेजलथायजि ध. निरमलताते
हजधर्मजि ध. कलुषाईमेटचानोमर्मजि ध. २ निजध
रमतोसहजसभावाजि ध. तोहितुझनिमितप्रभावजि ध.
वनराजीफूलनशगतीजि धः पणरितुराजेहइव्यगती
जि ध. ३ कमलाकरेकमलविकासजि ध. सोरंभतालिख
मीवासजि ध. तेदिनकरकरणीजोयजी ध इमधरमदाय
कतुंहोयजि ध. ४ तेमाटेधरमनारागीजि ध. तुझपदसेवेव
डभागीजि ध. कहेमानविजयउवझायजि ध. निजअनुभ
ग्यानपसायजि ध. ५ इति ॥ अथ श्रीशांतिजिनस्तवन ॥
घरिआवोजीआंबोमोरीआो एदेशी ॥ श्रीशांतिजिनेस
रसाहिबा तुझनाठेकिमछूटास्ये मेंलीधीकेडजताहरी ते
हप्रसनथयैमूंकार्ये श्री० १ तूवीतरागपणुंदाखवी भो
लाजननेभूलावे जाणीनेकीधीप्रतिगन्या तेहथीकहोकु
णडोलावे श्री. २ कोइकोइनेकेडेमतपडो केडपड्यां
आणेवाज नीरागीप्रभूपणखिंचीआो भगतेकरिमेंसात

राज श्री. ३ मनमांहिंआंणवासीआो हवेकिमनिसर

वादेवाय जोभेदरहितमुझस्युंमिले तोपलकमांहिछुटा
 य श्री० ४ कवजेआव्याकिमछूटस्यो दीधाविणकहण
 कृपाल तोस्युंहठवादलेइरह्या कहेमानकरोखुसीयाल
 श्री० ५ इति ॥ अथ श्रीकुंथुजिनस्तवन ॥ यो
 गीसरचला एदेशी॥ कुंथुजिनेसरजाणजारैलालमुझम
 ननोअभिप्रायरे जिनेश्वरमीरा तूंआतमअलवेसरुरेला
 लरखेतुझविरहोथायरे जि० १ तुझविरहोकिमवेठीयेरे
 लाल तुझविरहोदुखदायरे जि० तुझविरहोनखमाकरे
 जि० खिणवरसांसाथायरे जि० विरहोमोटिवलायरे
 जि० एआंकणी ताहरेपासेआववुरेलाल पहिलानावेतूं
 दायरे जि० आव्यापछीतोजायवुरेलाल तुझगुणवस्ये
 नसुहायरे जि० कुं० २ नमिल्यानोधोखोनहीरेलाल
 जसगुणनूनहिनांणरे जि० मिलियागुणकलियापछिरे
 रेलाल विछुरतजायेप्राणरे जि० कुं० ३ जातिअंधने
 दुखनहीरेलाल नलहेनयननोस्वादरे जि० नयणसवाद
 लहीकरीरेलाल हारचानेविखवादरे जि० कुं० ४ बी
 जेपणकिहांनविगमेरेलाल जिणेतुझविरहवचायरे जि०
 मालतिकुसुमेमालहीयोरेलाल मधुपकररेनजायरे जि०
 कुं० ५ वनदवदाधांरुंखडारैलाल पालहवेवलिवरसा
 तरे जि० तुझविरहानलनावल्यारैलाल कालअनंतग

(१७८) मानविजयजीकृत.

मातरे जि० कुं० ६ ताढकरहेतुझसंगमैरेलाल आकु
लतामिटिजायरे जि० तुझसंगेसुखीयोसदारेलाल मा
नवीजयउवझायरे जि० कुं० ७ इति ॥

अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ ओधवमाधवनेकहेजो एदे
शी ॥ श्रीअरनाथउपासना शुभवासनामूल हरीहरदे
वआसासना कुणआवेशूल श्री० १ दासनाचित्तनी
कुवासना उदवासनाकीध देवाभासनीभासना वीसा
सीदीध श्री. २ वलीमीथ्यावासनतणा वासनाराजेह
तेकुगुरुनीसासना हइयेनधरेह श्री. ३ संसारिकआ
संसना तुझस्यूनकराय चिंतामणिदेणहारने किमका
चमगाय श्री. ४ तिमकलपितगछवासना वासनाप्र
तिबंध मानकहेएकजिनतणो साचोप्रतिबंध श्री. ५ इति ॥
अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ सासूपूछेहेवहु एदेशी ॥
महिमामल्लिजिणंदनो एकेजीभिकह्योकिमजाय योगध
रेभिन्नयोगसुं चालापणयोगनीदेखाय म० १ वयणेस
मझावेसभा मनसमझावेअनुत्तरदेव उदारिककायाप्र
ते देवसमीपेकरावेसेव म० २ भाषापणसविश्रोताने
निजनिजभाषायेसमझाय हरपेनिजनिजरीझमां प्रभु
तोनिरविकारकहाय म० ३ योगअवस्थाजिनतणि
ग्याताहुयेतिणेसमझाय चतुरनीवातचतुरलहे मूढवि

चारादेखीमुझाय म० ४ मूरखजनपामेनहि प्र
भुगुणनोअनुभवरसस्वाद मानविजयउवझायने ते
रसस्वादेगयोविखवाद म० ५ इति ॥

अथ श्रीमुनिसुव्रतजिनस्तवन ॥ इडरआंवाआंवली
रे एदेशी ॥ मुनिसुव्रतकीजेमयारे मनमांहिंधरीमहिर
महिरविहूणामानवीरे कठिणजणायिकहिर १ जिणेस
रतुंजगनायकदेव तुझजगाहितकरवाटेव बीजाजूये
करतासेव जि. अरहटखेत्रनीभूमकारे सींचेकृतारथ
होय धाराधरसबलीधरारे उधरवासज्जजोय २ जि.
तेमाटेअमउपररे आणमिनमांमहेर आपेआया
आफणीरे बोधवाभरुयचसहेर ३ जि. अणप्रारथ
ताउधरचारे आपेकरीयउपाय प्रारथतारहेविलव्रता
रे एकुणकहीयेन्याय ४ जि. संबंधपणतुझमुझवि
चेरे स्वामीसेवकभाव मानकहेहवेमहिरनारे नरहोअ
जरप्रस्ताव ५ जि. इति ॥

अथ श्रीनिमि
जिनस्तवन ॥ कपूरहोवेअतिउजलोरे एदेशी ॥ श्रीनि
मिनाथजिणंदनेरे चरणकमललयलाय मुंकीआपणिच
लपतारे तुळकुसुमेमतजायरे १ सुणिमनमधुकरमाह
रीवात सकरोफोकटविलुपात सु० विपमकालवरपा
स्तिरे क्रमिक्रमिहुआव्यतीत छेहलोपुग्गलपरियटोरे

(१८०) मानविजयजीकृत.

आव्योशरदप्रतीतरे २ सु० ग्यानावरणवादलफटेरे
ग्यानसूरजपरकास ध्यानसरोवरविकसीयारे केवल
लक्ष्मीवासरे ३ सु० नामेललचावेकोइरे कोइकनव
नवराग एहवीवासनानहीबीजेरे शुधअनुभवसुपराग
रे ४ सु० भमतभमतकहावियेरे मधुकरनोरसस्वाद
मानविजयमननेकहेरे रसचाखोआल्हादरे ५ सु० इति
अथ श्रीनेमिजिनस्तवन ॥ अबप्रभूसुइतनीकहुं ए
देशी ॥ नेमिजिणंदनिरंजणो जइमोहथलेजलकेलरे मोह
नाउदभटगोपी एकलमलेनांरुयाठेलेरे १ सामिसलुणा
साहिबा अतुलीबलतूवडवीररे सा० कोइकताकीमूंक
ती अतितीखांकटाक्षनांबांणरे वेधकवयणबंधूकगोली
जेलागेजायेप्राणरे २ सा. अंगुलीकटारीघोचती उछा
लतीविंणीकृपाणरे सिथोभालाउगांमती सिंगीजलभरे
कोकवाणरे ३ सा. फूलदडागोलीन्हाखे जेसत्वग
ढेकरेचोटेरे कुचयुगकरिकुंभस्थले प्रहरतीरूदयकपा
टेरे ४ सा. शीलसनाहउन्नतसवे अरिशस्त्रनेंगोलान
लागारे सोरकरीमीथ्यासवे मोहसुभटदहोदीसेभा
गारे ५ सा० तवनवभवयोहोमंडचो सजीविवाहमं
डपकोटेरे प्रभुपणतससनमुखेगयो नीसाणेदेतोचोटेरे
६ सा० चाकरीमोहनीछोडवी राजुलनेशिवपुरदीधरे

ओपैरैवतगिरसजी भौतरसंयमगढलीधरे ७ सां०
 श्रमणधरमयोद्दालडे संवेगखडगधृतिढालरे. भाला
 केसउपाडतो शुभभावनागडगडेनालरे ८ सा. ध्यान
 धाराशरवरपतो हणीमोहथयोजगनाथरे मानविजय
 वाचकवदे मेंग्रह्योताहरोसाथरे ९ सा० इति ॥
 अथ श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवन ॥ देहुं देहुं नणदहठीली
 एदेशी ॥ श्रीपासजीप्रगटप्रभावी तुझमुरतिमुझमन
 भावीरे मनमोहनांजिनराया सुरनरकिंनरगुणगाथारे
 म० जेदिनथीमूरतिदीठी तेदिनथीआपदनीठारे १
 म० मटकालोमुखसुप्रसन्न देखतरीझेभविमन्नरे म०
 समतारसकेरांकचोलां नयणांदिठेरंगरोलारे २ म०
 हाथेनधरेहथीयार नहीजपमालानोप्रचाररे म० उत्सं
 गेनधरेवांमा तेहथीउपजेसविकामारे ३ म० नकरेगी
 तनृत्यनाचाला एतोपरतक्षनटनाख्यालारे म० नवजा
 वेआपेवाजां नधरेवस्त्रजीरणसाजारे ४ म० इममूर
 तितुझनिरुपाधि वीतरागपणेकरीसाधीरे म० कहेमा
 नविजयउवझाय मेंअवलंब्यातुझपायरे ५ म० इति ॥
 अथ श्रीमहावीरजिनस्तवन ॥ हेमराजजगजसजी
 तो एदेशी ॥ सासननायकसाहिवसाचो अतुलीवल
 अरिहंत करमअरीवलसबलनिवारी मारीयमोहमहंत

(१८२) मानविजयजिकृत.

१ महाविरजगमांजीत्योजी जीत्यो२ आपसहाय हांजी
जीत्यो२ ग्यानपसाय हांजीजीत्यो२ ध्यानदशाय हां
जीजीत्यो२ जगसुखदाय म० अनंतानुबंधीवडयोधा ह
णीयापहिलीचोट मंत्रीमिथ्यातपछेतिगरुपी तवकरी
आगलदोट २ म० भाजिहेडआयुसतिगकेरी इकवि
गलेंदिअजाति एहमेवासभांज्योचिरकाले नरकयुग
लसंघाति ३ म० थावरतिरिदुगझांसिकटावि साहा
रणहणीधाडी थीणद्धीतिगमदिरिवयरी आतपउद्यो
तउखाडी ४ म० अपचखाणाअनेपचखांणा हणीया
योद्धाआठ वेदनपुसकस्त्रीसेनानी प्रतिविंबितगयानाठ
५ म० हास्यरतिअरतिशोकदुगंठा भयसोहखवास
हणीयापुरुषवेदफोजदारा पछेसंजलनानाश ६ म०
निद्रादोयमोहपटराणी घरमांहिथीसंहारी अंतराय
दरशणनेग्यांना वरणीयलडतामारी ७ म० जयज
यहुओमोहजमुओ हूओतूजगनाथ लोकालोकप्रका
शथयोतव मोक्षचलावेसाथ ८ म० जीत्योतिमभगत
नेजीतावे मूंकायोमूंकावे तरणतारणसमरथछेतूही मा
नविजयनितुध्यावे ९ म० इति ॥ इति मानविजयउपा
ध्याय कृत चोवीशी संपूण ॥

अथ श्री जिनविजयजीकृत चोवीशीः

अथ श्रीरुपभदेवजिनस्तवन ॥ देशीवारिरंगढोलणा ॥
नाभिनरेशरनंदनाहोराज चंदनशीतलवांणी यारीमाह
रासाहिवा देवदाणवविद्याधराहोराज सेवेजोडीपांणी
वा० १ शुद्धातमवलमोगरेहोराज मोहमदनकरीघात
वा० राजलीयोतेआपणोहोराज परमानंदविख्यात
वा० २ धर्मचक्रीविचरेजीहांहोराज कनककमलठवेपा
य वा० जोयणसवांसोमंडलेहोराज रोगादिकनवि
थाय वा० ३ चरणनृपतिनीनंदनीहोराज केवलकम
लानार वा० वतिरागतामहेलमांहोराज विलसे
जगदाधार वा० ४ इमचउअतिशयअलंकरचोहोरा
ज साहिवजगसुलतान वा० खिमाविजयकविजिनक
हेहोराज दीजेसमकितदान वा० ५ इति ॥

अथ श्रीअजितजिनस्तवन ॥ अजितजिनेसरवालहो
रेहां अवरनआवेदाय निकेसाहिवा पंचामृतभोजनल
हीरेहां कहोकुणकुसखाय नि० १ मधुकरमोह्योमा
लतीरेहां कवहीकरीरनजाय नि० राजमरालमोतीचु
गरेहां कंकरचुंचनवाय नि० २ गंगाजलक्रीडाकरेरेहां
छीलरजलकीमनाय नि० सतिनिजनाहनेछोडिनेरेहां
परजनहृदयनध्याय नि० ३ कल्पतरुछायातजरिरेहां

५४) जिनविजयजीकृत.

येवावल्लभाय नि० रघणचिंतामणीकरछतारेहां
नताससुहाय नि० ४ तिमप्रभुपदकजछोडीने
रेहां हरीहरनामुंनशिश नि० पंडितक्षमाविजयतणारे
हां कहेजिनविजयसुसीस नि० ५ इति ॥

अथ श्रीसंभवजिनस्तवन ॥ कंकणोमोललीयो एदे
शी ॥ संभवभवभयभंजणारे जिनजी मयनोमदनविका
र दिलडेवसीरह्यो जनमथकीपणजेहनारे जि० अनोपम
अतिशयच्यार दि० १ प्रस्वेदनहोयेंकदारे जि० अदभूत
रूपसुवास दि० कायाजेहनीएहवीरे जि० रोगनआ
वेपास दि० २ आहारकोदेखेनहीरे जि० रुधिरगोखी
रसमान दि० सासोश्वाससुखेलहैरे जि० कमलसुगं
धीप्रधान दि० ३ आठकरमनानाशथीरे जि० पामी
अडगुणसिद्धि दि० सादीअनंतभोगवेरे जि० केवलक
मलारिद्धि दि० ४ जीतारीनृपनंदनारे जि० अंतरअ
रीकरेघात दि० तेहमांकोअचरीजनहिरे जि० उत्तम
कुलअवदात दि० ५ सुपनमांहीपणसांभरैरे जि०
साहिवरोदीदार दि० पंडितक्षमाविजयतणारे जि०
कहेजिनदीलआधार दि० ६ ॥ इति ॥

अथ श्रीअभिनंदनजिनस्तवन ॥ देशहिमरीयांनी ॥

अभिनंदनजिनवरसुणो ओलंभेअरदास सनेही छां

डंतांकीमछुटस्यो करस्योनेटदिलास स० १ अभिनंद
 नत्रप्रवधारिये इमदिनकेताचालस्ये मौनकरेमहेरवान
 स० हेजेहसीअबोलावयि जिमत्रमवाधेवान स० २
 अ० तारकविरुद्धधरावस्यो तेंतारचासुप्रसीद्ध स०
 तोप्रभुहुंकीमवीसरचो अथवातिणेकाइदीध स० ३
 अ० लोकस्वभावेदेखतां इमनसरेमुझकाजि स० दास
 त्वभावेजोगिणो एतलंपामुराज स० ४ अ० करुणा
 निधिकहीयेकस्युं जाणेमनोगतभाव स० ५ खिमावि
 जयकवीजिनकहे कीजियेसुगुणजमाव स० ६ अ०
 इति ॥ अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ मुजरो
 ल्योनेजालिमजाटणी एदेशी ॥ सुमतिजिणेशरसांभल
 वीनिती राखोआपहंजुर सुगुणासाहिवस्युंकहीयेघणुं
 दुसमनकीजेदूर १ सुमतिजिणेश्वरसाहिवसांभलो आं
 कणी पुण्यपसायेहोपामीये साहिवतुमसरीखारीसेव
 हवेनछोडुंतुमचापाडलां काजसरचाविणदेव २ सु०
 आसधरीनेअहनिशिउलगो आगलउभाजोडीहाथ
 तेहनेनिपटजनाकारोकरे भलुंनेहजगनाथ ३ सु० जेह
 पोतानोकरीलेखवे तेहस्युंमिलीयेहोध्याय तेहसाजन
 होस्याकामना कामपडैकमलाय ४ सु० जनमनवंचीत

पुरणसुरमणी समरथतुंजिनराय पंडितश्रीगुरुक्षमावि

(१८६) जिनविजयजीकृत.

जयतणो जिनविजयगुणगाय ६ सु. इति ॥ अ
थ श्रीपद्मप्रभजिनस्तवन ॥ चंद्रप्रभुनीचाकरीरे एदे
शी ॥ पदमप्रभुआगलरहीरे साहिव कहियोनिजवितक
अवदात जिनेसरसांभलोरे अविरतीस्युंरंगेरम्योरे सा.
सेव्यापांचमीथ्यात १ जि. मूढपणेनविषारखीरे सा.
सगुरुदेवधर्मनसिव जि. नीर्गुणगुणीमछरपणेरे सा. न
टलीपरनिंद्यानीटेव जि. २ पांचेआश्रवआदरचारे
सा. कीधोच्यारकषायनोपोष जि. विकथानेगारववसे
रे सा. नधरचोसमतानेसंतोष जि. ३ कपटेकीरीया
आचरीरे सा. नदियामुनीवरदान जि. धर्मकथामनरं
जवारे सा. बगपरेकीधांध्यान जि. ४ वादनिमित्तवि
द्याभणारे सा. थाप्यांधर्मविरुद्ध जि. कुमतिकुनारिसं
गतेरे सा. नकरीआतमसोध जि. ५ मुझकरणीजोयो
स्योरे सा. तोकीमथास्येकाम जि. उत्तमजलधरसारि
खारे सा. नगणेठामकुठाम जि. ६ परउपगारसिरो
मणीरे सा. तुमसमकुणजगमांही जि. क्षमाविजयगुरु
रायनोरे सा. सेवकजिनग्रहोबांहि जि. ७ इति ॥

अथ श्रीसुपासजिनस्तवन ॥ झुंबखडानीदेशी ॥ श्रीसु
पासजिनस्वामीजी सुणहोसेवकवात सलुणेसाहिवा तु

मगुणरंगझकोलमें रंगानिहमधात १ स० हममधुक

जिनविजयजीकृतः (१८७)

रतुममालति हमचकोरतुमचंद स० हमचकवातुमदिन
 पति हमप्रजतुमसुनरिंद २ स० हममयूरतुमजलधरु
 हममछातुमनीर स० तुमसासनशुभवागमे खेलेहमम
 नकीर ४ स० हमएरावणतुमसुरधणी हमखगपतितु
 मकाहान स० समरीरतुमनामको हमगायनकरेगान
 ४ स० इसीहमतुमप्रीतडी चिरनंदोयुगकोडि स० पंडि
 तक्षमाविजयतणो कविजिनकहेकर जोडी ५ स० इति॥
 अथ श्रीचंद्रप्रभजिनस्तवन ॥ योवनीयानोलटकोदा
 हाडाच्यारजो एदेशी ॥ हारिमारेचंद्रवदनजिनचंद्रप्रभु
 जगनाहजो दीठोमीठोईछोजिनवरआठमारेलो हां०
 मनडानोमानीतोप्राणआधारजो जगसुखदायकजंगम
 सुरसाखीसमारेलो १ हां० शुभआशयउदयाचलसम
 कितसुरजो विमलदशापूर्वदिशेउग्यादिपतारेलो हां०
 मैत्रीमुदीताकरुणानेमाध्यस्थजो विनयविवेकसुलंछन
 कमलविकासतारेलो २ हां० सदहणाअनुमोदपरि
 मलपूरजो पसरथोमनमानससरअनुभववायरारेलो
 हां० चेतनचकवाउपसमसरवरनीरजो शुभमतीचक
 वीसंगेरंगरमलकरेरेलो ३ हां० ज्ञानप्रकासेनयण
 ल्यांमुझदोयजो जाणरेखटद्रव्यस्वभावेथापणारेलो हां०

जडचेतनभिन्नाभिन्नानिव्यानित्यजो रूपीअरूपीआदि

स्वरूपत्रापापणेरेलो ४ हां० लखगुणदायकलखमणारा
 णिनंदजो चरणसरोरुहसेवामेवासारिखारिलो हां०
 पंडितश्रीगुरुक्षमाविजयसुपसायजो मुनीजिनजंपेज
 गमांजोतांपारखीरेलो ५ हां० इति ॥

अथ श्रीसुविधिजिनस्तवन ॥ होमित्तजाण्यामर्मतुमा
 रा एदेशी ॥ सुविधिजिनत्रीगडेछाजे सुरदुंदुहीगयणे
 गाजे शिरउपरछत्रविराजेहो १ देवप्यारादरीसतुमारे
 जातु समपंचवर्णफूल देववरसावेबहुमूल पामेसमकि
 तअनुकुलहो २ दे० पुंठेभामंडलझलके दुगपासेचा
 मरललके स्वरझीणेधुधरीरणकेहो ३ दे० सिंहासन
 रुषअशोक दलफलनीशीकहुंरोक मोहेदानवमानवथो
 कहो ४ दे० दूधसाकरमेवाद्राख पाकीसहकारनीसा
 ख तेहथीमीठीतुम्हभाखहो ५ दे० भवभवनातापस
 मावे एकेवचनेसहुसमझावे वलीबीजधर्मनुंवावेहो ६ दे०
 सुणीवारपरखदाहरपे संयमसमतासुखफरसे सेवकजि
 नतेहनेतरसेहो ७ दे० इति ॥ अथश्रीशीतलजिनस्तवन
 गरबोकेणेनेकोराव्योकेनंदजीनालालारे एदेशी ॥ शेवो
 शीतलजिनशिरनांमीके सहुसुखदायरे जेहेछेतीनभुवन
 नोस्वामीके सुरगुणगायरे जेहनेपरमप्रभुतापामीके ह
 णीअंतरायरे जेहछेसिद्धवधुसूखकामीके जयजिनरायरे

१ चोसठइंद्ररह्याकरजोडीके मोडीमानरे जेहनापायन
मेकरजोडीके निरुपमन्यांनरे अमरीभमरीपरीलोकके
मुखकजावासरे अपछरलाभअनंतोजाणीके गायेंरासरे
२ वीणातालरवाजसुणावेके लैकरतालरे धपमपमृदंग
बजावेके रागरसालरे तननतथेईथेईतानमिलावेके
सरीखेसादरे रागणीरागेगीतमल्हावेके मधुरेनादरे ३
नाटीकवत्रीसवद्धदेखावेके नवनवल्लंदरे लटकेललीर
सीसनमावेके विनयअमंदरे तारकत्रणरतनअसआ
पोके दीनदयालरे जगगुरुजनमजरादुखकापोके वि
रुदसंभालरे ४ निरमोहेपणजनमनमोहिके अगमअरुप
रे रागरहितभविपडीबोहेके अकलस्वरुपरे मानवि
नानिजआणमनावेके अचरिजठामरे पंडितक्षमाविज
यजिनध्यावेके शिवसुखधामरे ५ इति ॥

अथश्रीश्रेयांसंजिनस्तवन ॥ मारीलालनंदननावीराहा
रसीआवगोरीनाहलीया एदेशी ॥ तुंतोविश्वनुरेस
रनंदनोहो जीनजी माताविश्वनुरधरयो तुंतोजगजं
तुहीतकाजहो जि वारमास्वर्गथीअवतरयो १ तुंतो
त्रीभुवनतीलकसमानहो जि समतासुंदरिनाहलीओ
थयोतीनभुवनउद्योतहो जि दिशकुंमरीहुलरावीओर
खडगीलंछनकंचनवानहो जि अतिशयच्यारअलंकर्यो

(१९०) जिनविजयजीकृत.

त्रणग्यानसीहतभगवानहो जि० जन्मोछवसुरवरक
रचो ३ तुंतोकल्याणांकुरकंदहो जि. वंशइक्षांगसोहा
वीओ गुणनिप्पन्नगुणधामहो जि. श्रेयांसनामठरवि
ओ ४ तुंतोवरसीवरसीदानहो जि० राज्यतजीसंयम
धरचो तेतोजीतोपरिसहफोजहो जि. केवलकमलाबहु
वरचो ५ बेसीत्रिगडेत्रिभोवननाथहो जि० शिवपुर
साथचलावीओ एकजोयणसरीखेसादहो जि० उपदे
शनादवजावीओ ६ भवअडवीतसकरदोयहो जि. तेह
नोमरमबतावीओ क्षमाविजयगुरुरायहो जि० शेव
कजिनगुणगावीओ ७ इति ॥ अथ श्रीवा

सुपूज्यजिनस्तवना॥ केसरवरणोहोकेकाढिकसुंबोमारा
लाल एदेशी ॥ अतरंजामिहोकेशीवगतिगामी म्हारा
लाल मुल्लमनमंदिरहोकेथयोविसरामी म्हा० दिशा
जागीहोकेभावठभागी मा० प्रभुगुणरागीहोकेहु
ओवडभागी मा० १ मिथ्यासंकटहोकेदूरनिवा
री मा० समकितभूमीहोकेसुपरसेमारी मा० करु
णाशुचिजलहोकेतिहांछटकावि मा० समदमकुसुम
नीहोकेशोभावनावी मा० २ महकेशुभरुचिहोकेपरि
मलपुरीमा. ग्यानसुदीपकहोकेज्योतिसनूरी मा० धुप
घटीतिहांहोकेभावनाकेरी मा० सुमतिगुपतनीहोकेर

चनाभलेरी मा० ३ संवरवीछाणाहोकेतपजपतकीया
 मा० ध्यानसुखासनहोकेतिहांप्रभुवसीया मा० सुमति
 सहेलीहोकेसमतासंगे मा० साहिवमीलीयाहोकेअ
 नुभवरंगे मा० ४ ध्याताध्येयेहोकेप्रीतबंधाणी
 मा० वारमाजिनस्युंहोकेमनुसंगेआणी मा० क्षमा
 विजयबुधहोकेमुनिजिनभासे मा० एहअवलंबन
 होकेसविसुखपासे मा० ६ ॥ इति ॥

अथ श्रीविमलजिनस्तवन ॥ कडखानीदेशी ॥ सक
 लगुणगणविमलतुम्हदारिसने आतमारामसुखसहज
 पावे सबलसंवेगीनिर्वेदीअनुकंपते शुद्धसरधानश्रेणी
 मचावे १ स० चरणगयवरचढेमोहरीपुसैलडे न्यानप
 रधानसवराहवतावे धैर्यवरवर्यिरणथंभरोपिप्रवल पर
 मवैरागसन्नाहवतावे २ स० आणअरीहंतनीढालआ
 गलधरे ध्यानइकतानसमसेरलावे हास्यरतिअरतिभ
 यशोगदुगंछखट झपटदेमदनअरिदुरहटावे ३ स० म
 नवचकायानिरमायबंधुकभरि सुमतिओरगुपतीगोली
 चलवे मारीमोहमल्लसुतरागओररोसकुं जगतमांजति
 वाजांवाजावे ४ स० मोहनेक्षयकरेविजयलछीवरे अ
 जरअचलअमरनयरेसिधावे श्रीक्षमाविजयगुरुचरणक
 जसेवतां नित्यआणंदाजिनराजपावे ५ स० इति ॥

(१९२) जिनविजयजीकृत.

अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ लाछलदेमातमल्हार ए
देशी ॥ नामधारकअन्यदेव प्रभुपरमारथहेव आज
होअनंतजिणेसर अनंतचतुष्टयनोधणीजी १ सुरपर
खदमांहिइंद ग्रहगणमांहिजिमचंद आजहोतीर्थमांहि
श्रीशेत्रुंजयसीरोमणजी २ दानमांअभयप्रधान गुण
मांविनयनिधान आ० अलंकारमांसोहेज्युंचुडामणी
जी ३ दूधमांहिंगोखीर जलमांगंगानीर आ० सुख
मांहिसंतोषसमोजगकोनहींजी ४ तरुमांहिसहकार
दायकमांजलधार आ० नंदनवनवनमांहिअतीहेमनो
हरुजी ५ तेजवंतमांभाण धातुमांहेकल्याण आ० पर्वत
मांहिमेरुमहीधरसुंदरुजी६ सकलदेवसिरदार मंधार्यो
निरधार आ. क्षमाविजयगुरुचरणयुगसुपसाउलेजी ७
इति॥ अथ श्रीधरमनाथजिनस्तवन॥वेडलेभारघणोछे
राज एदेशी॥धर्माजिणेसरधर्मधुरंधर पूरणपुण्योमिलि
ओ मनमरुथलमैसुरतरुफलीओ आजथकीदीनवली
ओ १ प्रभुजीमहीरकरीमहाराज काजहवेमुझसारो
साहिवगुणनिधिगरीवनीवाज भवदवपारउतारो ए
आकणी. बहुगुणवंताजेहतेतारचा तेनहीपाडतुमारो
मुझसरीखोपथरजातारो तोतुमचिबलिहारो २ प्र० हुं
निर्गुणपणताहरीसंगती गुणलहुतेहघटमान निंवादि

जिनविजयजीकृत. (१९३)

कपणचंदनसंगे चंदनसमलहेतान ३ प्र० निर्गुणजा
 णीछेहमदेवो जोवोआपविचारी चंदकलंकीतपणनिज
 सिरथी नतजेगंगाधारी ४ प्र० सुव्रतानंदनसुव्रत
 दायक नायकजिनपदवीनो पायकजाससुरासुरकिं
 न्नर घायकमोहरीपुनो ५ प्र० तारकतुम्हसमअवर
 नदीठो लायकनाथहमारो श्रीगुरुक्षमाविजयपय
 शेवी कहेजिनभवजलतारो ६ प्र० इति ॥

अथ श्रीशांतिजिनस्तवन ॥ वीरमाताप्रतीकारणी ए
 देशी ॥शांतिजिनचरणकजसेवना पावनापरमगुणधा
 मरे पापनातापसमाववा वावनाचंदनठामरे १ शां०
 निसिहितिगतित्रिपरदक्षणा पूयातिगत्रिविधपरणाम
 रे तिन्निमुद्राअवस्थातिग भावविसदपरीणामरे २
 शां० भूमीकावारत्रयपुंजवी तिन्निअवलंबनातानरे दक्षि
 णवांमपश्चिमदिशे जोवुंनहित्रिविधनिधानरे ३ शां०
 पांचअहिगमप्रणिधानतिम अवयवहतिन्निदशदोयरे वं
 दनातिगदशासातनां छंडिनिजकर्ममलधोयरे ४ शां०
 तामसीराजसीपरीहरी सालिकीभक्तिसुखहेतुरे शुद्धि
 सगखट्गुणेशोभती रोपतीसमकितकेतुरे ५ शां० पी
 ठकाधर्मप्रसादनी पांचअडसतरएकविसरे एकसोआ

ठइत्यादिका कह्याभेदयोगीसरे ६ शां० भावयीसेवा

साधुने ज्ञानदंसणचरणरुपरे अमृतअनुष्ठानस्युंआद
 रे होयजिनपदभुपरे ७ शां० इति ॥ अथ श्री
 कुंधुजिनस्तवन ॥ दीआो२नणंदहठीली एदेशी ॥ मन
 मोहनकुंधुजिणंद मुझमनमधुकरअरविंदारी जगवंदन
 जिनराया सूरनंदअमरपदआपे यासुनतांअचरिज
 व्यापेरी १ ज० अज्ञाननोलेशनदीसे १ अपराधिस्वुं
 पणनविरीसेरी २ ज० अयलेपणअलिकनभासे ३ धरी
 मछरमरमन ४ दाखेरी २ ज० मद ५ मान ६ माया ७ रतिलो
 भा ८ नहीराग ९ अरति १० शोक १ १ खोभारी १२ ज० हिं
 सा १३ निंद्रा १४ क्रीडा १५ चोरी १६ आडिदुविधप्रसंग
 तीदोरीरी ३ ज० इमदोषअठारेनाठा जेहकालअना
 दीनाकाठारी ज० चोत्रिशअतिशयगुणखाणी विचरे
 प्रभुकेवलनाणीरी ४ ज० गणधरवाणीगुणसरीखा सा
 ठसहसमुनिसुपरिखारी ज० श्रीक्षमाविजयगुरुनामे
 सेवकजिनसंपदपामेरी ५ ज० इति ॥ अथ श्रीअरजि
 नस्तवन ॥ मेंतो न्यारारहिस्यांजी एदेशी ॥ म्हेंतो आणव
 हेस्यांजी म्हारारेसाहिवरी म्हेंतो आणवहेस्यांजी एआं
 कणी. आणवहेस्यांभक्तिकरेस्यां रहस्यांनयणहजूर अ
 रजिनआगलअरजकरंतां लहस्यांसुखमहमूर १ म्हें०

एकनेछंडीबेनेखंडी तिणस्युंतोडीनेह च्यारजणाशिर

जिनविजयजीकृत. (१९५)

चोटकरेस्युं पणनौआणीछेहं २ म्हे० छसतअडनव
दशनेटाली अजुआलीअगीपार वारजणानेआदरक
रिस्युं तेरनोकरीपरिहार ३ म्हें० पणअडनवदशस
त्तरपाली सत्तावीशधरिसाथ पचवीसजणस्युंप्रीतिकरे
स्युं च्यारचतुरकरीहाथ ४ म्हें० बत्रीसतेत्रीसनेचोरी
शी ओगणिसदुरनीवारी अडतालीसनोसंगतजेस्युं ए
कावनदीलधारी ५ म्हें० वीसआराधीवावीसवांधी
त्रेवीसनोकरीव्याग चोवीसजिननाचरणनमनि पाम
स्युंभवजलताग ६ म्हें० ध्याताध्येयनेध्यानसरु
पे तनमनतानलगाय क्षमाविजयकविपदकजमधुक
र सेवकजिनगुणगाय ७ म्हें० इति ॥

अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ वर्द्धमानजिनरायारे एदे
शी ॥ मल्लिजिणंदस्युंमाहरेरे अविहडधर्मसनेहरे म
नवसिआ दिन२तेहचढतेरसेरे उजलपखीससिरेहरे
गुणरसीआ १ तेहहवेटलवानोनहेरे रंगमजीठीजेमरे
म० त्रांबुजेरसवेंधीउरे तेसहिसाचुंहेमरे गु० २ कुं
भनेरशरनंदनारे भवसायरकरेसोपरे म० एसहीयु
गतुंजाणीधेरे करस्युंगुणनोपोपरे गु० ३ लंछनमीसी
तुम्हपदकजेरे कामकलसरह्योधन्यरे म० तारकशाक्ति
तिणेथइरे जेहनेप्रभुसुप्रसन्नरे गु० ४ अलंगोतूभवासिधु

(१९६) जिनविजयजीकृत.

थीरे तारोभविजनवृंदरे म० रागादिकशत्रुहणरे तोये
समतरुकंदरे गु० ५ मागशिरशुदीएकादशीरे पावन
त्रिणकल्याणरे म० पणसयसाधवीसाधस्युरे समेत
शिखरनिरवाणरे गु० ६ दुरथकीपणप्रीतडीरे ज
लपंकजनभभाणरे म० क्षमाविजयगुरुनामथीरे क
विजनकोडीकल्याणरे गु० ७इति ॥ अथश्रीमुनिसुव्रत
जिनस्तवन ॥ जोरावरहाडा एदेशी ॥ मुनिसुव्रतजिन
देवरे जगजीवनस्वामी त्रिभुवनअभिरामप्रणमंशिरना
मी मेंपुण्येपामीमेठडीलागेरे, सेवाताहरीरे १ सहसत्र
धिकवलीआठरे लक्षणअविरोहे करपदमांहेसोहे भवि
यणमनमोहे गुणसंततीरोहे मेठडीमुरतीताहरीरे २
इंदचंदरवीमेरुरे गुणलेइघडीआओ अवगुणनवीअ
डिआओ गुणठाणेचढीआओ स्त्रीपासनपडीआओ निरुप
मअंगअनंगहरावतारे ३ भूमिकाकागदठामरे लेख
णवनराई जलनिधिजलसाई सुरगुरुचित्तलाई
तुमगुणनलिखाई अलखनिरंजनप्रभुजीतुंजयारे ४
जाणेकेवलीसंतरे गुणगणीनसकाये योगीसरध्यायें
तनमनलयलाये परमानंदपदपायें आगमअरुपअनं
तगुणेभरयारे ५ जगपावनतुमनामरे मुझमनमांआ

वो एकांगीठावो सुभध्यानबनावो समकितदीपावो मु

गतनुमोटुंकारणएसहीरे ६ क्षमाविजयगुरुशिसरे से
वकजिनआगे करजोडीमांगे ललीपायलागे अनुभव
रसजागे भवभवचरणसरणमुझनेहज्योरे ७ इति ॥

अथ श्रीनिमिजिनस्तवन ॥ योगिसरचेलान्दिशी ॥

विप्रानंदवधारज्योरे निजसेवकनीलाजरे जिनेसर

सोमनजरसामुंजुओहोलाल एकांगकिरीओलगेरे ते

किमआवेवाजरे काजविचारीजेकरेहोलाल १ रागीदो

शीदेवनारे दीठानावेदायरे जि० मुखमीठाधीठाहीये

होलाल लटपटकरीलखलोकनेरे ललचावेधरीमायारे

जि० मनतरुचेतिहांमाहरुंहोलाल २ आगममांहिसां

भलयुरे पतीतपावनतुमनामरे जि० करुणावंतशिरोम

णिहोलाल तोमुझनेएकतारतारि स्युंलागेछेदामरे जि०

जगजसविस्तरस्येधणोहोलाल ३ तुमदरिशततनउ

लसेरे जलवरजेमकदंबरे जि० कोकिलअंबअलिमाल

तिहोलाल मोडोवहिलोमनावस्योरे एवडोतोस्योविलं

बरे जि० खोटखजानेकोनहेहोलाल ४ आखरआ

स्यापूरस्योरे मुझनेसबलविश्वासरे जि० एवडीगाढि

मकांकरोहोलाल क्षमाविजयकावीशिशनरि सांभलीए

अरदासरे जि० परमानंदपददीजियेहोलाल ५ इति ॥

अथ श्रीनिमिजिनस्तवन ॥ जोहरिनहीमिलेरे जारेमा

रापापीप्राण एदेशी ॥ निरुपमनेमजीरे वालममुंकीकां
जात्रो तोरणआवीनेरे इमकांहीविरहजगावो १ करु
णापशुतणीरे करतांअबलाउवेखो दुर्जनवयणथीरे ए
नहीसाजनलेखो २ शशिलंछनकीत्रोरे सीतारामवि
योगो वीबुधनेकह्योरे न्यायेनामकुरंगो ३ गुनहकोकी
त्रोरे जोरडतीएकलडीछंडी गणीकासिद्धवधूरे तेहस्युं
प्रीतडीमंडी ४ अडभवनेहलोरे नवमेंछेहमदाखो दासी
राउलीरे साहीबगोदमांराखो ५ पुण्येपरवडोरे मुझथी
याचकलोगा दानसंवत्सरेरे पाम्यावंछीतभोगा ६ विह
वाअवसरेरे जिमणोहाथनपामी दीक्षाअवसरेरे दीजे
अंतरजामी ७ मातशिवातणोरे नंदनगुणमणीखाणी
संयमआपनेरे तारीराजुलनारी ८ मुगतीमहेलेमल्यां
रे दंपतीअविचलभावे क्षमाविजयतणोरे सैवकजिनगु
णगावे ९ इति ॥ अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन ॥

माहरीसहीरेसमाणी एदेशी॥वामानंदनपासजिणंदा मु
झमनकमलदिणंदारे समसुरतरुकंदा १ भीमभवोदधी
तरुणतरंडा जेरकरचात्रिकदंडारे नहीब्रीडाकीडा २
क्रोधमानमायानेलोभा करीघातथयाथीरथोभारे लहि
जगमांहिशोभा ३ निजगुणभोगीकर्मवियोगी आत
मअनुभवयोगीरे नहीपुद्गलरोगी ४ मनवचननुत्री

कयोगनेरुंधी सीद्धिविलासनेसाधिरे टालीसकलउपाधि
 ५ यथाख्यातचारित्रगुणलीनो केवलसंपदपीनोरे यो
 गीसंतगीनो ६ सिद्धवधूअरिहंतनिरंजन परमेसरगत
 लंछनरे साहिबसहुसजन ७ पंडितगुरुश्रीक्षमाविजयनो
 जितपदपंकजलीनोरे छोडीमनकीनो ८ इति ॥

अथ श्रीमहाविरजिनस्तवन ॥ रागधन्यासी तेतरीया
 नीदेशी ॥ वंदोवीरजिनेश्वरराया त्रिसलादेवीजायारे ह
 रीलंछनकंचनवनकाया अमरवधूहुलरायारे वं. १ बाल
 पणिसुरगीरीडोलाया अहिवेतालहरायारे इंद्रकहण
 व्याकरणतीपाया पंडितविस्मयपायारे वं० २ त्रीसव
 रसघरवासरहाया संयमस्युंलयलायारे बारवरसतपक
 र्मखपाया केवलनाणउपायारे वं० ३ स्वायकरीद्धिअनं
 तीपाया अतिशयअधिकसुहायारे च्याररुपकरीधर्मव
 ताया चउविहसुरगुणगायारे वं. ४ तीनभुवनमेंआणमना
 या दिशदोयछत्रधरायारे रूपकनकमणिगढविरचाया
 निग्रंथनामधरायारे वं० ५ श्यणसिंहासनवेसनठाया
 दुंदुहिनादवजायारे दानवमानववासवसाया भक्तेशि
 शनमायारे वं. ६ प्रभुगुणगणगंगाजलनाहचा पावनते
 हनकायारे पंडितक्षमाविजयसुपसाया सेवकाजिनसुख
 दायारे वं० ७ इति श्रीजिनविजयजीकृत चोवीशी १

(२००) जिनविजयजीकृत.

अथ श्रीजिनविजयजी कृत चोवीशी २ जी
अथ श्रीरीषभदेवजिनस्तवन ॥ हाररोहीरो एदेशी ॥
प्रथमजिणेसरपूजवा सहीयरम्हारी अंगउलटधरीआ
विहो केसरचंदनमृगमदे स० सुंदरआंगीवनावीहो १
सहजसलूणोमाहरो समसुखलीनोम्हारो ग्यानमांभी
नोम्हारोसाहिवो सहीयरम्हारीजयोजयोप्रथमजिणं
दहो आंकणी ॥ धन्यमरुदेवीकुखने स० वारीजाउंवा
रहजारहो सर्गशिरोमणीनेतजी स० जिहांप्रभुलीएअ
वतारहो २ सह० दायकनायकजन्मथी स० लाज्यो
सुरतरुवृंदहो युगलाधरमनिवारणो स० जेथयोप्रथ
मनारिंदहो ३ सह० लोकनीतिसहुसीखवी स० दा
खवामुक्तिनोराहहो राज्यभलावीपूत्रने स० थाप्योध
र्मप्रवाहहो ४ सह० संयमलेइसंचरचो स० वरसल
गेविणाहारहो सेलडीरससांटेदीयो स० श्रेयांसनेसुख
सारहो ५ सह० मोटामहंतनीचाकरी स० नीफल
कदीयनथायहो मुनिपणेनमिविनमीकरचा स० खिण
मांखेचररायहो ६ सह० जननीनेकीधोभेटणो स० के
वलरत्नअनूपहो पहिलीमातामोकली स० जोवाशिव
वहुरूपहो ७ सह० पुत्रनवाणुंपरिवरचो स० भरतना
नंदनआठहो आठकरमअष्टापदे योगनिरोधेनेठहो

८ सह० तेहनोविंबसिद्धाचले स० पूजोपावनअंगहो
क्षमाविजयजिननिरखतां स० उछलेहरखतरंगहो ९
सह० स० ग्या० ज० इति ॥ अथ श्रीअजितजिन
स्तवन ॥ प्रियडाजिनचरणारीसेवारीप्यारीमुनेलागे
एदेशी ॥ जीवडाविपमविषयनीहेवातुझकांइजागे हजी
कांइजागे जीवडाअकलसरूपअजितजितजिननिरख्यो
परख्योपुरणभागे १ जी० सरससकोमलसुरतरूपामी
कंटकवाउलमागे एरावनसाटेकुणमुख रासभपुंठला
गे २ जी० घोरपाहाडउजाडउलंधी आव्योसमकीत
मागे तृश्नाएसमतारसविगडे कुंभउदकजिमकागे ३
जी० जिमकोइकनरजानलेइने आव्योकंन्यारागे सरस
आहारनिद्राभरपोडचो करडचोविषयानागे ४ जी०
विजयानंदनवयणसुधारस पीतांशुभमंतीजागे पांचे
इंद्रियचपलतुरंगम वसकरीज्ञानसुवागे ५ जी० क्षमा
विजयजिनगुणकुसुमावली सोभितभक्तिपरागे कंठआ
रोपिविरतीविनता वरीकेसरीएपागे ६ जि० इति ॥
अथ श्रीसंभवजिनस्तवन ॥ देशी हंसलानी ॥ सुखका
रकहोश्रीसंभवनाथके साथग्रहोमेंताहरो सिद्धपुरनो
होप्रभुसारथवाहके भवअटविनोभयहरो १ हुंभामियो
होमोहवसमहाराजके गहनअनादिनिगोदमां कीधां

(२०४)

जिनविजयजीकृत.

वारी २ सु० पंचाचारसुकाननजलधर पंचमाहित्र
धिकारी आगमपंचत्रमृतरसवरसी दुरितदावानलठा
री ३ सु० मैतारजत्रपराधीविहंगम चरणेरारुयोशिर
धारी परखदमांहेत्रापवखाणो कौचस्वरासुरानारी
४ सु० मेघनृपतिकुलमुकुटनगीतो मंगलाउरत्रवता
री क्षमाविजयबुधशीसकहेजिन गरभथीसुमतीवधारी
५ सु० इति ॥ अथ श्रीपद्मप्रभजिनस्तवन ॥ आ
छेलालनीदेशी ॥ पदमचरणजिनराय बालअरुणसम
काय जिवनलाल उदयोधरनृपकुलटिलोजी १ मोहा
दिकअंतरंग अरीयणआठत्रभंग जि० मारवामनु
रातोथयोजी २ चढीसंयमगजराय उपसमझुलवनाय
जि० तपसींदुरेअलंकरचोजी ३ पाखरभावनाच्यार
सुमतिगुप्रतिसीणगार जि० अध्यातमअंवाडीयेजी ४
पंडितवीर्यकवान धर्मध्यानशुभबाण जि० क्षपकसेन
सेनावलीजी ५ शुक्लध्यानसमसेर कर्मकटककी
योजेर जि० क्षमाविजयजिनराजवीजी ६ इति ॥
अथ श्रीसुपासजिनस्तवन ॥ झुमखडानीदेशी ॥ दे
हगेहसोहाविए मनदेहेरासरखास सोभागीसाजना
निजगुणरुचिसींहासने थापोदेवसुपास सो० १ सम
कीतवारणेबांधीए तोरणमैत्रीभाव सो० गुणजिनगु

जिनविजयजिकृतः (२०५)

णअनुमोदना सरससुवासवनाव सो० २ करुणाशतिल
जलभरे संवरभुमिसमार सो० मध्यस्थभावनामंडपे
रचनाभावनावार सो० ३ चंद्रोदयधर्मध्याननो पंचाचां
रचित्राम सो० उत्तरगुणआराधना झलकेमोतीदाम
सो० ४ औरसीओअप्रमत्तता अनुभवकेसरघोल
सो० क्षपकश्रेणीआरोहणा पूजनाभक्तिनीचोल सो० ५
शुक्लध्यानानलधूपीए चारित्रमोहनीचूरी सो० प्रगटअ
नंतचतुष्टयी खिमाविजयजिनचूरि सो० ६ इति ॥
अथ श्रीचंद्रप्रभजिनस्तवन ॥ रागरामगिरि तुंगीया
शिखरसोहे एदेशी ॥ श्रीचंद्रप्रभुजगदिशदिपे विश्वपा
वननाथरे नामठवणाद्रव्यभावि करतलोकसनाथरे १
श्रीचंद्रप्रभुजगदीशदीपे एआंकणी नयरीचंद्राननाना
मे महसेनमहीकंतरे राणीलखमणामातजायो नामचं
द्रप्रभुस्व्यातरे २ श्री० नामजांगुलीमंत्रजापे पापविप
धरनासरे थापनात्रिहुलोकमांहि पूजतांसुखवासरे ३
श्री० पाछलेभवेपद्मराजा युगंधरमुनिपासरे ग्रहीसंय
मयोगसाधी वैजयंतनिवासरे ४ श्री० तीनअधिका
तीससागर पालीपूरणआयरे पोसमासेकृश्रवारस ज
नमीयाजिनरायरे ५ श्री० गेहवासीपणउदासी भोग
वीवरराजरे दानवरसीदेइछठतप लहेव्रतसाम्राज्यरे ६

(२०६) जिनविजयजाकृत.

श्री० घातीयांदलच्यारचूरी च्यारमहाव्रतसैन्यरे स
मोसरणेभावजिनवर थयासिद्धवरेण्यरे ७ श्री० सर्व
क्षेत्रेसर्वकाले जगतवछलरुपरे क्षमाविजयजिनराजम
हिमा प्रगटपुण्यसरुपरे ८ श्री० इति ॥ अथ

श्रीसुविधिजिनस्तवन ॥ वीरवखाणीराणीचेलणाजी
एदेशी ॥ सुविधिजिनवलीवलीवीनतीजी मीनतीकेती
कराय जगगुरुमोटीममांरहोजी आतुरजनअकलाय
सु० १ नायकनजरमांडेनहीजी पायककरेअरदास
जेहनीपूठेजेसरजीयाजी तेहनेतेहनीआस सु० २ आ
पअनंतसुखभोगवोजी तेहनोअंसद्योमुझ मिठडुंसहु
जणेदीठडुंजी अवरशुंभाखीयेतुझ सु० ३ रयणएकदे
तरयणायरेजी उणिमकांडनथाय हाथीनामुखथीदाणो
पडेजी कीडीनुंकुटंबवरताय सु० ४ चंद्रनीचंद्रिका
विस्तरेजी अमृतमांनहींहाण क्षमाविजयजिनलहर
थीजी जगजिनलहतकल्याण सु० ५ इति ॥

अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥ हीरजीगुरुवंदो एदेशी ॥
शीतलजिनसहजानंदी थयोमोहनीकर्मनिकंदी परजा
यिवुद्धिनिवारी परणामीकभावसमारी १ मनोहरमि
त्रएप्रभुसेवो दुनिआमांहिदेवनएवो मनो० आंकणी
वरकेवलनांणविभासी अज्ञानतीमरभरनासी जयोलो

जिनविजयजीकृत. (२०७)

कालोकप्रकाशी गुणपञ्जववस्तुविलासी २ म० । अक्ष
यथितिआव्यावाध दानादिकलाब्धिअगाध जेहसास
तसुखनोस्वामी जडइंद्रियभोगविरामी ३म. जेहदेवनो
देवकहावे योगीसरजेहनेध्यावे जसुत्राणासुरतरुवेली
मुनिहृदयआरामेफेली ४ म० जेहनीशीतलतासंगे
सुखप्रगटेअंगोअंगे क्रोधादिकतापसमावे जिनविज
याणंदसभावे ५ म० इति ॥ अथ श्रीश्रेयांसजिन
स्तवन ॥ नान्होनाहलोरे एदेशी ॥ श्रीश्रेयांसजिणंद
नीरे सूरतिसुदरदेखि लागीमोहनीरे मधुकरमाच्यो
मालतीरे बीजांरुंखउवेखि लां. १ आवलफुलज्युंफुटडा
रे नहीगुणपरिमललेश ला वेशवनावेदेवनोरेतिहांस्यो
प्रेमनिवेश ला० २ वेपरवाहिपदमासनेरे मुखशशि
सहजप्रसन्न ला. नयनपीयुखकचोलडारे विपयविकार
प्रसन्न ला० ३ रागद्वेषविणएकलोरे खणडगीश्रृंग
उपमान ला० विश्नुंपिताविश्नुमावडीरे विश्नुमांव्या
पग्यान ला० ४ सुतांजागतांउठतारे चालतांकरतां
काम ला० बोलतांवेसतांसांभरेरे क्षमाविजयजिननाम
ला० ५ इति ॥ अथश्रीवासुपुज्यजिनस्तवन ॥ श्रीरूप
ज्ञाननगुणानिलो एदेशी ॥ आवोमुझमनमंदिरे समरा
वुंसमकितवासहो मुणंदपंचाचारविछावणा पंचरंगरिच

(२०८) जिनविजयजीकृत.

नातासहो मु. आ० १ सिजामैत्रिभावना गुणमुद्रितातला
इखासहो मु. उपशमउत्तरछदवनो तिहांकरुणाकुसुमसु
वासहो मु. आ० २ थिरताआसनआपस्युं तपटकियानि
जगुणभोगहो मु. शुचिताकेसरछांटणां अनुभवतबालसु
रंगहो मु. अ० ३ खांतिचांमरविजसे वलीमृदुताढोलेवा
यहो मु. छत्रधरेरुजुतासाखि निर्लोभउलांसेपायहो मु. आ
४ सत्यसचिवनेसांपस्युं सेवामांविवेकसंयुतहो मु. आतम
सताशुद्धचेतना परणावुं आजमुहुर्त्तहो मु. आ. ५ अरजसु
णिनेत्राविया जयानंदननिरुपमदेहहो मु. ओछवरंगव
धांमणां थयांक्षमाविजयजिनगेहहो मु. आ० ६ इति ॥
अथ श्रीविमलजिनस्तवन ॥ घुंयलीकरोगुरुआगले
एदेशी ॥ विमलविमलगुणताहरा कहवायेहोकिमएक
णजीह जगजंतुसन्निपणे तसुजीवितहोअसंख्यातादि
ह वि० १ सायरस्याहीसंभवे सविवसुधाहोकागदउप
मान तरुगणलेखनकीजीये नलिखाएहोतुझभासनमान
वि० २ लिखनकथनअभिलाप्पछे अनंतगुणहोनभि
लाप्पपयथ्य केवलनाणअनंतगुणो कहवानेहोकुणहो
यसमथ्य वि० ३ रुपीअरुपीद्रव्यनां त्रिहुकालनाहोप
ज्वसमुदाय परणामिकताएपरिणमे तुह्मग्यानमांहो
समकालसमाय वि० ४ केवलदंसणतिमवली गुण

बीजोहो ग्राहकसामान्य करता एकपणाथकी उपयोगेहो
समयांतरमान्य वि० ५ सुरगणसुखपिंडितकरी कोय
वर्गितहोकरेवार अनंत तुम्हगुणआव्यावाधने अनंत
मैहोनविभागआवंत वि० ६ द्रव्यसाधमेमाहरी सह
सत्ताहोभासनपरतित फटकसंयोगेसामलो निजरुपेहो
उज्वलसुपवीत्त वि० ७ क्षमाविजयजिनसेवना नितुकी
जेहोजिमप्रगटेतेह सहजातंदीचेतना गुणगुणमांहोर
मेसादिअछेह वि० ८ इति ॥ अथ श्रीअनंतजिनस्त
वन ॥ रागमलहार ॥ त्रिभुवनतारणतरिथपासचिंतामणी
एदेशी ॥ अनंतजिणंदमुणिंदघनाघनउन्ह्योरे घना
घन उ० सदलअशोकनिछांहिसभरछांहिरह्योरे स०
छत्रत्रयीचउपासचलंतावादलारे च० चंचलचोवीसचा
मरवगपरेउजलारे व० १ भामंडलनीज्योतीझबुकेबीज
लीरे झ० रत्नासिंहासनइंद्रधनुप्रशोभामिलिरे ध०
गुहिरोदुंदुहिनादआकाशपुरतारे आ० चौविहदेवनी
कायमयूरनचावतारे म० २ बहुविधिफुलअमुलसुगंधि
विस्तरैरे सु० वारपरखदानयनसरसीयाकरैरे स० सु
जयानंदनवयणसुधारसवरसतारे सु० भविकहृदयभुपी
ठरोमांचअंकुरतारे रो० ३ गणधरगिरिवरश्रृंगथीपस
रीसूरशरीरे प० नयगमभंगप्रमाणतरंगेपरवरैरे त०

(२१०) जिनविजयजीकृत.

क्रोधदावानलशांतिथीशीतलगुणवहेरे शी० अशुभकर
मघनघामसमाधिसुखलहेरे स० ४ विकसीतसंयमश्रे
णिविचित्रवनावली वि० आश्रवपंचजवासकेमुलसंतती
वलीरे मू. पसर्योसुथसुगालदुकालगयोटलीरे दु. क्षमा
विजयजिनसंपदवरषारुतुफलरे व. ५ इति॥ अथश्रीघर
मजिनस्तवन ॥ थांपरवारीम्हारासाहिवाकाबीलमतजा
जो एदेशी॥ सूरतिधर्मजिणंदनी समतारसपूरी अंतर
दोषत्रभावथी वनिकांतीसुनूरी १ हुंवारीधर्मजिणंदनी
मूरतिरेमटके आंकणी हास्यअरतिरतीअग्नता भय
शोकदुगंछा रागद्वेषअविरतिनहिं कामनिद्रामीछा हुं.
२ दानादिकगुणअनुभवे अंतरायअभावे वस्तुस्वभा
विकधर्मने कुणउपमआवे हुं० ३ पुरणपरमानंदथी
पदमासनवाली साध्यसंपुरणनीपने नधरेजपमाली
हुं० ४ अंगनाउछेगेनही हाथेहथीयार क्षमाविजयजि
नराजनी मुद्राअविकार हुं० ५ इति ॥ अथ श्री
शांतिजिनस्तवन ॥ ताहरीआंखडीयेघरघाल्युं गह
जांगिरधारी एदेशी ॥ तुंपारंगततुंपरमेसर वालामा
रातुंपरमारथवेदी तुंपरमातमतुंपुरषोत्तम तूंअछेदीअ
वेदीरे १ मननामोहनीया ताहरीकीकीकामणगारिरे

जगनासोहनीया आंकणी योगीअयोगीभोगीअभोगी

गो वा० तुहीजकामीअकामी तुंहीअनाथनाथसहुजग
 नो आतमसंपदरामीरे २ म० एकअसंख्यअनंतअनू
 चूरवा० अकलसकलअवितासी अरसअवर्णअगंधअ
 फासी तुंहीअपासिअनासीरे ३ म० मुखपंकजभमरीप
 रेअमरी वा० तंहीसदाब्रह्मचारी समोसरणलीलाअधि
 कारी तुंहीजसंयमधारीरे ४ म० अचरानंदनअचरिज
 एही वा० कहणीमांहिनआवे क्षमाविजयजिनवयणसु
 धारस पीवैतेहिजपावैरे ५ म० इति ॥

अथ श्रीकुंथजिनस्तवन ॥ देशीललनानी ॥ करुणा
 कुंथुजिणंदनी त्रिभुवनमंडलमांहि ललना परमेसरपं
 चकल्याणके प्रगटउद्योतउच्छाह ललना १ क० सूरसूत
 तनखटकायने राखेअचरिजरूप ल० भावअहिंसक
 गुणतणो एव्यवहारअनुप ल० २ क० दाधोदुष्टव्यंत
 रथको छागरह्योपगआय ल० परमकृपालप्रभूमिले क
 होकिमअलगोथाय ल० ३ क० शांतअनुमतवयतणो
 लोकोत्तरआचार ल० उदयिकपणअरिहंतनो नधरे
 विषयविकार ल० ४ क० अशंखप्रदेशेपरिणमे अ
 व्यात्राधअनंत ल० वानगीअवनीमंडले विहारेइतिस
 मतंत ल० ५ क० जगजंतुजिनवरतणे शरणोसिद्धि
 हंत ल० क्षमाविजयजिनदेशना जलधरपरेवरसंत ल०

(२१२) जिनविजयजीकृतः

६ क० इति ॥ अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ थरे
माथेपचरंगीपाचसोनारोछोगलोमारुजी एदेशी ॥ अर
जिनवरनमीएतिजघररमीए जीवनांसाहिवजी परपर
णतीदमीए नवीभमीएभवगहनमांसाहिवजी १ सा. ग
योकालअनंतो प्रभुअणलहतोनिंदमां सा. मीध्यामती
नीडोकीनोविषयालिंदमां सा० २ वररमणिरुपेलीनोदि
नोमैथुने सा० आश्रवभरभारीपापअंधारीपैशुने सा०
३ थयोलाखचौरासीयोनीवासीमोहवसे सा० वरचोत्
श्रादासीपुदगलआसीबहुधसे सा० ४ विश्वानररातोमा
नेमातोकुकरो सा० मायाविषवेलीकरतोकेलीवानरो
सा० ५ लोभानलदाधोखाधोममतासापिणी सा० डा
किणपरेवलगीनरहेअलगीपापीणी सा० ६ लोकोद
रद्रेगेअरियणसंगेहेलव्यो सा० अवितव्यताअमरीस
मरीनरभवमेलव्यो सा० ७ नविकिजेखामीअवसर
पामीपुण्यथी सा० ज्ञानावरणादिकर्ममर्मथितनिंन
थी सा० ८ समत्कसदागणगुणगणआगमपामीने
सा० कहेचेतनानारीप्यारीआतमरामने सा० ९ किम
तजीएभजीएक्षमाविजयजिननामने सा० जोवांछोअ
नोपमअक्षयलीलाधामने सा० १० इति ॥

अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ सुणवेहेनीपिउडोपरदेशी

एदेशी ॥ मल्लिजिनेसंरधर्मतुम्हारो सादिअनंतस्वभा
 वजी लोकालोकविशेषाभाषण ग्यानावरणीअभावजी
 १ म० एकनित्यनेसधलेव्यापी अवयवविणसामान्य
 जी वीयावरणअभावेदेखे उपयोगांतरमान्यजी २
 म० आतमएकअसंखप्रदेशी अव्यावाधअनंतजी
 वेदनीविनासेमाये लोकेद्रव्यमहंतजी ३ म० मोहनी
 क्षयथीक्षायिकसमकितं यथाख्यातचारीत्रजी वीतरा
 गतारमणोआयु क्षयअक्षयथितिनिव्यजी ४ म० पंचदेह
 अवगाहनाआकृति नामविभावअनुपजी वर्णगंधर
 सफासेवर्जित अंतद्वियसरुपजी ५ म० अगुरुलघुगु
 णगोत्रअभावे नहीहलुवानहीभारजी अंतरायविजय
 थीदाना दिकलब्धिभंडारजी ६ म० चेतनसमतायेंम
 झसत्ता परखीप्रभुपदपामीजी आरीसोकाटेअवराणो
 मलतासेनिजधामजी ७ म० संग्रहनयजेआतमस
 ता करवाएवंभूतजी क्षमाविजयजिनपदअवलंबी सु
 रतरमुनिपुहूतजी ८ म० इति ॥ अथ श्रीमुनिसुव्रत
 जिनस्तवन ॥ जयजयमुनिसुव्रतजगदीसवरसेवाणीगु
 णपांत्रिसि वारेघातीसडतालीस जेहथीप्रगटेरेजेहथीप्र
 मटेगुणएकत्रीसरे १ मुनिदातुझदेशनांसुखखाणी सुख
 सुखाणारिमेंजाणीरेमुणिंदा जेहथीलजेसाकरपाणीरे मु

(२१४)

जिनविजयजीकृत.

एतो धम्मरायपटराणीरे मु० आंकणी. एहनां अंगउ
पांगअनुप एहनं मुखडुंमंगलरुप एतो नवरसरंगसरुप
एहनां पगलारे एहनां पगलां प्रणमेभूपरे २ मु० एतो ए
कअनेकस्वभाव एतो भासेभावविभाव एतो बोलेबहुप्र
स्ताव एतो भंगीरे एतो भंगीसप्तवनायरे ३ मु० एतो न
यगर्भितअवदात एहनो तीर्थंकरपदतात एचउपुरुषा
रथनीमात एहनां सकलारे एहनां सकलां अर्थछेजातरे ४
मु० एहनो त्रिहुजगमां उद्योत जीपेरविशशिदिपकज्यो
ति विजावादी श्रुतस्वद्योत एतो तारेरे एतो तारेजिमजल
पोतरे ५ मु० एहने गणधरकरे सिणगार एहने सेवेसहुअ
णगार एहतो धुरथीसदाब्रह्मचार एतो त्रिपदीरे एतो त्रि
पदीनो विस्ताररे ६ मु० एहथीजातीनां वयरसमाय व
यसेवाधिणभेलीगाय आवेसुरदेवीसमुदाय एहने गावे
रे एहने गावेपापपलायरे ७ मु० एहने वांछेनरनेनार
एहथीनासेकामविकार एहथीघर २ मंगलच्यार एतो मु
निजिनरे एतो मुनिजिनप्राणआधाररे ८ मु० इति ॥
अथ श्रीनमिजिनस्तवन ॥ उभीभावलदेराणीअरज
करेछे एदेशी ॥ खिजमतिगारोखासोमुकुंनपासो मुझ
नेसमकितवासोहोवप्राराणिनाजाया सुरनरनागिंदेगा

या मोहनमहिरकरीजे आशधरीनेआयाअहोनिशशे

वे तेहनेदिजेदिलासाहो १ वप्राराणीनाजाया सु०
 सु० आंकणी. घरघरभटकीलाजगमावे तेसेवककुण
 लेखेहो व० पतीतपावनजगजीवनआषधी सरिस
 दरिसणउवेखेहो व० २ सु० मो० कामसनेहदृष्टीरा
 गनेछांडी गुणरागेरठमंडीहो व० प्राणतजेपणप्रीतन
 छंडे तेहनीकीर्तिअखंडीहो व० ३ सु० मो० क्षेत्रकाला
 दिककारणदाखी मुझनेस्युंभोलावोहो व० प्रणतम्हा
 रीसाह्यतुम्हारी अवसरएहवनावीहो व० ४ सु०
 मो० भुजलयोगेअंकुरशक्ति प्रगटएहनहिछानोहो
 व० क्षमाविजयजिनकरुणालहरी अक्षयलीलखजा
 नोहो व० ५ सु० मो० ॥ इति ॥
 अथ श्रीनेमिजिनस्तवन ॥ अंतरथीअम्हनेआजंगर
 वेगीरधारी एदेशी ॥ तोरणआविकंतपाछावलीयारे मु
 झफुरकेदाहिणअंगतिणेअटकलीयारे १ कुणजोसीजो
 याजोस चुगलकुणामिलीयारे कुणअवगुणदीठाआज
 जिणथीटलीयारे २ जाओजाओरेसहिरोदुर स्थाने
 छोडारे पातलीओसामलवान् वालिमतेडारे ३ यादव
 कुलतीलकसमान एमनकीजेरे एकहांसुव्नीनीहाणी
 केमखमीजेरे ४ ईहावायेझंझसमीर वीजलीझव
 केरे चापीओपीउपकारा हियहुंचमकेरे ५ डरपावे

(२१६) जिनविजयजीकृत.

दादुरसोर नदीत्रोमातीरे घनगर्जारवनेजोर फाटेछा
तीरे ६ हरितांभुकपहिरचांभूमी नवरसरंगेरे बावली
यानवसरहार प्रीतमसंगेरे ७ मंपूरवकीधांपाप तापेदा
धीरे पडेआंसुधारसंविखाध वेलडीवाधीरे ८ मुने
चाढाविमेरुशिश पाडीहेठीरे किमसहवाधेमहाराय वी
रहअंगीठीरे ९ मुनेपरणीप्राणआधार संयमलेज्योरे
हुंपतिव्रताळुंस्वामी साथीवहेज्योरे १० एमआठभवांरी
प्रीत प्रिउडापलसेरे मुझमनहमनोरथनाथ पूरणफल
सेरे ११ हिवेच्यारमहाव्रतसार चूंदडीदीधीरे रंगीलीरा
जुलनारी प्रेमेलीधीरे १२ मैत्रादिकभावनाच्यार चोरी
बांधीरे दहीध्यानानलसलगाया कर्मउपाधीरे १३
थयोरत्नत्रयिकंसार एकाभावेरे आरोगेवरनेनारी शुद्ध
स्वभावेरे १४ तजीचंचलतात्रिकयोग दंपतिमिलियारे
श्रीक्षमाविजयजिननेम अनुभवकलियारे १५ इति ॥
अथ श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवना ॥ घोडीजीआईथारादेश
मांमारुजी एदेशी ॥ परमपुरुषपरमातमासाहिवजी पु
रीसादाणीपासहो शिवसुखराभमरथासेवीनती साहि
वजी अवसरपामीओलगु सा० सफलकरोअरदासहो
१ शि० दायनंदनमोहभुपरा सा० तिणेकरच्योजगधं
धोलहो शि० द्वेषकरिरागकेहरी सा० तेहनांराणासो

जिनविजयजीकृत. (२१७)

लहो २ शि० मिथ्यामुहतो आगले सा० कामकटक
 सिरदारहो शि० त्रणरुपघरीतेहरमे सा० हास्यादिक
 परिवारहो ३ शि० मोहमहीपरांजोरथी सा० जगस
 घलोथयोजेरहो शि० हरिहरसुरनरसहुनम्या सा०
 जकडीकर्मनीघेरहो ४ शि० भवथितिचौगतिचोक
 सां सा० लोककरेपोकारहो शि० आपउदासीथइर
 ह्या सा० इमकीमरहस्येकारहो ५ शि० क्षपकश्रेणी
 रीगजघटा सा० हलकारोअरिहंतहो शि० नाणखडग
 मुझकरदिओ सा० क्षणमांकरुअरीहंत ६ शि० करु
 णानयणकटाक्षथी सा० रिपुदलहोएवीसारालहो शि०
 क्षमाविजयजिनसंपदा सा० प्रगटैझकिझमालहो ७
 शि० इति ॥ अथ श्रीमहावीराजिनस्तवन ॥ इमध
 न्नोधणीनेपरीचावे एदेशी ॥ वीराजिणंदजगतउपगारी
 मिथ्याघामनिवारीजी देशनाअमृतधारावरसी परपर
 णातिसंवीवारीजी १ वीः प्रथमआरेजेहनोशासन दोय
 हंजारनेच्यारजी युगप्रधानसुरीसरवहसे सुविहितमु
 निआधारजी २ वीः उत्तमआचारंजमुनिअजा श्राव
 कश्रावीक्राअछजी लवणजलाधिमांहिमीठोजल पीवेसी
 गीमछजी ३ वीः दशअछेरेदुखितभरते बहुमतभेदक
 रालजी जितकेवलपूरवधरात्रिरहे फाणिसमपंचमकाल

(२१८) पद्मविजयजीकृत.

जी ४ वी० तेहनोझहरनिवारणमणीसम तुम्हत्राग
मतुझबीवजी निशिदिपकप्रवहणजिमदरीए मरुमांसु
रतरुलुंबजी ५ वी० जैनागमवक्तानेश्रोता स्याद्वादे
शुचिवोधजी कलिकालेपणप्रभुतुम्हशासन वरतेछेत्र
विरोधजी ६ वी० म्हारेतोसुखमांथीदुखमां अवसरपु
ण्यनिधानजी क्षमाविजयजिनवीरसदागम पांम्योसि
द्विनिदानजी ७ वी० इति ॥ इति श्रीजिनविज
जी कृत चौवीशी २ जी समाप्त ॥

अथ श्रीपद्मविजयजीकृत चौवीशी १

अथ श्रीरुषभजिनस्तवन ॥ महाविदेहखेत्रसोहाम
णुं एदेशी ॥ जगचिंतामणीजगगुरु जगतसरणआधा
रलालरे अठारकोडाकोडिसागरे धरमचलावणहारला
लरे ज० १ आसाठवादिचोथिप्रभू सवर्गथीलियेअवतार
लालरे चैतरवदिआठमदिने जनम्याजगदाधारलालरे
ज० २ पांचसेधनुषनीदेहडी सोवनवरणशरीरलालरे
चैतरवदिआठमेलिये संजममहावडवीरलालरे ज० ३
फागुणवदिइग्यारसे पांम्यापंचमनाणलालरे महावदि
तेरशैशिववरचा जोगनिरोधकरीजाणलालरे ज० ४
चोराशिलखपूर्वनुं जिनवरउत्तमत्रायलालरे पद्मवि

जयकहे प्रणमतां चहेलुं शिवसुखथायलालरे ज. ५॥ इति ॥
 अथ श्रीअजितनाथजिनस्तवन ॥ देशीविछियानीछे ॥
 श्रीअजितजितेसरवांदिये जे त्रिभुवनजनआधाररे पंचा
 सलाखकोडिआयरनो अंतर आदिअजितविचाररे
 श्री १ सुदवैशाखनितेरे सो प्रभुअवतरचाजगसुखदायर
 महासुदिआठमदिने जन्मिआ ति मत्तौवमीव्रतधारथा
 यरे श्री २ एकादशीअरजुनपक्षनी पोसमासनी पास्या
 नाणरे चैतेरसुदिपांचमनेदिने पास्याप्रभुशाश्वतठाण
 रे श्री ३ साढाच्यारसें उंचीधनुपनी कायाकंचनतैवानरे
 लाखेवोत्तेरपुरवनं आवखुं जगउपगारीभगवानरे श्री ४
 जेजिनवरनमतांसांभरे एकसोसितेरमहराजरे तेहता
 उत्तमपदपद्मनी सेवाथीलहेशिवराजरे श्री ५ इति ॥
 अथ श्रीसंभवनाथजिनस्तवन ॥ शांति
 जिन एकमुद्रविनुती एदेशी संभवजिनवरसुखक
 रु सागरत्रीसलाखकोडरे अजितसंभववचेंआंतरुं ज
 गतमांजासनहिजोडिरे संभव १ फागुणसुदितणीआठ
 मे जेहनुंचवनकल्याणरे सागशिरसुदिनिचौदसे नीप
 नोजनमजिनभाणरे संभव २ कनकवरणेतजीकामनी
 लीधोसंयमभाररे पुर्णिमासागशिरमासनी घरतजीध
 याअणगाररे सं ३ च्यारसेंधनुपनीदिहडीकातिवदपांच

(२१८)

पद्मविजयजीकृत.

जी ४ वी० तेहनोझहरनिवारणमणीसम तुम्हआग
मतुझवीवजी निशिदिपकप्रवहणजिमदरीए मरुमांसु
रतरुलुंबजी ५ वी० जैनागमवक्तानेश्रोता स्याद्वादे
शुचिवोधजी कलिकालेपणप्रभुतुम्हशासन वरतेछेअ
विरोधजी ६ वी० म्हारेतोसुखमांथीदुखमां अवसरपु
पयनिधानजी क्षमाविजयजिनवीरसदागम पांम्योसि
द्विनिदानजी ७ वी० इति ॥ इति श्रीजिनविज
जी कृत चोवीशी २ जी समाप्त ॥

अथ श्रीपद्मविजयजीकृत चोवीशी १

अथ श्रीरुपभजिनस्तवन ॥ महाविदेहखेत्रसोहाम
पुं एदेशी ॥ जगचिंतामणीजगगुरु जगतसरणआधा
रलालरे अढारकोडाकोडिसागरे धरमचलावणहारला
लरे ज० १ आसाढवादिचोथिप्रभू स्वर्गथीलियेअवतार
लालरे चैतरवदिआठमदिने जनम्याजगदाधारलालरे
ज० २ पांचसेधनुषनीदेहडी सोवनवरणशरीरलालरे
चैतरवदिआठमेलिये संजममहावडवीरलालरे ज० ३
फागुणवदिइग्यारसे पांम्यापंचमनाणलालरे महावदि
तेरशेशिववरचा जोगनिरोधकरीजाणलालरे ज० ४

चोराशिलखपूर्वनुं जिनवरउत्तमआयलालरे पद्मवि

जयकहे प्रणमतां वहेलुं शिवसुखथायलालरे जं. ५॥ इति ॥
 अथ श्रीअजितनाथजिनस्तवने ॥ देशीविछियानीछे ॥
 श्रीअजितजितेसरवांदिपे. जेत्रिभुवनजनआधाररे. पंचा
 सलाखकोडिआग्रनो. अंतरादिअजितविचाररे
 श्री. १ सुदवैशाखनितेरसे. प्रभुअवतरचाजगसुखदायरे
 महासुदिआठमदिनेजनमिआ. तिमनौवमीव्रतधारथा
 यरे श्री. २ एकादशीअरजुनपक्षनी. पोसमासनीपास्या
 नाणरे. चैतरसुदिपांविमनेदिते. पास्याप्रभुशाश्वतठाण
 रे श्री. ३ साढाच्यारसेंउंचीधनुपनी. कायाकंचनतैवानरे
 लाखवोत्तरपुरवनुंआवखुं जगउपगारीभगवानरे श्री. ४
 जेजिनवरनमतांसांभरे. एकसोसीत्तेरमहराजर. तेहना
 उत्तमपदपद्मनी. सेवाथीलहेशिवरजरे श्री. ५ इति ॥
 अथ श्रीसंभवनाथजिनस्तवने ॥ शांति
 जिनएकमुद्रावितती. एदेशी. संभवजिनवरसुखक
 रु. सागरत्रीसलाखकोडरे अजितसंभववचेंआंतरुं. ज
 गतमांजासनहिजोडिरे. सं. १. फागुणसुदितणीआठ
 मे. जेहनुंचवनकल्याणरे. मागशिरसुदिनिचौदसे. नीप
 नोजनमाजिनभाणरे. सं. २. कनकवरणेतजीकामनी
 लीधोसंघमभाररे. पुर्णिमातागशिरमासनी. घरतजीथ
 याअणगाररे सं. ३. च्यारसेंधनुपनीदेहडीकातिवदपांच

मेनाणरे लोकअलोकखटद्रव्यजे परतक्षणाणपरमाण
 रे सं. ४ चइतरसुदपांचमेशिवरचा साठलाखपूर्वनुंआ
 यरे तासउत्तमपदपद्मनी सेवाथीसुखथायरे सं. ५ इ
 ति ॥ अथ श्रीअभिनंदनजिनस्तवन ॥ देशीसुंदर
 नी ॥ सुंदरअभिनंदनजिनराजनी हुंजाउबलिहारीहो
 सु. दशलखकोडिसागरे अभिनंदनअवधारहो सु.
 अ. १ सू. सुदवैशाखचोथेचव्या जनम्यामाहसुदिबीजे
 हो सू. स्तवनानिंदाथीप्रभु नविहरषेनविखीजेहो
 सु. अ. २ सू. साढात्रणसेधनुषनि देहडीसोवनवान
 हो सु. महासूदिबारसेत्रतधरी मनपर्यवलहेज्ञानहो सु.
 अ. ३ सू. सुदचौदशपोसमासनी पंचमनाणप्रकासहो सू.
 वैशाखसुदिआठमदिने पोहताशिवपुरवासहो सु. अ.
 ४ सू. लाखपंचासपुरवतणुं जिनवरउत्तमआयहो सू.
 प्रेमेपद्मविजयकहे थुणियेश्रीजिनरायहो सु. अ. ५ इति ॥
 अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ अंबलीलारंगावोवरनां
 मोलीयां एदेशी ॥ सेवोसुमतिजिनेसरसाहिबो प्रभूअ
 भिनंदनथीएहरे नवलाखकोडिसागरतणो अंतरगुण
 गणमणीगेहरे से. १ चव्याश्रावणसुदिबीजनेदिने सु
 चितचौदसुपनेजेहरे वैशाखसुदिआठमेजनमीया त्रण
 ज्ञानसहितवरदेहरे से. २ उंचीकायात्रणसेधनुष

नी सोवनवनअतिअवदातरे सुदिवैशाखनवमीयेव्रत
लीये देइंदानसंवछरीरुयांतरे से. ३ चैतरसुदिअगी
आरसदिने लह्याप्रभूजीपंचमनाणरे चैतरसुदिनवमी
येशिववरया पूर्वलाखिच्यालीसआयुजाणरे से. ४ ए
तोजिनवरजगगुरुमोठडो ॥ माहाराआतमत्रोआधाररे
भवभवप्रभुसरणेरखज्यो कहेपद्मविजयधरीप्याररे से.
५ इति ॥ अथ श्रीपदमप्रभुजिनस्ववन ॥ साहेल
डीयां ॥ एदेशी ॥ पद्मप्रभुछठानमोसाहेलडीयां सु
मतिपदमविजेह गुणवेलडीयां नेउसहसकोडिअपर
नो सा० अंतरजाणेएह गु० ११ चवीआमहावदिछठ
दिने सा० जनमतेकार्तिकमास गु० १२ वदीवारशदीनजाणि
ये सा० रक्तवरणछेजास गु० १३ धनुषअडिसेदेहडी
सा० कातिमासकल्याण गु० १४ विदितेरसवृतआदरयां
सा० चैत्रीपूनिमनाण गु० १५ त्रीसलाखपुरवतणुं सा०
आयुगुणमणिखाण गु० १६ मांगशिरवदिअगीयारसे
सा० पाण्यापदनिखणि गु० १७ साहित्सुरतरुसमो
सा० जिनउत्तममहाराज गु० १८ पद्मविजयकहेप्रण
मीये सा० सीजेवांचितकाज गु० १९ इति ॥ अथ
अथ श्रीमुपासजिनस्तवन ॥ देशी ॥ सुवखडानी ॥ सात
मोसगभयवारवा जिनवरजीजयकार सोभागीसांभलो

अंतरसागर एहनो नंदकोडिहजार सो० १ भाद्रवावद
 नीआठमे चवीआस्वर्गनेछांडि सो. जेठसुदिवारसज
 नमीया एप्रभुसुरढमांडि सो. २ धनुपवसेतनुंजेहनं
 कांतिकनकअनुहार सो० जेठसुदितेरसेआदरे चोखा
 महाव्रतच्यार सो० ३ फागुणवदिछठेउपनुं निरुप
 मपंचमनाण सो० वीसलाखपूरवतणुं आउखुचढ्युं
 सुप्रमाण सो० ४ फागुणवदिसातमदिनें पारंगतथया
 देव सो. जिनउत्तमपदपद्मनी कीजेनित२सेव सो०
 ५ इति ॥ अथ श्रीचंद्रप्रभुजिनस्तवन ॥ मुख
 नेमरकलडे एदेशी ॥ श्रीचंद्रप्रभुजिनरायजी जिनव
 रजयकारी नवसेकोडिअयरविचेथायजी भविजनहि
 तकारी चैतरवदिपांचमेंचवीयाजी सहंजनसुखकारी
 नारकीसूखलहेअणमवीयाजी भविजनभयहारी १
 पोसवदिवारसनेदिनेजी जनम्याजाउंवारी कुंदइंदुगो
 पीरसमतन्नजी जाउहुंबलीहारी जसदोढसोधनुपनी
 कायाजी उंचपणेधारी पोसवदितेरसेव्रतपायाजी छे
 डिकंचननारी २ फागुणवदिसातमेंपाम्याजी सर्वज्ञ
 पदभारी सूरअसूरमलिशिरनाम्याजी महोछवकरेत्या
 री भाद्रवावदिसातमेवरीयाजी शिवसुंदरीसारी आ
 यदसलाखपूरवधरीयाजी बहुभविजनतारी ३ कोड

पद्मविजयजीकृतः (२२३)

अपुरवचंद्रमाएहजी लंछनेअविकारी नविराहुग्रहणक
 रेजेहजी नितउद्योतकारी नविमेघआवेजसआगेजी
 कांतिशोभाहारी नविखंडितहोयकोयमागेजी सहुनमे
 निरधारी ४ तुसाहिवजगनोदिवोजी अंधकारवारी
 लक्ष्मणानंदनचिरंजीवोजी जगमोहनकारी कहेपद्म
 विजयकरुसेवाजी सर्वदुरेडारी जिमलहियेशिवसू
 खमेवाजी अनोपमअवधारी ५ इति ॥
 अथ श्रीसुविधिजिनस्तवन वावाडीफुलीअतिभलीम
 नभमरारे एदेशी ॥ सुविधिजिनपतिसेवीये मनमोहन
 मेरे अंतरसुविधिचंद्र म० नेउकोडिसागरतर्णुम० प्र
 णमोभविजनचेद म० १ फागुणवदिनोमिबव्या म० रा
 साउरसरहंस म० मागशिरवदीपांचमैजण्या म० दीपा
 व्योसुग्रीववंस म० २ एकसोधनुपकायाभाली
 म० वरणचंद्रअनुहार म० मागशिरवदिछठिब्रती म०
 लीधोसेयमभार म० ३ सुदिकार्तिकत्रीजेथया म० लो
 कालोकरनाजाण म० भाद्रवासुदिनवमीदिने म० प्रभु
 पाम्यानिरवाण म० ४ दोयलाखपूरवतणु म० जिन
 वरउत्तमआय म० पद्मविजयकहेप्रणमता म० आप
 ददूरपलाय म० ५ इति ॥ अथ श्रीशितलजि
 नस्तवन ॥ वारीहुंगोडीपासनी एदेशी ॥ शीतलनाथ

(२२४)

पद्मविजयजीकृतः

सुहंकरं नमतांभवभयजाय मोहनसुविधिशीतलविचे
आंतरो नवकोडीसागरथाय मो० १ वैशाखवदिछठि
चव्या महावदिवारसेजन्म मो० नेउधनुषसोवनवने
नविवांधेकोइकम्म मो० २ शी० महावदिवारसेआदरी
दीक्षादक्षजिनंद मो० पोसअंधारीचौदशि उग्योज्ञान
दिणंद मो० ३शी० लाखपूरवनुंआउखूं वाजवैशाखवदि
मास मो० अजरामरसुखियाथया छेद्योभवभयपास मो०
४शी० एजिनउत्तमप्रणमतां अजरामरहोयेंआप मो० प
द्मविजयप्रभूआगमे एहवीदीधीछाप मो० ५ शी० इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ प्रथमगोवालातणेभवे
जी एदेशी ॥ छवीससहसलखछासठेजी वरससोसा
गरएक उणांकोडिसागरतणुंजी श्रेयांसअंतरछेकरे १
भविकावंदोश्रीजिनराज तुमसारोआतमकाजरे भवि०
जेठवदिछठिदिनेजी फागुणवदिमारेजोय बारसनेदि
नेजनमीयाजी कंचनवरणाहोयरे २ भ० एशीधनुष
कायाकहीजी जाससुगंधीरेसास फागुणवदितेरसेग्रहे
जी संयमसुखआवासरे ३ भ० ज्ञानअमासमाहमास
नीजी आयुंधोराशीलाख वर्षश्रावणवदिशिववरचा
जी त्रीजेदिनेइमभाषरे ४ भ० जिनकल्याणकदीठ

डांजी धन्यउतमनरनार पद्ममकहेसफलोकरचोजी

मानवनो अवताररे भ. ५ इति ॥ अथ श्रीवासुपूज्यजिन
 स्तवन ॥ इडर आंवा आंवालीरे एदेशी ॥ वासववंदी तवंदी ए
 रे वासुपूज्यजिनराय श्रेयांसने वासुपूज्यविचरे चोपनसा
 गरजाय १ जिनेसरतुमुजप्राणआधार तुंहिजमोक्षदाता
 र जि० चवीआजेठसुदिनवमीयेरे जनमतोफागुणमास
 वदिचौदसदिनजाणियेरे त्रोटिभवभयपास जि० २ सी
 तेरधनुतनुरक्ततारे दीपेजासपवित्त अमावास्यांफागुण
 तणीरे जिनवरलियेचारीत जि० ३ बीजमाहसूदनीभ
 लीरे प्राम्याज्ञानमहांत आसाठसूदिचौदसेकरचारे
 आठकरमनोअंत जि० ४ आयुवातेरलखवरस
 नूरे जिनउतममहाराज वांहिग्रहीनेतारीयेरे पद्मवि
 जयकहेआज जि. ५ इति ॥ अथ श्रीविमलजिन
 स्तवन ॥ साहिवामोतीधोनेहमारी एदेशी ॥ विमल
 नाथतेरमाभविवंदो जसनांमेजायेदूखफंदो साहिवागु
 णवंताहमारा मोहनागुणवंता त्रिससागरअंतरविहुं
 जिनने गमिओएप्रभुमाहरामनने सा १ चवनवैशा
 खसुदिवारसदिन जनममाहसूदित्रीजनोपुत्र सा. सा
 ठधनुपजसदेहविराजे कनकवरणअतिशयजसछाजे
 सा० २ माहासुदिचोथेचारित्रवरिया पोससुदिछठथ
 याज्ञाननादरिया सा० त्रिगडुंरचेसूरपरखदावार च्या

(२२६) पद्मविजयजीकृत.

ररुपेकरिधर्मदातार सा. ३ साठलाखवरषआयुमान ता
रयाभविजननेअशमान सा० अषाढवदिसातमेवरया
सिद्धी परगटकीधीआतमरीद्धी सा० ४ शरणागतवछ
लजिनराज मुझशरणागतनीतुम्हलाज सा. निजउत्तम
सेवकनेतारो पद्मकहेवीनतीअवधारो सा० ५ इति ॥
अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ झांझरीयामुनीवर धनध
नतुमअवतार एदेशी ॥ अनंतजिनेसरचौदमाजी आ
पोच्यारअनंत अनंतविमलवचेआंतरोजी सागरनवते
कहंत १ सोभागीजिनस्युंमुझमनलागोरंग श्रावणव
दिसातमनेदिनेजी चवनकल्याणकजास वैशाखवदि
नीतेरसेजी जनमेजगतप्रकास सो० २ धनुषपंचासनी
देहडीजी कंचनवरणशरीर वैशाखवदिचौदशदिनेजी
संजमसाहसधीर सो० ३ वैशाखवदिनीचौदशिजी पा
म्याज्ञानअनंत चैतरसुदिनीपांचमेजी मोक्षगयाभगवं
त सो० ४ त्रीसलाखवरसातणुंजी भोगव्युंउत्तमआय
पद्मविजयकहेसाहिवाजी तुमतुठेशिवथाय सो० ५
इति ॥ अथ श्रीधर्मजिनस्तवन ॥ कपूरहुयेंअति
उजलुरे एदेशी ॥ धरमजिणंदधरमधणीरे वजीसेवेपा
य वज्रलंछनजिनआंतरुरे च्यारसागरनुंधायरे १ प्रा
णीसेवोश्रीजिनराज एहिजभवजलजहाजरे प्रा० वैशा

खसुदिसातमेचव्यारे जूनम्यामाहासूदित्रीज कायापि
 स्तालीसधनुषनारे जेहथीलहेबोधवीजरे प्रा० २ कन
 कवरणकंचनतजरे माहसुदितेरसेदीष पुरुपोससुदि
 पूनमेरे ज्ञानलहीदीयेशीखरे प्रा० ३ दसलाखवरस
 नूआउखूरे तारीवहुनरनार जेठसूदिपांचमेशिववरचा
 रे अजरामरअविकाररे प्रा० ४ तुंसाहिवसाचोलहि
 रे जिनवरउत्तमदेव पद्मविजयकहेअवरनारे नकरुंसु
 पनेसेवरे प्रा० ५ ॥ इति ॥ अथ
 श्रीशांतिनाथजिनस्तवन ॥ सुणमेरीसजनीरजनीन
 जावेरे एदेशी ॥ शांतिजिनेसरसोलमोसामारे एकभ
 वमांदोयपदवीपांमीरे पूणुंपल्योपमओछुंजाणारे अंत
 रत्रणसागरमनआणारे १ भाद्रवावदसातमदिनचव
 नरे जनमतेजेठवदितेरसदिनरे च्यालीसधनुषकाया
 तजीमायारे जेठवदिचौदसव्रतनीपायारे २ शुदिनव
 मीपोसमालहेज्ञानरे अतिशयचोत्रीसकंचनवानरे ला
 खवरसआयुंपरमाणरे जेठवदितेरसदिननिरवाणरे ३
 जिनपारंगततुंभगवंतरे स्याद्वादीशंकरगुणवंतरे शंभु
 स्वयंभुविश्वनुंविधातारे तुहीसनातनअभयनोदातारे ४
 पीतात्रातामाताभ्रातारे ग्यातादेवनोदेवविख्यातारे ५

णिपरओपमाउत्तमछाजरे पद्मविजयकहेचढतादिवाजे

(२२८)

पद्मविजयजीकृत.

रे ५ इति ॥ अथ श्रीकुंथुनाथाजिनस्तवन ॥ देशी
रसीयानी ॥ कुथुंजिनेसरपरमकृपाकरुं जगगुरुजाग
तिज्योत सोभागी अरधपल्योपमअंतरशांतिथी कुथुं
जिणंदविचेहोति सो० १ चवीआश्रावणवदिनवमि
दिने वैशाखवादिमांरेजन्म सो० चौदशनेदिनेतेप्रभुप्रण
मतां वाधिनविकोयैकम्म सो० २ पांत्रीसधनूषप्रमाणेदे
हडी कांचनवानेरेकाय सो० वैशाखवदिपांचमोदिक्षाग्र
ही तपकरीकर्मजलाय सो० ३ चैत्रसुदित्रीजेज्ञानीथ
या आयुंपंचाणुंहजार सो० वरसवैशाखवदिपडवेशि
ववरया अशरीरीअणहारसो० ४ सुरघटसुरगविसूरम
णीओपमा जिनउत्तमलहेजेह सो० मुजमनवंछितप्रभु
जाआपजो पद्मविजयकहेएह सो० ५ इति ॥

अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ देशीवीदलीनछि ॥ अर
नाथजिनेसरवंदो भवरनापापतीकंदोहो भावेभविपू
जो कोडिसहसवरसउणकीजे पापल्यनुअंतरलीजेहो
भा० फागुणसुदिचवनतेबीजे सहुंजीविसुखलहीजेहो
भा० मागशिरसुदिदशमेजाया छपन्नदिशकुमरीगाया
हो भा० २ त्रीसधनुषतणीजसकाया छोडीममताने
मायाहोभा० अगीयारसमागशिरसुदि लियेदीक्षाजेस्व
यंबुद्धहो भा० ३ कातिशुदिबारसिंज्ञान पास्याप्र

भुक्तं च नवानहो भा० मागशिरशुदिदशमेजिणंद
 पास्यापरमाणंदहो भा० ४ वरसचोरासीहजार
 मोगवीआयुश्रीकारहो चा० उत्तमपदपद्मनीसेवा
 करवीअक्षयपदलेवाहो जा० ५ इति ॥ अथ श्रीमल्लि
 जिनस्तवन ॥ देशी जीहोनीछे ॥ जीहोमल्लिजिनेसर
 मनहरुं लालाअंतरएहविचार जीहोकोडिसहसवरसां
 तणो लालाअरमल्लिविचेधार १ जिनेसरतंमुजतारण
 हार जीहोजगतजंतूहितकार जि० जीहोफागुणसुदिचो
 थेचव्या लालाजनमदीक्षानेरेनाण जीहोमागशिरसूदि
 एकादशी लालाएकजतिथिगुणखाण जि० जीहोवरस
 पंचावनसहसनु लालाजोगवीआयुश्रीकार जीहोफा
 गुणसुदिवारसदिने लालावरियाशिववधूसार जि० २
 जीहोनीलवरणतनूजेहनूं लालाचोत्रीसअतिशयधार
 जीहोपणवीसधनुपकायाकही लालावर्जितदोपअढार
 जि० ४ जीहोचोसठइंद्रसेवाकरे लालाजिनउत्तम
 नितमेव जीहोमुझसेवककरीलेखवो लालापद्म
 विजयकहेहेव जि० ५ ॥ इति ॥
 अथ श्रीमुनिसुव्रतजिनस्तवन ॥ आघाआमपधारोपू
 ज्य अमघरवहेरणवेला एदेशी ॥ मुनिसुव्रतजिनमहेर
 करीने सेवकसनमुखदेखो चोपनलाखवरसनुअंतर

(२३२)

पद्मविजयजीकृत.

लह्यारे क्षायकज्ञाननिरभ्रांत सू० ३ श्रावणशुदिआ
ठमदिनेरे पाम्यान्नवनोपारल्लनां आउखुसोवरसांत
णुरे अश्वसेनसुतसार सू० ४ आदेयनामतणोधणी
रे महिमावंतमहंतल्लनां पद्मविजयपुण्येकरीरे पा
म्योएहन्नगगवंतल्लनां सू० ५ इति ॥

अथ श्रीमहावीरजिनस्तवन ॥ संभवजिनअवधारीये
एदेशी ॥ चरमजिणंदच्चोविसमो सासननायकस्वामी
सनेही वरसअठीसैंआंतरो प्रणमोनिजहितकामी स०
च० १ आषाढसुदिछठिंबव्या प्राणतस्वर्गथीजेह स०
जनम्याचैतरसुदितेरसिं सातहाथप्रभुदेह स० च० २
सोवनवरणसोहामणो बोतेरवरसनुंआय स० माग
शिरवदिदसमीदिनें संयमसूचितलाय स० च० ३ वै
शाखसुदिदशमीप्रभु पाम्याकेवलनाण स० कातिअ
मावासनेदिहाडले लहिआप्रभुनिरवाण स० च० ४
दीवालीएजिनथकी उत्तमदिवसकहाय स० पद्मविज
यकहेप्रणमतां नवनवनादुखजाय स० च० ५ ॥ इति
श्रीपद्मविजयविरचिते चोवीसी संपूर्ण ॥

पदमविजयजीकृत. (२३३)

अथ पद्ममविजयकृतचोवीशी २

अथ श्रीरूपभजिनस्तवन ॥ अरणीकमुनीवरचाल्या
 गोचरी एदेशी ॥ रुषभजिनेसररूपभलंछनधरु उंचा
 जेसातराज्योजी निरलंछनपदनेपामीया शिवपुरनो
 साघ्राज्योजी १ रु० अव्ययअचलअचितअनंतछे अ
 शरीरीअणाहारीजी अविनाशीशाश्वतसुखनोधणी प
 रपरणतीनिवारीजी २ रु० ज्ञानअनंतअनंतदर्शनम
 यी लोकालोकस्वभावोजी देखेकरअलमपरेपणनहिं
 रमताजेपरभावोजी ३ रु० निजरूपेरमणकरतासदा
 सादिअनंतहभांगोजी अव्याबाधअजरअजजेथया पु
 दगलभावनिसंगोजी ४ रु० पुदगलरहितपणेसुखउ
 पनुं तेकिमजनिेकहायोजी वर्णादिकनहीजासस्वरूप
 छे जोगातीतजिनरायोजी ५ रु० करताओकारेनिज
 गुणनोप्रभु अवगाहीनिजखेतोजी अछेअनंतानिजठा
 मेरह्या जीडिनकोयनेदेतोजी ६ रु० एजिनवरउत्तम
 पदरूपजे पद्मनेअवलंबीजेजी तोपरभावकरमदूरेकरी
 ठाकुरपदवीलीजेजी ७ रु० इति ॥ अथ श्रीअजी
 तजिनस्तवन ॥ स्वामीश्रीमंधरविन्ती एदेशी ॥ अजि
 तजिनतुजमुजअंतरो जोतांदीसेनकोयरे तुजमुजआत

मसारिखो हारिसत्ताधर्मधीहोयरे अ० १ ज्ञानदर्श

(२३६)

पदमविजयजीकृत.

बहारजाणे जाणेनिजपरत्नाव तु० ५ साध्यसाधननेद
जाणे ज्ञाननेत्राचार हेयज्ञेयउपादेयजाणे तत्वातत्ववि
चार तु० ६ नरकसरगत्रपवर्गजाणे थिरव्यवनेउतपा
द रागद्वेषत्रनुबांधजाणे उछरंगनेत्रपवाद तु० ७ नि
जस्वरुपनेत्रोलखीने अवलंबेस्वरुप चिदानंदघन
आतमाते थायेजिनगुणभूप तु० ८ विणिथीजि
नउत्तमकेरा अवलंबेपदपद्म नीमातेपरत्नावतजी
ने पामेंशिवपुरसद्म तु० ९ इति ॥

अथ श्रीसूमतिजिनस्तवन साहेलडीनिदेशी ॥ पंचम
जगपतिवंदियें साहेलडीयां सुमतिजिनेसरदेव गुणवे
लडीयां सूमतितणोदायकप्रभु सा० एहसेवोनितमेव
गु० १ जेहनेजनमरणनहि सा० आर्तध्यांननविहोय
गु० दुरगतिसनमुखनविहोयें सा० नवदुखसामुनजो
य गु० २ रोगशोगनविहने सा० नहिहनेसंताप गु०
एहनीकरोउपासना सा० जायेजेहथीपाप गु० ३ अ
ष्टकरमदलछेदीने सा० पांम्याअविचलराज्य गु० ४ र
त्नत्रयीपरगटकरी सा० सुखविलसेप्राचुर्य गु० ५ जि
नउत्तमपदपद्मने सा० सेवेसुखनिरधार गु० जेहथीअ
क्षयपदलहे सा० आठ्याबाधउदार गु० ६ इति ॥

अथ श्रीपद्मप्रभूजिनस्तवन ॥ देशीरसीयानी ॥ पद्म

पदमविजयजीकृतः (२३७)

जिनेसरपद्मलंछनजलुं पद्मनिश्रोपमदेवाय जिनेसर
उदकनेपंकजमांहिजेउपनुं उदकपंकेनलेपाय जि० १
तिमप्रभुकर्मपंकथीउपना जोगजलेवध्यास्वामि जि०
कर्मभोगम्हेलीअलंगारह्या तेहनेनमुशिरनामी जि०
२ प० वारेपरखदआगलतुंदीये मधुरस्वरेउपदेश जि०
सरदृष्टांतेदेसनासांजले नरतिरिदेवअसेस जि० ३
प० रक्तपद्मसमदेहेतेतगतगे जगलगेरुपनिहाल जि०
झगमगेसमवसरणमांहिरह्यो पगपगेरीद्वारसाल जि०
४ प० सुशीमामातारेप्रभुनेउरधरया पद्मसुपनगुण
धाम जि० उत्तमविजयगुरुसाह्येग्रह्यो पद्मविजयपद्म
नाम जि० ५ प० इति ॥ अथ श्रीसुपासजिन
स्तवन ॥ तुंगियागिरिशिखरसोहे एदेशी ॥ श्रीसुपा
सजिणंदताहरुं अकलरुपजणायरे रुपातीतस्वरुपवंतो
गुणातितगुणगाधरे १ क्युंहिक्युंहिक्युंहिक्युंहि तारना
रोतुंहिकिमप्रभु रीदयमांधरीलोकरे भवसमुद्रमांतुझ
तारे तुझअभिधाफोकरे क्युं० २ नीरमांधृतिदेखीतर
ती जाणियोम्हेस्वामरे तेअनिलअनुभावजिमतिम न
विकताहरेनामरे क्युं० ३ युंहियुंहियुंहियुंहि आःजेहतनु
मांध्यानध्याये ताहरुंतसनाशरे थायतनुंनोतेहकिंमप्र
भु एहअचरिजखासरे क्युं० ४ विग्रहनेउपसमकरेते म

(२३८)

पद्मविजयजीकृतः

ध्यवरतीहोयरे तिमप्रचुतुम्हेमध्यवरती कलहतनुंशम
जोयरे क्युं० ५ तुमप्रमाणन्नल्पदीसे तेधरीहदीन्नव्यरे
भारविनुंजिमशीघ्रतरिये एहन्नचिरजनव्यरे क्युं० ६ मा
हापुरुपतणोजेमहिमा चिंतव्योनविजायरे ध्यानउत्तम
जिनराजकेरो पद्मविजयतिणेध्यायरे क्युं० ७ इति ॥
अथ श्रीचंद्रप्रभूजिनस्तवन ॥ धणराढोला एदेशी ॥ चंद्र
प्रचुजिनआठमारे पास्यापूर्णस्वप्नावजिनवरध्यावो पूर्ण
तामुजपरगटथवारे छोनिमितनिःपाव १ जि० ध्यावो२रे
न्नविकजिनध्यावो प्रचुध्यातां ध्यानपलाव जि० परउ
पाधिनीपूर्णतारे जाचितमंडनतेह जि० जात्यरत्तसम
पूर्णतारे पूर्णतासुन्नरेह जि० २ कल्पनाथीजेअतावि
कीरे पूर्णताउदधिकछोल जि० चिदानंदघनपूर्णतारे
स्तिमितसमुद्रनेतोल जि० ३ पूर्णमानहानिलहेरे असं
पूर्णपूराय जि० पूर्णानंदस्वभावछेरे जगदद्रुतनोदाय
जि० ४ पूर्णानंदजिणंदनेरे अवलवेधरीनेह जि० उ
त्तमपूर्णतातेलहेरे पद्मविजयकहेएह जि० ५ इति ॥

अथ श्रीसुविधिजिनस्तवन ॥ मनमोहनारेलाल
एदेशी ॥ सुविधिजिनेसरसाहिबारे मनमोहनारेला
ल सेवोथइथिरथोन्नरे जगसोहनारेलाल सेवानविहो
येअन्यथारे म० होयेअथिरतायेक्षोन्नरे ज० १

प्रभुसेवात्रंबुदघटारे म० चट्टिआवीचित्तमांहिरे ज०
 अथिरपवनजबडलटरे म० तवजायेंविलइत्याहिरे
 ज० २ पुंश्चलाश्रेयकरनिहीरे म० जिमसिद्धांतमझार
 रे अथिरतातिमचितथीरे चित्रवचनआकाररे ज० ३
 अंतःकरणेअथिरपणुरे म० जोनउधरचुंमहासल्यरेज०
 तोस्योदोपसेवातणारे म० नविआपेगुणदिल्लरे ज० ४
 तिणेसिद्धमांपणवांछिआरे म० थिरतारुपचरित्तरेज्ञानद
 र्शनअभेदथीरे म० रत्नत्रयिइमउत्तरे ज० ५ सुवधीजिनसि
 द्विवरचारे म० उत्तमगुणअनुपरे ज० पद्मविजयतससेव
 थीरे म० थार्येनिजगुणभूपरे ज० ६ ॥ इति ॥

अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥ अम्हघरंमांडवसीआलो
 ए एदेशी ॥ शीतलजिनपतिसेवीयेण शीतलतानोकं
 द सांहिबशिवसुखकरुए प्रतिप्रदेशअनंतगुणाए पर
 गटपूरणानंद सा० १ एकप्रदेशेनचतणेए देवसमूह
 सूखव्यापि सा० त्रणकालनेलूंकरीए असतकलपना
 येथापि सा० २ इमआकाशप्रदेशजेए लोकालोकना
 तेह सा० थापतांसंपूर्णहोइए अनंतगुण्येमएह सा०
 ३ तेसूखसमूहतणोवलीए कीजेवर्गउदार सा० तेह
 नोवर्गवलीकरोए येमवर्गकरोवारंवार सा० ४ अनंत
 वर्गवर्गेकरीए वर्गितसूखसमुदाय सा० अव्यावाधिसुख

(२४०)

पदमविजयजीकृत.

आगले एपणआतिउणमथाय सा० ५ म्लेछनगरगुणाकि
मकहेए अन्यम्लेछपुरतेह सा० तिमत्रोपमविणुकिमक
हुंए शीतलजिनसुखजेह सा० ६ आवश्यकनिर्युक्तियेए
चारुयोएअधिकार सा० करतांसिद्धिजणीतिहांए उत
मत्रतिनमस्यकार सा० ७ येमत्रनोपमसूखजोगवो
ए जिनउत्तममहाराज सा० तेशीतलसुखजाचीये
ए पद्मविजयकहेआज सा० ८ इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ वारिहुंगोडीपासजी ए
देशी श्रीश्रेयांसजिणंदनी अद्भुततानकहाय मोहन
संजमग्रहिकेवललहि शैलेशीयिसुहाय मोहन १ श्री
श्रेयांस० शुषिरपूरणथीहीनता योगनिरोधनेकाल
मो० होयत्रिजागत्रवगाहना विछंडीकर्मजंजाल मो०
२ श्री० वाच्यनहीसंठाणथी तिणेअनिश्चितसंठाण
मो० प्रदेशांतरफरस्याविना पास्यालोअगठाण मो० ३
श्री० प्रथमसमयअनंतरकह्या पडेपरंपरासिद्ध मो० वे
तासविजगजावनो पणकोइपयथ्येनगिद्ध मो० ४ श्री०
चिदानंदनितजोगवो सादिअनंतस्वरूप मो० जन्मज
रामरणेकरि नविपडवुंजवकुप मो० ५ श्री० मोहक्ष
यीपणताहरा गुणवानसमथ्य मो० पणज्युंशिशुसाग
रमवे वितरणकरीनिजहथ्य मो० ६ श्री० तिणेजि

नवरत्नमप्रते वीनतकिरीयेंएह मो० निजपदपद्मसे
 वकनणी दीजेशिवसुखजेह मो० ७ श्री० इति ॥
 अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तवन ॥ प्रथमगोवालातएजवे
 जी एदेशी ॥ वासववंदितवंदियेजी वासुपूज्यजिनराय
 मानुअरुणविग्रहंकरच्योजी अंतररिपुजयकार १ गुणा
 करअदचूतहारीरेवात सुणतांहोयसुखशात गु० अंतर
 रिपुक्रमजयकरच्योजी पांस्योकेवलज्ञान शैलेशीकरणे
 दह्यांजी शोपकरमसुहज्ञाण गु० २ बंधनछेदादिकथकी
 जी जइफरस्यो लोकअंत जिहांनिज एकअवगाहनाजी
 तिहांजवमुक्तअनंत गु० ३ अवगाहनाजेमूलछेजी तेह
 मांसिद्धअनंत तेहथीअसंखगुणाहोयेंजी फरसितजिन
 नगवंत गु० ४ असंखप्रदेशअवगाहनाजी असंख्यगु
 णातिणेंहोय ज्योतिमाज्योतिमिल्यापरेजी पणसंकीर्ण
 नकोय गु० ५ सिद्धबुद्धपरमातमाजी आधिव्याधिक
 रीदूर अचलअमलनिकलंकतुंजी चिदानंदभरपूर गु०
 ६ निजस्वरुपमांहिरमेजी जेजारहतअनंत पद्मविजय
 तेसिद्धनुंजी उत्तमध्यानधरंत गु० ७ इति ॥

अथ श्रीविमलजिनस्तवन ॥ गुणहविलामंगलीकमा
 ला एदेशी ॥ विमलजितेसरवयणसुणीने विमलता

निजओलखाणीरे पुदगलतत्वादिकनिन्नसत्ता सिद्धस

मानपिछाणीरे वि० १ पुद्गलसंगथीपुद्गलमयनि
 ज खीरनीरपरेअप्पारे एतादिनलगेएहिजम्भांति पु
 द्गलअप्पाथप्पारे वि० २ मानुअवमेवाणीसुणीने
 निजआतमरिद्धीपाइरे गृहअंतरगतनिधिवतलावत लहे
 आणंदसवाइरे वि० ३ अप्पालह्योत्युंदेहनेअंतर गुण
 अनंतनिधानरे आवारकआचार्यआवरण जाण्यानेअ
 अमानरे वि० ४ सिद्धसमानविमलतानिजते करवा
 प्रगटस्वनावरे विमलजिनउत्तमआलंबन पद्मविजय
 करेदावरे वि० ५ इति ॥ अथ श्रीअनंतजिन
 स्तवन ॥ विमलजिनविमलाताहरीजी एदेशी ॥ अ
 नंतजिनज्ञानअनंतताजी मुजथीकेमकहेवाय अनंतआ
 गममांहितोलिआजी एखटपयथथजिनराय अ० १
 जीव १ पुद्गल २ समय ३ एत्रिहुजी द्रव्य ४ परदेश ५ प
 रचाय ६ थोडलाजीवपुद्गलतीहांजी अनंतगुणाठह
 राय अ० २ अनंतगुणतेजसएकछेजी अनंतगुणकम
 गतास बंधनेमुक्तजेलावलीजी तिणेअनंतगुणीराश
 अ० ३ अनंतगुणसमयतेहथीकह्याजी सांप्रतसमय
 सहुमांहि व्यापिआतिणेतेहथीवलीजी द्रव्यअधिका
 कह्यात्यांहि अ० ४ जीवपुद्गलादिप्रक्षेपथीजी थाये
 अधिकाएमतेह छेपरदेशअनंतगुणाजी ननपरदेशेक

रीएह अ० ५ श्रेणिअनादिअनंतनोजी थायघननज
परदेश कालनोतेघननविहोयेंजी तिणेअनंतगुणपरदे
श अ० ५ तेहथीअनंतगुणपजवाजी अगुरुलहुपजय
अनंत एकपरदेशविशेनाखिआजी थायसमुदायकरंत
अ० ७ अनंतजिनकेवलज्ञानमांजी देखतानितुपरतक्ष
जिनवरउत्तममहेरथीजी पद्मनेपणहोयलक्ष अ० इति॥
अथ श्रीधर्मजिनस्तवत ॥ देशीविंदलीनिछे ॥ श्री
धर्मजिनेसरदेवा बीजानीनकरुंहेवाहो साहिवअरज
सूणो तेतोकाचशकलनेजेहवा तुंचिंतामणिदुखहरेवा
हो सा० १ तेनविलह्याआपेधर्म तससेवाकिमदिये
सर्महो सा० तुंतोधर्मतणोअधिकारी धर्मीजननेसुख
कारीहो सा० २ निजजेहअनंताधर्म करचापरगटछं
डीकर्महो सा० मुजपणजेधर्मअनंता प्रगटकरवाकरु
चिंताहो सा० ३ तसतुंप्रभुकारणमिलिओ हवेतरियो
नवजलदरिओहो सा० तुंजमुरतिसुरतमांहि मनोह
रदीठीउछछाहिहो सा० ४ तेहथीतुजप्रत्ययआव्यो
जिनउत्तमजावेजाव्योहो सा० कहेपद्मविजयप्रभुसेवा
करवाअक्षयपद्रलेवाहो सा० ५ इति॥ अथ श्रीशांति
जिनस्तवत ॥ हरिमाहारियोवनीयानोलटकोदहाडा

च्यारजो एदेशी॥ हरिम्हारेशांतिजिनेसरअलवेसरआ

धारजो लेइ दीक्षादियें शिक्षा भविजन लोकनेरे लो हां०
 पामी ज्ञानधरी शुभध्यान अनंतजो त्रणभुवन अजुवाले
 टालेशोकनेरे लो १ हां० सैलेशीमांथइ अलेशीस्वामि
 जो निजसत्तानो जोगीशोगीन हीकदारे लो हां० गुण
 एकत्रीसजगीस अतिअदभुतजो प्रगटथया अवगुणग
 यासविसादिसदारे लो २ हां० गतआकार श्रीकारस्व
 रूपगुणपांचजो वरणविचित अतीतथीगुणपणपामीआ
 रे लो हां० दोयगंधसंबंधटल्याथीदोयजो अरससर
 सथीगुणरसपणप्रभुवांमयिारे लो ३ हां० फरसआठ
 नानासथीगुणलह्याअष्टजो त्रणवेदनोखेदप्रभुदुरेक
 रचोरे लो हां० अशरीरीअसंगिवरीअरुहजो एकत्रीस
 गुणवरीओन्नवदरीओनिस्तरचोरे लो ४ हां० पाम्या
 सिद्धसरूपअनूपजिणंदजो तिमसेवकनाकारकतारक
 भवतणारे लो हां० जिनउत्तमवरगुणभरपदकजनीत
 जो पद्मविजयकहेजावोजावेजविजनारे लो ५ इति ॥

अथ श्रीकुंथुजिनस्तवन ॥ सइयांमोरीरेचांदलीओउ
 ग्योनेमध्यमध्यरातनोरे एदेशी ॥ जिनजीमोरारेरात
 दिवशनितसांनरैरे देखीताहरुरूपलाल लालगुलाब
 आंगीवनीरे तुजगुणज्ञानथीमाहरुरे जाणुंशुद्धस्वरूप
 लाल ला० १ जि.तेहस्वरूपनेसाधवारे कीजेजिनवरसे

वलाल द्रव्यभावदुभेदथीरे द्रव्यथीजिमकरेदेवलाल
 ला० २ जि० भोगरमालतीकेवडारे ल्योम्हाराकुथु
 जिननेकाजलाल लाखेणारेटोडरकरीरे पूजाश्रीजिन
 राजलाल ला० ३ जि० केसरचंदनधूपणारे अक्षतनैवे
 दनीरेलाल द्रव्यथीजिननीपूजाकरीरे निरमलकरीने
 शरीरलाल ला० ४ जि० द्रव्यथीइमजिनपूजाकरी
 रे नावथीरुपातीतस्वभावलाल निःकर्मानेनिःसंगता
 रे निःकामीवेदअनावलाल ला० ५ जि० आर्वाणस
 विथयावेगलारे घातीअघातीस्वरुपलाल बंधउदयने
 सत्तानहिरे निजगुणनाथयानूपलाल ला० ६ जि० मु
 जआतमतुजसारिखारे करवानेउजमाललाल तेजिन
 उत्तमसेवथीरे पद्मनेमंगलमाललाल ला० ७ जि०
 इति ॥ अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ घंडीए
 कयोनेराणीसुंवरो एदेशी ॥ श्रीअरनाथजीसांभलो
 सेवकनीअरदास भवअटविमांहिहुंनम्यो बंधाणोमो
 हपास १ श्री० मोहरायनाराज्यमां बहुलुकटकजणा
 य मिथ्यामहेतोतिहांअछे मंत्रीकुबुद्धिकहाय २ श्री०
 अजगासिपाइअतिघणा कहेतांनावेपार तोपणअधिका
 रितणा नामकहुंनिरधार ३ श्री० क्रोधमायालो जमा
 नते मुंकेनमाहरोसंग मुजपणतेछेवालहा नवीमुंकरंग

(२४६) पदमविजयजीकृत.

४ श्री० रागद्वेषदोयमल्लवली वांध्यावांहिमरोड हवे
प्रचतुम्हत्रागलरहि वीनतीकरुकरजोड ५ श्री० वं
धनमांहिथीछोडवो उतारोजवपार हरिहरदेवसेव्या
घणा नविपास्याहुंसार ६ श्री० सहसवदननस्तवीस
के तुजगुणत्रगमत्रपार जिमरयणाकररत्ननो नविवी
लसेपार ७ श्री० आचारिजपंडितघणा सत्यविजयगु
रुराय कपूरविजयतसपाटवी नवीजननेसुखथाय ८
श्री० खिमाविजयतसपाटवी जिनविजयसुपसाय पंडि
तउत्तमविजयनो पद्मविजयगुणगाय ९ श्री० इति ॥
अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ पांचमेमंगलवारप्रभातेचा
लवुरेलो एदेशी ॥ साहिवामल्लीजिनेसरनाथअनाथत
णोधणीरेलो सा० वस्तुस्वप्नावप्रकासकजासकदिन
मणीरेलो सा० धर्मअनंतासुखदेतांपरगटथयोरेलो सा.
वस्तुसरवपर्यवसजाखीजिनगयारेलो १ सा० युगप
दजावीनेक्रमभाविपर्यवकह्यारेलो सा० ज्ञानादिकयुग
पदजावीपणसंग्रह्यारेलो सा० नवजिर्णादिकथायतेक्र
मजावीसुणारेलो सा० शब्दअरथथीतेपणद्विविधपरे
मुणारेलो २ सा० इंद्रहरिइत्यादिकशब्दतणाजलारे
लो सा० जेअजिलाखनहितेअर्थपर्यवकलारेलो सा० ते
पणद्विविधकहिजेस्वपरनेदेकरारेलो सा० तेपणस्वना

विकेत्रापेक्षिकथीवरीरेलो ३ सा० सर्वअतीतअनाग
 तसांप्रतकालथीरेलो सा० इत्यादिकनिजबुद्धेकरोसं
 जालथीरेलो सा० समकालेइमधर्मअनंतापामीयेरेलो
 सा० तेसवीपरगटजावथीतुम्हेशिरनामीयेरेलो ४ सा०
 खटद्रव्यनाजेधर्मअनंतातेसवेरेलो सा० नहिपरछन्न
 स्वजावअजावमुजसंजवेरेलो सा० पुष्टालंबनतुंहिप्रग
 टपणेपामीयोरेलो सा० हुंपणहवेतुजरीतेथवानेकामीयो
 रेलो ५ सा० मल्लीनाथपरहस्तीमल्लथइझझसुरेलो सा०
 ज्युंखटमित्रनेबूझव्यातिमअमेवूझस्युरेलो सा० तसप
 रेउत्तमसीसनेमहेरथीनिरखीयेरेलो सा० पद्मविजयक
 हेतोअम्हेचितमांहरखीयेरेलो ६ सा० इति ॥

अथ श्रीमुनिसूत्रतजिनस्तवन॥ सावरमतिएआविला
 जरपूरजो चारैनेकांठरेमातारमीवल्परि एदेशी॥ गरवा
 नीछे ॥ पद्मानंदनवंदनकरीयेनित्यजो स्यादवादशै
 लीजसअचिधासूचवेरे लोकालोकेजाणेतिएमुनिहो
 यजो एगुणथीमुजमनमांहठथीरुचवेरे १ मत्यादिकच
 उनाणअजावथीजासजो केवलज्ञानतेसूरयउग्योजेह
 नेरे कटविबरेकरीसूरजकिरणेप्रकासजो मेघांतरथीआ
 व्योजनकहेतेहनेरे २ वातायनपरमुखनोकहेइणपर
 कासजो पणसुरजनोनविकहेइणिपरेजाणियेरे केवल

(२४८) पदमविजयजीकृत.

ज्ञानप्रकासेक्षयोपसमनामजो मत्यादिकथीनविज
नमनमांत्राणियेरे ३ वातायनपरमुखकीधासविदूरजो
तवकहेवायसूरजनोपरकासछेरे तिमत्रावरणगयाथी
इमकहेवायजो केवलज्ञानेत्रणनूवनत्राज्ञासछेरे ४ अ
थवासूरयउगेपणनविजायजो ग्रहणतारापणपरवर्तन
तसनथीरे तिणीपरेसत्तामत्यादिकनिजाणजो पणपर
वर्तननहीतसकेवलज्ञानथीरे ५ उत्तमव्रतपाल्याथीसु
व्रतनामजो ज्ञानक्रियाइमनामेजेहनेपामीयेरे ज्ञानक्रि
याथीमोक्षहोयेनिरधारजो तेसाधीशिवपाम्यातुम्हशि
रनामियेरे ६ ज्ञानमांहिदर्शनतेअंतरभूतजो साधनरु
पटलीनेसाध्यपणेथइरे रत्नत्रयीजिनवरउत्तमनेनीत्य
जो पद्मविजयकहेनजतांत्रापदसविगइरे ७ इति ॥
अथ श्रीनमिजिनस्तवन ॥ मुगटबन्योमाहावरिनोजो
एदेशी ॥ नितनमियेनमिजिनवरुरेजो जेएकअनेकस्व
रुपजो नित्यअनित्यपणेवलीजो जेहनागुणअतिअदनु
तजो नि० १ अवयवीअवयवरुपछेजो जेअस्तिनास्ति
स्वभावजो वलीगुणातीतनेजेगुणीजो रुपातीतस्वरुपी
भावजो नि० २ व्ययउतपतिध्रुवजेहछेजो जेवेदीअवे
दीविचारजो भिन्नअभिन्नपणेकरीजो नित्यज्ञोगवेसु
खश्रीकारजो नि० ३ कर्ताअकर्ताजेहछेजो वलीभो

काञ्चनोक्ताजेहजो सक्रिअनेअक्रियवलीजो परिणाम
 इतरगुणगेहजो नि० ४ योगातीतयोगीसरुजो वर्णा
 तीतनेतदवंतजो स्यादवादेएणिपरेकरीजो तुंसिद्धस्वरु
 प्रचगवंतजो नि० ५ इमजिनवरनेओलखीजो जेथि
 रमनकरीकरेसेवजो उत्तमन्नविजनतेहोवेजो कहेपद्म
 विजयपातेदेवजो नि० ६ इति ॥ अथ श्रीनेमि
 नार्थजिनस्तवन ॥ सुणगोवालणीगोरसडावालीरे उ
 नीरहेने एदेशी ॥ सामलियालालतोरणथीरथफेरयो
 कारणकहोने गुणगिरुआलालमुजनेमुकीचाल्या
 दरिसणद्योने आंकणी हुंछुनारितेतमारी तुम्हेसंप्रिति
 मुकीअम्हारी तुम्हेसंयमस्त्रीमनमांधारी सा० १ तु
 म्हेपशुउपरकिरपाआणि तुम्हेमाहरीवातनकोजाणी
 तुम्हविणपरणुंनहींकोप्राणी सा० २ आठनवानीप्रीतल
 डी मुकीनेचाल्यारोतलडीनहींसज्जननीएरीतलडीसा.
 ३ नविकीधोहाथउपरहाथे तोकरमुंकावूंहुंमाथे पण
 जावूंप्रभुजीनीसाथे सा० ४ इमकहिप्रभुहाथेव्रतली
 धो पोतानोकारजसविकीधो पकडयोभारगएणेशिव
 सीधो सां० ५ चोपनदिनप्रभुजीतपकरीओ पणपन्ने
 केवलवरधरीओ पणसतछतिससुशीववरिओ सा०

६ इमत्रणकल्याणकगिरनारे पाम्योतेजिनउत्तमतारे

(२५२)

ज्ञानविमलजीकृत.

हवासेपणजेहने अमृतफलआहार ल० तेअमृतफलने
लहे एयुगतुनिरधार ल० ३ आ. वंशइक्षागछेजेहनो च
ढतोरससुविसेष ल० नरतादिकथयाकेवली अनुभव
रसफलदेख ल० ४ आ० नाजीरायाकुलमंडणो म
रुदेवीसरहंस ल० रुपन्नदेवनितुवंदीये ज्ञानविमलअ
वतंस ल० ५ आ० इति ॥ अथ श्रीअजित

जिनस्तवन ॥ पुण्यप्रसंसीये एदेशी ॥ अजितजिणंद
दयाकरो आंणीअधिकप्रमोद जाणीसेवकआपणो सु
णीयेवचनविनोदरे जिनजीसेवना १ नव२ताहरीहो
योरे एमनकामना आंकणी कर्मशत्रुतुमेजितीआ ति
ममुजनेजिताड अजितथाउंदुसमनथकी एमुजपूरोरु
हाडरे जि० २ जितशत्रुनृपनंदनो जीतेवयरीजेह अ
चिरजइहांकणीकोनहिं परिणामेगुणगेहरे जि० ३ स
कलपदारथपांमीये दीठेतुमदीदार सोजागीमहिमानि
लो विजयामातमल्हाररे जि० ४ ज्ञानवीमलसुप्रका
शथी नासीतलोकालोक शिवसुंदरीनावालहा प्रणमे
नविजनथोकरे जि० ५ इति ॥ अथ श्रीसंभव
जिनस्तवन ॥ कपूरहोवेअतिउजलोरे एदेशी ॥ संभव
जिनवरखुबबन्योरे अविहडधर्मसनेह दिन२तेवधतो

अछेरे कबहीनहोवेछेह १ सोजागिजिनमुजमनतूहीसु

हाय एतोवीजानावेदाय हुंतोललि२लागुंपाय सो०आं
 चलीदूधमांहिजिमघृतवस्युरे वस्तुमांहिसामर्थ तंतुमां
 हिजिमपटवस्योरे सूत्रमांहिजिमअर्थ २ सो० कंचन
 पारसपाहणमारे चंदनमांजिमवास पृथ्विमांहिजिमउप
 धीरे कार्यकारणवास३सो० जिमस्यादवादेनयमिलेरे
 जिमगुणमांपर्याय अरणिमांपावकवस्योरे जिमलोकेख
 टकाय४सो०तिणपरेतुमुजचितवस्योरे सेनामातमल्हार
 जोअभेदबुद्धिमिलेरे श्रीज्ञानविमलसुखकार ५सो०इति
 अथ श्रीअग्निनंदनजिनस्तवन ॥ रामचंद्रकेवागचांपो
 मोरीरहोरी एदेशी ॥ अग्निनंदनजिनराज आणीजाव
 घणोरी प्रणमुंतुमचापाय सेवककरिअपणोरी नवभय
 सागरतार साहिवसुहामणोरी सुरतरुजासप्रसन्न
 किमहोयेंतेदुमणोरी १ नगत्तवछलजिनराज श्रवणेजे
 हसुण्योरी तेहस्युंधर्मसनेह सहजसुजाववन्योरी उप
 समवंतअथाह तोहीमोहहण्योरी रतिपतिदुर्धरजेह
 दुसमनतेनगण्योरी २ संवरनृपनोजात संवरजेहधरेरी
 अचरिजसुंतेहमांहिं कुलआचारकरेरी कीरतिकन्या
 जास त्रिजुवनमांहिफिरेरी परवादीमतमान तासुतेह
 हरेरी ३ अखयलहेफलतेह जेहसुंहेजवहेरी दोहग

दुरगतिदुख दुसमनजीतिदेहेरि नवरसंचितपाप खि

(२५४)

ज्ञानविमलजीकृतः

एमांतेहहरेरी इममहिमामहिमांहि सर्वथिकेमकहेरी
४ सायरन्नलिउंबिंदु होयेंअखयपणेरी तिमविनतीसु
प्रमाण साहिवजेहसुणेरी अनुन्नवन्नवनेनिवास आपो
हेजघणेरी ज्ञानविमलसुप्रकास प्रभुगुणराशथुणेरी
६ इति ॥ अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ देशीवीं

दलीनी ॥ सीताअतिरुडी ॥ एदेशी ॥ साहिवासुमतिजि
एंदा टालोन्नवन्नवमुजकंदा श्रीजिनसेवोवे तुजदरिस
एअतिआनंदा तूसमतारसमाकंदा १ श्री० सुमतिसु
मतिजवआवे तवकूमतिनोदावनफावे श्री० तुजसरुपज
वध्यावे तवआतमअनुन्नवपावे २ श्री० तूंहीजछेआप
अरुपी ध्यायकबहूभेदेरुपी श्री० सहजेवलीसिद्धस्वरु
पी इमजोतांतूंबहूरुपी ३ श्री० इमअलगोविलगोहो
वें किममुठमतितूंजोवे श्री० जोअनुन्नवरुपेजोवें तोमो
हतिमिरनेखोवे ४ श्री० सुमंगलाजेहनीमाता तुंपं
चमगतिनोदाता श्री० ज्ञानविमलप्रभूज्ञाता तूं
मातात्राताभ्राता ५ श्री० ॥ इति ॥

अथ श्रीपद्मप्रभजिनस्तवन ॥ वाल्हेसरनीदेशी ॥ प
द्मप्रभुजिनरायाजिरेलाल गुणअनंतन्नगवानरे वाल्हे
सरमोरा अतिशयवंतछेताहरिरेलाल रक्तकमलस
मवानरे वा० १ प० गगनमवेकुणअंगुलेरेलाल

ज्ञानविमलजीकृत. (२५५)

कुणतोलेकरिमेररे वा० सर्वनदिसिकताकणारे लाल
 कुणग्रहेमूठिसमीररे वा० २ प० कुणतारुवांहिकरिरे
 लाल चरमजलधीलहेतीररे वा० सविजलठामनाविं
 दुआरैलाल तारागणितगंभीररे वा० ३ प० एहअ
 संखमांहिरह्यारैलाल प्रभुतुमगुणछेत्रनंतरे वा० सम
 रथकीमगणवाहोइरैलाल यद्यपिमोहनोअंतरे वा० ४
 प० तेजप्रतापेआगलारेलाल गिरुआनेगुणवंतरे वा०
 श्रीज्ञानविमलभावेकरिरेलाल तुंशिवसुंदरीकंतरे वा०
 ५ प० इति ॥ अथ श्रीसुपासजिनस्तवन ॥ सुणवनी
 पीउंडोपरदेशी एदेशी ॥ साहिवस्वामीसुपासजिएंदा
 सुनजरकरिनेनिरखारे हितहियडेहेजालुहरपे सेवक
 सुपरेपरखारे १ सा० एकायाजायापरिचवमां वार
 अनंतीविलसीरे तुजभगतिजोडिनहिचावे तोथइअव
 करसरंसीरे २ सा० चंक्तिणाअनुबंधप्रचावे जेहथ
 इउजमाळीरे अखयथएअवगाहनारुपे तेहजतुजगुण
 चालीरे ३ सा० तिणेहेतेकरिआपसमानी एहसंबंधे
 जाणुरे एहनोगुणवहुलेखेलांगो जोतुमध्यानेआणुरे ४
 सा० जोडयोनेहनतोडेकवही एहउत्तमनीवातोरे ज्ञान
 विमलप्रभुध्यानपसाये कालनजाण्योजातोरे ५ सा० इति

अथ श्रीचंद्रप्रज्जिनस्तवन ॥ धणराढोला एदेशी ॥

(२५६)

ज्ञानविमलजीकृत.

श्रीचंद्रप्रभुसाहिवारे चंद्रकिरणसमदेह मनरामान्या
नित्यउदयनिकलंकतुरे अनोपमअचरिजएह म० १
आवोआवोहोसुजाण केतांकीजेहोवखाण तूंतोत्रिभुवन
जासणजाण म० आंकणी तुजसमगणनाकारणेरे जे
रेखाप्रथमसुचंग म० तेआकासेनिपनिरे त्रिभुवनपाव
नगंग म० २ अवरनकोतुमसारिखोरे छोडघोखटि
काखंड म० तेकैलासरुपासमोरे महियलमांहेअखंड
म० ३ ताहरागुणतुममांरह्यारे एहगुणनहिपरपास
म० तेणेहेतेकरीजाणीयेरे त्रिभुवनताहरोदास म० ४
दोषाकरतुमपदरह्यारे सेवासारेखास म० दोषरहित
तनुंताहरुंरे ज्ञानविमलसुप्रकास म० ५ इति ॥

अथ श्रीसुविधिजिनस्तवन ॥ रायकहेराणीप्रते एदे
शी ॥ सुविधिजीणंदसोहामणा अरीहंताजी सुविधि
तणाचंडार जगवंताजी प्रेमधरीयेप्राहुणा अ० मनमं
दिरपाउधार ज० १ ज्ञानदिपकतेझलहले अ० सम
किततोरणमाल म० चारित्रचंद्रोदयजलो अ० गुणमु
गताझाकझमाल ज० २ मैत्रीजागसिंहासने अ० तकिया
परमुणपक्ष ज० मुदितापरमविच्छावणा अ० इत्यादि
कगुणलक्ष ज० ३ इहांआवीनेबेसीये अ० तुमच
रित्रनागित ज० गावेमुजतनुकामनी अ० आणी

अविहङ्गप्रीत न० ४ अरजसुणीनेआविया अ०
साहिवमनघरमांहि न० ज्ञानविमलप्रभुताघणी
अ० प्रगटिअधीकउछाहि न० ५ इति ॥

अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥ जीहोनीदेशी ॥ जीहोशी
तलजीनजगनोघणी जीहोशीतलदर्शनजास जीहोशी
तलचंदननीपरे जीहोपसरयोसुजससुवास १ सुगुणन
रसेवोशीतलनाथ एतोअविचलशिवसुखसाथ सु. आंक
णी. जीहोविषयदावानलओल्हवें जीहोध्यानतणोलव
लेश जीहोगारवरजतेउपशमे जीहोदुरिदूरितकले
श. २ सु० जीहोमलयाचलसुनवासथी जीहोकंटक
होयेंसुगंध. जीहोसज्जनसहुपणआदरी जीहोएउत्तमअ
नुबंध ३ सु० जीहोरोम२तनुउलसें जीहोआनंदअधी
कअथाह जीहोशीतलवाणीसुधारसे जीहोसींच्योवैप
रवाह ४ सु० जीहोशीतलतानेकारणे जीहोआणोस
मताचाव जीहोज्ञानविमलसुखसंपदा जीहोहोवेअधि
कजमाव ५ सु० इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिन
स्तवन ॥ निंदरडीनिदेशी ॥ श्रीश्रेयांसजिनेसरु. से
वकनीहोकरजोसंजालतो रखेवीसारीमुंकता होयमो
टाहोजगेदिनदयालतो १ श्री० मुजसरिखाछेताहरे

सेवकनीहोवहूकोडाकोडतो पणजेसुनजरेनिरखीओ

किमदीजेहोप्रभुतेहनेछोडतो २ श्री० मुजनेहेजछेत्र
 तिघणुं प्रचुतुमथीहोजाणुंनिरधारतो तोतूनिपटनिरागी
 ओ हुंरागीहोएवचनविचारतो ३ श्री० बलीन्हानुंमनसाह
 रुं हुंतोराखुंहोतुमनेतेमांहितो हुंरागीप्रचुताहरो एकां
 गीहोप्रहीयेप्रचुवांहितो ४ श्री० निगुणोनविउवेखीए
 पोतावटहोइमनोहेंस्वामितो ज्ञानविमलप्रचूशुकरो वि
 णुंअंतरहोसेवकएकतानतो ५ श्री० इति ॥

अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तवन ॥ गीरुआगुणवीरजी
 एदेशी ॥ श्रीवसुपूज्यनरिंदनोजी नंदनगुणमणीधाम
 वासुपूज्यजिनराजीयोजी अतिशयरत्ननिधान १ प्रभु
 चित्तधरीनेअवधारोमुजवात दोषसयलमुजसांसहोजी
 स्वामीकरीसुपसाय तुमचरणेहुंआवित्रोजी महिरक
 रोमहाराय २ प्र० कुमतिकुसंगतिसंग्रहीजी अविधीने
 असदाचार तेमुजनेआविमिल्याजी अनंतअनंतीवार
 ३ प्र० जबमेंतुमनेनिरखीयाजी तवतैनाठादूर पुण्ये
 प्रगटेशुभदिशाजी आयोतुमहजुर ४ प्र० ज्ञानविम
 लप्रचुजाणनेजी शुंकहवुंबहूवार दासआसपूरणकरो
 जी आपोसमकितसार ५ प्र० इति ॥

अथ श्रीविमलजिनस्तवन ॥ बबेमुनिवरवहेरणपांगा

रयाजी एदेशी ॥ विधशुवंदतांविमलजिनेसरुजी वा

धवलीं वारुधर्मसनेहरे आतम अनुभवज्ञानमाहेमिले
 जी होयै अविनासी अखय अछैहरे १ वि० पणजिम
 सहजे विपदुरे करे जी मंत्रे वास्युं होयै अमृत रूपरे ति
 मतु मध्याने एह अभेद थी जी ध्यायो होयै आतम सिद्धस
 रूपरे २ वि० जिमतिल उज्जल शुचकुसुमे करि जी वा
 स्यावहू मुलां होयै तलरे तिमसित पक्षी तुम गुण वास थी
 जी होयै अतिशय गुण परिमल मे लरे ३ वि० आपस
 रिखी सेवकने करे जी साहिव सेव्यो ते सुप्रमाणरे मोटा
 सेव्या नो तो स्यो पटंतरो जी समझे थोडे कहे जे होये जाणरे
 ४ वि० ज्ञानविमल सुप्रकास थी की लह्यो जी त्रिभुवन जं
 नमन के राजा वरे तोशी जो अछो सेवक वीनती जी आ
 पोतुम सेवा चवजल ना वरे ५ वि० इति ॥ अथ
 श्री अनंत जिनस्तंवन ॥ एहुं गरवारु नायकानी एदे
 शी ॥ अनंत जिनै सर आपणो हो लाल अंतर यामी एह
 रे एजिन जी वारु नेह निवडनि अथ थं यारे लाल जिमप
 थयर नीरे हरे ए० १ अ० अंत कर्यो ते कर्म ना हो लाल पा
 मी खाइक ना वरे ए० गुण अनंत ते हं थिल ह्यारे लाल प्र
 गटयो सहज सुजा वरे ए० २ अ० बेठो अनंत पांचमे हो
 लांल आठ अनंत करि हां थरे ए० नाथ नहिको तां हरे रे
 लाल नणीये त्रिभुवन नाथरे ए० ३ अ० एतादि नन

(२६०)

ज्ञानविमलजीकृतः

विजाणीआहोलाल ताहरुअनंतसरुपरै ए० सुवशा
माताजेहनीरेलाल तातसिंहसेनभूपरै ए० ४ अ० का
लअनंतमेपामीआहोलाल हवेकिमछोडचोजायरै
ए० ज्ञानविमलसुखपोखवारैलाल अविचलतूं
हिसहायरै ए० ५ अ० इति ॥

अथ श्रीधर्मजिनस्तवन ॥ मेडाउपरमेहझरुखेवीज
लाहोलाल झ० एदेशी धर्मजिनेसरधर्मधुरंधरचेटी
एहोलाल धु० अविधीअधर्मअनितिअसज्जनमेटिए
होलाल अ० संनारुनिसदिसकरिगुणएकठाहोलाल
के० पणदेवांनीवेरदीसोछोमनमेठाहोलाल दी०
१ आजलगेकोइकामकरयोहोयेदासनोहोलाल क०
तेदाखोलेइनामहोयेंजोआसनोहोलाल हो० नीरागी
शुंभ्रितधरेतेथोडिलाहोलाल ध० मोजनपामेकांइजा
नुनृपलाडिलाहोलाल जा० २ इमकरतांकहोस्वामी
केतादिनचालस्येहोलाल के० मोटाकरतेप्रमाणकहो
कुणपालहस्येहोलाल क० पडियपटोलेजाततेकद
हीनविटलेहोलाल ते० जेतुमस्युंबन्युंतानतेअवरस्युं
नविमलेहोलाल अ० ३ ताहरागुणनोपारनपांमेको
इगुणीहोलाल न० कीरतीत्रिभुवनमांहितुमारिमैसू
णीहोलाल तु० बहुकहतांआसंगहोयेंआसातनाहो

लाल हो। इमबिहाव्यानिंविजायहोयेंजेआपनाहोलाल
हो० ४ आपपीचारुंकोइनदीसेताहरेहोलाल न०
एकहेवानिरितनगतनथाहरेंहोलाल न० ज्ञानविम
लप्रनुआणवहेजेतुम्हतणीहोलाल व० त्रिनुवनतिल
कसमानहोयेंत्रिनुवनधणीहोलाल हो० ५ इति ॥

अथ श्रीशांतिजिनस्तवन ॥ वीछीयानी देशी ॥ सुणो
शांतिजिनेशरसाहिवा सुखकारकरुणासिंधुरे प्रनुतुम
समकोदातानहि निष्कारणत्रिभुवनबंधुरे १ सु० ज
सनाभेअखयसंपदहोए वलीआधीतणीहोयेंशांतिरे
दुखदुरितउपद्रवसविमिटे नांजेमिथ्यामतिभ्रांतिरे २
सु० तुरागरहितपणरीझवे सविसज्जनकेरांचित्तरे नि
रद्रव्यअनेपरमेश्वरु विणनेहेतूजगमित्तरे ३ सु० तूं
चक्रीपणजवचक्रनो संबंधनकोइकीधरे तूंतोभोगीयो
गीदाखिआो सहजेसमतारससिद्धरे ४ सु० विणतेडयो
नित्यसहायछे तुझलोकोत्तरआचाररे कहेज्ञानविमल
गुणताहरा लहियेंगणवेकिमपाररे सु० ५ इति ॥

अथ श्रीकुंथुजिनस्तवन ॥ मोतिडानीदेशी ॥ कुंथुजि
एंदसदामनवसीआो तूंतोदूरजइप्रनुवसीआो साहिवा
रंगीलाहमारा मोहनांशीवसंगी छठोचक्रीखट
खंडसाधे अभ्यंतरजिमखटारिपुवांधे १ सा० त्रिपदि

(२६२)

ज्ञानविमलजीकृत.

त्रिपथगंगाउपकंठे नवनिधिरिधिसिधिउतकंठे सा०
कोइअजैयरह्योनहिदेश तिमकोनरह्याकर्मनिवेश २
सा० धर्मचक्रवर्तिपदविपामी एप्रभुमाहरोअंतरजामि
सा० सत्तरनेदसुंसयमपाली सत्तरमेजिनमुगतिसंजा
ली ३ सा० तेहनेध्यानेजोनितुरहीए जोतेहनीआणा
निरवहिए सा. तोखाइकजावेगुणआवे साहिबसेवकने
दनपावे ४ सा० वार२सुपुरिसनेकहवुं तेतीजरी
याउपरवहवु सा० ज्ञानविमलजावेकरिजोवे तो
सेवकमनवंछितहोवे ५ सा० इति ॥

अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ किसकेचेलेकिसकेपूत एदे
शी ॥ श्रीअरजिनवरदानदयाल सेवाजेहनीछेसुरसाल
साहिबसेविये दूसमसमयमहाविषझाल तेहमांसेवक
नेसंजाल सा० १ मेरुथकीमरुभुमीसुहाय जिहांप्रगटी
सुरतरुवरछांय सा० जिहांतुमसासननीपरतित तेह
जजाणोसमकितरित सा० २ अगनिथकिजिमअगर
नोगंध प्रगटेदहदिसीपरिमलबंध सा० कषपाषाणैक
नकसजाव परस्वीजेपरिक्षकनेजाव ३ सा० तिमक
लियुगछेगुणनेहेत जोतुजसासनशुद्धसंकेत सा. जिम
निसिदीपकजलधीमांद्रीपजिममरुमारिवाजलनीप सा.

४ तिमकलिमांतुमपदकजसेव दुर्लजपामीपुण्येहेव सा.

ज्ञानविमलतेजेकरीजीय गंजीनसकेदूर्जनकोय सा० ५
 इति ॥ अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ इडरत्रांवात्रांवलरीरे
 एदेशी ॥ मल्लिजिनेसरवंदीधरे प्रहउगमतेसुर मल्लिकुसु
 मपरेविस्तरचोरे माहिमाअतिमहमुर १ चतुरनरसे
 वोश्रीजिनराय कुंमरिरुपेथाय च० आंकणी कुंभथाकि
 जेउपनारे जेमुनिवरकहवाय तेजवजलनिधीशोखवेरे
 अचरीजएहकहाय २ च० लंछनमिसीसेवेसदारे पू
 र्णकलशतुमपाय तेतारकगुणकुंभमारे आजलगेकहवा
 य ३ च० मंगलीकमांतेजणीरे थापेकलशमंडाण श्री
 जिनसेवाथीहोयेरे आयतिकोडिकल्याण ४ च० पर
 मातमसुखसागरुरे आगरगुणनोएह जगजयवंताजा
 णीयेरे ज्ञानविमलकहेतेह ५ च० इति ॥ अथ
 श्रीमुनिसुव्रतजिनस्तवन ॥ आजनहेजो एदेशी ॥
 श्रीमुनिसुव्रतजिनविसमा विशमीयामनमांहिजी कोइ
 कशुनमदुरतआवीवस्या वीसवसाउछाहिजी १ श्री.
 अनुभवजाग्योज्ञानदिशातणो परपरिणतगईदुरजी
 विप्रसमविषयतणांफलजाणीयां श्रद्धापरिमलपूरजी
 २ श्री० इत्यादिकगुणप्रगटेप्रभुथकी अवरनआवेदा
 यजी चंपकतरुतलेजेरतिपास्या आजलतसनसुहायजी

३ श्री० जेसुगुणसुंमनडुंवेधुं तेनकरेनिगुणसंगजी हं

साछछीलरसरनवित्रादरे छोडीगंगातरंगजी ४ श्री०
 जणजणसाथेप्रीतकरेघणी तेकोइनावेदायजी ज्ञानवि
 मलप्रभुपाम्याथीहोवे सेवकवंछितथायजी ५ श्री. इति॥
 अथ श्रीनामिनाथजिनस्तवन ॥ रंगिलेआतमा एदे
 शी ॥ नेहकरोनामिनाथस्युं जेछेचतुरसुजाणसुरंगा
 साहिवा अर्थसरेस्योतेहथी निर्गुणनहिगुणजाण सु०
 १ रागीदोषीदेवता तेकिमत्रावेजोड सु० एतोदेवनो
 देवछे वीत्तरागगुणकोड सु० २ किहांसायरकिहांछी
 लरु किहांदिनकरखद्योत सु० किहांघृतपूरनेकुसका
 किहांमृगपतिमृगपोत सु० ३ किहांतारापतितारिका
 किहांचिंतामणीकाच सु० किहांचंदनकिहांआकडो कि
 हांककरकिहांपाच सु० ४ ज्ञानविमलगुणसंपदा सं
 युतएभगवान सु० अवरकहोकिमदेवता आवेएहउप
 मान सु० ५ इति ॥ अथ श्रीनेमीनाथजिनस्त
 वन ॥ आघात्रामपधारोपूज्य एदेशी ॥ नेमिनिरंजन
 नाथहमारो अंजनवर्णशरीर पणअज्ञानतिमिरनेटाले
 जीत्योमनमथवीर १ प्रणमोप्रेमधरीनेपाय पामोपरमा
 नंदा यदुकुलचंदाराय मातशिवादेनंदा आंकणी. रा
 जीमतिस्सुंपूरवन्नवनि प्रीतन्नलीपरेपाली पाणी

ग्रहणसंकेतेआवी तोरणथीरथवाली २ प्र० अबलासा

थेनेहनजोडथो तेपणधन्यकहाणी एकरसेविहुप्रीत
थइतो किरतिकोडगवाणी ३ प्र० चंदनपरिमलजिम
जिमंखीरे घृतएकरुपनवित्रलगां इमजेप्रीतनिवास
हिंअहनिस तेधनगुणसुविलगां ४ प्र० इमएकंगीजेन
रकरस्ये तेनवसायरतरस्ये ज्ञानविमलजीलातेधर
स्ये शिवसुंदरीतसंवरस्ये ५ प्र० इति ॥

अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन ॥ त्रिभुवनतारणतीरथपा
संचितामणीरिके एदेशी ॥ पुरिसादाणीपांसकेआसस
फलकरोरिके आ० दासतणीअरदाससदादिलमेधरोरि
के स० वंपइओजिमजलधरविणुंजाचेनहिरिके वि० ति
मतुमविणहुंओरनजाचुंएसहिरिके जा० १ तुमउपरएकं
तारिकरिनेहुरह्योरिके क० साहिवतुममुझएकमेंअवरने
संग्रह्योरिके अ०० सेवानिपणचुककदापडतीनथीरिके
क० रीद्धीअनंतखजानेखोटपणकोनथीरिके खो० २
नवितत्वतापणअव्यअछेंप्रभुमाहरीरिके अ०० तेजाणुं
निरधारकृपालहीताहरिके क० अवथीतिनोपरीपा
कविलंबविचेकरेरिके वि० संघयणादिकदोषतणोअंत
रधरेरिके त० ३ पणतेभावेकामएवातनिवातछेरिके वा०
सेवककिमहोयेंदूरजेखानाजातिछेरिके खा० चोलवि
यानविजायकेजेतुम्हेसीखव्यारेके जे० पहिलाहेजदे

(२६६)

ज्ञानविमलजीकृतः

खाडीजेहनेहेलव्यारेके जे० ४ तेअलगाकिमजायनज
रधरोनेहानिरेके न० वंछितआपीआससफलकरोतेह
नीरेके स० ज्ञानविमलप्रनुचरणसेवानितुदीजीयैरेके
से० सहजेउदयबहुमानअधीकहवेकिजीयैरेके अ० ५
इति ॥ अथ श्रीमहावीरजिनस्तवन ॥ आदर
जीवखिमाणुणआदर एदेशी ॥ वर्द्धमानजिनवरनेध्या
ने वर्द्धमानसमथावेजी वर्द्धमानविद्यासुपसाये वर्द्धमा
नसुखपावेजी १ व० तूगतिमतिछछतीथितीछेमाहरो
जीवनप्राणआधारजी जयवंतुजगमांजससासन करंतुं
बहुउपगारजी २ व० जेअज्ञानीतुममतसरिखो परमत
नेकरिजाणेजी कहोकुंणअमृतनेविषसरीखुं मंदमति
विणजाणेजी ३ व० जेतुमआगमसरससुधारसे सीं
च्योशीतलथायजी तासजनमसुकृतारथजाणो सुरनर
तसगुणगायजी ४ व० साहिवतुमपदपंकजसेवा नि
तुनितुएहजयाचुजी श्रीज्ञानविमलसूरिसरनाखे प्रभु
नेध्यानेमाचुजी ५ व० इति ॥ इति ज्ञानविमल
सूरीजी कृत चतुर्विंशति संपूर्ण ॥

—००००००—

विजयलक्ष्मीसूरीकृत. (२६७)

अथ श्रीविजयलक्ष्मीसूरीजीकृत चौवीसी

अथ श्रीरूपन्नजिनस्तवन ॥ अरजरसुणोनेरुडाराजी
 याहोजी एदेशी ॥ रूपन्नरजिणंदनिरखीलोयणेहोजी
 अचीनवउदयोआणंद जिनवररसुखकरसाहिवोहो
 जी परमेश्वरमुनिचंद १ रु० अनोपमरमणताताह
 रेहोजी ज्ञानविलासीसमाज अविचलरस्थानकपा
 मनिहोजी अनुभवाशिवपुरराज २ रु० अनेकरसुगुण
 मयसुंदरुहोजी निःसंगीतनिराबाध आतमरअसंष्य
 प्रदेशमांहोजी अक्षयधर्मअगाध ३ रु० स्वरुपरस्था
 नथीएकताहोजी सूद्धताअवद्यरुप योगयोगरहित
 अकंपताहोजी अनेकत्रिचंगीअनुप ४ रु० अशरणर
 शरणहरणभवन्नयतणोहोजी अविसंवादितमित्त अ
 तिशयरधारीगुणावलीहोजी तत्वविलासीजगमित्त
 ५ रु० प्रभुगुणररंगीथइचेतनाहोजी अविलंबेजिन
 देव कारणरकर्तापणेंआरोपीनेहोजी विघटेअनादिकु
 देव ६ रु० इणविधरपरखीस्वामनिहोजी आदरेशु
 भप्रणिधान सोचाग्यरलक्ष्मीसूरीजिनथकीहोजी पां
 मेदर्शनगुणग्यान ७ रु० इति ॥ अथ श्रीअजि
 तनाथजिनस्तवन ॥ धनदिनधनवेलातेह एदेशी ॥

विजयारोनेंदनचरणसुरतरुछांह समीहितपूरेचूरेदु

(२६८)

विजयलक्ष्मीसूरीकृत.

रितनेजी सुरपतिनरपतिमुनिवरभृंग चरणविलासी
लहेसुखसरितनेजी १ सूहुमवायरपुढविजलणस
मीर जलवणसइविगलेंद्रिमांसहिजी नरयतिरयसुर
नरकर्मसंयोग जुवनपावनजिनसेवानविलहीजी २ च
उगइन्नमतांसुकृतनृपतिपसाय आरजदेशनिरमलकु
ललह्याजी दोषविलाशीआसीभावनिवारी मानसहंस
परेतुमपदग्रह्याजी ३ वीतरागसुखदुखगतसंस ते
हथीअसंगतकिमफलकामिएजी इममनाचित्युंजिमसु
रमणिसार अचित्यपणेपणचितितपामीएजी ४ पींड
पदस्थरुपस्थध्यानेहोलीन जिनजीनांचरणसरोजजि
णोग्रह्यांजी आतमतत्वरमणताप्रगटेहोतास ध्यानअ
नलथीकर्मइंधणदह्यांजी ५ अजितअमितगुणचरणनि
वास समकितसोधकरोधककर्मनेजी सौजाग्यलक्ष्मी
सूरिजगन्नाण ध्यानप्रभावेवहेशिवशर्मनेजी ६ इति ॥
अथ श्रीसंजवनाथजिनस्तवन ॥ अजितजिनतारज्यो
रे एदेशी ॥ निरुपाधिकताताहरेरे प्रभुरमणताताहरेअ
नंत व्यापव्यापकताशुद्धतारेसदाशुचगुणविलसंत १सं
जवजिनतारज्योरे तारज्योदिनदयाल सं० सेवक
करोनिहाल सं० ताहरोछेविसवास सं० तूमोटीमा

हाराज सं० तुंजीवजीवनआधार परमगुरुतारज्योरे

उतारोच्चवप्रार सं० आंकणी द्रव्यरहितरुद्धिवंतछोरे
 प्रभुविकसीतवीर्जत्रक्षोच विगतकपायवयरीहण्योरे
 अनिरामीज्योतित्रलोन्न सं० २ गुरुनहींत्रीभूवनगुरुरे
 तारकदेवाधिदेव कर्ताभोक्तासर्वनोरे सहजआणंदनी
 तमेव सं० ३ अतंतत्रक्षयत्रध्यातमीरे प्रचुत्रशरीरीत्रना
 हार सर्वशक्तिनिरावर्णतारे अतूलद्युतित्रनाकार सं० ४
 नीरागीनिरामयीरे असंगीतुंद्रव्यनयएक एकसमयसां
 ताहरेरे गुणपर्यायत्रनेक सं० ५ रुचिरचारुगुणसांच
 लीरे रुचिउपनीसुखकंद पूष्टकारणजिनतूलहीरे सा
 धकसाध्यत्रमंद सं० ७ पुष्टालंबनत्रादरीरे चेतनक
 रोगुणग्राम परमानंदस्वरुपथीरे लहस्योसमाधिसु
 ठाम सं० ८ सुखसागरसत्तारसीरे त्रिचुवनगुरुअधि
 राज सेवकनिजपदत्ररथीत्रोरे ध्यावोएहमहाराज
 सं० ९ आरौपितसूखभ्रमटलेरे पूज्यनेध्यानप्रज्ञाव
 अष्टकरमदलछंडीनेरे भोगवेशुद्धस्वज्ञाव सं० १०
 अध्यातमरुपीत्रज्योरे गण्योनहीकाजत्रकाज कृपाक
 रीप्रचूदिजीयेरे सौजाग्रलक्ष्मीपदराज सं० ११
 इति ॥ अथ श्रीअभिनंदनजिनस्तवन ॥ गिरु
 आरेगुणतुमतणा एदेशी ॥ त्रिचुवननायकलायको
 अभिनंदनजिनरायोरे बलीहारीतुझनामनी जिणेंमा

(२७०) विजयलक्ष्मीसरीकृत.

रगशुद्धवतायोरे व० १ तेतोआतमनेमनजायोरे व०
नीवृत्तिनयरीयेछाजता राजताअक्षयराजेरे अतिशय
निरमलवररुचि म्हारापरमेश्वरनेदिवाजेरे व० २ स्व
परप्रकाशकदिनमणी सूद्धस्वरूपीअप्रयासीरे सकलदा
नादिकगुणतणी व्यक्ताशक्तीअनासीरे व० ३ सह
जआनंदवीतरागता प्रदेशप्रदेशेअनूपरे सादिअनंत
जांगेकरी पूर्णनयेतसन्नूपरे व० ४ अविस्वादीनी
मित्तपणे सवितुअशक्तिमाहरेरे सत्यहेतूवहूआदरे हो
यन्नचेदप्रसाररेरे व० ५ नववासीजेआतमा तेप्रचुप्रचु
ताअवलंबेरे चेदछेदकरीजिनहोयें पणनहोयेंतेविलंबेरे
व० ६ परमशिवंकरगोपने जेनराचितमांध्यावेरे दिव्य
बहुसुखशास्वता सौजाग्यलक्ष्मीसुरीपावेरे व० ७ इति॥
अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ मोतीडानीदेशी ॥ सुम
तिजिणेसरप्रचुपरमातम तूंपरमागमतूंसूधातम साहे
बावीनतीअवधारो मोहनाप्रभुपारउतारो तुमेज्ञानादि
कगुणनादरीया अनंतअक्षयनिजजावमांजरिया सा०
१ तुमेशब्दादिकगुणनीःसंगी अम्हेस्वप्नेपिणतेहनासं
गी तुमेउत्तमगुणठाणेचढीया अम्हेकोहादिकषायेंनडि
या सा० २ अम्हमतिइंद्रिविषयेराचि तुमेअनुभवरसमां
रह्यामाची अमेमदमातंगनेवशपडिया नवितुमेतेतलमा

विजयलक्ष्मीसूक्तः (२७१)

त्रआनडीया सा० ३ तुमेजगशरणविनितसुजाण तुमे
जगगगनविकासनजाण तुमेअकलंकअविहअकोहि तु
मेजडसंगीनरागिमोहि ४ सा. अत्येद्वियस्याद्वादवागीश
सहजानंतगुणपज्जवईश अलखअगोचरजिनजगदीश
अशरणनाथनायकअमीस सा. ५ तेमाटेतुमचरणेविल
ग्या एकपलकनहिरहिस्युंअलगा सौजाग्यलक्ष्मीसूरी
गुणवाधे जिनसेवेतेजिनसाध्यतासाधे सा. ६ इति ॥
अथ श्रीपद्मप्रज्ञजिनस्तवन ॥ इमधन्नोधणीनेपरचा
वे एदेशी ॥ पद्मप्रभुपदपंकजसेवना विणनावितत्वने
जाणैरे मतअनेकविभ्रममांपाडिओ निजमतमानेप्रमा
णैरे १ प० क्षणीकजावसुगतप्रकाशे श्रृष्टिसंहारनोक
र्तारे इश्वरदेवविभुव्यापकएक नैयायिकअनुसरतारे
२ प० आत्मरूपएकदेहदेहे चीन्नरूपप्रतीभासैरे ज
लजाजनाजिमचंद्रअनेकता युक्तिसांख्यविकाशेरे ३ प०
पुन्येतरजीवादिकजावा धूमाकारीछेसर्भरे जलथलगि
रिपादपसविआतम अद्वैतवादिनोमर्भरे ४ प० नि
त्यअनित्यएकांतिकोइक एमअनेकमतझालेरे पडियोत
त्वअलहतोपेखीजगगुरुतत्वनेआलेरे ५ प. क्षणिकतो
त्रिणकालस्वरूपने जाणेनहिकदापिरे शुजाशुजनोजो
कर्ताइश्वर फलजागतातसूव्यापीरे ६ प० एकआतम

(२७२) विजयलक्ष्मीसूरीकृत.

तोत्रण्यनुवनमां सुखलहेसमकालेरे शुन्येवस्तुद्रष्टि
उलबतां मतामेवंध्यामाहलेरे ७ प० अद्वैतवादिजड
चेतनएकज नित्यअनित्यएकांतरे कृतविनाशअकृता
गमदूषण कोनविदोषअनेकांतरे ८ प० द्रव्यपर्याय
नित्यअनित्यए एकअनेकउपयोगीरे पक्षपातसविदू
रेकरीकहे जगगुरुगुणभोगीरे ९ प० समजावेएपक्ष
अहेते फीरिसंसारतनकामेरे सौजाग्यलक्ष्मीसूरिजि
नकरुणाथी परमानंदपदजामेरे १० प० इति ॥ अथ
श्रीसुपासजिनस्तवना॥ देशी रसीयानी॥ श्रीसुपासजि
णैसरसाहिवो अविंसंवादीजसुपंथ सुगुणनर अहनिशि
सेवेमनपरमोदस्युं जेहस्याद्वादिनीग्रंथ सु. १श्री० माने
नैगमनयवस्तुप्रते सामान्यविशेषउत्तेरुप सु.संग्रहन
यकहेसर्वपदारथे सामान्यएकसरुप सु. २श्री० व्यव
हारप्रवृत्तिविशेषविनानही व्योमकमलपरेअन्य सु०
अतीतअनागतपरकियपरित्यजी रुजुसूत्रअहेवर्तमान
सु० ३श्री. एकारथवाचकसविशब्दते कुंजकलशवस्तु
एक सु० पर्यायजेदधीनीन्नवस्तुकहे समभिरुढएह
एकटेक सु० ४श्री० घटकलशादिकनिजनिजअर्थमां
वर्तेएवंनुतवस्त सु० विशुद्धयथोत्तरपिणएकांतथी न
विलहेस्याद्वाददस्त सु० ५ श्री० जातिअंधनरगजप्र

तिअवयवे गजपणुसकलकहंतसु० दिव्यनयनधीयथा
 रथगजग्रहे तिमतुझशासनकंत सु० ६ श्री० मुक्तविरो
 धीजिनसमयग्रहेयदा सेवकजिमचक्रवर्ति सु० मिथ्या
 कचवरआपदनाशथी होयअनेकांतप्रवृत्ति सु० ७
 श्री० त्रिकालवेदिजिनमतअविलंबतां होयेंअविकल
 मतिमंत सु० सौजाग्यलक्ष्मीसूरीआतमसंपदा प्रगटे
 शक्तिअनंत सु० ८ श्री० इति ॥ अथ श्रीचंद्र
 प्रभुजिनस्तवन ॥ मालाकिहांछेरे एदेशी ॥ चंद्रप्रभु
 जिनत्रिभुवनदिपक जीपकअरिगणनविंदारे आठकर
 मविनुंगुणजसप्रगट्या आतमठाणिसुखकंदारे १ भविक
 जनवंदारे चंद्रप्रभुजिनचंद्र न० ज्ञानावरणीकर्मक्षये
 तुझ केवलज्ञानअंतुरे विश्वरुपविनासनेसमर्थ विशे
 पप्रकारेसंतुरे २ न० दंसणावरणीकर्मउछेदें सामा
 न्यस्वरुपविनासेरे दुविधवेदनीमूलविनाशे अव्यबाध
 सुखथासेरे न० ३ त्रिभुवनजेतामोहपण्डें क्षायिक
 दुगानिशंकरेपंचमकरमजरमनिवारी सादिअनंतस्थि
 तिअंकरे न० ४ विगतनामकरमथीपुनरपि रुपादि
 कनलहंतरे गोत्रकरमदहनथीसिद्धगुण अगुरुलघुउ
 लसंतरे न० ५ दानादिकजसलाब्धिअगाध विघनक
 रमनेविनासेरे इमतुझगुणप्रगट्यासिद्धरुपे एकजआ

(२७४)

विजयलक्ष्मीसूरीकृत.

तमत्रावासैरे न० ६ प्रभुगुणरागेजेदिपंता छंडेतेनव
संयोगरे सौजाग्यलक्ष्मीसूरीगुणरसीकता दिनमणि
समउद्योगरे न० ७ इति ॥ अथ श्रीसुविधि
जिनस्तवन ॥ सुमतिनाथगुणसुमलीजी एदेशी ॥ सुवि
धिजिएंदशुद्धध्यानथीजी सहहणाशुचिजोग तेहथी
नाणचरणगुणाजी विकसैथिरत्रिकजोग गुणवंतासुम
नजन ध्यावोजिनजगदीश १ नमतांनवकंतरमांजी
गिरीशीरोपलपरेंजीय अनानोगेलहुकम्मकरीजी नदे
ग्रंथीनववीय गु० २ क्षीणरशुद्धथतोथकोजी अंतरकर
णपइठ कर्मसुनटअरीजीतीनेंजी विघटेरेमिध्याअनी
ठ गु० ३ उपशमादिसमकितलहेजी तुझसुपसायरेना
थ तवस्तवनाविषेजोग्यताजी होयेतेजीवसनाथगु० ४
अमलअखंडअलिप्तताजी स्वरुपरमणअविनासी वा
सवसुरनरमुनीवरुजी आजीवितसुप्रयासी गु० ५ गुण
स्तवनाप्रतिदिनकरेजी तदपीनपामेरेपार द्रव्यस्तव
नावचनादिकेजी नावथीतन्मयसार गु० ६ साधकासि
द्धताहेतुनेजी अवलंबेरेमतीवंत नदमिटेप्रगटेमहा
जी सौजाग्यलक्ष्मीअनंत गु० ७ इति ॥

अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥ आघाआमपधारोपूज्य
अमघरवेहिरणवेला एदेशी ॥ शीतलजिनविष्णुआतम

सुद्धता सकलद्रव्यथीन्यारी जसगुणग्यानतणेअनुसारे
 सर्वपदार्थप्रचारी धारोवीनतीशीतलदेव नेहनिज
 रेनिहालो १ धर्मअधर्मआकाशसमयवली पुदगल
 चेतनएह पंचअचेतनएकजचेतन जसनहीआदिनछेह
 २ धा० गतिथितिहेतुधर्मअधर्मा जीवपुदगलनेहोवे
 सर्वद्रव्यअवकासनकारण तेहआकासकहावे ३ धा०
 समयादिकतेकालवखाण्यो पूरणगलनस्वभावे क्षीर
 नीरपरेचेतनमलीरहे तेहपुदगलकहावे ४ धा० जी
 वअरुपीकर्मकीओटमें घटाकाशघटमांहे कर्ताओक्ता
 रमतोविभावे ग्रहेउपाधिवडछांहे ५ धा० खटद्रव्यगु
 णपर्यायथीचीन्नता प्रतिप्रदेशेअनंति प्रभुनेप्रतक्षप्र
 माणेप्रगटि आतमगुणविकसंती ६ धा० एहविशुद्ध
 तानेअवलंबे दुखदोहगसविजाजे सौजाग्यलक्ष्मीसूरी
 जिनवरथी देवदुंदुनीरवगाजे ७ धा० इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ ईडरआंवाआंवलीरे
 एदेशी ॥ श्रीश्रेयांसजिनराजजीरे चिदानंदजगवान
 त्रिणकालनाज्ञेयनेरे जाणेअनंतज्ञान १ जीनेसरतुंप्र
 भुजगदाधार तुंहिजगहीतकार जि० धर्मादिकसहु
 द्रव्यनारे गुणपरचायसमेत नित्यानित्यतसुधर्मने
 रे ज्ञायकतानिजखेत जि० १ छतिपर्यायजेज्ञाननारे

(२७६) विजयलक्ष्मीसूरीकृतः

तेतो न विवदलाय वर्तनानवज्ञेयनीरे समयमांतेसवि
जणाय जि० २ सामान्यस्वप्नावजेज्ञेयनीरे सामान्ये
सविदेखंत समयांतरदर्शनमुख्यतारे प्रगटेताहरेअनंत
त जि० ३ गुणपरचायनिजधर्ममेरे सदाप्रवर्तनतंत
परपरिरमणतेनविग्रहोरे तेमाटेचरणअनंत जि० ज्ञाना
दिकनिजगुणतणीरे जोगशक्तिअसमास तेहजवीर्यअ
नंततारे अनंतचउक्कइमखास जि० ५ माहरीपणए
हवीअनंततारे परविज्ञावेसंसक्त आवीर्जावपणेहोवेरे
श्रीश्रेयांसप्रसक्त जि० ६ प्रभुगुणरंगीचेतनारे परमो
दयसुनिदान सौजाग्यलक्ष्मीसूरीसंपजेरे सुयशसमा
धिअसमान जि० ७ इति ॥ अथ श्रीवासुपू
ज्यजिनस्तवन ॥ वन्योरेकुंअरजीनोसेहरो एदेशी ॥
श्रीवासुपूज्यतनुदेखीने सुरनरहरषेस्वांतहो जिणंद नि
जविग्रहकतिकरी अधरकृतरविकांतहो मुण्णिंद तुजद
रिसणमुजबालहुं सामान्यजनथीअधिकहोवे मंडलक्षि
तिपतिरुपहो जि० तेहथीहलधरहरीतनुं चक्ररुपअ
नूपहो मु० २ तु० तेहथीभुवनपतिव्यंतरा जोईशचढते
वानहो जि० अनुक्रमेकल्पग्रैवेयकसुरा अनुत्तररुपनि
धानहो मु० ३ तु० अधिकातेहथीमुनिवरा चऊदपूरव
धरवृद्धिहो जि० आहरकतनुछावितेहथी गणपतिरुपस

विजयलक्ष्मीसूरीकृत. (२७७)

मृद्धिहो मु० ४ तु० सहुथीलक्षणलक्षितं जीत्यांसविउप
 मानहो जि० रूपअनंतगुणदेहमां शांतरुचीअसमानहो
 मु० ५ तु० तिलकसमानत्रिजोवनविपे० निप
 जाव्योगुणगेहहो जि० जंगमांपुदगलजेतला जीणे
 नहीतुअसमदेहहो मु० ६ तु० पादपादपसुरसारि
 खा शशीमुखअतिसुखहेतुहो जि० करमजरमहरक
 रकह्या लोचननवोदधिसेतुहो मु० ७ तु० इमप्रचुरूपनिज
 स्वरूपने प्रापतिजणीसूतदानहो जि० अवलंबिलक्ष्मी
 सूरीअनुजवे अनुत्तरसुखअविगानहो मु० ८ तु० इति ॥
 अथ श्रीविमलजिनस्तवन ॥ अरणीकमुनिवरचाल्या
 गोचरी एदेशी ॥ विमलजिणेसरनिजकारजकरो छां
 डीतेसोपाधिजावोजी एकपणेसविगुणमांमलिरह्यो प
 रमानंदस्वजावोजी वि. १ सुमनसकांतारेविभ्रमरोचिता
 जसूमानसनक्षोत्रावोजी मंदारवायेरेसत्रिसूरजीतियो
 तुंतोजीतेंद्रीस्वजावोजी वि. २ त्रिजोवनबंधुरेअतिशयपू
 रणो दोपअत्राविगततांतीजी दिर्णागजअरिहामिटेन
 वइहा अतुलदायकमुझशांतिरे वि० ३ निःप्रतिबंध
 अबंधकमेस्तव्यो अपवर्गपदवीनाभूपोजी निकटकरेज
 ननेमनसुंदरुं देखेतेसहजस्वरूपोजी वि० ४ विमलजिणंद
 थरेध्रुवपदरागीया निरमलकरेनिजशक्तिजि सौभाग्य

(२७८) विजयलक्ष्मीसूरीकृत.

लक्ष्मीसूरीत्रवद्यन्नेदीलहे पूर्णानंदपदव्यक्तिजवि. ५ इ
ति ॥ अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ देशनादेशतारे एदेशी ॥
अनंतजिनसहजविलासी प्रभुलोकालोकप्रकाशी केव
लजिननाणविकासी १ जिणंदरायदेशनादेशतारे भव
जलनिधिपारउतारे जि० आंकणी गुणमणीखाणी
सत्यवंती नयग्रामधारकधनवंती नविचितपंकजविल
संति जि० २ त्रिभुवनपतित्रिगडसोहे त्रिभुवनजननां
मनमोहे तरणीपरेजनपडिवोहे जि० ३ नविमतएकां
तन्नणंती जेहच्यारनिक्षेपावंती खटनाषामांप्रणमंती
जि० ४ उपजेव्ययथिरत्रिकरुप सर्वजावमांवर्तनस्व
रुप तेकेहेवावचनअनूप जि० ५ पणतीसगुणगुणवं
ती समकालेसंसयहरंति मुनिशुभचेतनाविकसंती जि०
६ केवलकासारथीनिकशी निश्चयव्यवहारप्रसंसी
मिथ्याकलिमलविध्वंसि जि० ७ सुणतांजिनवाणीशि
वांछा खटमासनज्जोनइछा दुरेनिगमेन्नवविछा जि०
८ सविदोषहरणजिनवाणी सौत्राग्यलक्ष्मीसूरीजा
णी एतोसमकितसुखनीनिसाणी जि० ९ इति ॥

अथ श्रीधरमनाथाजिनस्तवन ॥ जीहोजाणुंअवधिप्र
युंज्य एदेशी जीहोयर्मतीर्थकरजगगुरु लालानिर्जित

मोहनरेंद जीहोघातकिरमउछेदिने लालकेवलप्रगटयुं

विजयलक्ष्मीसूक्त. (२७९)

अमंद जिणेशरधरमपरमकहेधीर जी० १ जीहोशेष
 ज्ञानछदमस्थनां लालाअंतरजावेतेहोय जीहोजिमअं
 शुमालिनीकांतिमां लालाउडूगणलयलिनजोयजि.२
 जीहोज्ञानसमेसविसूरतिहां लालात्रिगडुंरचेमनोहार
 जीहोपूरवान्निमुखेप्रचुस्थितिकरे लालाजासुरआस
 नेसार जि० ३ जीहोशेषत्रिदिशित्रिदशकरे लालात
 दनुरुपप्रतिविंब जीहोनिरखीहरखेसुरनरा लालापा
 मीजिमापिकअं व जि० ४ जीहोसंयतकल्पनारीअजा
 लालाथितिअगनीकोणेकरंत जीहोजोइशभवनव्यंत
 रसूरी लालाथितिनैरतोविरचंत जि० ५ जीहोएसूरत्रि
 कजिनवंदीने लालावायुंदिसेसोहंत जीहोकपिंदनरप
 तिकामनी लालाईशानकुणेविलसंत जि० ६ जीहो
 तेउपगारीजिनधर्मने लालाकहेपडिबोहेरेजीव जीहोहिं
 सादिकदूषणविना लालादुविधप्रकारेअतीव जि० ७
 जीहोएकांतवादीमतसवे लालाविहचेंधर्मप्रकार जी
 होपिणमौनिंद्रदरशनविनुं लालाजाणेनधर्मउदार जी०
 ८ जीहोदुरगतिपडतांजीवने लालाधारककहोरेधर्म
 जीहोयोगवंचकक्रियाकरी लालाचउगइसाधेअधर्म
 जी० ९ जीहोआतमगुणसविउलस्यां लालापरग्राहकक
 रीदूर जीहोनित्यानंदेविलसतां लालाधर्मजिणंदवड

(२००)

विजयलक्ष्मीसूरीकृत.

नूर जि० १० जीहोन्नावधरमदायकविभू लालानिर
धारीथिरबुद्ध जीहोसौनाग्यलक्ष्मीसूरीआदरे लाला
प्रगटेधर्मविशुद्ध जि० ११ इति ॥

अथ श्रीशांतिनाथजिनस्तवन ॥ जीरेजी एदेशी ॥ जी
रेश्रीशांतिनिरुपमचक्रि सविजनपदप्रभुसदगुणी
जीरेजी जीरेविगतविकारकिरतार अजरामरनिर्गुणगु
णी जीरेजी १ जीरेब्रह्मविधातामहेस चेतनाअचलसु
तापति जी० जीरेशब्दथीसञ्जुजनमांह गुणथीजैनवे
दिकृति जी० २ जीरेहरीहरशक्रनागेश तेहनीजेता
रतिपतिसुण्यो जी० जीरेअचिंत्यबलेकरीनाथ क्षणमां
तेमदणदहनमुण्यो जी० ३ जीरेसदाशिवविधिविश्नु
जिश्नुपुरुषोत्तमस्वयंप्रभु जी० जीरेदमीक्ष्मीनिरदंज
अंतरजामीनामीविष्नु जी० ४ जीरेअनेककल्पनाजाल
वर्जितध्येयअविनयस्वरूप जी० जीरेसिद्धबुधनिलैप
अलखअजोगीविश्वंजरु जी० ५ जीरेअगमअरुजम
हागोप सनातनअगुरुलघु जी० जीरेतीरथाधिपजगवा
न पामीतुरीयदशानधू जी० ६ जीरेमाधववरुणबीडोल
नीलकंठसुरगुरुगुणी जी० जीरेत्रिविधजोगेप्रणमंत ते
हजधामतुंजगधणी जी० ७ जीरेनास्तीकसहुगतसां

स्य योगाचारवैशिका जी० जीरेएकांतिकरीतेह

विजयलक्ष्मीसूरीकृतः (२८१)

तुजकलेनानविकरीशक्या जी० ८ जीरेइत्यादिकशु
 चनामः यथारथप्रगट्यासदा जी० जीरेतसुध्यानेवि
 केसंत सौभाग्यलक्ष्मीसूरीसंपदा जी० ९ इति ॥
 अथ श्रीकुंथुनाथजिनस्तवं ॥ शांतिजिन एकमुजवीन
 ती एदेशी ॥ कुंथुजिन आगमवयणथी जाणीयेहेतुस्व
 रूपरे स्याद्वादेरचनयिहठविना सराहेजेज्ञानीअनूपरे १
 माहरीओलगचितधारियेआ कालस्वजावभाविमती क
 र्माद्यमएहपंचरे समवायेसमाकितगुणलेहे मिथ्याएकांत
 परपंचरे २मा समयवादीकहेजगंतमां कालकृतसकल
 विज्ञूतिरे खटरुतुजिनचक्रीहरीवला अंगगर्जादिप्रसू
 तीरे ३मा० स्वजाववादीवदेवस्तुमां अनेकपरिणम
 नस्वजावरे तंतुगणपटपणोसंचवे पिंडघटलकुटथीनाव
 रे ४मा० भाविकहेवचनइणिपरे किजियेकोटीउपाय
 रे तदपिप्रमाणनियतिहोवे सुनुमचरीतथीमनायरे ५
 मा० कालस्वजावनियतविना कर्महेतुसत्यरूपरे
 सुरनरकुंजरादिकगति दायककर्मएकनुपरे ६मा०
 कहेउद्यमप्रतिवादीने उद्यमाधिनसविकामरेनविहोयेंत्
 पतिअन्नदेखीने एकप्रयासगुणधामरे ७मा० पंचनय
 निजमतथापता लहीतुजपदतरुछायरे मिथ्यामतिदूरे
 करीधारीये मनविपेपंचसमवायरे ८मा० नियतवसे

(२८८)

ज्ञाणविजयजीकृत.

नवरससुविलासी मा० ३ आ० माहामाहणमहासा
रथीअवितथ अपनांविरुदसंभालो बाह्यअभ्यंतरअ
रीगणजोरो व्यशनविघनभयटालो मा० ४ आ० वा
दीतमहरतरणीसरिखा अनेकंविरुदनाधारी जीत्याप्र
तिवादीनिजमतथी सकलज्ञायकयशकारी मा० ५ आ०
यज्ञकारकचउवेदनाधारकजीवादिसत्तानधारे तेतुजमु
खदिनकरनिरखणथी मिथ्यातिमिरपरजाले मा० ६ आ०
ईलीकाजमरीन्यायेजिनेसर आपसमानतैकीधा इमअ
नेकयशत्रिसलानंदन त्रिभुवनमांहेप्रासिद्धा मा० ७ आ०
मुझमनगिरिकंदरमांवासिअो वीरपरमजिनसिंह हवे
कुमतमातंगनागणथी त्रिविधयोगेमिटिविह मा० ८
आ० अतिमनरागेशुचउपयोगे गातांजिनजगदीश
सौजाग्यसूरीशिष्यलक्ष्मीसूरीलहे प्रतिदीनसयलज
गीस मा० ९ इति श्री सौजाग्यलक्ष्मीसूरी कृत चो
वीशी संपूर्ण

अथ श्रीज्ञाणविजयजी कृत चोवीशी

अथ श्रीरीषज्जिनस्तवन ॥ मोरास्वामिहोश्रीप्रथम

जिणंदके रीषज्जिनेश्वरसांजलो मुझमननीहोजेहुंक

हुंवातके छोडिमननोआंमलो १ मो० गुणगिरुआहो

जाणविजयजीकृत. (२८९)

अवसरलहीआजकेतुझचरणेआव्योवहीसेवकनेहोक
 रुणानिलहेरकेजुआजोमनमांडमही २ मो० तोहोवे
 होअंगोअंगआल्हादकेनकहीजाएतेवातडीदयासिंधू
 होसेवकनेसाथकेअविहडराखोप्रीतडी ३ मो० हवे
 अंतरहोनविधरवोचितकेनिजसेवककरीलेखवो सेवा
 चरणनीहोदेज्योवलीमुझकेनेहजरनिजरेपेखज्यो ४
 मो० घणुंतुमनेहोस्युंकहुंजगवानकेदुखदोहगसहुचूर
 ज्योप्रेमविबुधनोहोआणविजयनास्वामिकेमनवंछित
 तुमेपूरज्यो ५ मो० इति ॥ अथ श्रीअजिताजि
 नस्तवन ॥ देशी कंसारानि ॥ अजिताजिनओलग
 माहरी एतोसुंदरसुरतिताहरी हुंतोजोवानेघणुंउमह्यो
 पूरवपून्येतुझनेमेंलह्यो १ अ० म्हारीआग्यदशाजा
 गीहवे हवेमाहरुआग्यमवे गंगाजलनाह्योहुंसही मुझ
 समपुन्यवंतवीजोकोनही २ अ० मुखमाग्यापासामु
 झढल्या इछंतासजनआविमल्या एतोसुरत्तरुफलीओ
 आंगणे दूधेमेहवुठामुझवारणे ३ अ० हवेसहुथकीअ
 धिकोहुंथयो जवमेंतुमसमठाकुरलह्योसेवकनेनिरवह
 ज्योतुम्हे एतलोवीनंतीकरुंछुंअम्हे ४ अ० सकलसूरी
 श्वरमांसोअताश्रीविजयप्रभुसुरीदिपतापंडितोतमप्रम
 विजयतणो तुमदरिसणे आणनेसुखधणो ५ इति ॥

(२९०)

जाणविजयजीकृत.

अथ श्रीसंज्ञवजिनस्तवन ॥ आसाणरायोगी एदेशी ॥
त्रीजासंज्ञवजिननीसुखदायी पूरवपूण्येसेवापायीरे सा
हिवसोजागी क्षणउत्तमनेपरसंगे लहतांसुखहोएअंगे
रे सा० १ तोतुम्हजेहवानीजेसेवा तेहनंस्युंकहवुंदेवा
रे सा० त्रिभुवनतारकतुझनेमेंदीठो अमृतथीलाग्यो
मीठारे सा० २ तुमचरणेमुजमनडुंवांध्युं वलीजाक्तिगुणे
करीसांध्युरेसा. हरिहरादिस्युंचितनराखुं एकतुम्हसेवा
मृतचाखुरे सा. ३ हेजधरीनेसेवकसाहमुं जुओएवगसी
सपामुरे सा. ओलगडीएसाहिवम्हारी चित्तधरज्योज
गहितकारिरे सा. ४ घणुं२तुमनेस्युंकहिए सेवकनेसंगे
वाहिएरे सा. पंडितप्रेमविजयसुपसाया जाणविजयनमे
तुम्हपायारे सा. ५ इति ॥ अथश्रीअजिनंदनजिनस्तव
न॥ साहिवामाहरामोहीरेमटकतीचालरेजावानहीदीउ
रे एदेशी ॥ साहिवाम्हाराअजिनंदनजिनरायरे साहि
वसांजलारे सा० सुरसेवीततुमपायरे सा० सा० सेव
कमनडानीवातरे सा० सा० कहुंतेसुणोअवदातरे सा०
१ सा० मोटाजनस्युंजेप्रीतरे सा० सा० करवीतेखो
ठीरीतरे सा० सा० अममनमांतुंएकरे सा० सा० अ
मसमतुमनेअनेकरे सा० २ सा० नीरागीस्युंनेहरे
सा० सा० छटकीदेवेछेहरे सा० सा० सीधरवीप्रीति

तेसाथरे सा०सा० तेनिफलगगनेवाथरे सा०३सा०प
 णमोटानीजेसेवरे सा०सा० निफलनहोवेकदैवरे सा०
 सा० मुझउपरजगवानरे सा० सा० तुम्हेहज्योमहि
 रवानरे सा० ४ सा० तपगछमांशिरताजरे सा०सा०
 श्रीविजयप्रजसुरीराजरे सा० सा० प्रेमविवूधपसाय
 रे सा० सा० ज्ञानमेतुमपायरे सा० ५ सा० इति॥
 अथ श्रीसुमतीजिनस्तवन ॥ माहरुंमनपात्युरेमाधव
 देखतारे एदेशी ॥ धन२दीवशआजुनोमाहरारे धन
 २वलीघडीएह धन२समयवलीजेताहरुंरे दरिशाण
 दिठुंनयणेह १ माहरुंमनमान्युरेसुमतीजिणंदस्युरे आं
 कणी सुंदरमुरतिदिठिमेंताहरारे केतलेदीवसेआज
 नयनपावनथयांप्रभुजीमाहरारे पापतिमीरगयांभाज
 २ मा० खासोखजमतगारतेजाणीनेरे करुणाधरोमन
 मांहसेवकउपरहितवूधआणिनेरे धरीवलीहृदयउमाह
 ३मा० निर्मलसेवामृतमुझआपीएरे जिमबूझेचवनारेता
 प हवेदरिसणनोविरहतेमतकरारे वलीमेटज्योमननोसं
 ताप४मा० घणुं२स्युंकहिएतुमनेरे छोटुमेचतुरसुजाण
 मुझमनवांछितपूरज्योइमभणारे पंडितप्रेमनोज्ञान ५मा.
 इति ॥ अथ श्रीपद्मप्रजजिनस्तवन ॥ लाछलदेमातम

लहार एदेशी ॥ श्रीपद्मप्रजस्वामि अरजसुणोअचिरामि

(२९२) ज्ञानविजयजीकृत.

आजहोशिरनामिरे बहुविधपरेवीनबुंजी १ तुम्हेछो
जगदाधार मुझसेवकनेतार आजहोधारीरे मुझस्वा
मिजीनिजचित्तमांजी २ जगतिवछलजगवान मुझपेह
ज्योमहिरवान आजहोमुझउपररे विमणीस्नेहजता
धरीजी ३ तुजसममाहरेस्वामि हवेनरहिकांइखामि
आजहोकामितरे माहरांहवेपूरणथायस्येजी ४ प्रेम
विविधसुपसाय ज्ञानमेतुमपाय आजहोदेज्योरे ज
वरतुमपदसेवनाजी ५ इति ॥ अथ श्रीसुपास

जिनस्तवन थारामाराकरहला एदेशी ॥ पासेसुपास
जीराखीए सेवकचित्तमांज्याणी सलुणा जिमहुंअंतर
चित्तनी वातकहुंगुणखाणी स० १ पा० करुणाविला
सीतुम्हेअछो करुणागारकृपाल स० करुणासरसस
रोवरे प्रभुजीतुंछेमराल स० २ पा० अपराधीजोसे
वकघणुं तोपणनविछंडाय स० जिमविद्युतअग्निस
मी नविछंडेमेघराय स० ३ पा० तेमाटेछोडंतांथकां
सोजस्योकिममहाराय स० बांध्यग्रह्यानीलाजछे घणुं
स्युंतुमनेकहाय स० ४ पा० तुंछंडेपणनवीछंडुं हुंतुज
नेमहाराय स० तुमचरणेज्ञानआवहो प्रेमविविधसुप
साय स० ५ पा० इति ॥ अथ श्रीचंद्रप्रज्जिनस्तव

न ॥ ज्ञानरीयानीदेशी श्रीचंद्रप्रज्जमाहराजी तुम्हेछो

दिनदयाल महिरधरीमुझउपरेजी वीनतीमानोकृपा
 ल १ ससनेहाप्रभुस्युंलाग्योअविहडनेह जिमचातुक
 मनमेह आंकणी सजनस्युंजेनेहलोजी करतांमणो
 रंग दूर्जनजनस्युंप्रीतडीजी क्षण२मांमनचंग २ स०
 उत्तमजनस्युंरुसणांजी तेहपणजलांनिरधार मूरखज
 नस्युंगोठडीजी करतांरसनलिगार ३ स० मनमांइम
 जाणीकरीजी आव्योतुम्हारेपास. निरवहिएहवेमुझने
 जी जिमपोचेमननाआस ४ स० बहुलपणुंस्युंदाखीए
 जी तुमेछोबुद्धिनिधान प्रेमविवुधनाजाणस्युंजि राखो
 प्रीतप्रधान ५ स० इति ॥ अथ श्रीसुविधिजिनस्तव
 न अवकोचोमासोमाकापुज्यजीथेरहोने एदेशी ॥ सु
 विधिजिणंदमानेदरीशणधोने दिलजरदिलथीमारैसा
 मुथेजुओने हसिथाराचित्तनीवातमानेथेकहोने प्रीत
 नरिरीतमांस्युंथेवहोने आंकणी, अंतरचित्तनीवारता
 रे प्रचुकहुतेचित्तधरोने प्रीतप्रतीतजिमउपजेरे तिम
 अविहडप्रीतकरोने २ सु० सुंदरतुममुखमटकडेरै प्रभु
 लोजाव्यातेअमने मुजमनमलवाअतीघणुरे चाहेक्षण
 २मांहेतुमने ३ सु० प्री० ललचावस्योदीनकेतलारे इ
 ममुझनेदिलासादेइने हानामुखथीजाखीएरे वेसीस्युं
 रह्यामोनलेइने ४ सु० प्री० हसितवदनेबोला

वीनेरे आजमुजनेराजीकरणे वंछीतदेइअमने तु
म्हेजगमांसुजसवरोने पंडितप्रेमनाज्ञाणनेरे तुम्हे
प्रसनहज्योहेजधरने ५ सु० प्र० इति ॥

अथ श्रीशीतलजिनस्तवन मायामोसनकीजे एदेशी ॥
एतोश्रीशीतलजिनमेरा मेंतोचरणग्रह्याप्रचुतेरा अत्र
दूरकरोचवफेराहोलाल १ प्रभुमाहरेमनमान्या आंक
णी. एतोशीतलमुंद्राएहनी वलीशीतलवाणीजेहनी ए
हसमसुरतिनहीकेहनीहोलाल २ प्र० तुमवाणीघणि२
मीष्ट साकरद्राखथीएविसीष्ट एतोलागेछेमुजइष्टहोला
ल ३ प्र० तुमशीतलनामप्रधान मुजतनमयकरीएकता
न तुमनामेकरुखुरवानहोलाल ४ प्र० नीजचरणनी
सेवादेज्यो निजवालकपरेमुनेगणज्यो बांहग्रहिनेतुम्हे
नीरवहज्योहोलाल ५ प्र० एतोप्रेमविवूधसुपसाय
ज्ञाणविजयनमेतुमपाय तुमदरिसणेआणंदथायहोला
ल ६ प्र० इति ॥ अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ घणुं
प्यारो२प्राणथीतुंप्रभुजी एदेशी ॥ श्रीश्रेयांसजी२वीन
तीअमतणिजी मानोतुमे२प्राणआधारहो अममननी
२वातअछेघणीजी एकवचनेस्ये२दाखुंप्रकारहो १ श्री०
मोटाने२थोडुंजदाखीएजी थोडामांहि२घणोरेसवादहो
मुझमनमां२चिंताएमोटकीजी उपजंते२हृदयआल्हाद

हो २ श्री० हवेजाण्युं रचितमांविचारतांजी स्वामीछो
तुम्हे २ मननाजाणहो तेहमाटे २ थोडेवीनवुंजी घणुतुम्ह
ने २ केहवुं अप्रमाणहो ३ श्री० सेवकने २ कृपाकरीदी
जीएजी अतिअदभूत २ वंछितदानहो तुम्हपासे २ च्यार
अनंतछेजी असतेद्यो २ जगवानहो ४ श्री० ओलगए २
चितमांधारज्योजी मुझपेंतुम्हे २ हज्योमहिरवानहो पं
डितातम २ प्रेमविजयतणोजी ज्ञानविजयते २ धरेतुम
ध्यानहो ५ श्री० इति ॥ अथ श्रीवासुपूज्यांजि
नस्तवन ॥ मोतीडानीदिशी ॥ श्रीवासुपूज्यजीसाहिव
माहरा प्रभुलागोछोतुम्हेप्रेमपीयारा साहिवाजिनरा
याहमारा मोहना जि० तनमनचित्तवलुध्युंतुम्हस्युं ह
वेअंतरराखोकहोकिमअमस्युं १ सा० दासन्तीआस्या
पूरीएप्यारा जोतुम्हेनामधरावोछोजगदाधारा सा० अ
कललीलातुमपासेजेस्वामी हितआणिदिजीएअंतरजा
मी २ सा० एतलीविमासणसीछेतुझने एतोवंछितदेता
स्वामीमुझने सा० खोटखजानेनहीपडेताहरे पणअख
यखजानोहोस्येमाहरे ३ सा० जलोभुंडोपणपोतानो
जाणि वलीकरुणानीलहरतेमनमांआणी सा० अम्हे
मनोगंतवंछितदेज्यो प्रचूहेजधरीनेसाहमूंजोज्यो ४
सा० वारंवारकहुस्युंतुमने सेवाफलदेज्योस्वामीहमने

(२९६)

नाणविजयजीकृत.

सा० प्रेमविबुधनाभाएनीप्रनुजी तुमनामेदोलतचढती
विनुजी ५ सा० इति अथ श्रीविमलजिनस्तव
न ॥ वीछीआनीदेशी ॥ हारेलालाविमलजिनेश्वरसेवी
ए एतोविमलअछेतसनामरेलाला विमलवाणीगुणजेह
नाजसविमलअछेपरिणामरेलाला वि१ एतोविमलकम
लदलपांखडीसमनयनयूगलछेनासरेलाला मुखपंकज
घणुंविमलछे वलिविमलछेमुंद्राजासरेलाला २ वि० द
शणचारित्रविमलछे एतोविमलछेकेवलज्ञानरेलाला
स्तुतिस्तवनाजसविमलछे वलीविमलछेशुद्ध्यानरे
लाला ३ वि० सत्तरजेदेसंजमकह्यो तेहजपणविमलछे
तासरेलाला यशकिर्तिघणुंवलिलछे गणुविमलजेगुण
नोआवासरेलाला ४ वि० प्रेमविबुधसुपसायथी नाण
विजयनेजयजयकाररेलाला नितनितचरणकमलप्रते
प्रणोमएप्रभुनाउदाररेलाला ५ वि० इति ॥

अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ मालिकेरेबागमें एदेशी ॥
सुंदरमुरतितुमतणी प्यारीलागेजिणंदालोअहोप्यारी०
क्षणएकसंगनपरिहरुं तुमदीठाआणंदालोअहोतुम० १
अहोप्रनुमोहनगारालो आंकणी कौमुदचंद्रसमानछे
प्रभुजीतुम्हमुखडुंलो अ० लगनजागीजोवातणी एह
मानहीकुडुलो अ० २ विकसीतपद्मसमानछे साहिव

तुमनयणांलो अ० साकरद्राखथकीघणुं मठांतुमवय
 णांलो अ० ३ आणंदपास्योदेखीने अनंतजिनतुमनेरे
 लो अ० हृदयेउल्लटआणीने वंछीतदेज्योअमनेरेलो
 अ० ४ श्रीविजयप्रज्ञसूरिगच्छधणी तपगच्छमांदिणं
 दालो अ० पंडितप्रेमनांजाणने तुमनामेआणंदालो
 अ० ५ इति ॥ अथ श्रीधर्मजिनस्तवन ॥ छांजी२
 छांजीवंदाछांजी एदेशी ल्याने३ मुजरोल्याने धर्मजिणे
 श्वरप्यारा मुजरोल्याने जीवनप्राणआधारा मु० आंक
 णी तुमगुणरंगेअमेप्रचुराच्या माच्यानामसुणीने अ
 मेदरिसणनाअरथीतुमकने आव्यादायकजाणीने मु०
 १ अजरनकीजेघडीएकनीहवे दीजेदरिसणअमने द
 रिसणदेइपरसनकीजे एशोआछेतुमने मु० २ मुझघ
 टप्रगटयोआणंदअतहु नवलीमूरतपेखी विकसीतकम
 लपरेमुझाहियडुं थाएछेतुममुखदेखी मु० ३ मुझअक्ति
 एतुम्हेआकर्ष्या आव्याछोमुझघटमां न्युनतीनरहि
 हवेकसीमाहरे मुझसमकोनहीजगमां मु० ४ सुत्रता
 नंदनसुरनरसेवित पूरणपून्येपायो पंडितप्रेमविजय
 सुपसाये जाणविजयमनजायो मु० ५ इति ॥

अथ श्रीशांतिजिनस्तवन ॥ दीठीहोप्रचुदीठीजगगुरु

तुझ एदेशी ॥ साहिवहोतुम्हेसाहिवशांतिजिणंद सां

(२९८)

जाणविजयजीकृत.

नलोहोप्रभूसांनलोवीनतीमाहरीजी मनहुंहोप्रभूमन
डुंरह्युंलपटाय सूरतिहोप्रभूसूरतिदेखीताहरीजी १
आस्याहोप्रभूआस्यामेरुसमान मनमांहोप्रभूमनमां
हुतिमुझअतिघणीजी पूरणहोप्रभूपूरणथइअमआस
मुरतिहोप्रभूमुरतिदीठेतुमतणीजी २ सेवकहोप्रभूसेवक
जाणीस्वामि मुझस्युंहोप्रभूमूझस्युंअंतरनवीराखीएजी
विलगाहोप्रभूविलगाचरणेजेह तेहनेहोप्रभूतेहनेछेहन
दाखीएजी ३ उत्तमहोप्रभूउत्तमजनस्युंप्रीतकरवीहोप्रभू
करवीनिश्चेतेखरीजी मूरखहोप्रभूमूरखस्युंजखवादजा
णीहोइमजाणीतुमस्युंमैकरीजी ४ निरवहविहोप्रभूनि
रवहवीतुमहाथ मोटानेहोप्रभूमोटानेजाखीएस्युंघणुंजी
पांडितहोप्रभूपंडितप्रेमनोजाण चाहेहोनितुचाहेदरि
सणतुमतणुंजी ५ इति ॥ अथ श्रीकुंथुजिनस्तवन ॥
घरआवोजीआंबोमोरीआो एदेशी ॥ श्रीकुंथुजिनराज
जी विनवीकहुमननीवात महीरधरीसेवकजाणी सुणो
वीनतीतोआवेधात १ श्री० अवसरपामीकहोप्रभू कु
णअहिलेतेगमीजाय तिमअवसरपामीतुमप्रते हुं
विनवुछुंजिनराय २ श्री० सज्जनएकांतेमल्या कहेवा
एमननीवात पणमुझमननीजेवारता तेतोजाणोछोसहु
अवदात ३ श्री० पणएकवचनेजेकहु तेतोमानोथइसु

प्रसन्न श्रुतलोश्रमृतपाइए जिमहरखितहोयमुझमन्न
 ४ श्री० जवजवतुमपदसेवना हवेदेज्योश्रीजिनराय
 प्रेमविवूधनाज्ञाने तुमदरिसणथीसुखथाय ५ श्री०
 इति ॥ अथ श्रीअरजिनस्तवन् ॥ मानादरजणनी
 एदेशी ॥ श्रीअरजिनस्युंप्रीतडीरे मेंकीधिएकतारः प्रीत
 करीकपटेरमेतेहमांस्वादनहीलिगाररे १ तुमसुनेहलारे
 दिन२वधतीनेहवृति अजेहरेदालिद्र सोजाजहेतेअति
 घणीनयपामेतेहथीक्षुद्ररे २ तु० उत्तमजनस्युंप्रीतडीरे
 वंछीतदायकहोय इमजाणीतुमस्युंप्रभु मेंप्रीतकरीछेजो
 यरे ३ तु० हवेसेवकजाणीआपणारे थांओतुमेसुप्रसन्न
 हुपणजाणुंतोखरी मेंप्रीतकरीतेघन्नरे ४ तु० महीरधे
 रीमुझउपररे दरिसणद्योएकवार जिमप्रेमविवूधनाज्ञा
 णनी थायेइछापूरणनिरधाररे ५ तु० इति ॥

अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन् ॥ रामचंद्रकेवागचांपोमोहो
 रीरह्योरी एदेशी ॥ मल्लिजिणंदजीवात कचुंतुमसुणो
 नमेरीरी जबदरिसणदेखोतोय तवमेरीगरजसरीरी १
 अबमुझथीडरेसोय अष्टकरमवयरीरी सुन्नमतिजागी
 यमोय दुरमतिमोसेडरीरी २ अबप्रगट्योमुझचित्त
 अनुजवसुरसमोरी तवलह्योदेवकुदेव दुररंध्यानथ
 योरी ३ लगनलगीतोहसाथ अबकचुंसंगतजुरी

(३००) चाणविजयजीकृत.

तुमचरणेलपटाय रहीतोनामज्जुरी ४ परस
नहोज्योमोय एहहुंअरजकरुरी प्रेमविवूधनाण
एम कहेतुमत्रानधरुरी ५ इति ॥ अथ श्री
मुनिसुव्रतजिनस्तवन ॥ हारिमाराधर्मजिणंदस्युं
लागीपूरणप्रीतजो एदेशी ॥ हारिमुझप्राणाधारतुंमु
निसुव्रतजिनरायजो मलिअोहेजेहलीअोप्रीतप्रसंग
थीरेलो हारिमुझसुंदरलागीमायाताहरीजोरजो अलगो
रेनरहुंहुंप्रचूतुझसंगथीरेलो १ हारिमानूअमीअकचोलां
हेजालांतुमनेनजो मनोहररेहसतिवदनप्रचुताहरुरेलो
हारिकोइनीनहिंतीनभुवनमांतुमसममुर्तिजो एहवीसूर
तिदेखीउल्लस्युंमनमाहरुरेलो २ हारिप्रचुअंतरपडदोखो
लीकीजेवातजो हेजहीअथीअणीमुझनेबोलावीएरेलो
हारिप्रभुनयनसलूणोसनमुखजोइएकवारजो सेवकना
चित्तमांहिंअणंदउपजावीएरेलो ३ हारिप्रचुकरुणासा
गरदीनदयालकृपालजो महिरधरीमुझउपरप्रतिधरी
हीथेरेलो हारिप्रभुनिजबालकपरेमुझलेखवज्योजिणंद
जो प्रतिसुरंगीअविहडमुझस्युंनिवाहिएरेलो ४ हारि
प्रभुवांहग्रह्यानीलाजछेतुझनेस्वामीजो चरणसेवामुझ
नेदेजोहेजेहसरिलो हारिप्रचुपंडितप्रेमविजयनोकवि
एमनाणजो पनणैरेजिनमुरत्तिमुजदीलमांवसीरेलो ५

इति ॥ अथ श्रीनिमिजिनस्तवन ॥ अरणीकमु
 निवरचाल्यागोचरी एदेशी ॥ श्रीनिमिनाथजीसाहिब
 सांचलो तुमचरणांबुझलिनोजी मुजमनमधुकरअंति
 हेरुअडों तुमगुणवासेनीनोजी १ श्री० हरिहरादि
 कथतूरउवेखीने अबूजप्रत्ययआणीजी दुरमतिवासेतेह
 सरचाअछे बहुइमअंतरजाणीजी २ श्री० तेदेवछंडीतु
 झनेआश्रयो करवांचजनतुमारोजी स्नेहदिसानिजदि
 लमांआदरी प्रजुजीमुझनेतारोजी ३ श्री० ज्वरतुम
 पदकमलनसेवना देज्योश्रीजिनराज्योजी एमुझवी
 नतिचित्तमांधारज्यो गीरुआगरीवनवाजोजी ४
 श्री० तपगछनंदनअमरद्रुमसमो श्रीविजयप्रजसूरी
 रायजी प्रेमविवूधपयसेवकइणपरे जाणनमेतुमपाय
 जी ५ श्री० इति ॥ अथ श्रीनेमनाथजिनस्तवन ॥
 जटणीदेशी ॥ नयनसलुणाहोवालहा ससनेहाप्रजुने
 म तोरणआवीनेतुम्हे पाछावलीगयाकेम १ न० आ
 सोवादलनीपरे एवडोडंबरकीध जानलेइनेआव्याव
 ही पिणथयाअप्रसीद्ध २ न० नेहनीवाहीनवीसंक्या
 क्षणमांदीधोछेह एसीजादवरीतछे जेपूरणपालोन
 नेह ३ न० लालचदेइनेतुम्हे करीनिजनारीनिराश
 वचनसहुनांअवगणि गीरनारकीधोवास ४ न० सि

(३०२) ज्ञाणविजयजीकृत.

द्वन्ननेकेविलसिजे तेहथीकीधोजावाप्रेम भवन्नवनीना
रजेमुको रीतिसीछेतुमएम५न. इणपरेविलपतीबहुपरे
पहुतीगढगिरनार केवलदरिसणअनुनवे पहातीमुगत
आगार ६ न० धन२नेमराजुलजेणे पालीपूरवप्रीत
ज्ञाणनणेबूधप्रेमनो साचीएउत्तमरीत ७ न० इति ॥

अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन ॥ धन२धननीद्वेषी एदे
शी ॥ वामानंदनश्रीपास म्हारीसांनलोतुम्हेअरदास
हो साहिवससनेहा अमेसेवकतुमारा तुम्हेछोसाहि
बजीहमाराहो सा० १ सुंदरप्रभूतुमरुप जसदीठेहा
रचारतिभूपहो सा० प्रभूमूखविधुसमदीसे देखीनवि
षणनांमनहीसेहो सा० २ कमलदलसमतुमनयणां
अमृतथीमीठांवयणांहो सा० तुमअर्द्धचंद्रसमभाल मा
नुअधरजिस्यापरवालहो सा० ३ शांतिदांतिगुणनरीयो
एतोअगणितगुणनोदरिआहो सा० साचोशिवपुरसा
थ प्रभूतुछेअनाथनोनाथहो सा० ४ एतोअजनकरेवा
ताहरु प्रनूउलस्युंछेमनमाहरुहो सा० एतोप्रेमवि
बूधनोशीश ज्ञाणविजयनमेनिसदीसहो सा० ५
इति ॥ अथ श्रीमहाविरजिनस्तवन ॥ आणंद

मयनिरुपमचोविसमो परमेश्वरपदनिररुयोरे परमेश्व
रपदजेहनेछाजे अंतरचित्तथीमेंपररुयोरे १ आ० धा

रकछेदेवसब्दघणोरा पिणदेवत्वतेनधरेरे जेमकनकक
 हीएधंतुरने हेमनीगततेनसररे २ आ० जेनरतुमगु
 णगुणधीरसीया तेकिमअवरनेसेवेरे मालतीकुसमेली
 नाजेमधुकर अवरसुरजीनलेवेरे ३ आ० चित्तप्रसने
 जिनजीनीजना सज्जनकहोकिमचूकेरे घरआंगणगं
 गापामीने कुणउवेखीनेमुकेरे ४ आ० ध्येयस्वरुपेध्या
 यतमनेजे मनवचकायआराधेरे प्रेमविबुधजाणपज्ञणे
 तेतर वर्धमानसुखसाधेरे ५ आ० इति ॥ इति ज्ञाण
 विजयकृत चोवीशी संपूर्ण ॥

अथ श्रीदेवचंद्रजीकृत चोवीशी ॥

अथ श्रीरीपन्नजिनस्तवन ॥ रीपभजिणंदस्युंप्रीतडी
 किमकीजेहोकहोचतुरविचार प्रभुजीजइअलगावस्या
 तिहांकिणनविहोकोवचनउचार १ री० कागलपणपु
 हचेनहि नविपुहुचेहोतिहांकोपरधान जेपुहचेतेतुम्हस
 मो नविभाखेहोकोनोव्यवधान २ री० प्रीतकरेतेरा
 गिया जिनवरजीहोतुम्हेतोवीतराग प्रीतडीजेहअरागी
 थी जेलववीहोलोकोत्तरमाग ३ री० प्रीतिअनादिनीवि
 पन्नरी तेरीतेहोकरवामुजनाव करवीनारविपप्रीतडी
 किणभातेहोकहोवनैवनाव ४ री० प्रीतीअनंतीपरथ

(३०४)

देवचंद्रजीकृत.

की जेतोडेहोतेजोडेएह परमपुरुषथीरागता एकत्वताहो
दाखीगुणगेह ५ री० प्रचुजीनेत्रवलंबता निजप्रभूता
होप्रगटेगुणराश देवचंद्रनीसेवना आपेमुझहोत्रविच
लसुखवास ६ री० इति ॥ अथ श्रीअजितजि
नस्तवन ॥ ज्ञानादिकगुणसंपदारे तुझअनंतअपार
तेसांचलतांउपनीरे रुचितेणेपारउतार १ अजितजि
नतारज्योरे तारज्योदीनदयाल अजि० आंकणी. जे
जेकारणजेहनारे सामग्रीसंयोग मिलताकारजनिपजे
रे कर्तातेणेप्रयोग १ अ० कार्यसिद्धकर्तावसुरे लहिका
रणसंयोग निजपदकारकप्रचुमिल्यारे होयनिमित्तह
जोग ३ अ० अजकुलगतकेसरिलहेरे निजपदसिंघ
निहाल तिमप्रभुनक्तेनविलहेरे आतमशक्तिसंजाल
४ अ० कारणपदकर्तापणेरे करिआरोपअज्ञेद निज
पदअरथीप्रचुथकीरे करेअनेकउमेद५अ. अहवापरमा
तमप्रभूरेपरमानंदस्वरुप स्याद्वादसत्तारसीरे अमलअ
खंडअनुपद६ अ. आरोपितसुखभ्रमटल्योरे नास्थोअ
व्याबाध समरथोअजिलाखीपणोरेकर्तासाधनसाध्य
७अ. ग्राहकतास्वामित्वतारे व्यापकज्ञोक्ताज्ञाव कारण
ताकारजदशारे सकलग्रह्युनिजज्ञाव ८ अ० श्रद्धा
ज्ञासनरमणतारे दानादिकपरिणाम सकलथयास

तारसरि जिनवरदरसणपामि ९ अ० तिणेनिर्घा
मकमाहणारे वैद्यगोपआधार देवचंद्रसुखसागरु
जावधरमदातार १० अ० इति ॥

अथ श्रीसंभवजिनस्तवन ॥ श्रीसंभवजिनराजजीरे
ताहरुंअकलस्वरूपजिनवरपूजोस्वपरप्रकाशकदिनम
णीरे समतारसनोभूप जि० १ पूजोपूजारेअविकजिन
पूजो प्रभुपुज्यापरमानंद जि० आंकणी अविसंवाद
निमित्तछोरे जगतजंतुसुखकाज जि० हेतुसत्यबहुमा
नथीरे जिनसेव्यांशिवराज जि० २ उपादानआतम
सहीरे पूष्टालंबनदेव जि० उपादानकारणपणेरे प्रगट
करेप्रभुसेव जि० ३ कार्यगुणकारणपणेरे कारणकार्य
अनुप जि० सकलसिद्धताताहरेरे माहरेसाधनरूप
जि० ४ एकवारप्रभुवंदनारे आगमरीतेथाय जि० का
रणसत्येकार्यनीरे सिद्धप्रतितकराय जि० ५ प्रभूपणे
प्रभूओलखीरे अमलविमलगुणगेह जि० साध्यदृष्टी
साधकपणेरे वंदेधनतरतेह जि० ६ जन्मकृतारथतेह
नारे दिवससफलपणतास जि० जगतसरणजिनचर
णनेरे वंदेधरीयउल्लास जि० ७ निजसत्तानिजजावथी
रे गुणअनंतनोठाण जि० देवचंद्रजिनराजजीरे सुद्ध
सिद्धसुखखाण जि० ८ इति ॥

वस्तुउत्सर्गआत्मसमाधे ९ अ० माहरीशुद्धसत्तातणी
 पूर्णता तेहनोहेतुप्रभुतुहिंसाचो देवचंद्रेस्तव्योमुनिग
 णेअनुभव्यो तत्वजक्तेजविकसकलराचो १० अ०
 इति ॥ अथ श्रीपद्मप्रज्जिनस्तवन ॥ श्रीपद्मप्र
 भुजिनगुणनिधिरेलाल जगतारकजगदीसरे वालहेसर
 जिनउपगारथकीलहेरेलाल भविजनसिद्धिजगीसरे
 वा० १ तुझदारिसणमुझवालहोरेलाल दरसणशुद्धप
 वित्तरे वा० दर्शनशब्दनयेकरेरेलाल संग्रहएवंभूतरे
 वा० २ तु० बीजेवृक्षअनंततारेलाल पसरेजूलयोग
 रे वा० तिममुझआतिमसंपदारेलाल प्रगटेप्रभुसंयोगरे
 वा० ३ तु० जगतजंतुकारजरुचीरेलाल साधेउद्येजा
 णरे वा० चिदानंदसुविलासतारेलाल वाधेजिनवरझां
 णरे वा० ४ तु० लब्धिसिद्धिमंत्राक्षरेरेलाल उपजेसा
 धकसंगरे वा० सहेजअध्यातमतत्वतारेला० प्रगटेतत्वीरं
 गरे वा० ५ तु० लोहधातुकंचनहुवेरेलाल पारसफर
 सनपामिरे वा० प्रगटेअध्यातमदशारेलाल व्यक्तगु
 णीगुणग्रामरे वा० ६ तु० आत्मसिद्धिकारज्जणीरे
 लाल सहजनिर्यामकहेतुरे वा० नामादिकजिनराजना
 रेलाल भवसागरमहासेतुरे वा० ७ तु० थंजनइंद्रिय
 योगनारेलाल रक्तवरणगुणरायरे वा० देवचंद्रेचंद्रस्त

व्योरेलाल आपिअवर्णअकायरे वा० ८ तु० इति ॥
 अथ श्रीसुपासजिनस्तवने ॥ श्रीसुपासआणंदमे गुण
 अनंतनोकंदहोजिनजी ग्यानानंदेपूरणो पवित्रचारित्रा
 नंदहोजि० १ श्री० संरक्षणविणनाथछो द्रव्यविनाधनवं
 तहो जि० करतापदकिरियाविना संतअजेअनंतहो
 जि० २ श्री० अगमअगोचरअमरतुं अन्वयरीदिसमु
 हहो जि० वरणगंधरसफरसविणुं निजज्ञोक्तागुणव्यूह
 हो जि० ३ श्री० अक्षयदानअचितना लाजअयत्तेजो
 गहो जि० वीर्यशक्तिअप्रयासता सुद्धस्वगुणउपज्ञोग
 हो जि० ४ श्री० एकांतिकआत्यंतिको सहजअकृत
 स्वाधीनहो जि० निरुपचरितनिरद्वंद्वसुख अन्यअहेतुक
 पीनहो जि० ५ श्री० एकप्रदेशेताहरे अव्यावाधसमा
 यहो जि० तसुपर्ययअविजागता सर्वाकाशनमायहो
 जि० ६ श्री० इमअनंतगुणनोधणी गुणगुणनोआनंद
 हो जि० जोगरमणआस्वादयुत प्रभुतुपरमानंदहो
 जि० ७ श्री० अव्यावाधरुचीथइ साधेअव्यावाधहो
 जि० देवचंद्रपदतेलहे परमानंदसमाधहो जि० ८
 श्री० इति ॥ अथ श्रीचंद्रप्रज्ञजिनस्तवने ॥ श्रीचं
 द्रप्रज्ञजिनपदसेवा हेवायेजेहिलियाजी आतमगुणअ
 नुनवथीमलिया तेनवनयथीटलीयाजी १ श्री० द्रव्यसे

ववंदननमनादिक अर्चनवलीगुणग्रामोजी नावअनेद
 थावानीईहा परनावेनिःकामोजी २ श्री० नावसेव
 अपवादेनैगम प्रभूगुणनेसंकल्पेजी संग्रहसत्तातुल्यारो
 पे भेदाज्ञेदविकल्पेजी ३ श्री० ३ व्यवहारेबहुमानग्या
 ननिज चरणेबहुगुणरमणाजी प्रभूगुणआलंबीपरिणा
 मे रजुपदध्यानेस्मरणाजी ४ श्री० शब्देशुकुध्याना
 रोहण समनिरुठगुणदशमेजी बीअशुकुअविकल्पए
 कत्वे एवंभूततेअमर्मेजी ५ श्री० उत्सर्गेसमाकितगुणप्र
 गटचे नैगमप्रभूताअंसेजी संग्रहआतमसत्तालंबीमुनि
 पदनावप्रसंसेजी ६ श्री० रजुसुत्रेछेश्रेणिपदस्थे आ
 त्मशक्तिप्रकासेजी यथाख्यातपदशब्दस्वरूपे शुद्धधर्म
 उल्लासेजी ७ श्री० नावसयोगिअयोगिसैलेसै अंत
 दुगनयजाणोजी साधनताएनिजगुणव्यक्तीतेसेवनाव
 खाणोजी ८ श्री० कारणनावतेहअपवादे कार्यरूपउत्स
 र्गोजी आत्मनावतेनावद्रव्यपद बाह्यप्रवृत्तिनिसर्गो
 जी ९ श्री० कारणनावपरंपरसेवन प्रगटेकारयभावोजी
 कारयसिद्धेकारणताव्यय शुचिपरिणामीकभावोजी १०
 श्री० परमगुणीसेवनतन्मयता निश्चयध्यानेध्यावेजी
 शुद्धातमअनुभवआस्वादी देवचंद्रपदपावेजी ११ श्री ३

ति॥ अथश्रिसुविधिजिनस्तवन॥ दीठोसुविधिजिणंदस

माधिरसेजयो होलाल समा० चास्योत्रात्मस्वरूपत्र
नादिनीवीसरयोहोलाल अ० सकलविज्ञावउपाधि
थकीमनत्रोसरयोहोलाल थ० सत्तासाधनमार्गज्ञ
णीएसंचरयोहोलाल न० १ तुमप्रभूजाणगरीतिसर
वजगदेखताहोलाल स० निजसत्ताएशुद्धसहुनेलेख
त्ताहोलाल स० परपरणतिअद्वेपपणेउवेखताहोलाल
नोग्यपणेनिजशक्तिअनंतगवेखताहोलाल अ० २ दा
नादिकनिजचावहताजेपरवश्याहोलाल ह० तेनिज
सनमुखचावग्रहेलहीतुझदशाहोलाल ग्र० प्रभूनोत्र
दभूतयोगस्वरूपतणीरंसाहोलाल स्व० चासेवासेता
सजासगुणतुझजिसाहोलाल जा० ३ मोहादिकनीधू
मअनादिनीउतरेहोलाल अ० अमलअखंडअलिप्त
स्वचावजसांभरेहोलाल स्व० तत्त्वरमणशुचिध्यानज्ञ
णीजेआदरेहोलाल न० तेसमतारसधामस्वामीमुंद्राव
वरेहोलाल स्व० ४ प्रभुछोत्रिभुवननाथदासहूंतारो
होलाल दा० करुणानिधिअनिलाखअछेमुझएखरो
होलाल अ० आतमवस्तुस्वचावसदामुझसांचरोहो
लाल सा० भासनवासनएहचरणध्यानेधरोहोलाल
च० ५ प्रभुमुद्रानोयोगप्रभुप्रभुतालखेहोलाल प्र०
द्रव्यतणेसाधर्मस्वसंपतिओलखेहोलाल स्व० ओ

लखतांबहुमानसाहितरुचिपणवधेहोलाल स० रुचित्र
 नुजायीवीर्यचरणधरासधेहोलाल च० ६ क्षयोपशमि
 कगुणसर्वथयातुल्यगुणरसीहोलाल थ० सत्तासाधन
 शक्तिव्यक्तताउल्लसीहोलाल व्य० हवेसंपूरणसिद्ध
 तणीसीवारछेहोलाल त० देवचंद्रजिनराजजगत्र
 आधारछेहोलाल ज० ७ इति ॥

अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥ शीतलजिनपतिप्रभुता
 प्रभुनी मुझथीकहिनजायजी अनंततानिर्मलतापु
 र्णता ज्ञानविनाजणायजी १ शी० चरमजलधीजल
 मिणेअंजली गतिजीपेअतिवायजी सर्वआकाशउल्लं
 धेचरणे पिणप्रभुतानगिणायजी २ सा० सर्वद्रव्यप्रदे
 शअनंता तेहथीगुणपर्यायजी तासवर्गथीअनंतगुणो
 प्रभु केवलज्ञानकहायजी ३ शी० केवलदर्शणएमअनं
 तोग्रहेसामान्यस्वभावजी स्वपरअनंतथीचरणअनंतो
 स्वरमणसंवरभावजी ४ शी० द्रव्यक्षेत्रनेकालभावगु
 ण राजनितिएच्यारजी त्रासाविनाजडचेतनप्रभुनी को
 इनलोपेकारजी ५ शी० शुद्धाशयथिरप्रभूउपयोगे जेसम
 रेप्रभूनामजी अव्याबाधअनंतोपामे परमअमृतसुखधा
 मजी ६ शी० आणाइश्वरतानिरजयता निरवांछकता

रूपजी भावस्वाधीनतेअव्ययरीते इमअनंतगुणभूपजी

७ शी० अव्यावाधसुखनिरमलतेतो करणज्ञाननज
 णायजी तेहजएहनोजाणजोक्ता जेतुम्हसमगुणराय
 जी ८ शी० इमअनंतदानादिकनिजगुण वचनातीतप
 डूरजी वासनजासनजावेदुर्लभ प्रापितोअतिदूरजी
 ९ शी० सकलप्रत्यक्षपणेत्रिचुवनगुरु जाणुंतुझगुण
 ग्रामजी बीजुकांइनमागुंस्वामि एहछेमुझकामजी १०
 शी० इमअनंतप्रभूतासरदहतां अरचेजेप्रभुरूपजी दे
 वचंद्रप्रभुतातेपामे परमानंदस्वरूपजी ११ शी० इति॥
 अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन पांचेपांडववांदतां मनमो
 ह्योरे एदेशी ॥ श्रीश्रेयांसप्रचुतणो अतिअदभूतसह
 जानंदरे गुणइकविधात्रिकपरणम्यो इमअनंतगुणो
 वंदरे १ मुनिचंद्रजिणंद अमंददिणंदपरेनितदीपतोसु
 खकंदरे निजज्ञानेकरीज्ञेयनो ज्ञायकज्ञातापदईसरे दे
 खेनिजदर्शनकरी निजद्रस्यसामान्यजगीसरे २ मु०
 निजरम्येरमणकरोप्रभु चारित्रेरमतारामरे जोगअनं
 तनेजोगवो जोगेविणजोक्तास्वामिरे ३ मु० देयदान
 नितदीजते अतिदाताप्रभुस्वयमेवरे पात्रतुम्हेनिजज्ञ
 क्तिना ग्राहकव्यापकमयदेवरे ४ मु० परणामिककार
 जतणो करतागुणकरणेनाथरे अक्रियअक्षयस्थितिम

यी निकलंकअनंतीआथरे ५ मु० परिणामिकसत्तात

णो आविर्जावविलासनिवासरे सहजत्रक्रेत्रमत्रपरा
 श्रयी निर्विकल्पनेनिप्रयासरे ६ मु० प्रभूप्रभूतासंजा
 रतां गातांकरतांगुणग्रामरे सेवकसाधनतावरे निजसं
 वरपरणतिपामरे ७ मु० प्रगटतत्वताध्यावतां निजत
 त्वनोध्याताथायरे तत्वरमणएकाग्रता पूरणतत्वेहसमा
 यरे ८ मु० प्रचुदीठेमुझसांजरे परमात्मपूर्णानंदरे दे
 वचंद्रजिनराजना नितवंदोपयत्ररवंदरे ९ मु० इति ॥
 अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तवन ॥ पूजनातोकीजेरेवारमा
 जिनतणीरे जसुप्रगटचोपूज्यस्वज्ञाव परकृतपूजारेजे
 इच्छेनहीरे साधककारयदाव १ पू० द्रव्यथीपूजारेकार
 णज्ञावनोरे भावप्रशस्तनेशुद्ध परमइष्टवल्लभत्रिचूवन
 धणीरे वासुपूज्यस्वयंबुध २ पू० अतिशयमहिमारेअ
 तिउपगारतारे निरमलप्रचूगुणरागसुरमणिसुरघटसु
 रतरुतुंछतेरे जिनरागीमहाजाग ३ पू० दर्शनज्ञानादि
 कगुणात्मात्मतारे प्रचूप्रभूतालयलीन शुद्धस्वरुपीरुपेत
 न्मयीरे तसुआस्वादनपीन ४ पू० शुद्धतत्वरसरंगीचे
 तनारे पामेआत्मस्वज्ञाव आत्माळंबीनिजगुणसाधतो
 रे पामेपूज्यस्वज्ञाव ५ पू० आपत्रकर्तासेवाथीहवेरे
 सेवकपूरणसिद्धि निजधननदीयेपिणआश्रितलहेरे
 अक्षयअक्षररीद्धि ६ पू० जिनवरपुजातेनिजपुज

नारे प्रगटेअन्वयशक्ति परमानंदविलासीअनुच
 वेरे देवचंद्रपदव्यक्ति ७ पू० ॥ इति ॥ अथ
 श्री विमलजिनस्तवन ॥ दासअरदाससीपरकरक
 हेजी एदेशी ॥ विमलजिनविमलताताहरीजी अवर
 बीजेनकहाय लघुनदीजिमतिमलंघीएजी पणस्वर्यभूर
 मणनतराय १ वि० सयलपुढवीगीरिजलतरुजी को
 इतोलेएकहाथ तेहपणतुझगुणगणणीजी चाखवान
 हीसमरथ २ वि० सरवपुदगलनचधरमनाजी तेम
 अधरमप्रदेश तासगुणधरमपज्वसहुजी तुझगुणइक
 तणोलेश ३ वि० एमनिजजावअनंतनीजी अस्तीता
 केतलीथाय नास्तितास्वपरपदअस्तिताजी तुझसमका
 लसमाय ४ वि० ताहराशुद्धस्वजावनेजी आदरेधरी
 बहुमान तेहनेतेहिजनीपजेजी अहोकोइअद्भुततानं ५
 वि० तुम्हप्रभुतुम्हतारकाविचूजी तुम्हसमोअवरनको
 य तुम्हदरसणथकीहुंतरचोजी शुद्धआलंबनहोय ६
 वि० प्रचूतणीविमलतानुलखीजी जेकरेथिरमनसेव
 देवचंद्रपदतेलहेजी विमलआनंदस्वयमेव ७ वि० इति ॥
 अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ मूरतिहोप्रचुमूरतिअनं
 तजिणंद ताहरीहोप्रचुताहरीमुझनयणेवसीजी सम
 ताहोप्रचुसमतारसनोकंद सहजेहोप्रचुसहजेअनुचवर

सलसीजी १ नवदवहोप्रभू नवदवतापितजीव तेहनेहो
 प्रभूतेहनेअमृतघनसमीजी मिथ्याविषहोप्रभूमिथ्या
 विषनीखीव हरवाहोप्रभूहरवाजांगूलमणीरमीजी २
 नावहोप्रभूनावचिंतांमाणिएह आतमहोप्रभूआतमसं
 पतिआपवाजी एहिजहोप्रभूएहिजशीवसुखगेह तत्वी
 होप्रभूतत्वालंबनथापवाजी ३ जायेहोप्रभूजायेआश्र
 वचालिं दीठेहोप्रभूदीठेसंवरवधेजी रतनहोप्रभूरत्नत्र
 यीगुणमाल अध्यातमहोप्रभूअध्यातमसाधनसधेजी
 ४मीठीहोप्रभूमीठीसूरतितुझ दिठीहोप्रभूदीठारुचिबहु
 मानथीजी तुझगुणहोप्रभूतुझगुणनासनयुक्त सेवेहोप्र
 भूसेवेतसुन्नवन्नयनथीजी ५ नामेहोप्रभूनामेअद्भूतरंग
 ठवणाहोप्रभूठवणादीठांउल्लसेजी गुणआस्वादहोप्र
 भूगुणआस्वादअभंग तन्मयहोप्रभूतन्मयताएजेधेसे
 जी ६ गुणअनंतहोप्रभूगुणअनंतनोचंद्र नाथहोप्रभू
 नाथअनंतनेआदरेजी देवचंद्रहोप्रभूदेवचंद्रनेआणंद प
 रमहोप्रभूपरममहोदयतेवरेजी ७ इति ॥

अथ श्रीधरमजिनस्तवन ॥ धरमजगनाथनोध
 र्मशुचिगाइयें आपणोआतमातेहवोनावियें जा
 तिजसुएकतातेहपलटेनहिं शुद्धगुणपज्जवावस्तुसत्ता

सही १ नित्यनिरवयववल्लिएकअक्रियपणे सर्वगतते

हसामान्यज्ञावेक्षणतेहथीइतरसावयवविशेषता वक्ति
 चेदेपडेजेहनीचेदता २ एकतापिंडनेनित्यअविनाशता
 अस्तिनिजरीद्विथीकार्यगतचेदता ज्ञावश्रुतगम्यअनि
 लाखअनंतता अव्यपर्यायनीजेपरावर्तिता ३ क्षेत्रगुण
 ज्ञावअविभागअनेकता नासउत्पादअनित्यपरनास्ति
 ता क्षेत्रव्यापत्वअचेदअवक्तव्यता वस्तुतेरुपथीनियत
 अभव्यता ४ धर्मप्रागज्ञावतासकलगुणशुद्धता भोग्य
 ताकर्तृतारमणपरिणामता शुद्धसप्रदेशतातत्वचैतन्यता
 व्याप्यव्यापकतथाग्राहग्राहकगता ५ संगपरिहारथी
 स्वामीनिजपदलह्यं शुद्धआत्मीकआनंदपदसंग्रह्यं ज
 इविपरज्ञावथीहुंजवोदधिवस्यो परतणोसंगसंसारताए
 अस्यो ६ तहविसत्तागुणैजीवछेनीरमलो अन्यसंश्लेषजि
 मफिटकनविसामलो जेपरोपाधिथीदूष्टपरणतिग्रहीज्ञा
 वतादात्म्यमांमाहरुंतेनहीं ७ तिणेपरमात्मप्रभुजक्ति
 रंगीथइ शुद्धकारणरसेतत्वपरणतिमयी आत्मग्राह
 कथयेतजेपरग्रहणता तत्वज्ञोगीथयेटलेपरभोगिता ८
 शुद्धनिप्रयासनिजज्ञावज्ञोगीयदा आत्मक्षेत्रेनहीअन्य
 रक्षणतदा एकअसहायनिस्संगनिरद्वंद्वता शक्तिउत्सर्ग
 नीहोयसहूव्यक्ताता ९ तिणेमुझआतमातुझथकीनीप
 जेमाहरीसंपदासकलमुझसंपजेतिणेमनमंदिरेधर्मप्रभु

ध्याइये परमदेवचंद्रनिजसिद्धसुखपाईये १० इति ॥
 अथ श्रीशांतिजिनस्तवन ॥ मालाकिहांछेरे एदेशी ॥
 जगतदिवाकरजगतकृपानिधि वाल्हामारासमवसरण
 मेंबेठा चोमुखचौविहधर्मप्रकासे तेमेंनयणेदीठारे १
 नविकजनहरखोरे निरखीशांतिजिणंद न० उपसमर
 सनोकंद नहिंइनेसरिखोरे आंकणी. प्रातिहारयत्र
 तिश्यशोभा वा० तेतोकहियनजावे घुकबालकथीरवि
 करनरनो वरणनकिणपरेथावेरे २ भ० वाणीगुणपां
 त्रीसत्रनोपम वा० अविस्वादसरुपे नवदुखवारणशि
 वसुखकारण सुद्धधर्मप्ररुपेरे ३ न० दक्षिणपश्चिमउ
 त्तरदिशिमुख वा० ठवणजिनउपगारी तसुत्रालंबनल
 हीयत्रनोपम तिहांथयासमकितधारी ५ भ० खटनय
 कारयरुपेठवणा वा० सगनयकारणठाणी निमत्तसमा
 नथापनाजिनजी एत्रागमनीवाणी ५ न० साधकती
 ननिक्षेपामुख्ये वा० जेविणुजावनलहीये उपगारीदु
 गनाख्येनाख्या जाववंदकनोगहीयेरे ६ भ० ठवणा
 समवसरणजिनसेती वा० जोत्रनेदतावाधी एत्रात्मा
 नास्वस्वजावगुण व्यक्तयोग्यतासाधी ८ न० नलुंथ
 युमेंप्रनुगुणगाया वा० रसनानोफललीधो देवचंद्रकहे
 माहरामननो सकलमनोरथसीद्धो ८ न० इति ॥

अथ श्रीकुंथुजिनस्तवन ॥ समवसरणवेसीकरीरे वारह
 परखदमांहिं वस्तुस्वरूपप्रकासतारे करुणाकरजगता
 हारे १ कुंथुजिनेसरु निरमलतुझमुखवाणारे जेश्रवणे
 सुणे तेहिजगुणमणिखाणारे २ कुं० गुणपर्यायअनंतता
 रे वलीस्वजावअगाह नयगमजंगानिक्षेपनारे होयदेय
 प्रवाहरे ३ कुं० कुंथुनाथप्रचुदेशनारे साधनसाधकसि
 द्द गौणमुख्यतावचनमेंरे ग्यानतेसकलसमृद्धरे ४ कुं०
 वस्तुअनंतस्वजावछेरे अनंतकथकतसुनाम ग्राहकअव
 सर्वबोधथीरे कहवेअर्षिपतकामोरे ५ कुं० शेषअनर्षि
 तधर्मनेरे सापेक्षश्रद्धाबोध उन्नयरहितज्ञासनहवेरे
 प्रगटेकेवलबोधरे ६ कुं० छतिपरणतिगुणवर्णनारे ज्ञा
 सनजोगआणंद समकालेप्रचुताहरेरे रम्यरमणगुण
 वंदोरे ७ कुं० निजजावेसीअअस्तितारे परनास्तित्वस्व
 जाव अस्तितपणेतानास्तितारे सीअतेउन्नयस्वजावोरे ८
 कुं० अस्तित्वभावजेआपणोरे रुचिवैराग्यसमेत प्रभु
 सन्मुखवंदनकरीरे मागीसआतमहेतोरे ९ कुं० अ
 स्तित्वस्वजावजेरुचिथइरे ध्यातोअस्तित्वस्वजाव देवचंद्र
 पदतेलहेरे परमानंदजमावोरे १० कुं० इति ॥

अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ रामचंद्रकेवाग एदेशी ॥ प्र
 णमोश्रीअरनाथ शिवपुरसाथखरोरी त्रिभुवनजनआ

भावसकलकारकलहरे स० ६ माहरूपूर्णानंदप्रगटक
रवाजणीरे प्र० पुष्टालंबनरूपसेवप्रचुजीतणीरे से०
देवचंद्रजिनचंद्रभगतिमनमेंधरोरे न० अठ्यावाधत्रनं
तअखयपदआदरोरे अ० ७ इति ॥

अथ श्रीमुनिसुव्रतजिनस्तवन ॥ ओलगडीतोकीजेश्री
मुनिसुव्रतस्वामिनीरे जेहथीनिजपदसिद्ध केवलग्या
नादिकगुणउल्लसेरे लहीयेसहजसमृद्ध १ ओ० उपा
दाननिजपरणतिवस्तुनीरे पिणकारणनिमित्तआधिन
पुष्टअपुष्टदुविधतेउपदिस्पोरे ग्राहकविधिआधीन २
ओ० साध्यसाध्यधर्मजेमांहिहवेरे तेनिमित्तअतिपुष्ट
पुष्पमांहितिलवासकवासनारे नहिप्रध्वंसकदुष्ट ३
ओ० दंडानिमित्तअपुष्टवडातणोरे नविघटतातसुमां
हिं साधक२प्रध्वंसकतावेअछेरे तिणेनहिंनियतप्रवाह
४ ओ० खटकारक२तेकारणकार्यनोरे जेकारणस्वाधी
न तेकर्ता२सहुकारकतेवसुरे कर्मतेकारणपीन ५ ओ०
कारणसंकल्पेकारकदसारे छतिसत्तासदजाव अथवा
तुल्यधर्मनेजोइवेरे साध्यारोपणदाव ६ ओ० अतिश
य२कारणकारककरणतारे निमित्तअनेउपादान संप्रदा
नकारणपदजवनथीरे कारणव्ययअपादान ७ ओ० जव

नव्ययविणुकारयनविहवेरे जिमदृषदेनघटत्व सुतत्वाध

रस्वगुणनोद्रव्यछेरे सत्ताधारसुतत्व ८ ओ० आतम
 कर्त्ताकारयसिद्धतारे तसुसाधनजिनराज प्रभुदीठेकार
 जरुचिउपजेरे प्रगटेआत्मसमाज ९ ओ० वंदनसेवनन
 मनवलिपुजनारे समरणस्तवनवलिध्यान देवचंद्रदेवचं
 द्रकीजेजिनराजनारे प्रगटेपुर्णनिधान १० ओ० इति ॥
 अथ श्रीनमिजिनस्तवन ॥ पीछोलारीपालिउभादोय
 राजवीरे एदेशी ॥ श्रीनमिजिनवरसेवघनाघनउनम्यो
 रे घ० दीठामीश्वारारेचविकचित्थीगम्योर न० सु
 चिआचरणारीतितेअभवधेवडारे ते० आतमपरणति
 शुद्धतेविजज्ञवुकडारे वि० वाजेवाउसुवाव्यतेपा
 वनजावनारे पा० इंद्रधनुषत्रिकयोगतेचक्तिइकमनारे
 न० निर्मलप्रचुस्तवधोषझूनिधनगर्जनारे झू० तसना
 श्रीपमकालतापनीतर्जनारे ता० २ शुभलेश्यानीआ
 लितेवगपंकतिबनीरे व० श्रेणीसरोवरहंसवसेशुचिगु
 णमुनीरे व० चौगतिमारगबंधनविकजनघररह्यारे न०
 चेतनसमतासंगरंगमेंउमह्यारे रं० ३ सम्यग्दृष्टिमो
 रतिहांहरखेघणुरे ति० देखीअद्भुतरुपपरमजिनवरत
 णुरे प० प्रचुगुणनोउपदेशतेजलधारावहीरे ज० धर
 मरुचिचितभूमिमांहिनिश्चलरहीरे मां० ४ चातकश्र
 मणसमूहकरेतवपारणारे क० अनुचवरसआस्वादस

हर्षउत्साहवाध्यो हेतुएकत्वतारमणपरणामथी सिद्धि
 साधकपणोआजसाध्यो ७ स० आजकृतपुण्यधनदीह
 माहरोथयो आजनरजनममेंसफलजाव्यो देवचंद्रस्वा
 मित्रेवीसमोवंदीयो जक्तिजरचित्तुजगुणरमाव्यो ८ स०
 इति ॥ अथ श्रीमहाविरजिनस्तवन ॥ कडकानीदेशी ॥
 तारहोतारप्रचुमुझसेवकभणी जगतमेंएतलोसुयशलि
 जेदासत्रवगुणज्योजाणिपोतातणो दयानिद्धिदीनपरि
 दयाकीजे १ ता० रागद्वेषेजरच्योमोहवेरीनड्यो लोकनी
 रीतिमेंघणुरातो क्रोधवसधमधम्योशुद्धगुणनविरम्यो
 भ्रम्योभवमांहिंहुंविषयमातो २ ता० आदरच्योआचरण
 लोकउपचारथी शास्त्रअभ्यासापिणकोईकीधो शुद्धश
 रद्धानवल्लिआत्मअवलंबविनुं तेहवोकार्यतिणेकोनसी
 धो ३ ता० स्वामिदरशणसमोनिमित्तलाहिनिरमलो
 जोउपादानएशुचिनथास्ये दोषकोवस्तुनोअहवउद्यम
 तणो स्वामिसेवासहीनिकटलास्ये ४ ता० स्वामीगु
 णओलखीस्वामीनेजेभजे दरिसणशुद्धतातेहपामेज्ञान
 चारित्रतपवीर्यउल्लासथी कर्मजीपीवसेमुक्तिधामे ५
 ता० जगतवछलमहावीरजिनवरसुणी चित्तप्रभुचरण
 नेशरणवास्यो तारज्योवापजीविरुदनिजराखवा दास
 नोसेवनारखेजोस्यो ६ ता० वीनतीमानज्योशक्तिएआ

पज्यो भावस्याद्वादताशुद्धज्ञासे साधिसाधकदशासिद्ध
 तात्रनुचवी देवचंद्रविमलप्रभुताप्रकाशे ७ता० इति ॥
 कलस ॥ चउवीसेजिनगाइये ध्याइयेतत्वसरुपोजी पर
 मानंदपदपाइये अक्षयग्यानअनुपोजी १ चो० चवद
 हसेबावनचला गणधरगुणचंडारोजी समतामयीसाहु
 साहुणी सावयसावईसारोजी २ चो० वर्द्धमानजिनव
 रतणो शासनअतिसुखकारोजी चउविहसंघविराजता
 दूंसमकालआधारोजी ३ च० जिनसेवनथीज्ञानता
 तिणेहिताहितबोधोजी अहितत्यागहितआदरे संयम
 तपनीसोधोजी ४ च० अजिनवकर्मअग्रहणता जीर्ण
 कर्मअज्ञावोजी निकर्मीनेअबाधता अवेदनअनाकुल
 ज्ञावोजी ५ च० ज्ञावैरोगनाविगमथी अचलअक्षयनि
 रावाधोजी पूर्णानंददसालही विलसेसिद्धिसमाधोजी
 ६ च० श्रीजिनचंद्रनीसेवना प्रगटेपुण्यप्रधानोजी सु
 मतिसागरअतिउल्लसे साधुरंगप्रनुध्यानोजी ७ च०
 सुविहितगच्छखरतरवरु राजसागरउवझायोजी ज्ञानध
 र्मपाठकतणो शिष्यसुजनसुखदायोजी ८ च० दीपचंद्र
 पाठकतणो शीसस्तवेजिनराजोजी देवचंद्रपदसेवतां
 पूर्णानंदसमाजोजी ९ च० इति ॥ इति देवचंद्रजी
 कृत चोवीशी संपूर्ण ॥

(३२८) देवचंदजीकृतगतचोवीसी.

अथ श्रीदेवचंदजी कृत गत चोवीशी
अथ श्रीकेवलज्ञानीजिनस्तवन ॥ नामेगाजेपरम
आल्हाद प्रगटेअनुभवसआस्वाद तेथीथायेमति
सुप्रसाद पुणतांजाजेरेकांडविषयविखादरे १ जिणंदा
तारानामथीमनजीनो प्र. आंकणी खेत्रअसंख्यप्रदेश
अनंतपर्यायनिवेश जाणगशक्तिअशेश तेहथीजाणरे
कांडसकलविशेशरे २ जि० सर्वप्रमेयप्रमाण जसके
वलनाणपहाण तिणेकेवलनाणीअभिहाण जसध्यावेरे
कांडमुनिवरज्ञाणरे ३ जि० ध्रुवपरणतिछतिजासपरणति
परिणामेत्रिकरास कर्तापदप्रवृत्तिप्रकाश अस्तिनास्ति
रेकांडसर्वनोजासरे ४ जि० सामान्यस्वभावनोबोध
केवलदर्शनशोध सहकारअभावेरोध समयंतररेकांड
बोधप्रबोधरे ५ जि० कारकचक्रसमग्ग तेज्ञायकभा
वविलग्ग परमभावसंसग्ग एकरीतिरेकांडथयोगुणव
ग्गरे ६ जि० इंसालंबनजिनध्यान साधेतत्वविधान
लहेपूर्णानंदअमान तेहथीथायेरेकांडशिवईशानरे ७
जि. दासविभावअपाय तेनासेप्रभुसुपसाय जेतन्मय
तायेध्याय सहीतेहनेरेदेवचंद्रपदथायरे ८ जि० इति ॥
अथ श्रीनिर्वाणीप्रभुस्तवन ॥ वीरजाप्याराहोवीरजी

प्याराएदेशी ॥ प्रणमंचरणपरमगुरुजिनना हंसतेमुनि

देवचंद्रजीकृतगतचोवीशीः (३२९)

जनमनना वासी अनुभवतदनवनना चोगी आनंदघ
नना १ मोरास्वामी हो तो रोध्यान धरिजे ध्यान धरि
जे हो सिद्धि वरिजे अनुभव अमृतपीजे मोरा ० आंक
णी सकल प्रदेश समागुणधारी निजरकारजकारी नि
राकार अवगाह उदारी शक्ति सर्व विस्तारी २ मो ० गु
ण २ प्रति पर्याय अनंता ते अजिला पस्वतंता अनंत गुणा
नजिला पिसंता कार्य व्यापार करंता ३ मो ० छति अ
विज्ञान पर्ययवक्ते कारज शक्ति प्रवर्ते ते विशेष सामर्थ
प्रशक्ते गुण परिणाम अजिह्यक्ते ४ मो ० निरवाणी प्रभु
शुद्ध स्वजावी अजय निरायु अपावी स्याद्वादी अमनी ग
तरावी पूरण शक्ति प्रजावी ५ मो ० अचल अखंड स्व
गुण आरामी अनंतानंद विसरामी सकल जीव खेदज्ञ
सुखामी निरामगंधी अकामी ६ मो ० निःसंगी सेवनथी
प्रगटे पूर्णानंदी ईहा साधन शक्ते गुण एकत्वे सज्जि साध्य
समीहा ७ मो ० पुष्ट निमित्ता लंबन ध्याने स्वा लंबन लय ठा
ने देवचंद्र गुण त्रे एकता ने पो हो चे पुरण थाने ८ मो ० इति ॥
अथ श्री सागर प्रज्जिनस्तवन ॥ ३ ॥ शीतल जिन सहेजा
नंदी एदेशी ॥ गुण सागर आगर स्वामी मुनि जाव जीवन
निःकामी गुण करणे कर्त प्रयोगी प्रज्जावी सता चोगी १

सुहंकर नव्य एजिन गावो जिम पूरण पदवी प्रावो सुः सा

(३३०) देवचंद्रजीकृतगतचोवीशी.

मान्यस्वप्नावस्वपरनाद्रव्यादिचतुष्टयघरना देखेदरश
नरचनार्ये निजवीर्यअनंतसहार्ये २ सु० तेहनेतेजाणेना
एधर्मविशेषपहाण सावयवीकारजशक्ते अविजागी
पर्ययवक्ते ३ सु० जेकारणकारजनावे वरतेपर्यायप्र
जावे प्रतिसमयेंव्ययउत्पादि ज्ञेयादिकअनुगतसादि
४ सु० अविजागीपर्ययजेह समवायीकार्यनागेह जे
नित्यत्रिकालीअनंत तसुज्ञायकज्ञानमहंत ५ सु० जे
नित्यअनित्यस्वप्नाव तेदेखेदर्शनजाव सामान्यविशेष
नोपिंड द्रव्यार्थिकवस्तुप्रचंड ६ सु० इमकेवलदर्शण
नाण सामान्यविशेषनोभाण द्विगुणआतमश्रद्धाए च
रणादिकतसुव्यवसाये ७ सु० द्रव्यजेहविशेषपरिणामी
तेकहीयेपज्वनामी छतिसामर्थ्यदुजेदे पर्यायविशेष
निवेदे ८ सु० तसुरमणेजोगनोवृंद अप्रयासीपूर्णानंद
प्रगटीजसशक्तिअनंती निजकारजवृत्तिस्वतंत्री ९ सु०
गुणद्रव्यसामान्यस्वप्नावी तीरथपतित्यक्तविजावी प्रभु
आणाजकेलीन तिणेदेवचंद्रपदकीन १० सु० इति ॥
अथ श्रीमहाजसजिनस्तवन ॥ ४ ॥ रागफाग ॥ आ
त्मप्रदेशरंगथलअनोपम सम्यग्दर्शनरंगरे निजसुख
केसधइया तुंतोनिजगुणखेलवसंतरे निज० परपरिण
तिचिंतातजिनिजमें ग्यानसखाकेसंगरे १ नि० वास

देवचंद्रजीकृतगतचोवीशी. (३३१)

वराससुरुचिकेसरघन छांटोपरमप्रमोदरे नि० श्रातम
 रमणगुलालकीलाली साधकशक्तिविनोदरे २ नि०
 ध्यानसुधारसपानमगनता चोजनसहजस्वजोगरे नि०
 रिझएकत्वतातानमैवांजे वाजीत्रसनमुखयोगरे ३नि०
 शुद्धध्यानहोरीकीझाला जालेकर्मकठोररे नि० शेषप्र
 कृतिदलक्षिरणनिर्जरा नस्मखेलअतिजोररे ४ नि०
 देवमहाजसगुणअवलंबन निर्जयपरणतिव्यक्तिरे नि.
 ग्यानेध्यानेअतिबहुमाने साधेमुनिनिजशक्तिरे ५
 नि० सकलअजोगअलेसअसंगत नाहिंहोवेसिद्धरे
 नि० देवचंद्रआणामेखेले उत्तमयुंहिंप्रसिद्धरे ६ नि०
 इति ॥ अथ श्रीविमलजिनस्तवन ॥५॥ कड

खानीदेशी ॥ धन्यतुं२धन्यजिनराजतुं धन्यतुजशक्ति
 व्यक्तिसनूरी कार्यकारणदशासहजउपगारता शुद्धक
 र्तृत्वपरिणामपूरी १ ध० आत्मप्रभावप्रतिजासकार
 जदशा ग्यानअविज्ञागपर्ययप्रवृत्ते एमगुणसर्वनिज
 कार्यसाधेप्रगट ज्ञेयदृश्यादिकारणनिमित्ते २ ध० दास
 बहुमानजासनरमणएकता प्रभुगुणालंबनीशुद्धथाये बं
 धनाहेतुरागादितुजगुणरशी तेहसाधकअवस्थाउपाये
 ३ ध० कर्मजंजालज्युंजनकरणयोगजे स्वामीशक्तिरम्या

धीरसमाधि दानतपसीलव्रतनाथआणाविणा थइयवा

(३३२) देवचंद्रजीकृतगतचोवीशी.

धककरेनवउपाधि ४ ध० सकलपरदेशसमकालसवि
कार्यता करणसहकारकर्तृत्वभावो द्रव्यपरदेशपर्याय
आगमपणे अचलअसहायअक्रियदावो ५ ध० उत्प
तिनासध्रुवसर्वदासर्वनी खड्गुणीहानीवृद्धिअन्यूनो अ
स्तित्वास्तित्वसत्ताअनादीथको परणमनभावथीनहीअ
जूनो ६ ध० इणीपरेविमलजिनराजनीविमलता ध्या
नमनमंदिरेजेहध्यावे ध्यानपृथक्त्वसविकल्पतारंगथी
ध्यानएकत्वअविकल्पआवे ७ ध० वीतरागीअसंगी
अनंगीप्रभु नाणअप्रयासअविनासधारी देवचंद्रशुद्ध
सत्तारसीसेवतां संपदाआत्मशोभावधारी ८ ध०
इति ॥ अथ श्रीसर्वानुभूतिजिनस्तवन ॥ ६ ॥

जगतारकप्रचुवीनवु वीनतडीअवधाररे तुजदरशनवि
पुंहुंभम्यो कालअनंतअपाररे १ ज० सूहुमनिगोदन्न
वेवस्यो पुदगलपरिठअनंतरे अव्यवहारपणेनम्यो
क्षुलकनवअत्यंतरे २ ज० व्यवहारेपणातिरिक्कते इगव
णखंडअसन्निरे असंख्यपरावर्तनथयां नमियोजीवअ
धनरे ३ ज० सूक्ष्मथावरचारमे कालहचक्रअसंख्यरे
जनमरणबहुलाकर्या पुदगलनोगनेकंखरे ४ ज०
ओघेबादरभावमे बादरतरुपणइंमरे पुदगलअढीलाग
टवस्यो नामनिगोघेप्रेमरे ५ ज० थावरथूलपरितमे

देवचंद्रजीकृतगतचोवीशीः (३३३)

सीत्तरकोडाकोडिरे आधरन्नस्योप्रभुनविमिल्या मीथ्या
 आविरतिजोडिरे ६ ज० विगलपणेलगिटवस्यो संखि
 जवासहजाररे वादरपज्जवणस्सई भूजलवायुमझाररे
 ७ ज० अनलविगलपज्जतमे तसभवआयुप्रमाणरे शु
 द्धतत्वप्रापतिविना नटकयोनेवनवठाणरे ८ ज० सा
 धिकसागरसंहसदो जोगवीधोतसचावेरे एकसहससा
 धिकदधी पंचेंद्रिपददवेरे ९ ज० परपराणितरागीप
 णे पररसंगेरकरे परग्राहकरक्षकपणे परजोगेआश
 करे १० ज० शुद्धस्वजातितत्त्वने बहुमानेतल्लीनरे ते
 त्रिजातिरसतातजी स्वस्वरुपरसपीनरे ११ ज० श्री
 सर्वानुभूतिजिनेश्वरु तारकलायकदेवरे तुजचरणेसर
 णेरह्यो टलेअनादिकुटेवरे १२ ज० सबलासाहिवंओल
 णे आतमसवल्लोथायरे बाधकपरणितसविटले साधक
 सिद्धकहायरे १३ ज० कारणथीकारजहुधे एपरतित
 अनादिरे माहरेआतमसिद्धीनां निमित्तहेतुप्रभुसादिरे
 १४ ज० अविस्वादनहेतुनी द्रढसेवीअभ्यासरे देवचं
 द्रपदनीप्रजे पूर्णानंदत्रिलासरे १५ ज० इति ॥ ३३३ ॥
 अथ श्रीधरजिनस्तवत्र ७ ॥ रसीयान्निदेशी ॥ सेमुखमु
 खप्रचुत्तेनमलीशक्यो तोसीवांतकहाय जिणंदजी नि
 जपरवीतकवातलहोसहुपणमनेकिमपतितआय जि १

(३३४) देवचंद्रजीकृतगतचोवीशी.

से० नव्यत्रनव्यपरित्त्रणंततो कृश्रशुकलपक्षधार
जि० आराधकविराधकरीतनो पूछीकरतनिरधार जि०
२ से० किएकालेकारणकेहवेमले थासेमुझनेहोसिद्ध
जि० आतमतत्वरुचिनिजरिद्धनी लहेसुंसर्वसमृद्ध
जि० ३ से० एकवचनजिनआगमनोलही नीपाव्यां
निजकाम जि० इतलेआगमकारणसंपजे ढीलथइकि
मआम जि० ४ से० श्रीधरजिननामेबहुनिस्तरचा
अल्पप्रयासेहोजेह जि० मुजसरिखोएतलेकारणलहे
नतरेकहोकिंमतेह जि० ५ से० कारणजोगेसाधेतत्व
ने नविसमरथोउपादान जि० श्रीजिनराजप्रकासोमु
जप्रते तेहनोकोणनिदान जि० ६ से० भावरोगनावै
द्यजिनेश्वरु नावौषधतुजभक्ति जि० देवचंद्रनेश्रीअरी
हंतनो छेआधारएव्यक्ति जि० ७ से० इति ॥
अथ श्रीदत्तप्रभुस्तवन ८॥ रागधमाल ॥ जिनसेवनथे
पाईयेहोशुद्धातममकरंद जि० आंकणी तत्वप्रतीतवसं
तरुतुप्रगटी गईसिसिरकुप्रतीतललना दुरमतिरजनि
लघुजइहो सदबोधदिवसवदीत १ जि० साध्यरुचिसुस
खामिलिहो निजगुनचरचाखेल ल० बाधकनावकीनंद
नाहो बुधमुखगारिकोमेल २ जि० प्रभुगुनगानसुछंद
सुंहो वाजीत्रअतिशयतान ल० शुद्धतत्वबहुमानताहो

देवचंद्रजीकृतगतचोवीशी. (३३५)

खेलतप्रभुगुनध्यात ३ जि० गुनबहुमानगुलाजसोहो
 लालनएनविजीव ल० रागप्रशस्तकीधूममेहो विजा
 वविडारेअतीव ४ जि० जिनगुनखेलमेंखेलतेहो प्रय
 टचोनिजगुनखेल ल० आतमघरआतमरमेहो समता
 सुमतिकेमेळ ५ जि० तत्वप्रतीतप्यालेनरयाहो जिनवा
 णरिसपान ल० निर्मलनक्तिलालीजगीहो रीझेएकत्वता
 तान ६ जि० नववैरागश्रवीरसुंहो चरनरमनसुंमहंत ल०
 सुमतिगुपतिवनितारमेहो खेलेहोशुद्धवसंत ७ जि० चा
 चरगुनरसीयालियेहो निजसाधकपरिणाम ल० कर्मप्रकृ
 तिअरतिगइहो उलसीतमरीतउद्दाम ८ जि० धिरउपयो
 गसाधनमुखेहो पिचकारीकीधार ल० उपशमरसजरी
 छांटतांहो गइतताइअपार ९ जि० गुनपर्यायविचारता
 हो शक्तिव्यक्तिअनुभूति ल० द्रव्यास्तिकअवलंबताहो
 ध्यानएकत्वप्रसूति १० जि० रागप्रशस्तप्रजावनाहो नि
 मित्तकरनउअचेद ल० निरविकलपसुसमाधिमेंहो जये
 हैंत्रिगुनअचेद ११ जि० इमश्रीदत्तप्रभुगुनेहो फागर
 मेमतिवंत ल० परपरनतिरजधोयकेहो निरमलसिद्धिव
 संत १२ जि० कारनथेकारजसधेहो एहअनादकीचाल
 ल० देवचंद्रपदपाइयेहो करतनिजजावसंचाल १३

जि० इति॥ अथ श्रीदामोदरजिनस्तवन ९॥ मोरोसा

(३३६) देवचंद्रजितगतचोवीशी.

हेवहोश्रीशीतलनाथके एदेशी ॥ सुप्रतीतेहोकरिथिर
उपयोगके दामोदरजिनवंदीये अनादिनीहोजेमिथ्या
भ्रांतिके तेहसर्वथाछेदिए अविरतिहोजेपरणतिदुष्टके
टालीथीरतासाधीए कषायनीहोकसमलताकापिकेवर
समताआराधीये १ जंबूनेहोभस्तेजिनराजके नवमा
अतीतचोवीसीये जसनामेहोप्रगटेगुणरासिके ध्याने
शिवसुखविलसीये अपराधीहोजेतुजथीदूरके नूरिभ्र
मणदुखनाधणी तेमाटेहोतुजसेवारंगके होजोएइछछा
घणी २ मरुधरमेहोजिमसुरतरुलुंबके सागरमेंप्रवहण
समो ज्वजमतांहोजेविजनआधारके प्रचुदरशनसुख
अनुपमो आत्मनिहोजेशक्तिअनंतके तेहस्वरूपपदेध
रआ परिणामिकहोग्यानादिकधर्मके स्वस्वकार्यपणेव
रया ३ अविनाशीहोजेआत्मानंदके पूर्णअखंडस्वभाव
नो निजगुणनोहोजेवर्तनधर्मके सहजविलासीदाबनो
तसजोगीहोतुंजिनवरदेवके त्यागीसर्वविभावनो श्रु
तग्यानिहोनकहांसकेसर्वके महिमातुज्ञप्रभावनो धृतिः
कामीहोनिकखाइनाथके साथहोजोनिततुम्हतणो तुम
आणाहोआराधनशुद्धके साधुंहुंसाधकपणो वीतरागथी
होजेरागविशुद्धके तेहीजज्वजयवारणो जिनचंद्रनीहो
जेजक्तिएकत्वके देवचंद्रपदकारणो ५ इति ॥

देवचंद्रजीकृतगतचोवीशी. (३३७)

अथ श्रीसुमतेजजिनस्तवन १० ॥ अतिरुडीरेरजिन
 जीनीथिरताअतिरुडी सकलप्रदेशअनंती गुणपर्याय
 शक्तिमहंतीलाल अ० तसुरमणेअनुभववती पररम
 णेजेनरमंतिलाल अ० उत्पादवयपलटंती ध्रुवशक्ति
 त्रिपदीसंतीलाल अ० उतपादेउतंपतमंती पुरवपर
 णीतवयंपंतिलाल अ० २ नवतवउपयोगेनवली गुण
 छतिथीतेनीतिअचलीलाल अ० परद्रव्येजेनविगमणी
 क्षेत्रांतरमांहीनरमणीलाल अ० ३ अतिशययोगेनवि
 दीपे परजावनणीनविछीपेलाल अ० निजतत्त्वरसेजेली
 नी बीजेकिणहिनविकीनीलाल अ० ४ संग्रहनयथी
 जेअनादि प्रणएवंनुतेसादिलाल अ० जेहनेवहुमा
 नेप्राणी पामेनिजगुणसहनाणीलाल अ० ५ थीरताथी
 थीरतावाधे साधकनिजप्रभुतासाधेलाल अ० प्रचुगु
 णनेरंगेरमतां तेपामेअविचलसमतालाल अ० ६ नि
 जतेजेजेहसुतेजा जेसेवेधरीबहुहेजालाल अ० सुधालं
 बनजेप्रचुध्यावे तेदेवचंद्रपदपावेलाल अ० ७ इति ॥
 अथ श्री स्वामीप्रज्ञोस्तवन ११ ॥ रहोरहो
 वालहा एदेशी ॥ नमिनमिरवीनवं सुगुणा
 स्वामीजिणंद नाथरे ज्ञेयसकलजाणगतूमे प्रभुजीज्ञा
 नदिणंद नाथरे १ न० वर्तमानएजीवनी एहवि

पराणितकेम ना० जाणुंहेयविजावने पिणनविछुटेप्रेम
 ना० २ न० परपरणीतरसरंगता परग्राहकताजाव
 ना० परकरतापरज्ञोगता स्योथयोएहस्वजाव ना०
 ३ न० विषयकषायअसुधता नघटेएनिरधार ना०
 तोपणवंचूंतेहने किमतारिएसंसार ना० ४ न० मि
 थ्याअविरतिप्रमुखने नियमाजाणुंदोष ना० नंदुगरहूं
 वलीवली पणतेपामेसंतोष ना० ५ न० अंतरंगपररम
 णता टलस्येकिरुयेउपाय ना० आणाआराधनविना
 किमगुणसिद्धिथाय ना० ६ न० हवेजिनवचनप्रसंग
 थी जाणीसाधकनीति ना० सुधशाध्यरुचिपणे करीए
 शाधनरीति ना० ७ न० भावनरमणप्रचुगुणे योगगु
 णीआधिन ना० रागतेजिनगुणरंगमे प्रचुदिठारतिपिन
 ना० ८ न० हेतुपलटाविसवे जोड्यागुणीगुणचकित
 ना० तेहप्रसस्तपणेरम्या साधेआतमशक्ति ना० ९
 न० धनतनुमनवचनासवेजोड्यास्वामीपाय ना० बाध
 ककारणवारता साधनकारणथाय ना० १० न० आ
 तमतापलटावतां प्रगटेसंवररुप ना० स्वस्वरुपरसी
 करे पूरणानंदअनुप ना० ११ न० विषयकषायहरट
 ली अमृतथाएएम ना० जेपरसिद्धरुचिहूवे तोप्रभुसेवा
 धरीप्रेम ना० १२ न० कारणरंगीकार्यने साधेअवसरपा

देवचंद्रजीकृतगतचोवीशी. (३३९)

मीना. देवचंद्रजिनराजनीशेवासिवसुखधामना. १३न.
 इति॥ अथश्रीमुनिसुव्रताजिनस्तवन १२॥ नमणीखमणी
 नेमनगमणीदेशी ॥ दिठोदरिशणश्रीप्रभुजीनो साचेरा
 गेमनसुंजीनो जसुरागेनिरागीथाये तेहनजाक्तिकोने
 नसुहाये १ पुद्गलआस्थारागीअनेरा तसुपासेकुणखा
 येफेरा जसुभगतेनिरभयपदलाहिये तेहनीसेवामांथी
 ररहिये २ रागीसेवकथीजेराचे बाह्यभगतिदेखीनेमा
 चे जसुगुणदाझेत्रिस्ताआचे तेहनोसुजसचतुरकिमवां
 चे ३ पूरणब्रह्मनेपूर्णानंदि दरशनग्यानचरणरसंकदि
 सकलविजावप्रसंगअकंदि तेहंदेवसंमरसमकरंदि ४
 तेहनीजगतीजवजयभाजे निगुणपिणगुणशक्तिगाजे
 दासजावप्रभुतानेआपे अंतरंगकलीमलसविकापे ५
 अध्यातमसुखकारणपूरो स्वस्वजावअनुभुतिसनरो
 तसुगुणवलगीचेतनाकीजे परममहोदयसुधलाहिजे ६
 मुनिसुव्रतप्रभुप्रजतालीना आतिमसंपतिभासनपीना
 आणारंगेचितधरीजे देवचंद्रपदसीघ्रवरिजे ७ इति॥
 अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन १३॥ कान्हैयालालएदेशी॥
 प्रभुस्युंईस्युंवीनवुरेलाल मुझवीजावदुखरीतरे साहि
 बालाला तीनकालनाज्ञेयनीरेलाल जाणोछोसहुनिति

रे सा० प्र० ज्ञेयज्ञानस्युंनविमिलेरेलाल ग्याननजा

(३४०) देवचंदजीकृतगतचोवीशी.

एतछरे सा० प्राप्तप्रप्राप्तमेयनेरेलाल जाणोजेजिम
जछरे सा० २ प्र० छतिपरयायजेज्ञाननारेलाल तेतो
नविपलटायरे सा० ज्ञेयनीनवनववर्तनारेलाल सवि
जाणेअसहायरे सा० ३ प्र० धर्मादिकसहुद्रव्यनारे
लाल प्राप्तभणीसहकाररे सा० रसणादिकगुणवर्ततारे
लाल निजक्षेत्रेतेधाररे सा० ४ प्र० जाणगअभिला
खिनहिरेलाल नविप्रतिविवेज्ञेयरे सा० कारकसक्ते
जाणवुंरेलाल जावअनंतअमेयरे सा० ५ प्र० तेहज्ञा
नसत्ताथकेरेलाल नजणायेनिजतत्वरे सा० रुचिपणते
हविनविवधेरेलाल एएमोहमहत्वरे सा० ६ प्र० मुझ
ज्ञायकतापररसीरेलाल परतृश्रायेतत्वरे सा० तेसम
तारसअनुभवेरेलाल सुमतिसेवनव्याप्तरे सा० ७ प्र० बा
धकतापलटायवारेलाल नाथभगतिआधाररे सा० प्रभु
गुणरंगीचेतनारेलाल एहिजजीवनसाररे सा० ८ प्र० अ
मृतानुष्ठानेरह्योरेलाल अमृतक्रियानेउपायरे सा० देवचं
द्ररंगेरमेरेलाल तेसुमतिदेवपसायरे सा० ९ प्र० इति॥
अथश्रीसिवगतिजिनस्तवन १४ थारामोहलाउपरमेह
झबूकेवीजलीहोलाल झ० एदेशी॥ शिवगतिजिनवरदे
वसेवआदोहिलीहोलाल से० परपरणीतपरित्यागक
रेतसुसोहिलीहोलाल क० आश्रवसर्वनिवारिजेहसं

देवचंदजीकृतगतचोवीशीं. (३४१)

वरधरेहोलाल जे० जेनिजआणालिनपीनसेवनकरेहो
 लाल पी० ४ वीतरागगुणरागनक्तिरुचिनेगमेहोलाल
 न० यथाप्रवृत्तिनव्यजीवनयसंग्रहरमेहोलाल न० अ
 मृतकृयाविधियुक्तवचनआचारथीहोलाल व० मोक्षा
 र्थीजिननक्तिकरेव्यवहारथीहोलाल क० २ गुणप्रा
 ग्नाविकार्यतणेकारणपणेहोलाल त० रत्नत्रयीपरिणा
 मतेरुजुसूत्रेनणेहोलाल रु० जेगुणप्रगटथयोनिज२का
 र्यकरेहोलाल नि० साधकभावेयुक्तशब्दनयतेधरेहो
 लाल श० ३ पोतेगुणप्रयायप्रगटपणकार्यताहोलाल
 प्र० उणेथाएजावतावसमनिरुढताहोलाल ता० संपु
 रणनिजभावस्वकार्यकीजतेहोलाल स्व० शुद्धांतमनि
 जरूपतणेरसेलीजतेहोलाल त० ४ उत्सर्गेएवंभुतते
 फलनेनीपतेहोलाल ते० निसंगीपरमातमरंगथीतेबने
 होलाल रं० सहजअनंतअत्यंतमहंतसुखेनरच्याहो
 म० अविनासिअविकारअपारगुणेवरचाहोलाल अ०
 ५ जेप्रवृत्तिनवमुलछेदउपायजेहोलाल मु० प्रभुगुणरा
 गेरक्तथायशिवदायतेहोलाल था० अज्ञथीकिसरवंश
 विसुद्धपणुठवेहोलाल वि० शुक्लबीजशशिरेहतेपूरण
 हूवेहोलाल ते० ६ तिमप्रचुथीसुचिरागकरेवितरागता
 होलाल क० गुणएकत्वेथायस्वगुणप्राग्नावताहोलाल

(३४२) देवचंद्रजीकृतगतचोवीशी.

गु० देवचंद्रजिनचंद्रसेवामांहिरहोहोलाल से० अव्या
बाधअगाधआतमसुखसंग्रहोहोलाल आ० ७ इति ॥
अथ श्रीआस्तागजिनस्तवन १५ ॥ मनमोह्युंअमारुंप्र
भुगुणे एदेशी ॥ करोसाचारंगजिनेसरु संसारविरंग
सहूअन्यरे सुरपतिनरपतिसंपदा तेतोदुरगंधिकदन्नरे
क० १ जिनआस्तागगुणरसरमी चलविषयविकार
विरुपरे विणसमकितमतेअनिलखे जिणेचारुयोसुद्धस्व
रुपरे क० २ निजगुणचिंतनजलरम्या तसुक्रोधअन
लनोतापरे नविव्यापेकापेन्नवस्थिती जिमशीतनेअर्क
प्रतापरे क० ३ जिनगुणरंगीचेतना नविवांधेअचीन
वकर्मरे गुणरमणेनिजगुणउलसे तेआश्वादेनिजधर्मरे
क० ४ परत्यागीगुणएकता रमताज्ञानादिकजावरे स्व
स्वरुपध्यातांथइ पामेशुचिखायकजावरे क० ५ गुण
करणेनवगुणप्रगटता सत्तागतरसथीतीछेदरे संक्रमणे
उदयप्रदेशथी करेनीर्जराटालेखेदरे क० ६ सेहेजस
रुपप्रकासथी थाएपूर्णानंदविलासरे देवचंद्रजिनराज
नी करज्योसेवासुखवासरे क० ७ इति ॥
अथ श्रीनमिश्वरस्वामीजिनस्ततन १६ ॥ होपीउपंखी
डा एदेशी ॥ जगतदिवाकरश्रीनमिश्वरस्वामजो तुझ
मुखदिठेनाठिभुलअनादिनिरेलो जाग्योसंम्यगज्ञान

देवचंद्रजीकृतगतचोवीशी. (३४३)

सुधारसधामजो छंछंडिदुर्जयमिथ्यानिदप्रमादतिरेलो
१. सहजेप्रगट्योनिजपरजावविवेकजो अंतरआतिमठ
हरयोसाधनसाधवैरेलो साध्यालंबीथइज्ञायकताछेकजो
निजपरणतिनिजधर्मरसेठवैरेलो २. त्यागीपरपरणती
रसरीझजो जागीआतिमअनुभवइष्टतारेलो सहजेछुटी
आश्रवजावनीचालजो जालमप्रगटीसंवरशिष्टतारेलो
३. बंधहेतूजेछेपापस्थानजो तेतूझनगतिपाम्यापुष्टप्रस
स्ततारेलो ध्येयगुणैवलगोउपयोगजो तेहथीपामेध्याता
ध्येयसमस्ततारेलो ४. जेअतिदुस्तरजलाधिसमोसंसा
रजो तेगोपदसमकीधोप्रभुअवलंबनेरेलो ५. स्याध्या
दिप्रभुतानेएकत्वजो क्षायकजाविथइनिजरत्नत्रइरेलो
प्रत्याहारकरीनेधारेधारणसुधजो तत्वानंदिपूर्णसमा
धिलयेमईरेलो ६. अव्याबाधस्वगुणनीपूरणरीतजो कर
ताभोक्ताजावेरमणपणेधरेरेलो सहजअक्रत्रीमनिर्मल
ज्ञानानंदजो देवचंद्रएकत्वेशेवनथीवररेरेलो ७ इति ॥
अथ श्रीअनीलजिनस्तवन १ ७॥देखोगतिदैवनरि एदे
शी ॥ स्वारथविणुंउपगारतारे अदभुतअतिशयरीद्धि
आत्मस्वरूपप्रकासतारे पूरणसहजसमृद्धि १ अनी
लजिनसेवीएरे नाथतुम्हारीजोडि नकोत्रिहुलोकमेरे
प्रभुजीपरमआधार अछोजीवीथोकनेरे एआंकणी पर

(३४४) देवचंद्रजिकृतगतचोवीशी.

कारजकरतानाहिरे सेव्यापारनहेत जेसेवेतनमनथइरे
तेलहेसीवसंकेत अ० २ करतानिजगुणवृत्तितारे गुण
परणीतउपज्ञोग निप्रयासगुणवर्ततारे नीत्यसकलउपी
योग अ० ३ सेवज्ञकितज्ञोगीनहीरे नकरेपरनोसहाय
तुझगुणरंगीभक्तनारे सेहेजेकारजथाय अ० ४ किरी
याकारणकार्यतारे एकसमयस्वाधीन वरतेप्रतीगुणस
र्वदारे तसुअनुन्नवलयलीन अ० ६ ग्यायकलोकालो
कनारे अतीलप्रभुजिनराज नीत्यानंदमयीसदारे देव
चंद्रसुखदाय ६ अ० इति ॥ अथ श्रीजशोधरजिन
स्तवन १८ ॥ रागमारु ॥ वदनपरवारिहोजशोधर व
दनपरवारि० मोहरहितमोहनजयायको उपसमरस
क्यारिहो व० १ मोहजीवलोहकोकंचन करेवेपारसजारि
हो समकितसुरतरुवनसेंचनको वरपुष्करजलधारिहो
वा० २ सर्वप्रदेशप्रगटसमगुणथी प्रवृत्तिअनंतअपहा
रीहो परमगुणीसेवनथेसेवक अप्रसस्ततावारीहो वा०
परपरणीतरुचिरमणग्रहणता दोषअनादानिवारीहोदेव
चंद्रप्रभुसेवनध्याने आतिमशक्तिसमारिहो वा० ४
इति ॥ अथ श्रीकृतार्थाजिनस्तवन १९ ॥ अधिकाताह
रुंहंतोअपराधि एदेशी ॥ सेवासारज्योजिनजीम

नसाचे पिणमतमागोनाई महिनतनोफलमागीलेता

देवचंद्रजीकृतगतचोवीशी. (३४५)

दासभावसवीजाइसे० १ भक्तिनहींतेतोचाढायत जे
 सेवाफलजाचे दासतिकेजेघनचरिनिरखी केकडनीपरे
 ताचेसे० २ सारिविधिसेवासारंतां आणनकांइजांजे हुक
 महाजरखीजमतिकरतां सहेजेनाथनीवाजेसे० ३ सा
 हिवजाणोछोसहुवाते स्युंकहियेतुमआगे साहिवसन
 मुखअनेमागणनि वातकारमीलागेसे० ४ स्वामीकृ
 तार्थतोपिणतुमयी आससहुकोराखे नाथवितासेवकनी
 चिंता कोणकरेविणुदाखेसे० ५ तुझसेव्याफलमाग्यो
 देतां देवपणोथायेकाचो विणमाग्यांवंछीतफलआपे
 तिणेदेवचंद्रपदसाचोसे० ६ इति ॥ अथ श्रीजि
 नेश्वरजिनस्तवनः२०॥ अंखीयांहरखनलागीहमारीअं
 खीयां० एदेशी ॥ रागपरजाति ॥ हुंतोप्रचुवारिछुंतुम
 मुखनी हुंतोजिनवलीहारीतुममुखनी समताअमृतम
 यसुप्रसननी तरेयनहीरागरुखनी हुं० १ भ्रमरअधर
 सिसधनुहरकमलदल कीरहीरपुन्यमशशीनी सोजातु
 छप्रभुदेखतयाकि कायरहाथेजिमअसीनी हुं० २ मनमो
 हनतुमसनमुखनीरिखत आंखनंतृपतिअम्हाचि मोह
 तिमररविहरपचंद्रछत्री मुरतएउपसमची हुं० ३ मन
 नीचिंतामटिप्रभुध्यावत मुखदेखंतांतुमजिनजी इंद्रित्त
 पांगइजिनेसरसेवतां गुणगातांवंचननी हुं० ४ मीनचको

(३४६) देवचंद्रजीकृतगतचोवीशी.

रमोरमतंगज जलशशीघननीचनथी तिममोप्रतिसाहि
वसुरतथी औरनचाहुंमनथी हुं० ५ ज्ञाननंदनजायानं
दन आसदासनीयतनी देवचंद्रसेवनमेंअहनीस रम
ज्योपरणातिचितनी हुं० ६ इति ॥ अथ श्रीशुद्धम
तिजिनस्तवन२ १॥ श्रीजीनप्रतिमाहोजिनसरखिकहि
एदेशी॥ श्रीशुद्धमतिहोजिनवरपूर्वो एहमनोरथमाल
सेवकजाणीहोमहिरबानीकरी नवसंकटथीटाल श्री०
१ पतितउद्धारणहोतारणवल्लु करअपणायतएह नी
त्यनीरागीहोनिरुपहज्ञाननी सुद्धअवस्थादेह श्री० २
परमानंदिहोतुपरमातमा अविनाशीतुझरित एगुणजा
णीहोतुमवाणीथकी ठहराणीमुझप्रीत श्री० ३ सुद्धस्व
रुपीहोज्ञानानंदनी अव्यावायस्वरुप नवजलानिधिही
तारकजिनेश्वरु परममहोदयभूप श्री० ४ नीरममनी
संगीहोनिरजयअविकारता निरमलसहजसमृद्धि अ
ष्टकरमहोवनदाहथी प्रगटीअन्वयरिद्धि श्री० ५ आ
जअनादनीहोअनंतअक्षता अक्षरअनक्षररुप अचल
अकलहोअमलअगमनुं चिदानंदचिद्रुप श्री० ६ अन
तज्ञानीहोअनंतदर्शनी अनाकरिअविरुद्ध लोकलोकहो
ज्ञायकसूहंकरु अनाहारीस्वयंबूध श्री० ७ जेनिजपा
सेहोतेस्युंमागीये देवचंद्रजिनराज तोपिणमुजनेहो

नयविजयजीकृतः (३४७)

शिवपुरसाधतां होज्योसदासहायः श्री ८ इति ॥ इति
देवचंद्रजीकृतत्रतीतचोवीशीनां २१ स्तवनसंपूर्ण ॥

अथ श्रीनयविजयजीकृत चोवीशी
अथ श्रीरुपनजिनस्तवन ॥ लाछलदेमातमल्हार, ए
देशी ॥ प्रणमंआदिजिणंद जगजीवनजिणचंद्र आज
हो स्वामिरे शिवगामीपाम्घोपुण्यथीरे १ हरख्यानयन
चकोर मेहदेखीजिममोर आ० माचेरेसुखसाचेराचेरं
गस्युरे २ सुरनरनारिकोडि प्रणमेवेकरजोडि आ०
निरखेरेचितंहरखेपरखेप्रेमसुंजी ३ गायेंमधुरिजास
खेलेजिनगुणरास आ० गानेरेजिनध्यानेतातेमेलवेजी
४ देखीप्रभुमुखनूर अदभूतआणंदपूर आ० वाधेरेसुख
साधेलाधेजिमनिधिजी ५ धनधनतसंश्रवतार सुकृत
सफलसंसार आ० जिणेरेसुखदायकनायकनिरखी
ओजी ६ सकलसफलतसदीह धनधनतसंशुनजीह
आ० जेणेरेगुणलीणेस्वामीसंथुण्योजी ७ शिवसंपद
दांतार गुणगणमणीचंडार आ० जाणीरेसुखखाणी
प्राणीसेवीयेजी ८ ज्ञानविजयगुरुसीस नयविजयनि
सदीस आ० गावेरेसुननवेपावेसंपदाजी ९ इति ॥

अथ श्रीअजितजिनस्तवन ॥ देशीहमीरीयानी ॥ अ

(३४८) नयविजयजीकृत.

जीतजिणोसरसेवीये बीजोश्रीजिनराज साजनजी से
व्यांशिवसुखपामीये सीझेंवंछीतकाज सा० १ अ०
एप्रभुनिजेसेवना तेतोसुरतरुकंद सा० सफलफलेत
सकामना सेवेजेहअमंद सा० २ आ० सेवाएजिनव
रताणि पामेजेकृतपुण्य सा० सफलजनमजगेतेहनो
जिविततसधन्यधन्य सा० ३ अ० पूरेपूरणकामना
चूरेदूरितदुरंत सा० सेव्योशिवसंपददीये जगतवछ
लजगवंत सा० ४ अ० करुणानिधिकरुणाकरो जग
जंतुहितकार सा० एसाहिबनीसेवना तेतोन्नवजलपा
र सा० ५ अ० न्नवन्नवन्नयन्नेदेसदा छेदेपापसमूल
सा० शिवसंपदजहजेदीये एसाहिबअनुकुल सा० ६
अ० इमजाणीजेसेवस्ये लहस्येतेसुखसार सा० नयवि
जयप्रनुप्रणमतां नितु२जय२कार सा० ७ इति ॥
अथ श्रीसंनवजिनस्तवन ॥ एसखिअमीयरसालकेचं
दोविषझरेरेकेचंदोविषझरे एदेशी ॥ श्रीसंनवजिनराय
केमुझमनमांवरुयारेके मु० देखीप्रभुमुखनुरेकहइयडो
उल्लस्यारेके हि० पाम्योहर्षअपारकेमनवंछितफल्यारे
के म० जगजीवनजिनरायके जोमुजनैमिल्यारेके
जो० १ पाम्योआनंदपुरकेदूखदूरेगयारेके दू० भेटें
श्रीजिनरायकेवंछितसविलह्यारेके वं० पाम्योन्नवज

नयविजयजीकृत. (३४९)

लपारकेसारएदिनगणुरेके सा० दीठुंजोसुखकारकेद
 रिसणजिनतणुरेके द० २ फलिआसुरतरुवारकेसार
 एदिनथयारेके सा० प्रगटयोपुण्यपडूरकेपातकसवि
 गयारेके पा० सीध्यांवंचितकाजकेआजएदिननलारेके
 आ० नगतवछलनगवंतकेदिठागुणनिहलारेके दी०
 ३ आजथयोसुकअथ्यकेजनमएमांहरारेके ज० परमपा
 वनदीदारकेदीठाताहरारेके दी० पामीनवनिद्विसिद्धि
 केरिद्विसवेमिलिरेके रु० दीठेप्रनुदिदारकेआस्यासवि
 फलीरेके आ० ४ नाठामांठादूरकेदुसमनजेहतारेके
 दु० फिरियनआवेंतेहकेतोहेवलिछतारेके तो० गयांस
 विकर्मकुर्मकेशर्मआवीमील्युरेके श० जेटश्रीनगवं
 तकेवंचितसविफल्युरेके वं० ५ महिरकरिमहाराजके
 चरणेराखियेरेके च० सेवकतुंमुझएमकेसुवचनआखिये
 रेके सु० होयेंवंचितसिद्धिकेप्रवचनसाखीएरेके प्र० अत्र
 सरपांमिस्वामिकेदरिसणदाखियेरेके द० ६ तुम्हसे
 वायीस्वामीकेसिवसुखचाखीयेरेके सी० एतलेंकोडि
 कल्याणकेघणुंरुंजापीयेरेके घ० ज्ञानविजयगुरुसी
 सकेंप्रणमवलीवलीरेके प्र० तुहचरणवुजसेवकेहोयो
 वलीवलीरेके हो० ७ इति ॥ अथ श्रीअजिनं

दनजिनस्तवन ॥ निंदडलिवरणहोइरहि एदेशी ॥

अग्निनंदनअरिहंतजी अवधारोहोसेवकअरदासके
 दासजाणीमुझदीजयि मनवंछितहोसुखलीलविलासके
 १ अ० पूरवपूण्येपांमीओ सुखकारणहोजगतारणदे
 वके सेवकजाणीसाहिबा हवेसफलीहोकीजेमुझसेवके
 २ अ० सेवकजननीसेवना प्रभुजाणोहोमननाणोकेम
 के बुझोपणरिझोनहिं एकांगीहोकिमहोयेप्रेमके ३
 अ० सामान्यजननीचाकरि सहीसफलीहोहोयेंवीस
 वावीसके प्रचुसरिखानीसेवना किमथायेहोविफलीज
 गदीशके ४ अ. सेवकजेसेवसदा तेपामेहोजोवंछित
 कामके सेवकसुखीएप्रभुतणी सहीवाधेहोजगमांहि
 मामके ५ अ. साहिवतेसाचोसहि जेसेवकहोकरेआप
 समानके जोलीजगतेरीझीने जेआपेहोमनवंछीतदा
 नके ६ अ. इमवहुजगातेविनव्यो जगजीवनहो
 अग्निनंदनदेवके नयविजयकहेसाहिबा मुझहो
 ज्योहोजवरतुझसेवके ७ अ० ॥ इति ॥
 अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ देशीनणदलनी ॥ साहि
 बबाहुजिनेसरवीनती एदेशी ॥ साजनसुमतिसदाचित
 धारिये वारीयेकुमतिप्रसंगहो साजनकलिमलदूरे
 डारिये तारीयेआपसुरंगहो सा० १ सा० सुमतित
 णीजेसेवना तेसाचोशिवपुरपंथहो सा. परिचयएहस्युं

जेहने तेकहियेनिग्रंथहो सा० २ सा० सुमतिप्रसंगे
 जेरहे तेलहेआनंदपुरहो सा० रहेसदासहितेहथी कु
 मतिकदाग्रहदूरहो सा० ३ सा० जेजगुसुमतिमतिहो
 ये लहेतेवंचीतकोडिहो सा० सुरवरकिंनरनरवरा (से
 वेछेकरजोडिहो सा० ४ सा० सेवेजेनितुसुमतिनेत
 सर्वाधेअनूपमनूरहो सा० शुभमतिसुरेगतिशिवगति त
 सहोयेंसहजेपुरहो सा० ५ सा० कीरतीकमलातेवरे
 तेतरेजवजलपारहो सा० संकलवंचितसफलांफले ज
 समलेसुमतिविचारहो सा० ६ सा० इमजाणीनितुसे
 विये सुमतिरदातारहो सा० नयविजयप्रभुप्रणमतां
 नितुजयकारहो सा० ७ सा० इति ॥ अथ श्री
 पद्मप्रभुजिनस्तवन ॥ अलीरेकवहीआवेगो एदेशी ॥
 पदमप्रभुजिनसेवना मेंपामीपूरवपूण्यहो जनमसफल
 एमाहरो हुंमानुंएदिनधन्यहो प० १ वीनतीनिजसेव
 कतणी अवधारीदीनदयालहो सेवकजाणीआपणो ह
 वेमयरकरोमयालहो २ प० दुपमारेजोप्रभुमिल्यो तो
 फल्योवंचितकाजहो मानुंतरतांजलनिधी मेंपाम्युं
 सफरिझाझहो ३ प० चउगयमहाकांतारमां हुंजमीयो
 वारअपारहो चरणशरणहवेआवित्रो तार२ किरतारहो
 ४ प० सेवनादेवनादेवनि जोपामीमेंकृतपुण्यहो सफ

(३५२)

नयविजयजीकृत.

लजनमहुंएगणुं गणुंजिवितहुंधन्यधन्यहो ५ प. ध
न्यदीवसधन्यतेघडी धन्य२एवेलामुझहो मनवचन
कायायेकरि जोसेवाकरियेतुझहो ५ प. महिरकरि
प्रभुमाहरी पुरज्योवांचितआसहो ज्ञानविजयगुरु
सीसने देयोतुह्मचरणेवासहो ७ प. इति ॥

अथ श्रीसुपासजिनस्तवन ॥ कलालनीतेमारोराजेद
मोहिआहोलाल एदेशी ॥ सुपासजीसाहिवमुजरोमा
नयोहोलाल जगवल्लभजगबंधु सुपासजीसेवकजाणी
कीजीयेहोलाल करुणाकरुणासिंधु सु० १ सा० सु०
सातराजअलगारह्याहोलाल पणप्रचुरस्युंवहुनेह सु०
चंदचकोरतणीपरेहोलाल जिमवपइयामेह सु० २
सा० सु० मतजाणेप्रभुविसरोहोलाल वसीयेजोपण
दुर सु० ध्यानसंध्यानेधीरकर्याहोलाल छोअमचित
हजुर सु० ३ सा० सु० प्रभुगुणजेअमचितमांहोलाल
वसीयाछेमहमुर सु० लोहलिखितचित्रामज्युंहोलाल
तेनहिहोयेदुर सु० ४ सा० सु० रसनातुह्मगुणरागीणीहोला
ल मनमांहिप्रभुध्यान सु० वांचिनयनदीदारनेहोलाल
सुणीगुणहरषेकान सु० ५ सा० सु० इममनवचनका
याकरिहोलाल समरुंहुंनिसदिस सु० जोसेवककरिले
खवोहोलाल तोपुरोमनहजगीस सु० ६ सा० सु० के

तीकिजेविनतीहोलाल जिनजीचतुरसुजाण सु० नयक
हेहरखोनिरखीयेहोलाल एतलेकोडिकल्याण सु० ७
सा० इति ॥ अथ श्रीचंद्रप्रभजिनस्तवन ॥ इड
रत्रांवात्रांवलरी एदेशी ॥ चंद्रप्रभजिनचंद्रमारे उद
योसहजसनुर पापतापदूरेमीट्योरे प्रगट्योत्रानंद
पुर १ नविकजनप्रणमोएजिनचंद दरिशाणपरमानंद
न० आंकणी ॥ चतुरचकोराहरपीयारे पसरयोपुण्य
प्रकाश ज्ञानजलनिधियेंउल्लस्योरे उपसमलहरिविला
स २ न० चारित्रचंद्रिकाचिहुदिशेरे पसरिनिरमल
नूर करममरमराहुगयोरे नासीजेहथीटुर न० ३ स
मकितकैरवकांननेरे प्रगट्योपरमविकास मिथ्यामति
कमलाकरेरे पास्योमुंद्रावास न० ४ करुणानेमध्य
स्थतारे मुंदितामेत्रीचंग च्यारदिसेजसउदयथीरे वा
ध्योअतिउछरंग न० ५ शुद्धक्रियासविउपधीरे पामी
रुचीपीयुप मुगतिफलसफलीफलेंरे सरगकुसुमसजूप
न० ६ अकलंकीउदयीजपोरे अनुपमएजिनचंद नय
विजयप्रभुप्रणमतारे नितु२परमानंद न० ७ इति ॥
अथ श्रीसुविधिजिनस्तवन ॥ प्रथमगोवालातणेंनवे
जी एदेशी ॥ ज्ञानीसिरचूडामणीजी जगजीवनजिन
चंद मलीओतुंप्रनुएसमेजी फलीओसुरतरुकंद १ सु

(३५४)

नयविजयजीकृत.

विधिजिनतुह्यस्युंअविहडनेह जिमवपइयामेह सु०
मानुंमइमरुमंडलेजी पाम्योसुरतरुसार भुख्यानेजो
ननलुजी तरस्याअमृतवारि २ सु० दूषितदूषमाका
लमांजी पुरवपुण्यप्रमाण तुंसाहिवजोमूझमित्योजी
प्रटयोआजविहाण ३ सु० समरणपणप्रभुजीतणुंजी
जेकरेतेकृतपुण्य दरिसणजेएअवसरेजी पामेतेधन्यध
न्य ४ सु० धन्यदिवसधन्यएघडीजी धन्यमुझवेलारे
एह जगजीवनजगवालहोजी भेटचोतुंससनेह ५ सु०
आजनलीजागीदसाजी जागीजावडदूर पांमीवांछित
कामनाजी प्रगट्योसहजसनूर सु० अंगीकृतनिजदा
सनीजी आसापूरोरेदेव नयविजयकेहेतोसहिजी सुगु
णसाहिवनिसेव ७ सु० इति ॥ अथ श्रीशीतल
जिनस्तवन ॥ शीताहोसखिशिता एदेशी ॥ सेवोहेस
खीसेवोशीतलनाथ साथजहेसखीसाथजएशिवपुरत
णोजी महमहेहे स० महमहेजासअनूप महिमाहे
स० महिमामहिमाहेघणोजी मोटोहेस० मोटोएजग
दीस जगमाहे० जगमाहेप्रभुजाणीयेंजी अवरनहे०
अवरनकोइईस एहनीहे० एहनिओपमाआणीयेंजी१
प्रनुताहे० प्रनुतानोनहीपार सायरहे० सायरपरेगुण
सणिचरचोजी मूरतिहे० मूरतिमोहनगार हरिपरिहे०

हरिपरिशिवकमलावरच्योजी तारकहे ० तारकजहाजज्युं
 एह आपेहे. आपेचवजलनितरुच्योजी सुरमणीहे, सुरम
 जिमसदैव संपदहे ० संपदसवित्रलंकरच्योजी २ एस
 महे ० एसमत्रवरनदेव सेवाहे ० सेवाएहनीकीजियें
 जी किजेहे ० किजेजनमकयथ्य मानवहे ० मानवचवफ
 ललीजियेंजी पुरेहे ० पुरेवांछितआस चूरेहे ० चूरे
 चवचयआपदाजी सुरतरुहे ० सुरतरुजेमसदैव आ
 पेहे ० आपेशिवसुखसंपदाजी ३ धनधनहे ० धनधन
 तसत्रवतार जेणेहे ० जेणेतुप्रचुनेटिओजी पातकहे ०
 पातकतसगयांदूर चवचयहे ० भवचयतेणैमैटीओजी
 पामीहे ० पामितेणेनवानीधि सिद्धिजहे ० सिद्धिजसघ
 लीवशकरीजी दुरगतिहे ० दुरगतिवारिदूर केवलहे ०
 केवलकमलातिणेवरीजी सेवाहे ० सेविसाहिवएह ह
 रिहरहे ० हरिहरनेकहोकुणनमेंजी चाखिहे ० चाखि
 अमृतस्वाद वाकसहे ० वाकसबूकसकुणजमेजी पामी
 हे ० पामीसुरतरुसार वाउलहे ० वाउलवनमांकुणजमे
 जी लेइहे, लेइमृगमदवास पासेहे, पासेलसणनेकुणर
 मेंजी ५ जाणीहे ० जाणीअंतरएम एहसुंहे ० एहसुंप्रेम
 जराखीयेजी लहियेहे, लहियेंकामितकाम शिवसुखहे,
 शिवसुखसहेजेचाखीयेजी नयविजयहे, नयविजयकहे

धन्यतेह अहानिसिहे. अहानिसिजेसेवाकरेजी पामेहे. पा
 मेनवनिधिसिद्धि संपदहे. संपदसघलीतेवरेजीइति ॥
 अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ रहोरहोरहोवाजहा ए
 देशी ॥ श्रीश्रेयांसजिणंदजी अवधारोअरदासलालरे
 दासकरीजोलेखवो तोपुरोमनआसलालरे १श्री० मो
 टानाहनाआंतंरुं लेखवेनहीदातार ला० समविषमस्थ
 लनविगणे वरसंतोजलधार ला० २ श्री० नाहनाने
 मोटामिल्या सहितेमोटांथाय ला० वाहुलीयागंगामि
 ल्या गंगप्रवाहकहाय ला० ३ श्री० मोटानेमोटाक
 रो एतोजगतणीरीत ला० नाहनाजोमोटाकरो तोतु
 ह्मेप्रेमप्रतीत ला० ४ श्री० गुणअवगुणनविलेखवे अं
 गीकृतजेअमंद ला० कुटिलकलंकिजिमवह्यो इश्वरसी
 सेचंद ला० ५ श्री० अवगुणीयेपणआलग्या गुणवं
 ततुंनगवंत ला० निजसेवकजाणीकरि दीजेसुखअनं
 त ला० ६ श्री० घणीशीवीनतीकीजीये जगजीवन
 जिननाह ला० नयविजयकहोकिजीये अंगीकृतनिरवा
 ह ला० ७ श्री० इति ॥ अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्त
 वन ॥ साहेलडीनि एदेशी ॥ श्रीवासुपूज्यजिणंदजी
 ससनेहाजी तुह्मस्युंअविहडनेह गुणगेहाजी चोलमजी
 ठतणीपरे स० जिमचात्रकनेमेह गु० १ प्रभुगुणरंगेरंजी

या स० मुद्गमनवचननेकाय गु० जगतसकलतसमाहि
 माये स० तनमयतायेलखाय गु० २ अविहडरंगजे
 प्रभुतणो स० वेठोअममनआय गु० क्रमजीरंगतणी
 परे स० जुनोकिमहिनथाय गु० ३ प्रचुगुणरंगसुरंग
 स्युं स० रंग्युंजेअममन गु० तरंगकिमहिनउतरे स०
 कोडिकरेकोप्रयतत्त गु० ४रंगसुरंगएप्रभुतणो स० अ
 ममनअतिहीसुहाय गु० हरखेस्युंनितुनिरखतां स०
 आनंदअंगनमाय गु० ५ भवरअह्यएहोयज्यो स० प्र
 भुतमगुणस्युंरंग गु० वंछितदायकदायस्ये स० अह्य
 एरंगअचंग गु० ६ महिरकरिमहाराजजी स० जाणी
 सेवकचंग गु० नयविजयकहेआपज्यो स० प्र
 भुगुणरंगअचंग गु० ७ इति ॥ अथ श्रीविमल
 जिनस्तवन ॥ माहरीसहीरेसमाणी एदेशी ॥ विमल
 जिणोसरमुद्गपरमेसर अलवेसरउपगारिरे सुणसाहिव
 साचा जगजीवनजिनराजजयंकर मुद्गनेतुजसुरतिप्या
 रिरे १ सु० महिरकरिजेवंछितदीजे सेवकचित्तधरिजे
 रे सु० सेवाजाणीशिवसुखपाणी चक्तिसहिनाणीदीजे
 रे २ सु० कामकुंजनेसुरतरुथीपण प्रभुभगतिमुद्गप्या
 रिरे सु० जेहोयेखिणएकलगेसेवी शीवसुखनिदातारि
 रे सु० ३ नगतिसुवासनावासेवासित जेहोयेचवि

प्राणारे सु० जीवनमुक्तचिदानंदरूपी तेकहियेशुद्धना
 णारे सु० ४ प्रभुतुमन्नक्तिणीअतिमोटी शक्तिएजग
 मांव्यापारे सु० एकवारपणभावेसेवी चिदानंदपदआपे
 रे सु० ५ पूरणपूरवपुण्यपसाये जोतुह्यन्नगतिमेंपामी
 रे सु० तोहुंदुत्तरएन्नवदरियो तरिआसहजेस्वामिरे सु०
 ६ साहिवसेवकजाणीसाचो नेकसुनजरेजोज्यारे सु०
 नयविजयकहेन्नव२जिनजी तुह्यन्नगतिमुन्नहोज्यारे सु०
 ७ इति ॥ अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ कोइलो
 परवतधुंधलारेलो एदेशी ॥ सहजसनेहिसेवियेरेलो
 साहिवअनंतजिएंदरे सुगुणनर सेव्यांसंपदपामीयेरे
 लो दरिसणपरमानंदरे सु० १ स. सकलगुणेकरिसोन्न
 तारेलो जगजीवनजिनचंदरे सु. सेव्योवांचितसविदीये
 रेलो साचोसुरतरुकंदरे सु. २ स. आजगमांहिजोयतां
 रेलो एसमनहिदाताररे सु. खिएणएकसेव्योसाहिवारे
 लो आपेसुखअपाररे सु. ३ स. सकलसुरासुरजेहने
 रेलो सेवेवेकरजोडरे सु. जगतिनावआणीघणारेलो
 प्रणमहोडाहोडरे सु. ४ स. छर्जीवकायरक्षाकरेरेलो
 दुहवेनहीतीलमातरे सु. क्रोधादिकथीवेगलारेलो अरि
 हंततेहविरुयातरे सु. ५ स. रिद्धिअनंतीप्रभुतणारे
 लो कहतांनआवेपाररे सु. तोहिपणअपरिअहिरे

नयविजयजीकृत. (३५९)

लो कहियेएकिरताररे सु. ६ स. शक्तिअनं
 तीप्रभुतणीरेलो कुणकहिपामेपाररे सु. नयविजयप्र
 भुप्रणमतारिलो नितुरजय२काररे सु. ७ स. इति ॥
 अथ श्रीधर्मजिनस्तवन ॥ देशीवणजारानी ॥ नवि
 सेवारेवांछितफलदातार शिवसुखकारकधर्मने न. न.
 जिमलहोसुखश्रीकार पामोवलिशिवशर्मने भ. १
 भ. जिमलहोनवनिद्धीसिद्धी रिद्धिसकलआविमिले
 न. न. वाधेवहुलिवृद्धि बुद्धिसवेसफलीफले न. २
 न. सफलफलेमनआस सजनजनमेलोमले न. ना
 वेदोहगपास रोगसोगदुरेटले न. ३ न. सुरतरुसुर
 मणीजेम पूरेकामितकामना न. राखोनितुइकतार म
 तहोजोमनहुमना भ. ४ भ. पुरवपुन्यपसाय पामीये
 नितचितधरो भ. कुगुरुकुदेवकुधर्म कुमतिकदाग्रहप
 रिहरो न. ५ न. नित२मंगलच्यार एसेवंतांपा
 मीए न. पामीएवोनाथअवरनाथाकेमकामिये
 भ. ६ न. एसमअवरनकोइ जोइ२जोयतां भ. नय
 विजयकहेनवनिद्धिहोवे एप्रभुप्रसनहोइतां भ. ७ भ.
 इति ॥ अथ श्रीशांतीजिनस्तवन ॥ ढालदेशी
 विछीयानि ॥ साखिसेवाशांतिजिणंदने मनआणिअति

उछाहरे एप्रचुनीजेसेवना तेमानवभवनोलाहरे १

(३६०) नयविजयजीकृत.

स. सेवाजेएजिनतणी तेसाचीसुरतरुसेवरेएजगमांहि
जोयतां अवरनएहवोदेवरे २ स. भगतिचावश्राणीघ
णो जेसेवेएनिसदीसरे सफलसकलमनकामना तेपा
मेविसवाविसरे ३ स. खिणइकसेवाप्रभुतणी तेपूरेका
मितकामरे मानुत्रिभुवनसंपदा करुंएउतमधामरे स.
४ जनमसफलजगतेहनो जेपाभ्योप्रभुनीसेवरे पुण्य
सकलतसप्रगटीयां तसत्रूठात्रिभुवनदेवरे स. ५ शिव
सुखदायकसेवना एदेवनादेवनजिहरे पामीनेश्रााराध
स्ये शिवसुखलहस्येतेहरे स. ६ इमजाणीनितुसेवीये
जिमपोहचेवंछितकोडिरे ज्ञानविजयवुधरायनो इम
सीसकहेकरजोडिरे स. ७ इति ॥ अथ श्रीकुंथु
जिनस्तवन ॥ ढाल नाहलीयेविलुद्धिओलंनोदिइरे ए
देशी ॥ कुंथुजिनेसरसाहिबविनतीरे अवधारोअरिहंत
प्रभुस्युंप्रीतिअछेमुझनेघणीरे तेनिरवहियेसंत १ कुं.
माहिमंडलमांदेवअछेघणारे हुंनकरुंतससेव तुझविणअ
वरनकहीयेओलगुरे तुमुझएकजदेव २कुं. अवरनसेवु
कहीयेदेवतारे तुमविणादिनदयाल जलधरजलविण
अवरनआदररे जिमजगेचातकवाल ३ कुं. अंगीकृतजो
निरवाहोप्रचुरे तोपुरोमनआस दासतणीएआशापुरतां
रे साहिबनेस्यावास ४ कुं निसीदिनजावेसाहिबसे

वतारे जोनहीपूरोआस तोएजगमांप्रचुजीतु
 मतणारे कुणकरसेविसवास ५ कुं. मोटानिश्चयआ
 सापुरवेरे जोसेवेधरनिह जुओएजगमांचातकवालनी
 रे पूरेआस्याएमेह ६ कुं० इमजाणिनेसाहिवपूरवि
 रे निजसेवकनीआस नयविजयकहेतुह्यचरणंबुजें
 रे देयोआविचलवास ७ कुं० इति ॥ अथ श्री
 अरजिनस्तवन ॥ ढालदेशनिणदलनी ॥ प्रणमोप्रेमे
 प्रहसमे जिनवरश्रीअरनाथ नवियण एजगमांहिजो
 यतां साचोशिवपुरसाथ न० १ प्र० सुखदायकसाहि
 वमिल्यो तोफल्योसुरतरुवार न० देखीप्रचुदेदारने
 पामीजेनवपार न० २ प्र० नामथीनवनिधीपामीये
 दरिसणदूरितवलाय न० प्रहसमेप्रेमेप्रणमतां नवर
 पातकजाय भ० ३ प्र० सुरतिएजिनवरतणी साचीसु
 रतरुवेल न० निरखतांनितुनयणस्युं उगमेश्रानंद
 रेल न० ४ प्र० शांतिसुधारससोन्नरि एमूरतिमनो
 हार न० प्रणमेजेनितुंप्रेमस्युं धनरतसश्रवतार न०
 ५ प्र० पुण्यहसेतेपामसे एजिननिनितुसेव न० सकल
 गुणेकरिसोन्नतो अवरनएहवोदेव न० प्र० चरणकम
 लएप्रभुतणां सेवंतानिसदिस न० नयविजयकहेसंप
 दा पामीयेविसवाविस न० ७ प्र० इति ॥

अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ ढालमुझलाजवधारोरे ए
 देशी ॥ श्रीमल्लिस्वामिरे प्रणमुशिरनामीरे मेंपुण्येपा
 मिसेवातुम्हतणारे १ प्रगटयोमुझपुण्यरे हुंमानुंधन्यरे
 जोमेंकृतपुण्यतुंसाहिवपामीत्रोरे २ पाभ्योसुखपुररे
 गयादुशमनदुररे सहजसनुरतुंजोमिचेटिनुरे ३ निरपी
 प्रभुनितरे हरषेमुझचित्तरे जेममित्तेंपंकजवनहसरे ४
 प्रनुस्युंवहुनेहारे जिममोरामेहारे साहिवससनेहारे
 केतुतेकहुंरे ५ जाणीनीजदासरे पुरोमुझत्रासरे आपो
 सुविलासएवुधीविजनोरे ६ ज्ञानविजयवुधसीसरे विनवे
 जगदीसरे होयोप्रभुइसतुंनवरमाहरारे ७ इति ॥

अथ श्रीमुनिसुव्रतजिनस्तवन ॥ देशी मोतीडानी ॥
 साहिवश्रीमुनिव्रतस्वामि करुंवीनतीचरणेशिरनामि
 साहिवाविनतीअवधारो जीवनतुझदरिसणप्यारो मो
 हनामनमोहनगारो सा० आंकणी करुणानिधिकरुणा
 अवधारो दुत्तरएन्नवसायरतारो २ सा० सेवककोडि
 गमेतुझजोइ किंकरहुंपणगणवोतोइ ३ सा० जगतव
 लालजोविरुदधरिजे तोमुझमनवांछितसुखदीजे ४ सा०
 जोपणहुंनविशुद्धिचरणे तोपणहुंआव्योतुझशरणे ५
 सा० गुणअवगुणमुझकेमविचारो पतितपावननिजवि
 रुदसंचारो ६ सा० जोपणहुंबहुअवगुणनारीओ तोप

एमेंप्रचुत्राणुंसरित्रो ७ सा० अवगुणपणगुणकरिने
लीजे अंगीकृतनिरवाहकरिजे ८ सा० घणीसीवीन
तीस्वामीकीजे नयविजयकहेबोधीबीजदीजे ८ सा०
इति ॥ अथ श्रीनमिजिनस्तवन ॥ देशी यदु

यरायानी ॥ श्रीनमीनाथजिणंदजीरेलाल अवधारी
अरिहंत जिनराया सेवकजाणीआपणारेलाल दीजेसू
खअनंत जि० १ श्री० सेवुंहुंनिश्चलमनेरेलाल निसि
दिनवेकरजोड जि० तोपणजोरिझोनहीरेलाल तोसी
खिजमतिपोड जि० २ श्री० सेवकसहुसरिखागणरेला
ल जेहोयेचितमहंत जि० ससिउदयसायरवधरेलाल
कैरवपणविकसंत जि० ३ श्री० अंजलिकुसमेंवासी
येरेलाल सरिखाइकरदोइ जि० तिमउत्तमनीसेवनारे
लाल सहुस्युंसरिखीहोइ जि० श्री० पांतिपटंतरनवि
करेरेलाल जेहोयेदातार जि० खेतरओपरनविगणरे
लाल वरसंतोजलधार जि० ५ श्री० येमजाणिमन
आणियेरेलाल पूरणप्रेमविलासजि० सहजसनेहिसा
हिवारेलाल पुरेवंछितआस जि० ६ श्री० देजोचरणनि
सवनारेलाल महिरकरिजगदिस जि० नयविजयइमदि
नवेरेलाल ज्ञानविजयगुरुसीस जि० ७ श्री० इति ॥

अथ श्रीनेमजिनस्तवन ॥ धनविंदलीमनेलागो एदेशी ॥

नवित्रणवंदो ज्ञावस्युं साहिवनेमिजिणंदमोराजाल
 ज्ञावस्युंनितवंदतां लहियेपरमाणंद मो० १ न० ब्रह्म
 चारिचुडामणि साचोएबडवीर मो० मदनमतंगजकेस
 री मेरुमहिधरधीर मो० २ भ० रुपश्चनंतुजिनतणुं
 सोहेसहजसनूर मो० हरखेनयणेनिरखतां पसरेप्रेम
 पडुर मो० ३ न० गुणश्चनंताप्रचुतणा कहतांनच्चावे
 पार मो० निरुपमगुणगणमणितणो मानुंएचंडार मो०
 ४ न० वदनश्चनोपमजिनतणुं एमुझनयणचकोर मो०
 निरखीहरखेचितमां उमगेश्चानंदजोर मो० न० ५ श्र
 तुलीबलश्चरिहंतजी नयचंजननगवंत मो० कामितपू
 रणसुरतरु केवलकमलाकंत मो० ६ न० राजीमति
 मनवालहो यादवकुलसणगार मो० नयविजयप्रभु
 वंदतां नितु२जय२कार मो० ७ न० इति ॥

अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन ॥ आश्चर्युश्चालीरातडिरे ए
 देशी ॥ प्रवलप्रज्ञावेपरगडोरे पुरिसादाणीपास नवि
 त्रणवंदो कामगविसुरमणीपरेरे पूरेवंछितश्चास न०
 १ वंदो२रेसुजाण नवित्रणवंदो वंदो२श्रीजिनपास
 नवित्रणवंदो आंकणी. नीलकमलदलपरिचलारे दि
 पेतनुंपरकास न० हरखेनयणेनिरखतारि उपजेश्चधी
 कउल्लास न० २ निरखी२हरखीयेरे साहिवसहजस

नूर ज० तेजझलामलझलहलेरे जाणेउग्यासूर ज०
 ३ रत्नजडितअविराजतारे कुंडलसोहेसनूर ज० मानुं
 दोयेसेवाकरेरे शशिरविश्राविहजूर ज० ४ मणिमय
 मुकुटमनोहरुरे सोहेसिरधर्योसार ज० मानुंतारापरव
 रघोरे चंद्रएसेवागार ज० ५ सुंदरशिवरमणीवरघोरे
 परवरघोज्ञानअनंत ज० चिदानंदचिनमूरतिरे अक
 लंकीअरिहंत ज० ६ कामितरपूरणोरे पापतिमिरज
 रजाण ज० नयविजयप्रभुदरिसणोरे नितुंकोडिक
 ल्याणं ज० ७ इति॥

अथ श्रीमहावीरजिनस्त
 वन ॥ देशीपंथीडानि ॥ सुगुणससनेहावीरजीवीनतीरे
 अवधारोश्रीजिनरायरे दरिसणदीठेप्रभुजीतुमतणोरे
 अहमनहरखघणोरोथायरे १ सु० निरमलतुह्यगुणगं
 गाजलेरे झीलीअहनिसीमुह्यमनहंसरे निरमलहोये
 कलिमलनासथीरे पीलेकरममरमजरअंशरे २ सु०
 केवलकमलाकंतमनोहरुरे जेटिजावेतुंजगवंतरे मानुं
 मानवजवसफलोसहिरे पाम्युंवंछितसुखअनंतरे ३ सु०
 देवदयाकरठाकुरजोमिल्योरे तोफलयोसकलमनोरथ
 आजरे सेवकसेवाश्राणीचितमारे पुरोमुह्यमनवंछित
 काजरे ४ सु० प्रभुजीतुह्यमनमांसेवाथकीरे हुंवसुंएतो

मोटिवातरे पणहुंपाचुंतुह्यचितमारे जिनजीवसजेदिन

नेरातरे ५ सु० प्रभुजीतुझचरणां वंजसेवनारे सफली
 फलज्योन्नवरे देवरे होयोमुझतुझशासनवासनारे वलीतु
 झचरणकमलनीसेवरे ६ सु० चरमजिणेसरभुवनदिणे
 सरुरे पूरयोसेवकवंछितआसरे ज्ञानविजयबुधसी
 सइमवीनवेरे नयविजयआणिमनउल्लासरे ७ सु० इति॥
 कलसा॥ रागधन्यासी ॥ गात्रो२ नविचउविसेंजिनराय
 इणिपरेजिनवरनागुणगातां मनवंछितसुखथाय १ गा०
 गुणअनंताजिनवरकेरा मुझथीकिमकहाय तोहिपण
 निजशक्तिभगति किधोस्तुतिउपाय २ गा० जिनवर
 गुणगातांअतिनिरमल वरतेंअध्यवसाय पामेवोधीवि
 जस्तुतिथीएंम प्रवचनवचनसहाय ३ गा० जिनवर
 णनसुवरणएमाला कंठधरोरेसुहाय नवनिद्विरिद्विसि
 द्विसयंवरलक्ष्मी सहजेवरेज्युंआय ४ गा० संप्रतिगो
 यमसोहमसरिखा श्रीविजयप्रभसुरिराय तेगुरुचरण
 कमलसेवाथी पामीअधीकपसाय ५ गा० सत्तरछेता
 लेकार्तिकमासे सुदितेरससुखदाय उन्नतपुरमांजिन
 चोविसें गायाधरीउल्लाय ६ गा० सकलपंडितसिरमु
 कुटनगीनो श्रीज्ञानविजयबुधराय तेगुरुचरणपसायें
 जिनना नयविजयगुणगाय ७ गा० इति ॥ श्रीनय
 विजयजीकृतचोवीसीसंपूर्ण ॥

अथ श्रीहंसरत्नजी कृत चोवीशी.

अथ श्रीरुपनदेवस्तवन ॥ अजवरंगावोसाहेवाचून
 डी ॥ एदेशी ॥ सकलवंचितसुखआपवा जंगमसुरतरु
 जेह छिदिवारु नाचिनरिंदकुलकेसरी त्रिविधेसेवाते
 ह १ छिदिदारु जेमरुदेवीनोजात छि० जेमरतभ्रामी
 नोतात छि० जेविश्वमाहेविख्यात छि० पूरवपून्येमेंल
 ह्यो ज्ञागीचवनीभ्रांत छि० पूरव० आंकणी, जुगलांध
 मजेणेउधरो प्रथमजेहराजान छि० विश्वरचनासंघली
 दाखाने टाल्युंजिणेअज्ञान छि० २ जे० छि० प्रगटक
 रीनेसहुनेसीखव्या सकलसंसारसुत्र छि० भरतप्रमुख
 थापाराजवी सोदेसेसोपुत्र छि० ३ जे० छि० दानदेइने
 दीक्षाआदरी त्रीनेवनजनहीतकाज छि० धर्मतीर्थच
 क्रीएहवुं विरुदधरचुंमाहाराज छि० ४ जे० छे० इंद्रचो
 सठउजोउलगे जुगतेजोडीपाण छि० समवसरणेसहुको
 सांचले देसनामंधुरीवाण छि० ५ जे० छि० लाखचोरा
 सीपुरवअनुक्रमे पालीनेपरमाय छि० जन्ममरणबंधन
 त्रोडीने पाम्यापंचमठाय छि० ६ जे० छि० हंसरत्नकर
 जोडिकहे साहिवरीपन्नजिणंद छि० चरणयूगलसेवा
 नवोभवे आपोअधिकआणंद छि० ७ जे० छि० इति ॥

अथ श्रीअजितजिनस्तवन ॥ इडरआवाआवलीरे ॥

मेढ्योरे सलुणोसाहिवो बहुगुणपूरौरे मुजनेअतिप्या
 रो आंकणी कुमतीकदाग्रहममताजागी कांडसुमतिदि
 शा सु० हवेजागीरे १ स० सुरतिसाहिवनीअतिमी
 ठी कांडबहूपुन्य व० आजमेंदीठीरे स० मनमोहन
 मुजस्वामीमिजीओ बहुदिननो व० अलजोटलीओरे
 स० २ हवेप्रभुसाथेरहुमनमंडी कांडआराधुं आ० आ
 लसछंडीरे स० दिलजरतुजथीवेदिलनथाउ विजाइयुं
 कांड वि० चितनलाउरे स० रातदिवसताहरागुणगा
 उ कांडलयलाइ ल० मनमांध्याउरे स० ताहरीमोज
 सवाइपाउ कांडअंतरपट अं० दुरेगमाउरे स० ४ तुं
 साहेबसमतारसरसीयो कांडमुजमनमां मु०
 वासेवसीओरे स० हंसरत्नकहेसीरनामी कांड
 तुंजीवन तुं० अंतरजामीरे स० ५ इति ॥

अथ श्रीपदमप्रभजिनस्तवन ॥ वेडलेचारघणोछेराज
 वातोकीमकरोछो एदेशी ॥ पदमप्रभअजिनवपद्माक
 र बंधुसमोप्रतिजासे अरुणतरुणउपमतनुजेहनुं प्रत
 पतेजप्रकासे १ एहवोसहिजसलुणोस्वामी मुजमन
 लागोतेहस्युं आंकणी पूरवदिसेप्रगटेजिमदिनकर ति
 मसुसीमाकुखेउदयो निजकुलउदयाचलसीरसोहे रंज
 नरक्तमयुखे ए० २ बोधदिवसदेखीपाखंडी घुकपलाये

दुरे नविजनमनपंकजवनमंजरी विकसेप्रेमपदुरे ए० ३
 ग्रहगणनीपरेहरीहरदेवा दिसेसहजेदिना सुमतिवधु
 नोसंगलहीने मुनिचकवारहेलीना ए० ४ कुमतीकदा
 ग्रहहिमपरिसरने प्रवलप्रतापेसोपे कर्मचोरतेप्रभुमु
 खदेखी रहेअलगाअतिरोपे ए० ५ दिनकरनेवादल
 रुंधे वलीतेअंगेअधुरो मुजप्रभुअप्रतिहतप्रकासी स
 कल्पदारथपूरो ए० ६ अंबरमणिअंबरतलमारग आ
 ठेपहोरेभमती अचलविलासीएमुजसाहेव सिववधुसं
 गेरमती ए० ७ खिणमांकांतीकरेअतीखीणी राहुसदा
 दिनकरनी तैपणपदपंकजरजफरसि जयकामेजिनव
 रनी ए० ८ त्रिभुवनमोहतिमरजेटाले ज्ञानकिरणने
 तेजे नविजनजावधरीनेचेटो हंसरत्नप्रभुहेजे ए० ९
 इति ॥ अथ श्रीसुपार्श्वजिनस्तवन ॥ नवोपछे
 वडोरे एदेशी ॥ अवसरआजमल्योजलारे फलीयाम
 नोरथमालरे नमोसुपासजीरे सुपासजीत्रीनुवनजाण
 गुणमणिखाण जिवनप्राण रसीयोसाहेवोरे आंकणी.
 सुखकारीजिनसातमारे दिठोदेवदयालरे न० १ सु०
 त्री० गु० जी० नमो० सु० पईठनरेसरनेकुलेरे उप
 जेअवंतंसरे न० पृथविनीकुखेडपन्योरे जिममानसरे
 हंसरे न० २ सु० सोहेस्वस्तीकलंछनेरे कुंदनसमतनुं

(३७६)

हंसरत्नजीकृत.

करारीजेम सु० प्री० ५ पुरुषोत्तमप्रभुतुंसहीहोलाल
सहजेजगसाधार सु० मुजनेमनथीउतारताहोलाल कि
मरहेसेंतुजकार सु० प्री० ६ हंसरतननीवीनतीहोला
ल सुफलकरोजगजाण सु० स्युंकहीयेतुजनेघणुंहोला
ल तुंछेसुगुणसुजाण सु० प्री० ७ इति ॥

अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तवन ॥ सहेरभलोपणसांकडो
रे एदेशी ॥ श्रीवासपूज्यजिणंदजिरे मुझमनएहवीखां
त ससनेही प्रकासुंप्रभुआगलेहोराज अवधारोअरी
हंत १ सांचलोसाहेववीनतीहोराज एआंकणी. मुज
मनमंदीरप्राहुणारे जोआवोएकवार स. तोराखुपालव
झालीनेहोलाल घणीयकरीमनोहार स० २ सा० तुम
वसवानेयोग्यछेरेमनोहरमुजमनगेह स. चित्रसालिजि
हांचिहुंदिसेहोलाल राजिअनुचवरेह स० ३ सां. सुमती
अटारीसोभतीरे मंडपजिहांसुवीविक स० मोहतीमर
टाल्यावलीहोलाल ज्ञानप्रदीपेछेक स० ४ सां. रागद्वे
षआदेजिहारि कंटककीधादुर स. टाल्योजिहांकरुणाज
ल्योहोलाल पातिकपंकपडुर स. ५ सां. भावउलोच
बांध्युचलुरे विनयजलेचोजांहि स. सरलसजावसुवास
नाहोलाल धूपघटीवलीत्यांहिं स. ६ सां. निर्मलतुजगु
णचंद्रिकारे धवलीतसुंदरधाम स. वाहलातुमवसवा

भणीहोलाल मैकीधुंअजिराम स. ७ सां. आर्विव
सोमनमोहोलमारे सफलकरीअरदास स. हंसरतन
प्रभुहेजस्युंहोलाल जोपुरोमनआस स. ८ सां. इति ॥
अथ श्रीविमलजिनस्तवन ॥ वातमकाढोहोत्रततणी ए
देशी ॥ विमलजिणेसरवालहो आतमथीअतिप्यारारे
मुजमनलाग्युतेहसुं पणतेथईरह्योन्यारारे १ वि० दर
शनतेहनुंदेखवा रातंदिवसहुंरसीधारे पणतेनीसने
हीथयो सीवपूरमांजइवसीयारे २ वि० चंदचकोरतणी
परे चूपधरीनेचाहुंरे मिलवामनमेलुंभणी आठेपोहोर
उमाहुंरे ३ वि० एकघडीअरधीघडी जोएकांतलहि
जेरे अंतरजांमीआगले तोमनवातकहीजेरे ४ वि०
सातराजनेआंतरे जैवेठोजइदूरेरे तेसाथेसीपरेकरी म
लीयेंप्रेमपहूरेरे ५ वि० नैणेनैणमेल्यापखे किमजागे
मनभ्रांतारे अलजोनटलेअंगनो जेट्याविणजगवंतारे
६ वि० हंसकहेहवेआजथी जगतिकरुंडंणेजांतिरे आ
वीनेमनमांवसे मुजसाहेबमनखांतिरे ७ वि० इति ॥
अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ नणदलचूडलीयोवनजल
रह्यो एदेशी ॥ साहेवएहवोसेवीये जेगुणनोचंडार न
वीयां निजसरणागतजाणीने निरवहीलेंनीरधार न०
१ परखीकिजेपारखूं एआंकणी अवगुणमनआणेन

ही छटकीनदाखेंछेह न० फलत्रापिसेवातणु साचोसा
 हेवतेह न० २ प० देवअवरनेसेवतां लाजनहीनिर
 वाण न० आखरकिमउछातणी प्रीतीचढेपरमाण
 न० ३ प० धुआडानेवाचके गरजसरेनहिकांय न०
 रंगपतंगीकारमो देखतहिमटजाय न० ४ प० पोते
 पणपुरानहि स्युंफलत्रापितेह न० आपसरिखातेकरे
 जेआपेहोएगुणगेह न० ५ प० जोतुंप्रचुमुजनेमल्यो
 अनंतनाथअरीहंत न० सुरगुरुपणपामेनहि जेहना
 गुणनोअंत न० ६ प० पुन्यसंजोगेपामीने सुगुणप्र
 भुनोसंग भ० हंसकहेहवतेहस्युं राखोअवीहडरंग न०
 ७ प० इति ॥ अथ श्रीधर्मजिनस्तवन ॥ दे

शीवेदीलीनीमनलागो ॥ सुणोसाहिवधर्मजिणंदा तुम
 दीठेअधिकआणंदाहो साहेवअरजसुणो मोहनमुर
 तिताहरी मुजमनलागेप्यारीहो १ सा० बहुदिवसेमें
 तुमदीठो मुजमनमांहेलागेमिठोहो सा० पून्येपामीए
 वेला मलीयाछेदुरलनमेलाहो सा० २ लहिअवसर
 हुंतुजपासे आव्योछुंमोटीआसेहो सा० जाएजेअवसर
 जेहवो फरीपाछोनावेतेहवोहो सा० ३ अव
 सरउषस्मुजकाज तुसारेनहीमुजआजहो सा० तुंस्या
 नोछेमुजस्वामी एवातेतुजनेस्वामीहो सा० ४ तकवि

एफलदेजोनीको तोपणतेलागेफीकोहो सा० अक्सर
 चुक्योजिममेह सेकामेआवेतेहहो सा० ५ सेवांतोकर
 तानेट आखरदेसोसहीनेटहो सा० तुहवणांआपेतेह
 जिमवाधेअधिकसनेहहो सा० ६ कहुछुंआसंगो
 जाणी प्रनुसफलकरोमुजवाणीहो सा० दर्शनफल
 योजिनराय जिमहंसरतनसुखथायहो सा० ७ इति॥
 अथ श्रीशांतिजिनस्तवन ॥ गेडुमानीदेशी ॥ श्रीशां
 तिजिणेसरसोलमोरे हांजीसाहेवसरणांगतसाधार
 तेरुडो गुणनोआवास तेरुडो उपगारीखास ते० आं
 कणी जवनयतापनीवारवारे हांजीजगमांजंगमजे
 जलधार ते० १ गु० ते० मेघरथराजानेजवरे हां
 जीदृढसमकीतदेखीसुरराज ते० करेप्रसंसाजेहनरि
 हांजीसुरसाखिप्रणमीसुजसाज ते० २ गु० ते०
 इंद्रवचनअणमानतारे हांजीएकअमरआव्योतेणठाम
 ते० सैन्यपारापतिनेछलेरे हांजीपारखवानृपनोपरि
 णाम ते० ३ गु० ते० उ०ते० मनकुडो नरपतीनोपास
 मन० अमरखआवास म० आंकणी पोसोमांपारेवडो
 रे हांजीतनसाटेराखेतेताम ते० तीर्थकरचक्रातिणीरे हां
 जीपदवीदोइबांधीअनीराम ते० ४ गु० ते० प्रग
 टथइतेदेवतारे हांजीपायप्रणमीपोहोतोनिजठाम ते०

(३८०)

हंसरत्नजीकृत.

तिहांथीप्रभुत्रीजेनवेरे हांजीअचीराउरेलीधोअवतार
ते० ५ गु० ते० पालिनेचक्रीपणुरे हांजीखटखं
डपृथ्वीराज्यपडुर ते० दानदेइदीक्षाग्रहीरे हांजीपा
म्याकेवलनाणसनुर ते० ६ गु० ते० कीधीसंग
नीथापनारे हांजीशांतीसरसाहेबसुखदाय ते० पंचम
गतीपाम्याप्रचुरे हांजीहंसरतनहरषीतगुणगाय ते०
गु० ते० उ०ते० इति ॥ अथ श्रीकुंथुजिनस्तव
न ॥ दुलहोदुलहोकुंमरकुंमरीदुलहणीजी एदेशी ॥ दू
लहो२ मेलोश्रीजिराजनोजी जोतांएजगमांहिरे प्रापति
२ विणकिमपामीएजी सुगुणसाहिबनीवांहिरे १ दू० ना
टिक२ विविधपरेनाचतोजी प्राणसिंसारनेसंगरे मोहि२
रेमृगतृशनापरेजी राचेनवनवरंगरे २ दु० मनडुं२ चप
लचिहुदसन्नमेजी खिणथिरतानविथायरे क्रमक्रमविटं
वनविचमांहिनडेजी प्रभुस्युंकिममलायरे ३ दू० जिहां
लगे२ कारणसकलमलेनहींजी तिहांलगेनमलेहोका
जरे निर्मल२ धानपाखेसेपरेमलेजी जगवल्लभजिनरा
जरे ४ दू० जाग्यारेज्यारे२ मुजमनआजथीजी निर्म
यतेहअत्यंतरे साहिब२ कुंथुजिणेसरभेटवाजी अधिक
थइमनखंतरे ५ दू० हवेहुं२ नगतीतणेजोरेकरीजी अं
दूतरटालुदूररे हंसरत्न२ कहेप्रचुहेजथीजी जिम

लहुसुखंजरपुररे ६ दू० इति ॥

अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ वादलीवरणीराजिरंजा क
रतीएकअचंजा एदेशी ॥ अरजिनपतीकेआगलेजी
सरीखासरखेसंग अलवेसुंअरांगनाजी नाचेनवनवरं
गके कुंदनवरणीराजिरंजा करतीएकअचंजा आंकणी
नेउरनेरणकेकरीजी ठमकठवंतीपाय देतीथिनंगेफुद
डीजी विधरंजाववणायके २ कुं० मादलनेधौकारसुंजी
वारुवेणानाद गुणगायेटोलेमलीजी सुरवधुझीणिसाद
के ३ कुं० ललकेंकटिलंकिकरीजी कनकलतासीकाय
बोधवीजलेवाचणीजी नमतिअंगनमायके ४ कुं० सुर
पतीसेवेजेहनेजी सीवसुंदरिउरहार हंसरत्ननोसाहि
बोजी त्रिजोवननोआधारके ५ कुं० इति ॥

अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ घेरआवोजीआंबोमोरीयो ए
देशी ॥ जिनअजीनवआंबोमोहुरीयो जेहनीसीतलत्रि
भुवनछायहि हांजीअमलधवलजसजेहनो परीमलम
हेकेजगमांहि एतोअजिनवआंबोमोहुरीयो १ हांजीस
हिजवसंतवासेवस्यो गुणपलवगहिरगंजीर हांजीम
हिरलहिरसीतलजिहां वाइअतिसुरजीसमीर २ ए०
हांजीपेहिरयांपरीमलनेवले सुरनरमधुकरअणुहार हां
जीमंजरिमक्रंदेमोहीया चिहुंपासेकरेझंकार ३ ए० हांजी

(३८२)

हंसरत्नजिकृत.

दृढधैरजजडजेहनी अगणीतसाखासमुदाय हांजीवलि
कोकीलपरीकल२करे गणधरगणतेणैठाय ४ ए० हांजी
नवदुखतापेतापव्या करवासीतलनिजअंग हांजीआ
वीनेअवलंबीया नविजनजिहांविविधविहंग ५ ए०
हांजीनवकिसलयदलसारिखी छवीजेहनीनीलवान
हांजीमल्लीजिणैसरमुजसने जंगमसुरवृक्षसमान ६ ए०
हांजीअजरअमरफलेकरी तुंसफलफलयोफलवान क
हेहंसरतनहवेसाहिवा मुजआपोंईच्छीतदान ७ ए०
इति ॥ अथ श्रीमुनीसुव्रतजिनस्तवन ॥ थुली
नद्रथीरजसकरमीजीव एदेशी ॥ अैनअसाढोउन्हयोजी
त्रिजोवननेहितकार जिनवरउलठ्योएजलधार आं
कणी वरसे२वचनसुधाजलजोररे निरखीहरपेपरख
दाजनमनमोररे अमरविमानेछायोगगनघनघोररे जां
णिकेउलठ्योवादलदलचिहुंओर १ जि० श्यामसरारे
ओपेनखउजासरे जलघटांजाणोवीजप्रकासरे सुर
दुंदुनीनोउठ्योशब्दअखंडरे गर्जारवसुगाजरिह्योत्र
हंड २ जि० धर्मधजाजिहांइंद्रधनुषअभिरामरे
द्विगगजनीपरैआवेइंद्रउदामरे पवनफरुकैकरुणाल
हेरसुरंजरे नाठादुरेदूछदुकालनेदंन ३ जि० झरमर
रजडिमांडिवर्षतरे चातुकनीपरैचतुरपुरुषहरषंतरे

थङ्गरोमांचितसीतलसहुनीदिहरे मनमेदनीयेपसरथो
 पुरणत्रेह ४ जि० आविजिनवंदनखेचरपतिमनखंत
 रे उलटीजाणोगगनेवलाहकपंतरे जवदावानलदाहस
 म्योवलीतामरे उलस्योवेगोत्रिभुवनश्राराम ५ जि०
 प्रमुदितमुनिवरदादूरडहकेज्यांहिरे जिनगुणराताज
 विकममोलात्यांहिरे आव्योवेगेदूरीतजवासकोश्रंतरे
 गिरवरनीपेरेहरीआथयागुणवंत ६ जि० थइनवपलव
 संतसाखासुखवेलरे चिहूंदिसेपुरेचालीसुकीतरेलरे प्रव
 चनरचनासरोवरलहिरतरंगरे सुधाजिनसारसखलेश्र
 धीकउमंग ७ जि० चरणयुगलयौविकसितकुसमकदं
 वरे अवीलंब्यातिहांअमरजमरअविलंबरे पसरथापो
 होवेसमकितविजश्रंकुररे जीवदयाजीहांनीलाहरीनुं
 पु ८ जि० इणीपरेगायौउलटआणीउररे श्रीमुनिसुत्र
 तवर्षाजावेसनुररे आजसफलदिनहंसकहेकरजोडरेतु
 जगुणनिरेसेंचोसमकितछोड ९ जि० इति ॥
 अथ श्रीनमिजिनस्तवन ॥ महिडारोदाणनहोयरेगो
 वालोडा एदेशी ॥ श्रीनमिजिनतुजस्यूसहिरे मेंकरीअ
 वीहडप्रीत तुंसिनेहीथइरह्यो प्रचुएनहींउत्तमरतिरे १
 सलुणामनखोलीसामुजुओमारावाहला जुश्रारेजुओ
 रेमाहारावाहालामनखोलीएआंकणी एटलादिनमेंत्रेव

डीरे प्रभुजीताहरीलाज आजथीझघडोमांडस्युं जोन
 हिसारेमुझकाजरे २ स० म० जु० म० आगलथीमन
 माहरुरे तेंकीधुंनिजहाथ हवेअलगोथइनेरह्यो तेदा
 वोछेतुमसाथरे ३ स० म० कठिनरिदयसहीताहरुरे व
 ज्जथकीपणवेज निगुणगुणोराचेनही तिलमात्रनहितुझ
 हेजरे ४ स० म० मेंएकतारीआदरीरे नावितुजमननेह
 छोडंताकिमछुटस्यो आवेपालवविलग्याजेहरे ५ स०
 म० सोवातेएकवातछेरे उंडुंआलोचीजोय आपणनेजे
 आदरचा इमजाणेजगसहुकोपररे ६ स० म० जोराखे
 सहीताहरुरे जगतवछलअजधान हंसरतननेतोसही
 दिजेमनवंछितदानरे ७ स० म० इति ॥

अथ श्रीनेमिनाथजिनस्तवन ॥ थेंकांनिनावोमाहरामो
 हलमांहोराजि थेंकांनेनावोमाहरीसेजरे हुंवारीरंगढा
 लणा एदेशी ॥ तोरणथीरथफेरीनेहोराज छटकिइमकि
 मदीजेछेहरे हुंवारीमांहकामोहना आठभवांतरप्रीतडी
 होराज तेहनोनाव्यातुममननेहरे १ हुंवारी० तेहनेते
 किमतरछोडियेहोराज पहेलेपालववलगाजेहरे हुंवा
 री० बांहियह्यानीलाजछेहोराज वाहलास्येनविमासो
 तेहरे हुं० २ प्रीतभलीपंखेरुआंहोराज जाउहुंबलीहा
 रीतासरेहुं० रातदिवशरहेएकठांहोराज एकपलकनछो

डेपासरे हूं० ३ विसारचोतेनवीसरेहोराज संहिजेए
 कवढीनोसंगरे हूं० तोकिमटाल्योनविटलेहोराज जे
 हस्युंसजडजडचोमनरंगरे हूं. ४ जनमांतरविहडेनही
 होराज जेकीधीसुगुणसाथेप्रीतरे हूं० टेकग्रहीतेनिरव
 हेंहोराज जगमांएहउत्तमरीतरे हूं० ५ शिवादेवीसुत
 नेमनेहोराज कहेराजेमतीकरजोडरे हूं० वाहलावेगे
 रथवालीनेहोराज आवीपुरोमुझमनकोडरे हूं० ६ ते
 मराजुलमुगतेमल्याहोराज प्रचुएपाल्युंपूरवप्रेमरे हूं.
 चरणसरणदीजेसाहेवाहोराज हेजेहंसरत्नकहेइमरे
 हूं० ७ इति ॥ अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन ॥ दा

सीहोदासीरामतुमारी एदेशी ॥ सुणोपासजिणसरसा
 मी अलवेसरअंतरजामी हुंतोअरजकरुंसीरनामी प्रभु
 साथेअवसरपामी १ स्वामीतारोतारोप्रभुजी एआंक
 णी मुझनेचवसायरतारो चिहुंगतिनाफेरावारो करुणा
 करीपारउतारो एवीनतीमनमांधारोहो स्वा० २ संसा
 रेसारनकांड साचोएकतुंहिसखाइ तेमाटेकरीथीरताइ
 मेंतुजचरणेलयलाइहो स्वा० ३ तारकतुंजगतप्रसाद्धो
 पहेलेपणतेंजसलीधो सेवकनेसीवसुखदीघो एकमुझ
 स्युंअंतरकीघोहो स्वा० ४ इमअंतरतेनकरेवो सेवकने
 सीवसुखदेवो अवगुणपणगुणकरीलेवो हेतआणीवांहे

ग्रहेवोहो स्वा० ५ सेवकचुकेकोइटाणे पणसाहेबमनम
 नाणेनिजअंगीकृतपरमाणे पोतानो करीनेजाणेहो स्वा.
 ६ तुंत्रीजोवननाथकहेवाये इमजाणीनेजिनराय द्योचर
 एसेवासुपसाय जीमहंसरतनसुखथायहो स्वा. ७ इति॥
 अथ श्रीमाहावीरजिनस्तवन ॥ आजअसाढोउन्हयोजी
 एदेशी ॥ सफलफल्यासहीमाहराजी मननामनोरथ
 आज विरजिनेसरतुंमल्योजी हवेसीधाहोहवेसीधांव
 छितकाज १ प्रभुजीअरजसुणीजे मांहकीअरजसुणी
 जे मांहकोमुजरोल्योमाहाराज एत्रांकणी दिनएता
 चुलोन्नम्योजी तुझदरिसणवीणदेवहवेमनमडांटिकेस्थुं
 जी तुमसेवाहो तु० करुनीतमेव २ प्र० तुझदीठेआ
 वेनहींजी देवअवरकोइदाय सुरतरुसाखाछांडीनेंजी
 कुणवेसेहो कुं० वाउलछांह ३ प्र० गुणअवगुणजाण्या
 पखेजी मननरहेएकतार प्रगटपटंतरदेखीनेंजी कुण
 सेवेहो कु० वस्तुअसार ४ प्र० तुंगतीमतीतुसाहिबो
 जी तुंमुझजीवनप्राण निरवहीयेशीरउपरेजी जवोन
 वहो ज० तुमचीआण ५ प्र० जितुंतुमसेवाबलेजी कुम
 तीकदाग्रहफोज नीतनीतनवलोताहारिजी मनइछिछ
 तहो म० पामुंमोज ६ प्र० नाथवसोमुजचितमांजी
 आजअधीकसुखपुर हंसरतनकहेमाहरोजी हवे

प्रगट्योहो ह० पुन्यपट्टुर ७प्र० इति॥ कलस॥दिठो
 दिठारेवामाकोनंदनदीठो एदेशी॥मेंगायारेइमाजिनचो
 वीसेगाया श्रीजिनगुणदृढगुफकराने टोडरअजववना
 यारे इ० १ सरससुवाससुवृत्तमनोहर वरणकुसमस
 मुदाया नवनवपदरचनाबहुजंगी सुललितबंधसोहाया
 रे इ० २ दिन२ प्रतेपूहुवतिलेपसरे परीमलजाससवा
 या नवीजनमधुपरहोजिहांअहनिशि रसलोनीलपटा
 यारे इ० ३ शीवसुंदरीवरवाअतीसुंदर एवरमालकहां
 या जेनरकंठेधरितेणिसुखसवे करतलेवासवसायारे इ०
 ४ संवतसतरपंचावनवरपे अधिकउमंगवढाया मा
 घअसीततृतीयाकुजवासरे उद्यमसीद्धचढायारे इ० ५
 तपगणगगनविज्ञानदिनकर श्रीराज्यविजयसुरीराया
 शिष्यलेसतसुअन्वयगणिवर न्यानरत्नमनजायारे इ०
 ६ तसअनुचरमुनीहंसकहेइम आजअधीकसुखपाया
 जिनगुणग्यानेबोधेगावे लाअनंतउपायारे इ० ७
 इति ॥ हंसरत्नकृतचतुविंशतितीर्थकरस्तवनसंपूर्ण ॥

अथ श्रीलक्ष्मीवीमलजीकृत चोवींशी

अथ श्रीरुषभदेवजिनस्तवन ॥ साहिववाहुजिनेसरवी
 नवुं एदेशी ॥ तारकरुपजिनसेरतामिल्यो प्रत्यक्षफो

तसमानहो तारकतुजनेजेऽवलंबीया तेणेलहुउत्तम
स्थानहो १ तारकरुषन्नजिनेसरतुंमिल्यो एऽत्रांकणी.
तारकतुजवंदनपूजनकरी पवित्रकरुनिजदेहहो ता० २
तारकतुजगुणस्तवनायेस्तवी जिहाकरुंऽमृतलेहहो ता
रकगुणऽनंताताहरा कुणकहीलहसेपारहो तारककेव
लीकोडीमिलेकदा जाणेनकहेनिरधारहो ता० ३ तार
कगणधरमुनिवरेस्तव्यो स्तवियोदेवनीकोडहो तारक
तोपणहुंतुजनेस्तवुं ञक्तिकरुतसहोडहो ता० ४ तारकम
रुदेवीमातानेनमुं रत्नकुक्षिधरनारहो तारकनाञ्जिराया
कुलचंदलो सकलजंतुऽआधारहो ता० ५ तारकसुमंग
लासुनंदातणो प्रितमप्रभुविख्यातहो तारकश्रीपूंडरी
कगणधरतणो पितामहगुरुजगतातहो ता० ६ तारक
तुजनामेरिद्विसंपजे वाधेकिर्त्तिऽअपारहो तारकशिवल
छ्छासहजेमले सफलथायेऽवतारहो ता० ७ इति ॥

अथ श्रीअजितनाथजिनस्तवन ॥ चंद्रप्रभूमूखचंदस
खिमुनिदेखणदे एदेशी ॥ अजितदेवजितकाम प्रभुसी
द्वसाधनहे अनंतगुणनोधाम प्र० मुनिजनऽआतमराम
प्र० अवरसवेमोहठाम प्र० १ साधनतानविऽत्रोलखे
प्र० साध्यपोकारयमुख प्र० आविर्जावेकिमहोवे प्र०

सहजानंदऽअतिसुख प्र० २ वांछितनगरीनामथी प्र० सां

भलीजनभडवाय प्र० विपरीतदिसेसंचरे प्र० निक
 टकेणिपरैथाय प्र० ३ कोइकहेनिरंतर प्र० रहितपरं
 पराहेत प्र० तेपणकारजनविलहे प्र० आंगमग्रही
 तसंकेत प्र० ४ चुखमिटेजोजनकरे प्र० जोजनका
 रणजोय प्र० वृष्टिवायुजननादिका प्र० इंधणअंगनसं
 जोय प्र० ५ कारणताबहुमानथी प्र० कारजप्रयोजन
 जाण प्र० तृशितवारिवारिजये प्र० उद्यमप्रायप्रमा
 ण प्र० ६ मूरतिताहरीदेखीने प्र० धरियोअ
 मूरतिजाव प्र० किरतिलोकेविस्तरी प्र० वि
 रम्योअनादिताव प्र० ७ ॥ इति ॥

अथ श्रीसंज्ञवजिनस्तवन ॥ रूपभजिनेसरप्रीतममाह
 रारे एदेशी ॥ संज्ञवजिनसंज्ञवसमतातणारे सकलज्ञ
 विकनेजाण प्रभुदेखिनेद्वेपजउपजेरे तेमिथ्यातअयाण
 सं १ विषयविरुपविपाकजडंडीयेंरे धरियेंसहजसजा
 व परप्रणिततेसविदूरेतजेरे उल्लसेआतमजाव सं २
 करुणामैत्रीमाध्यस्थमुदितारे जावनवासितसार चरण
 करणधारातेआचरेरे उपसमरसजलधार सं ३ श्ला
 घानिदाएदोएसमगणारे नहीमनरागनेरोप प्रभुगूणप्र
 भुतानेतेअनुज्ञवेरे होयेंजावनोपोप सं ४ अनुक्रमेकेव
 लनाणज्ञजेभजेरे सुखसंज्ञवसमुदाय किर्तिवीमलप्रभु

(३९०)

लक्ष्मीवीमलजीकृत.

नेचरणेरहेरे शिवलछीघरथाय सं० ५ इति ॥

अथ श्रीअजिनंदनजिनस्तवन ॥ पंथडोनिहालुरेवि
जाजिनतणोरे एदेशी ॥ आणावहीयेंरेचोथाजिनतणी
रे जिमनपडोसंसार आणाविणारेकरणिसतकरेरे न
विपामेन्नवपार १ आ० जीवरखोपूरेसंयमतपकरेरे
उरद्धतुंडआकाश शीतलपाणीरेहेमरतीसहेरे साधेंयो
गत्रभ्यास २ आ० देवनीपुजात्रगतिअतिघणारे कर
तादीसेविशेस आणालोपिनीजमतस्थापनारे नलहे
आतमलेश ३ आ० आणाताहरीरेउन्नयस्वरुपनीरे उ
त्सर्गनेअपवाद व्यवहारशोन्नेरेनिश्चयनयथकीरे कि
रियाग्धानसुवाद ४ आ० सुंदरजाणीरेनिजमतिआचरेरे
सुंदरनिरधार उत्तमपासेरेमनीषिपाधरीरे जोजोग्रंथवि
चार ५ आ० धनतेकाहिएरेनरनारिसदारे आसन्नसिद्धक
जाण ज्ञाताश्रोतारेअनुन्नविसंवरीरे मानेजेतुल्लआण ६
आ० दायकरजोडीरेमागुंएतलुरे आणात्रवन्नवनेटवाच
कदिजेरेकिर्तिशुचिप्रभुरे आणाभवलछिबेट ७ आ० इति ॥
अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ जगजीवनजगवालहो
एदेशी ॥ समकितताहरुसोहाभणुं विश्वजंतुआधारला
लरे कृपाकरीप्रकाशिये मटेतेमोहअंधारलालरे

१ सं० नाणदंसणआवरणानी वेयणमोहनीजाण

ला० नामगोत्रविघ्ननीस्थिति एककोडाकोडमाण ला०
 २ स० यथाप्रवृत्तिकरणते फरसेअनंतिवार ला० दर
 शनताहरुनविलहे दुरन्नव्यअभव्यअपार ला० ३
 शुद्धचित्तमोगरकरी जेदेअनादिगंठ ला० नाणविलोच
 नेदेखीये सिद्धसरोवरकंठ ला० ४ स० जेदअनेकछे
 तेहना वृहतग्रंथविचार ला० सुसंप्रदायअनुभवथकी
 धरजोशुद्धआचार ला० ५ स० अंहो२समकितनोसु
 णो महिमाअनोपमसार ला० शिवसर्मदाताएहसमो
 अवरनकोसंसार ला० ६ स० श्रीसुमतिजिणेसरसेव
 थी समकितशुद्धठराय ला० किर्तिवीमलप्रभुनिकृपा
 शिवलछीघरआय ला० ७ स० इति ॥

अथ श्रीपद्मप्रज्ञजिनस्तवन ॥ रागमारु घणराढोला ॥
 एदेशी ॥ पद्मप्रज्ञपुरुपोतमोरे साजन निकारणतुंजा
 इ चित्तराचोखा शुद्धहेतुंहेजालुयारे सा० औरठगारे
 माइ चि० १ दूर्जननिकसीगोठडीरे सा० दूर्जनरोक
 सोहेज चि० दूर्जनरोडापणकिसोरे सा० दूर्जनदुःख
 रीसेज चि० २ लिवसंबंधेअंवनरे सा० लिवपणुजजे
 अंव चि० जाचुंहेमपणुधरेरे सा० रसवेधितजुआंतव
 चि० ३ संगतरोवहरोअसारे सा० मध्यमउत्तमजाण
 चि० मध्यमसंगेमध्यमोरे सा० उत्तमसंगेगुणठाण चि०

(३९२) लक्ष्मीवीमलजीकृत.

४ मिथ्यातकुमतिसंगथीरे सा० नलहोत्रापस्वरुप चि.
मोहवसेबहुदूखलहोरे सा. पडिओन्नवमाहाकूप चि. ५
संतकृपालुतुंमिल्योरे सा० जागोदुखदंदोल चि० तुज
संगेमुजवाधसैरे सा० चिदानंदकल्लोल चि० ६ नवोन्न
वहोजोमाहरीरे सा. पद्मप्रभुस्युंप्रति चि. किर्तिविमलप्र
भुपायथीरे सा. लक्ष्मीविमलजगहित चि० ७ इति ॥

अथ श्रीसुपासजिनस्तवन ॥ रामचंद्रकेवागचांपोमो
हरफलोरी एदेशी ॥ स्वामीसुपासजिणंद समरसकुंज
भर्योरी तामेथीलवएक दीधेकाजसरेरी १ नविचाहुंघृ
तपूर साकरपाकजलोरी चिंतामणिकामधेन सुधारस
साखिफलोरी २ राज्यरामास्वर्गजोग तेसविछारगणुं
री इंदचंदनागेंद्र दूखीयातेहजणुंरी ३ सुखियातेमुनि
राय उपसमसारभजेरी परपरिणतपरिणाम कारणजे
हतजेरी ४ उपसमरसनविहोय निजलोचनभिंचेरी मि
थ्यातविषयनोत्याग जिनवचअमीयसिंचेरी ५ नक्तव
छलजगवंत सेवकदुखटलेरी किर्तिविमलप्रभुपाय से
वासाचफलेरी ६ इति ॥ अथ श्रीचंद्रप्रभजिन

स्तवन ॥ दीठीहोप्रभुदीठीजगगरुतुझ एदेशी ॥ सा
चोहोप्रभुसाचोतुंवतिराग जाप्योहोप्रनुजाप्योमेंनिश्चे

करीजी काचोहोप्रभुकाचोमोहजंजाल छांडोहोप्रनुछां

डोतेसमताधरीजी १ सेवेहोप्रभुसेवेदेवनीकोडी जोडी
 होप्रभुजोडीनिजकरआगलेजी देवहोप्रभुदेवइंद्रनीना
 र दृष्टिहोप्रभुदृष्टितुझगुणरागलेजी २ गावेहोप्रभुगावे
 किन्नरीगीत झीणेहोप्रभुझीणेरंगेरसन्नरीजी बोलेहो
 प्रभुबोलेखगयसवाद नावेहोप्रभुभावेमुनिध्यानेधरी
 जी ३ सोहेहोप्रभुसोहेअतिशयरुप बेसेहोप्रभुबेसंकन
 कसिंहासनेजी गाजेहोप्रभुगाजेमधुरोनाद राजेहोप्रभु
 राजेसंघतुझशासनेजी ४ तुंतोहोप्रभुतुंतोताहरेरुप भु
 जेहोप्रभुभुजेसंपदआपणीजी नाठीहोप्रभुनाठीकर्मत
 तिदूर उठीहोप्रभुउठीतुजथीपापणीजी ५ जोवोहोप्र
 भुजोवोमुझएकवार स्वामीहोप्रभुस्वामचिंद्रप्रभधणी
 जी बाधेहोप्रभुबाधेकीर्तिअपार पामेहोप्रभुपामेशिव
 लछीघणीजी ६ इति ॥ अथ श्रीसुविधिजिन
 स्तवन ॥ धारतरवारनीमोहली एदेशी ॥ तारभवपा
 रउतारसुविधिप्रज्ञो सारमुझएटलीदेवकीजे मोहमहा
 जोहजनद्रोहकारीघणी तेहनेदुरदेशोटदीजे १ ता०
 एकपणनेकपरिझुझतोमहावली वागतोनागतोकदीन
 दीसे आणतुझवाणसाणीचढावीअसि एहनीनारिवि
 धवाकरीसे २ ता० रागपणछागपरिनाशतोदेखीये
 योप्रभुताहरिहाकवागे धेपतजिरेपमदजाएगिरिकंदरे

(३९४)

लक्ष्मीवीमलजीकृत.

आवतोधावतोकदीनगाजे ३ ता० काममुखशामकरी
दूष्टघरेटले उछलेध्यानतुझनालगोला वापडीलापडी
स्युंकरेरतिप्रिया रोवतांतेहनाजाइडोला ४ ता०
नाथधरहाथमुझमस्तकेप्रेमस्युं एटलेमोहनसैनजा
जे मोहथीफोजमांरहुंचिदानंदनी सत्यशुखाशनया
नवाजे ५ ता० रागवडनागमुझएकछेताहरो ते
हथीनिर्मलिकीर्तिवाधे नेहजरमेहजहपरिवरसतां
आपपंकजदलेलछीवाधे ६ ता० इति ॥

अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥ कीसकेचेलेकीसकेपूत
एदेशी ॥ शीतलनाथसुणोअरदास साहिवआपोपद
कमलवास साईसांजलो मोहमहीपतिमोटोचोर नव
नवरुपधरीकरेजोर सां० १ मातापितावधुनगनिभ्रात
सासुससरोपीतरियाजात सां० कुंठववेषकरीकिरतार
एहजमाडेवहुसंसार सां० २ पटदर्शननुंलेईरुप जग
नेपाडेजवनैकूप सां० जोछोडएचाहेसूणीसुत्त रुपधरे
एहबीजोधूत सां० ३ निमव्यकुमतीमनउन्माद आणा
लोपीमांडेवाद सा० आगमजापीनीमतीमंद आरोपे
निजमतनोकंद सां० ४ मोहतणोएहवोपरपंच स्वामी
हवैसोकीजेसंच सां० कांडवतावोएकउपाय जिममोह
नासिंदुरेजाय सां० ५ नेहनजरजरीनाथनिहाल सु

खिन्नाथोत्त्रण्णकाल सां० कीर्तिविमलप्रभुकरउपगा
 र लक्ष्मीकहेतुकरुणागार सां० ६ इति ॥
 अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ थारामोहलाउपरिमेह
 झरुंखेवीजलोहोलाल झ० एदेशी ॥ श्रीश्रेयांसकृपा
 लत्रिभुवनसुखकरोहोलाल त्रिभुवनसुखकरो जगउद्ध
 रवाहेतइहांतुंभवतरयोहोलाल इहां० करकरुणाजग
 नाथकहुंहुकेतुंहोलाल क० जवजवनोजयटालमांगु
 छुंएटलुंहोलाल मा० १ देतांदानदयालकेकोसरनही
 कीसीहोलाल को० जेहवुंमुझशुद्धस्वरुपतेआपोउलसी
 होलाल ते० बिसीपरषदामांहिदेखाडीगुणतटीहोला
 ल दे० लहवातेहरुपथइमनचटपटीहोलाल था० २
 जाण्याविणगयोकाजअनंतोजवजडीहोलाल अ० सु
 णीनिरंजनदेवनजाइएकघडीहोलाल न० उतावलम
 नमांहेथायछेअतिघणीहोलाल था० पणनविचालजो
 रवडास्युंआवीबणीहोलाल व० ३ कह्युतुमोहितआ
 णिअमेनविजाणताहोलाल अ० तोआपोजगबधुरखे
 तुमेताणताहोलाल र० जाणुंछुंमुनिनाथउपादानआप
 णीहोलाल उ० समरेसीझेकाजकेनिमित्ततुझतणीहो
 लाल नि० ४ ध्यातानमतांतुझनेआतमअमतणीहो
 लाल आ० कर्मरहितजेथायपसायतेतमतणीहोलाल

(३९६)

लक्ष्मीवीमलजीकृतः

प० कीर्तिवीमलप्रभुपायसेवोमनसाकरीहोलाल से०
पास्योपरमाणंदकेशिवलच्छिवरीहोलालशि० ५ इति॥
अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तवन ॥ वासुपूज्यवसुधातलेहो
राज जलुंबोधबीजवावंत सोनागीरुडासाहिबा वांणी
अमीयरससिंचताहोराज जीवदयांकूरकंत १ सो०
दानसीयलतपनावनाहोराज तेतोनवपल्लवखास सो०
व्रतवैराग्यतेफलडांहोराज अनुजवसुगंधसुवास २
क्षांतिमद्ववअज्जवमुत्तिहोराज तपसंयमसुंसार सो० बो
धसत्यसौचपणुंहोराज दससाषाविस्तार ३ सो० आ
गमशीतलछांहडीहोराज मोक्षफलनिपाय सो० विष
यवन्हिआकरोहोराज टालेतेहनोताप ४ सो० जैनवृ
क्षसफलोफल्पोहोराज चाहोचेतनराय सो० जयासुतआ
लगकरोहोराज जिमतुझप्रसन्नथाय ५ सो० गयाकोठ
बकोलहीहोराज नाठासघलांदुख सो० कीर्तिवीमल
प्रभुनीकृपाहोराज लक्ष्मीलहेबहुसुख ६ सो० इति ॥
अथ श्रीविमलजिनस्तवन ॥ कंततमाकुपरिहरो एदे
शी ॥ विमलजिनेसरजगधणी कल्पतरुअभिराममोरा
लाल ताद्रस्यदानदाताप्रजु मुझनापेशिवठाममोराला
ल १ वि० केवलदोषतेमाहरो निर्दोषगुणखाण मो०
छिद्रकुंजेजलनविरहे सायरदोषनजाणमो० २ वि० रत्नदी

पेंवहुधना भाग्यहीनशेवंत मो० चिंतामणिआगेलही
 निजलोचनमिचंत मो० ३ वि० पंथीपास्योसाथने
 सातोसुसुवंत मो० भुखानेनजनमिले आदरथीनकरंत
 मो० ४ वि० तेपणस्वामीतुमविना केहवानुकुणठाम मो०
 केहतींकीर्तिनाथनी लखमीलहेकल्याण मो० ५ वि० इति॥
 अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ थारेमांथेपंचरांगिपागसो
 नानोछोगलोमारुजी एदेशी ॥ आवोतुमेवीतरागह
 मारेमंदिरेस्वामीजी तोनफरुंपरदेशसरोवरबंदिरेस्वाः
 ठारधरीएकचित्तकरुंतुमचाकरी स्वा० मागुंनहीकसो
 दामसवुरीआदरी १ स्वा० छांडीयोमनाचालाधरुंदशा
 पाधरी स्वा० उद्धतिदोषअनादीमूलथीआधरी स्वा०
 फोगटलोकनीवातविवादपरीहरुं स्वा० हांसिमिच्छर
 दोषसविनविमनधरुं स्वा० २ चित्रनहिमनमांहेएगु
 एतुभतणो स्वा० पादधरेजिहांपूज्यतिहांअणिंदघणो
 स्वा० जिहांवसेरामतिहांअयोध्याउल्लसे स्वा० उखा
 णोएलोकतणोमनमांवसे स्वा० ३ आगलथीआवरं
 ताहोवेवहुनाषिता स्वा० थोडामांसिक्षेपकरुंवहुसाषि
 ता स्वा० देखीसेवकज्ञणीतुमेपणआकरि स्वा० ४ रह
 स्योकरीथिरठामंप्रणतितोमुझखरी ४ स्वा० अनंत
 जिनप्रतिबंधनदीसेताहरो स्वा० ५ सहजेजणोरादथाये

रंजनमनतुजसुंउल्लसेजी ४ किम० अद्भुतअद्भुतश्रीकुं
 थुनीवातहो नविजाणेनविजाणयोगीमुनीवरजी तुजना
 मेतुजनामेकिरतिथायहो आपलछ्छीआपलछ्छीआपे
 सुखकराजी ६ किम० इति ॥ अथ श्रीअरना
 थजिनस्तवन ॥ करीश्रृंगारवंद्रावनमालि राधारमवा
 चालीरे माहरीसखीरेसहेली एदेशी ॥ श्रीअरनाथनी
 रगनीनिकामी निसनेहीशीवगामीरे स्वामीस्वारथकारी
 स्वा० १ रोषेकरीनेनविरीसाइं तुनिसनेहीगुणगाइरे
 स्वा० १ बंधउदिततिर्थनामन्नोगवतो आतमरसजोडावतो
 रे स्वा० १ निःकर्माथवानेकाजे बेसीसमोसरणेगाजेरे
 स्वा० २ तोहुंस्युं करीतुजरीझावुं एकउपायचितलावुरे स्वा.
 ध्यानतुमारुनीतेधरस्युं अमेपणस्वारथकरस्युरे स्वा० ३
 यावतस्वारथपूरोपावुं तावततुजनेध्याउंरे स्वा० नुपस
 रींखीपरजाजाणो लोकवातमनआणोरे स्वा० ४ न्या
 यमारगमांश्रीअरराजे निरुपाधिकगुणछाजेरे स्वा०
 कोर्तिविमलप्रभुशेवापामी लहोलछ्छीशिवकामीरे
 स्वा० ५ इति ॥ अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥
 दानसुपात्रदीजीई एदेशी ॥ मल्लिजिनजोवाभणी अ
 धिकथयोउछाहोरे मारचोरनेनेदवा पेहरीसलिसन्नाहो
 रे नामतुमारुहोलीजिये १ भवअटवीमोटीपडी ध्यानज

जंपेजपमालीरे उपसमरसनदिचरी आगमपंथेवालीरे
 ना० २ समकितन्नटसाथेलेइ संयमसवलसारोरे पं
 डितविर्यधीर्यधरी टालिमोहसवारोरे ना० ३ सुद्वय
 ब्रह्मरनयरीठवे बाहिरचोकीचंगरे निश्रयनयनीजाणी
 ये चतुरज्जलीअंतरंगरे ना० ४ अनुजवहर्म्यमांसलो
 बाधेसेवकवानोरे दोइघडीमसलतकरी थाप्योआपसं
 मानोरे ना० ५ गुणकदीनवीसारीये रातदिवससंजा
 रुरे कीर्तिवाधीतुमतणी लक्ष्मीकहेमनधारुरे ना० ६
 इति ॥ अथ श्रीमुनिसुव्रतजिनस्तवन ॥ कासं
 भिनो ॥ एदेशी ॥ जीवनोजीवनमाहरो मननोमोहन
 मारो ज्वनोरोधनमाहरोसाहिबो प्रभुमाहरा तिनभु
 वनसिणगारहो तुमदरसणलह्याविना प्रज्जुमाहराज
 मिओवहुसंसारहो जीवनो म० ज० १ चतुदसरजुपू
 रोकरो प्र० आतमफरसीजाणहो आदिनिगोदमांहि
 वसो प्र० कालअनंतप्रमाणहो जी० म० भ० २ गो
 लाअसंख्यातेजरयो प्र० पूरणलोकाकाशहो गोला
 असंखनीगोदथी प्र० तिहांजीवानंतावासहो जी०
 म० ज० ३ सासोसासनंमुंकवुं प्र० जनमरणसम
 कालहो आपस्वरुपजाण्युंनही प्र० अनुजवीजडता
 जालहो जी० म० ज० ४ वायरनिगोदमांहिसहयो

(४०२) लक्ष्मीवीमलजीकृत.

प्र० छेदनजेदनतापहो पुढवीआयुतेउमां प्र० वायुव
णसिलापहो जी० म० न० ५ वितिचउरिंदिमां
ह्यो प्र० संख्यातोमहाकालहो तिर्यचनाभवमेंकीया
प्र० ध्वीपपंचावनचालहो जी० म० न० ६ सातेनर
केहुंनम्यो प्र० दीर्घकालअसरालहो दुर्जगदेवनीजा
तिमां प्र० दुःखसह्युंवीसालहो जी० म० न० ७ मुनिसुव्रत
कृपाथाके प्र० जागोसबविषवादहो कीर्तिवीमलगुरुनी
ग्रही प्र० शिवलछिछकरुसादहोजी. म. न. ८ इति ॥
अथ श्रीनमिजिनस्तवन ॥ बहुकरजोडरिंकेहेछेकामिनी
कंतसुणोअरदास एदेशी ॥ श्रीनमिस्वामीरेजागिशु
नचेतना रागधर्योतुमसाथ समकितपामीरेसारदशा
धरी दीठोशिवपुरसाथ नमिजिनजासपातोसारखो प्र
भुनेजोइकीजेरेपारखो १ न० आतमजाणुरेनिरुपाधि
कपणुं स्वभाविकगुणखाण छेअसंख्यारेप्रदेशानिरावर
णा लोकाकाशप्रमाण २ न० निजप्रदेशरेएकेकहे गु
णअनंतनीवास परमानंदीरेशिवसुखसंपन्न निरामय
सुविलास ३ न० निर्वीकारेरेनिराधारिए द्रव्यकर्म
वोनिरमुक्त जावकर्मथीरेत्यक्तनिरंजन नोकर्महणिउ
क्त ४ न० दर्शननाणीरेकेवलजावथी अरुपीअविनाश
निर्वरणरेनिर्ग्रथीनिर्माय निर्लेशनहीफास ५ न० सं

योगीरेउपाधिकसवे कनकउपलनेन्याय ध्यानानल
नीरेजालायेनही पृथककरेसुखथाय ६ न० एहवाजा
सोरेआतमआपणो नमिजिनसुणीवाच कीर्त्तिवाधीरेदे
शदेशांतरे लक्ष्मीकहेजिनसाच ७ न० इति ॥

अथ श्रीनेमजिनस्तवन ॥ आंबोमोहरीओ एदेशी ॥
श्रीनेमीतुमनेस्युंकहीये एकहेवानोनहीव्यवहार गुह्य
मोटानुंजाखतां उपजेमनमांविचार श्री० १ नामनि
रागीसहुकोकहे ब्रह्मचारीशिरदार रागराखोछोएवडो
राजुलउपरतुमेनिरधार श्री० २ चोमासेचालीगया
श्रीउग्रसेनदरवार आठभवांतरनेहलो तुमेपालोप्रेम
प्रकार श्री० ३ आतमसुखवांछाअछे तुंआवजेमाहरे
पास पहेलांतुझपछेमुझनी संकेतकरयोगुणवास श्री०
४ इमकहीव्रतआदरयुं राजूलनेआपीखास संयमसा
ढीपेहरणे नाणदंसणचरणविलास श्री० ५ सिद्धिसिरो
मणीउपरे भुंजेचिदानंदजोग आपसमीवशाकरी सा
दिअनंतसंयोग श्री० ६ अनंतजवमाहरे तुमसाथेसंब
ध विस्मृततुझनेकिमघटे संभारोनहातिसगंध श्री० ७
योगुरुनेचरणधरे हुंवलुंतुमजसवाद किर्त्तितुमारीछे
घणी लक्ष्मीसेवेतुमपाद श्री० ८ इति ॥

अथ श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवन ॥ चित्रोडाराजारे एदेशी ॥

वामाराणीजायारे सुरनरमुनिजायारे मुद्गमनत्राया
 हुत्रांशुन्नवधामणारे १ आरतिसविजागारे तुमस्यूलय
 लागारे रुचिजागीधनपूरांत्रावांत्रापणारे २ तुजसंगे
 शोजागारे बहुसर्मविभागीरे पशुन्नोगथयोधरणीदरो
 रे ३ आशातनाकारारे दोषीमहाजारीरे देसणधारी
 अशुरकमठोतरोरे ३ श्रीपार्श्वजिणंदारे मुखपूनिमचं
 दारे परमानंदकारी एप्रनुजाणियेरे ५ तुद्गनामसंजा
 रारे निजगुणविचारारे किर्तिताहरीजगवखाणीयेरे ६
 तुंहीतुंहीहमारोरे हुंजेदनिवारोरे इमकहेलक्ष्मीवाचक
 प्रमाणारे ७ इति ॥ अथ श्रीमाहाविरजिनस्तव
 न ॥ थुणित्रोथुणित्रोरे प्रनुसुरपतिजेथुणित्रोरे एदेशी ॥
 त्रिसलानंदनचंदनशीतल सरीससोहेशरीर गुणमणि
 सागरनागरगावे रागधन्यासीगंभीररे प्रभुविरजिनेसर
 पामो १शाशनवासितबोधेन्नविकनेतारे सयलसंसार पा
 वननावनाचावतिकीजे अमोपणत्रातमसाररे २ प्र. ना
 यकलायकतुमविणबीजो नवीमलीयोत्राकाल तारकपा
 रकन्नवन्नयकेरो तुजगदीनदयालरे ३ प्र० अकलत्र
 मायत्रमलप्रभुताहरो रुपातीविलास ध्यावतलावत
 अनुन्नवमंदिर योगीसरशुन्ननासरे ४ प्र० वीरधारशा
 शनपतिसाधो गातांकोडिकल्याण कीर्तिवीमलप्रनुप

रमसोजागी लक्ष्मीवाणीप्रमाणरे प्रभुविरजिनेसरपा
मो ५ इति ॥ लक्ष्मीवीमलजीकृत चोवीसीसंपूर्ण ॥

अथ श्री प्रमोदसागरजीकृतचोवीशी.

अथ श्रीरुषभजिनस्तवन ॥ श्रीयांसजिनवरवंदीएरे
लो एदेशी ॥ प्रथमजिनेश्वरपुजीयेरेलो पुज्येपापपुला
यरेरंगीला वृषभलंछनपदशोचतुरेलो कंचनवरणीका
यरे रंगी० १ प्र० आंचली ॥ शुभवनीतानगरीपतीरे
लो नाचिनृपतिजसतातरे रं० पांचसैकमुदेहनुरेलो
मानकह्युवीरुपातरे रं० २ प्र० पाल्युपुरणआउखुरे
लो पुरवचोराशीलाखरे रं० चतुरचोराशीगणधरारेलो
एहसीधांतनीसाखरे रं० ३ प्र० सोहेत्रीणलाखसाध
वीरेलो सहसचोरासीमुण्दिरे रं० गोमुखजक्षचकेश्व
रीरेलो जिनशाशनआणंदरे रं० ४ प्र० वंशइक्षागवखा
णीयेरेलो मरुदेवीजसमायरे रं० रुषभजिनेश्वरसेवतां
रेलो प्रमोदसागरसुखथायरे रं० ५ प्र० इति ॥

अथ श्रीअजितजिनस्तवन ॥ रामचंद्रकेवागआंबोमो
ररह्योरी ॥ एदेशी ॥ बंदूअजीतजिणंदमुरतिअवलव
नीरी आव्योछुंप्रनुपासतारकबीरुदसुनीरी जितसत्रु

नृपजातवीजआमातनलीरी गजलंछनअभीरामदेखी

(४०६) प्रमोदसागरजीकृत.

आसफलीरी १ नगरीअयोध्यास्वामिकायाकनकज
सीरी सेवकनेएकवारदेखोनयनहसीरी पुरवबहोतर
लाखजीवीतजाससुणुरी साढाच्यारसंचापदेहनंमानन
णुरी २ पचाणुंगणधार दिपेदेवजसारी वाचंजम
एकलाखमाहरेहृदयवस्यारी महाजक्षमहिमावंतअ
जीतानामेसुरीरी पुजेप्रभुनापायअहनीसप्रेमधरीरी
३ साहुणीत्रीणलाखसाचीसीयलवतीरी उपर
वीसहजारहोजोतासनतीरी वलग्योछुं प्रभुपायकीजेसो
हचडेरी बांहअहानीलाजएछेरीतवडेरी ४ पंचमकाले
नाथपाम्योपुन्यनरेरी पंचमीगतिदातारपंचमज्ञानधरे
री प्रमोदसागरनमेपायवारंवारललीरी नीर्मलसमकी
तसुधितुजथीथायनलीरी ५ इति ॥

अथ श्रीसंनवजिनस्तवन ॥ कीसकेवेचेलनेकीसकेवेपु
त ॥ एदेशी ॥ संनवजिनवरत्रीजोदेव त्रिवधेप्रणमुंहूं
नीतमेव साहिवसुंदरुं सावथीनगरीसुलतान चलकेदे
हीचंपकवान सा० १ नुपजीतारीकेतनुजात सेनाराणी
छेजसमात सा० हयलंछनलागतजिनपाय नामेदोहग
दोहिलजाय सा० २ आयुपुरवषष्टीलक्ष सेवेपदयुग
त्रिमुखजक्ष सा० दूरितारीदेवीगुणधाम दूरकरीसवी

दुकृतनाम सा० ३ उंचपणधनुषशतच्यार एकशतउप

रदोगणधार सा० मुनिवरवेलखजासउदार साधवी
 लखत्रिछत्रीसहजार सा० ४ अकलसरुपीएहअनंत वं
 दोनवीकाएनगवंत सा० प्रमोदसागरप्रभुचरणेलीन
 जिमजलनीरतिपामिमीन सा० ५ इति ॥

अथ श्रीअभिनंदनजिनस्तवन ॥ सुमतीसदादीलमां
 धरे एदेशी ॥ अचिनंदनअवधारीये वीनतडीएकवार
 सलूणे भाग्यदशायेनेटीयो तुंत्रिजोवनआधार स० १
 रोद्धिभरीवनीतापुरी सोहेसंवरभूप स० २ रंम
 णीजाससीधारथा राजेरंभारूप स० सारध
 त्रीणशतजेहनं उंचुंतनुधनुंमान स० पल्वगलंछनचरणे
 नलुं देहीकुंदनवानं स० ३ पुरवपंचासलाखनुं जीवी
 तजिनप्रमाण स० एकशतपाडिशगणधरुं त्रणलाख
 साधुसुजाण सु० ४ जक्षनायकनामेकालीका साधवी
 खटलखसारस० त्रीससहसउपरेवली प्रमोदसा
 गरमुखकार स० ५ इति ॥

अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ माहारीसहीरेसमाणी ए
 देशी ॥ सुमतिजिनेश्वरसेवासारी सुरनरलागेप्यारिरे
 जिनमोहनगारो मुरतिजसकीमोहनगारी सुरतिशीव
 सूखकारीरे जी० १ कौसलकारीकौसलानगरी दूरक
 रचासवयरीरे जि० सिलवतीजसमंगलामाता मेघन

(४०८) प्रमोदसागरजीकृत.

रेसरतातारे जि० २ क्रौचलंछनकरेचरणीसेवा सेवेतं
वरुदेवारे जि० महाकालिमनवंछीतपुरे शासनसंकट
चूरेरे जि० ३ जीवीतच्यालीसलाखपुरवनुं त्रीणसंध
नुंतनुंमानुंरे जि० मुनित्रणलाखनेविशहजार एकशतज
शगणधाररे जि० ४ अजापंचलखत्रीसहजार पामीचव
जलपाररे जि० फीर२वदनप्रभुकोनीरखे प्रमोदसागर
मनहरखेरे जि० ५ इति ॥ अथ श्रीपद्मप्रच

जिनस्तवन ॥ चतुरसनेहीमोहनां एदेशी ॥ श्रीजिनरा
जजयंकरुं श्रीपदमप्रभूराजेरे दिनकरवानेदीपतो ज्ञा
नगुणेकरीगाजेरे १ बलहारीजिनरुपकी कोसंबीनगरी
धणी धरराजाजसतातारे कुखेसुसीमामातनी अवतरी
आजगवंतारे २ ब० त्रीसपूरवलाखनुं आउखुंअभीरा
मरे धनुषअढीशतदेहडी कमललंछनशुचठामरे ब० ३
कुसुमजक्षत्रनेजक्षणी स्यांमाकरेप्रचूसैवरे सातअधी
कशतगणधरा हुंवंडुंततखेवरे ब० ४ त्रीससहसत्रिण
लखयती साहूणीचउलाखरे वीससहसअधकीसही
प्रमोदसागरइमचाखेरे ब० ५ इति ॥

अथ श्रीसुपार्श्वजिनस्तवन ॥ दानकहिंजगहुंवडो
एदेशी ॥ मुजरोमानोसुपासजी तुंमुझआतमराम ल
लनादीनदयालकृपाकरी आपोठांसुठाम ल० १

मु० सुरपुरसरसीवणारसी सुप्रतीष्टनामेनरेश ल०
 प्रथवीजननीजैहनी स्वस्तीकञ्चकनिवेश ल० २ मु०
 वीशलाखपुरवआउखुं कंचनवानउदार ल० देहीदोय
 शतधनुपनी नवफणशिरपरसार ल० ३ मु० पंचाणुज
 सगणधरा त्रिणलखमुनीवरसार ल० चउलखसाध
 वीश्रतीनली उपरत्रीसहजार ल० ४ मु० मातंगयक्ष
 शांतासुरी शासनसानीधकार ल० प्रमोदसागरनीवी
 नती धरज्योहृदयमझार ल० ५ मु० इति ॥

अथ श्रीचंद्रप्रभजिनस्तवन ॥ नंदनकुत्रिसलाहुलरा
 वे एदेशी ॥ श्रीचंद्रप्रभसाहिवमेरा शशीकरउजलदे
 हरे चंद्रलंछननिजचरणेशोभे अठमाहाशीधीगेहरे
 श्री० १ चंद्राननानगरीनोनायक महसेनराजानातन्न
 रे दशलखपुरवआउअनोपम लखमणामातविख्यात
 रे श्री० २ कायासारधशतधनुमाने त्राणुंगणधरजासरे
 वीजयासुरचकुटीतसदेवी नविछंडेप्रभुपासरे श्री० ३
 सारधदोलखमुनीजनकहीचे गुणमणीगणचंडाररे श्री
 एलखसहसअयसीझाझेरी साहुणीपरीवाररे श्री० ४
 अष्टदशगुरुदोपनिवारण तारणएजिनराजरे प्रमोदसा
 गरप्रभूचरणप्रज्ञादे दुशमनदूरेजाजेरे श्री० ५ इति ॥

अथ श्रीसुविधिजिनस्तवन ॥ चंदनवालावारणरेलो

(४१०) प्रमोदसागरजीकृत.

ल एदेशी॥वीधिस्वयंसुविधजिणंदनीरेलोल सेवकरुनी
सदिस मनमोहिउरे आठकरमदुरेकरचारेलोल नामेसु
रनरसीस म० १ वि० सुग्रीववंशदिवाकरुरेलो रामा
मातमल्हार म० पुरवदोयलखआउखुरेलोल पुष्प
दंतजयकार म० २ वि० काकंदीपुरीजेहनीरेलोल लं
छनमगरअनुप म० शतधनुंमानेदेहडीरेलोल शोभे
एकसुरूप म० २ वि० सोहेदोयलखसंजतीरेलोल अ
ठ्यासीगणनाथ म० वीससहसएकलाखछेरेलोल सा
हुणीप्रनुसाथ म० ४ वि० अजीतायक्षसुंतारीकारेलो
ल पुजेजिनपतिपाय म० प्रमोदसागरप्रभुध्यानथीरे
लोल समकितनिर्मलथाय म० ५ वि० इति ॥

अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥ गोडीमनलागु एदेशी ॥
शीतलनाथसुखाकरु शीतलवचनरसालरे जिनस्वुंदी
ललाग्युं शीतलतानयणेथई जिनपतिवंदननिहालरे
जि० १ नदीलपुरीनांमेनगरी दृढरथराजाधीररे जि०
नंदाराणीजनमीआ श्रीवल्ललंछनवीररे जि० २ जी
वीतपूरवलाखनुं नेउधनुषतनुमानरे जि० एकाशीग
णधरमुनी चांमीकरसमवांनरे जि० ३ वाचंजमलखजेह
ने ब्रम्हेश्वरजसयक्षरे जि० देवीअशोकादीपती मही

माजासप्रतक्षरे जि० ४ एकलखखटसहससाहुणी साधे

निजवरकाजरे जिः प्रमोदसागरजगतिजणे देयोत्रावि
 चलराजरे जि० ५ इति ॥ अथ श्रीश्रेयांसजिन
 स्तवन ॥ देहीरनणंदहठीली एदेशी ॥ वंदोवंदोएह
 जिणंदा पदप्रणमसुरजनवृंदारी वं० श्रीश्रेयांसमुणेंदा
 विश्नुकुलकुवलयचंदारी वं० १ माताविश्नुराणीजात
 लंछनखडगीउपशांतरी वं० आयुवरसचोरासीलाख
 एहवीप्रवचनसाचीसाखरी २वं. सूत्रसींहपुरीपतिजाण
 अयसीधनुपनुंदेहप्रमाणरी वं. जससहसचोरासीमुणं
 दा छीहोतरजासगणधाररी ३ वं० जसएकलखतीसह
 जार वरसाहुणीतीरधाररी वं० श्रीमांतवीदेवीजखेस
 सुरसासनमंगलकारीरी ४ वं० जसअष्टापदसत्रूरधन
 मोहतीमीरकरेदूरीरी वं. प्रनुप्रमोदसागरसुखपुर प्रग
 टयोअनुजवगुणसूरीरी ५ वं० इति ॥ अथ श्रीवा
 सुपूज्यजिनस्तवन ॥ मुनेप्यारोरैलागेंवीछुआ एदेशी ॥
 सखीवासुपूज्यप्रभूवारमा मनमोहनसाहिवदेवरे स
 खीदेहीदीपेसुरसी सुरकिंनरकरतासेवरे स० १ सखी
 सीतेरधनुंतनुंमानछे लखवहोतरवरसनुंआयरे सखी
 वसुपुज्यनामेनरपति जसराणीजयादेवीमायरे स० २
 सखीमहिषलंछनचंपाधणी जसछासठगणधरसांमीरे
 सखीकौमारचंडाजक्षणी प्रनूआणधरेसरिनांमीरे स०

३ सखीसहस्रवहोतरसंयती सुखकरश्रीजिनराजरे स
खीएकलखसुंदरसाधवी अतीसाधेआतमकाजरेस. ४
सखीहृदयकमलमांएहने ध्याइनेहोयेसिधिरे सखीप्रमो
दसागरप्रभुसेवथी धेरप्रगटेनवनिधिरीधिरेस. ५इति॥

अथ श्रीविमलजिनस्तवन ॥ रशीयानीदेशी ॥ वीम
लवीमलजावेनविप्रणमीये वीमलथयांमुञ्जनयन कृपा
नीधी श्रवणयुगलमाहरांपावनथयां नीसुणीप्रभुजी
नांवयण कृ० १ वी० कोडिकल्याणकरीकंपीलपुरी नू
पन्नलोकृतवर्म कृ० शामाराणीजननीप्रभुकेरी करती
धरमनाकर्म कृ० २ वी० साठधनुषसरलीजसदेहडी
साठलाखवरसनुंआय कृ० सूररलंछनचरणेवीराजतुं
प्रगटतरवासिमकाय कृ० ३ वी० श्रुतधरशतावनगण
धरनला मुनीवरअडसठसहस कृ० अजाएकलखउ
परआठसें पामीसदगतिवास कृ० ४ वी० षण्णमुषय
क्षत्रनेवीजयासुरी पुजेजिननापाय कृ० अहनीसध्या
नधरेप्रभुताहरुं प्रमोदसागरगुणगाय कृ० ५ वी०
इति ॥

अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ वाहले
श्वरमुझवीनतीगोडीचाराय एदेशी ॥ नगरीअजोध्या
राजीयो जीणंदराय संतअनंतनगवंतरे जि० सींहसे
नसुयसामातनो जी० नंदनशुभ्रगुणवंतरे जी० १ न०

त्रीसलाखवरसनुंआउखुं जी० तापीतसोवनवा
 नरे जी० सींचाणोसेवाकरे जी० पंचासधनुपनुंमानरे
 जी० २ न० पातालजक्षनेत्रंकुसा जी० जिनशासन
 जयकाररे जी० पंचासजगणनायका जी० आगंमज
 लंआधाररे जी० ३ न० सहसवासठसंजमी जी० ध
 रमधुरंधरसाधरे जी० सहसवासठसाधवी जी० तप
 जपकरेनीराबाधरे जी० ४ न० शक्तिअनंतीनाथनी
 जी० पाम्योठामअनंतरे जी० प्रमोदसागरइमवीनवे
 जी० आपोठामअनंतरे जी० ५ न० इति ॥

अथ श्रीधर्मजिनस्तवत ॥ हेसखीअमीयरसालकेचंदो
 वाखंडरे एदेशी ॥ प्रणमुंधर्मजिणेसरधर्मधुरंधरुरे ध०
 धरीयेधर्मसनेहअनेहीजवरुरे अ० रतनपुरीनोनाय
 कलायकसोहतोरे ला० कंचनकांतिसुकांतिसदामन
 मोहतोरे स० १ तेजेभानुंसमानभानुंवसुधापतीरे जा०
 सुव्रतामाताविरुघातसदाव्रतधारतीरे स० वज्रलंछन
 सुन्नलंछनअंगिवीराजतारि अ० त्रेतालीसगणधारगुण
 करछाजतारि गु० २ दसलाखवरसनुंजीवीतसुरधणीरे
 जी० पणयालीसधनुमानेकायाजिनतणीरे का० केन
 रनामेयक्षपुरेमतकामनारे पु० कंदर्पसुरीपूजेपदकज
 स्वामीनारे प० ३ सोहेसवलाचोसठसहसतपोधनारे

(४१४) प्रमोदसागरजीकृत.

स० सहस्रबासठच्यारसेंसाधवीज्जिजीनारे सा० तुज
सरीखोनहीस्वामीअवरकिमआदरुरे अ० मधुरी
साकरचाखीकंकरस्युंकंरुरे कं० ४ गुणवंतसाथेगोठ
डीजोहोयनिषलीरे जो० त्रीजोवननाथअनाथकेंमोप
णिनेजलीरे मो० जोसफलीहोवेप्रीततोनीचनसेवीयेरे
नी० प्रमोदसागरत्रिवधेस्युंज्जिजीनसेवीयेरे ज० ५
इति ॥ अथ श्रीशांतिजिनस्तवन ॥ इडरआंबा

आंबलीरे एदेशी ॥ शांतीजनाधीपसोलमोरे पुन्यतणो
अंकुर ध्यानानलमलटालीनेरे प्रगटयोआतमनुर १ चतु
रजिनप्रटयोअनुजवपुर मोहतिमारदूरेकरेरे उग्योस
मकितसुर च. एआंचलीगजपुरनगरसोहामणारे वीश्व
सेननरपतितात अचीराजननीदेवनीरे हरीणलंछनअ
तीकांति च. २ जिवितवरसएकलाखनुरे च्यालीसधनुषनु
मान छत्रीसगणधरगुणनीलारे धरताप्रभुकोध्यान
च० ३ बासठसहस्रजससाधुवारे तीनरयणआधार ए
कसठसहस्रसाधवीरे अधकीखटअवधार च० ४ सेवे
गुरुयक्षेस्वरुरे निरवाणितसनार शांतिकरणजगशांति
जीरे प्रमोदसागरजयकार च० ५ इति ॥

अथ श्रीकुंथुनाथजिनस्तवन ॥ ममकरोमायाकायाका
रमी एदेशी ॥ रंगलाग्योप्रभुरूपस्युं तुंजयोकुंथुजिनराय

रे देहनीकांतिकंचनसमी गजपुरेसूरनृपतायरे रं० १
 राणीशिरीजेहनीमातृका पांत्रीसिचापनीदेहरे सेवतोछा
 गलंछनमिसैं कीमदीयेप्रभूतसेछेहरे रं० २ जेहनेपां
 त्रीसगणधरा मुनिजनसाठहजाररे साठिसहसप्रचुसा
 हूणी खटशतअतीमनोहाररे रं० ३ यक्षगंध्रववलाजक्ष
 णी द्योयकरेशासनसेवरे वरसपंचाणंसहसत्राउखुं तु
 ही२सहीदेवरे ४ रं० ज्ञानगुणकुसुमतनुंवाशित चासि
 तलोकअलोकरे प्रमोदसागरप्रभुचित्तेधरो जीमधरेदी
 नकरकोकरे ५ रं० इति ॥ अथ श्रीअरजिनस्त
 वन ॥ वाहणपांचसेंपुरीयां एदेशी ॥ आशपुरेअरना
 थजी सातमोचक्रधरस्वामीरे जीविकपंकजप्रतीबोधतो
 सोधतोआतमरामीरे १ मोहनमूरतिजिनतणी आंक
 णी. गजपुरनगरअतीसुंदरु नामसूदरसणचूपरे देवी
 राणीजसमांतछे गालितहेमतनुरुपररे १मो० लंछननंदा
 वरतनुं धनुपजसत्रीसनुंमानरे वरसचोरासीहजारनुं
 जीवीतजासप्रधानरे ३ मो. ४ गणधरतेत्रीसजाणीये
 साधुगणसहसपंचासरे साहुणीसाठसहसजली छोडवे
 मोहजवपासरे ४ मो. यक्षराजासुरयक्षणी धार
 णीनामेकहवायरे प्रचुतणीआगनासीरधरे प्रमोद
 सागरगुणगायरे ५ मो० ॥ इति ॥

(४१६) प्रमोदसागरजीकृत.

अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ आदिजिनेसरवीनती एदे
शी ॥ मल्लिजिनेशरवंदीये नीलकमलदलअंगलालरे
तीर्थकरपदनागव्युं कूंमरीरुपेचंगलालरे १ म० मीथिला
नगरीनोराजीओ कूंनपीतायशवंतलालरे देवीनामेप्र
चावती कुखेरयणगुणवंतलालरे २ म० सहसपंचावन
वर्षनुं जीवीतजगमांसारलालरे पणवीशधनुषनीदेह
डी कलसलंछनशीवकारलालरे ३ म० सहसच्या
लीसमुनीजेहने गणधरअठावीससारलालरे सहसपं
चावनसाधवी नामेंप्रनुपदशीसलालरे ४ म० यक्षकू
बेरधरणप्रीया जिनशाशनरखवाललालरे प्रमोदसाग
रजंपेइस्युं आपोवांणीरसाललालरे ५ म० इति ॥

अथ श्रीमुनीसुव्रतजिनस्तवन ॥ वीसमोजिनवरसूकृत
कारी मनमथवैरीमाननीवारी मोहनांमुनीसुव्रतसांमी
जीवनांमुनीसूव्रत १ मो० कजलवानेदेहिदीपे
नीरुपमरुपेत्रीनोवनजीपे मो० जी० कछपलंछनपदक
जभासे विसधनुषतनुधर्मप्रकासे मो० २ जी० जीवी
तवरसत्रीसहजार गणधरसोहेजासअठार मो० जी०
वीससहसमुनीविरप्रभुपास साहुणीकहिसहसपंचास
मो० ३ जी० राजग्रहीनगरीनोराजा सुमीत्रनरपतिकूल

दिवाजा मो० जी० पदमावतीदेवीतनुजात हरीवंशमां

जनमवीर्यांत मो० १० जी० वरुणसुरनरदत्तादेवी
 आनंदाधीकेसासनसेवी मो० जी० प्रमोदसागरप्रभु
 चरणेलागे वीसवेशानुंसमकीतमागे मो० ५ जी० इ
 ति ॥ अथ श्रीनेमिनाथजिनस्तवन ॥ सेवो२हो
 लालपुरसादाणीतुमने एदेशी ॥ वंदो२नेलालजीनभू
 वनजयकारी पुजो२बेलालजिनशासनसुखकारी एक
 वीसमानमीनाथजिणंदा मीथीलपुरअधिकारी १ वं०
 लंछननीलकमलअतीसुंदर पनरधनुपतनुंधारि वं०
 सहसजसदसंवरसनुंआयु कायाकंचनसारी २ वं०
 वीजयनृपतिनेवीप्रराणी नंदनआनंदकारी वं० चकृ
 टीसुरगंधारीदेवी शाशननेहीतकारी ३ वं० शतरंग
 एधरवरगुणखाणी वीससहसत्रतधारी वं० अजाएक
 तालीसहजार कूमतिकूगतिचववारी ४ वं० हीयडेह
 रखीनयणेनरखी मोहनमूरतिताहरी वं० प्रमोदसाग
 रजपेप्रभूजीना दरसणकीबलिहारी वं० ५ इति ॥
 अथ श्रीनेमिनाथजिनस्तवन ॥ मकरजीवंपरतातिदी
 नरातितुं एदेशी ॥ नेमजिनसांजलोवीनतीमूझतणी
 आसनीजदासनीसफलकीजे ब्रह्मचारीशिरसेहरोतुंप्र
 जो तातभुंझवातचितेधरीजे १ ने० नगरसौरीपुरनाम
 रजीआमणुं समूद्रवीजयांचीदोभूपदीपे श्रीसीवादेवी

(४१८) प्रमोदसागरजीकृत.

नंदनकरुवंदना अंजनवानरतिनाथजीपे २ ने० अंख
उजलगुणाशंखलांछिनसु सारङ्ग्यारगणधरसोहावे आ
उएकसहसवरसमानेकह्युं अंगदसधनुपमानेकहावे ३
ने० यक्षगोमेधनेअंबीकायक्षणी जिनशासनसदासौ
ख्यकारी अठारहजारअणगारश्रूतसागरा सहसच्या
लीसअजावीचारी४ने.कांचनादिकवहूवस्तुजगकारमी
सारसंसारमांतुहोदीठो प्रमोदसागरप्रचूहरखथीनी
रखतां पातीकपुरसवीदूरनीठो ५ ने० इति ॥

अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन ॥ थारामोहलांडपरमेहजरु
षेवीजलि एदेशी ॥ पुरशादाणीपासजिनेश्वरपजीये
होलाल जि० त्रेवीसमोजिनरायदेखीमनरंजियेहोला
ल दे० चरणसरोरुहयमलप्रणमीयेस्वामीनाहोलाल
प्र० कप्तठासूरहठचूरतपूरीमनकांमनाहोलाल पु० १
अश्वशेननरपतिवंशकुमूदचंदलोहोलाल कु० वामामा
ताकूषेसरोवरहंसलोहोलाल स० नीलवरणतनुकांतिसु
जातिंराजतीहोलाल सु० नवकरमानिकायाअनोपम
छाजतीहोलाल अ० २ नगरीवणारसीजिहनीधनंद
पुरीजसीहोलाल ध० सरपलंछणशिवकारणचरणसे
वेहसीहोलाल च० दशगणधरमनोहारमनोजवटाल
ताहोलाल म० सोलसहसमुंनीआणजिणंदनीपालता

होलाल जि० ३ धरणेंद्रपदमावतीकरेजिनचांकरीहो
लाल क० साधवीअडत्रीससहसअतीवकृपाकरीहो
लाल अ० एकशतवरसनुंजीवीतजेहनुंजाणीयेंहोलाल
जे० जगजीवनजिनराज सेवाचितआणीयेंहोलाल
चि० ४संसारसागरतीरथीनवीजनतारीयेंहोलाल न० अ
धर्मअकीर्तिअनीतिअसनवारियेंहोलाल अ० उतमस
रसीप्रीतकरेंतेसुखलहेंहोलाल क० प्रमोदसागरप्रभू
नीसदीनआज्ञाशिरवहेंहोलाल अ० ५ इति ॥
अथ श्रीमहावीरजिनस्तवन ॥ मुजरोछेजरिं एदेशी ॥
मुजरोल्योजी सीधारथदारकमुजरोल्योजी सेवकसुख
कारक मु० त्रीभोवनजिनतारक मु० जिनशासनधा
रक मु० आं० वंदीनवीकावीरजिणेशर चोवीसमोजि
नताता केसरीलछनकेसरीसरखो त्रीसलाराणीमाता
१ मु० जीवीतवरसवहोतरअनोपम सोवनकांतिउदा
र क्षत्रीयकुंडनगरअतिशोने एकादशगणधार २
मु० मातंगसुरसीधाईदेवी पुजेजिनवरपाया सातहाथ
तुजदेहप्रमाण चउदसहसमुनीराया ३ मु० साधवीसह
सछत्रीसवीराजे चर्मजिनेश्वरदेवा तेरपदेमोजिनवरगा
या सुरपतीकरतासेवा ४ मु० अणसैगणस्येजेजनसु
णस्ये तसधररीधिवीशाला प्रमोदसागरजंपेप्रभूजिनि

(४२०)

वीनीतविजयजीकृत.

होजोमंगलमाला ५ सु० इति ॥ इतिप्रमोदसागरजी
कृत चोवीसी संपूर्ण ॥

अथ श्रीवीनीतवीजयजीकृतचोवीसी.

अथ श्रीरुषन्नजिनस्तवन ॥ सुंदरमुरतिसाहिवसेवीये
रुषन्नजिणैसररंग सुगुणनर परतक्षपरतापुरेमुझप्रभु
दीठेउलटअंगे वालेसर १ सुंदरमुरतिसाहिवसेवीये
आंकणी ॥ अंतरजामीआदिजिणैसरु अवधारोअरदा
स सु० नेहनजरकरीनिरखोसेवक पुरोमनतणीआस
वा० २ सु० त्रिनुवनतारणासिवसुखकारण दूखहर
दीनदयाल सु० महिरकरीनिजसेवकमनरमो कोकि
लजेमरसाल वा० ३ सु० आजसवेमनवंछितमुझफ
ल्यां नाठांनवदूखदूर सु० आजअमीमेहवुठयोआंगणे
प्रगटयोपुन्यअंकुर वा० ४ सु० आजथकीदिनवली
ओमाहरो फालिओघरसहकार सु० चावठभंजणजे
ठ्योजगधणी मरुदेवीमातमल्हार वा० ५ सु० बहुफ
लदायकहोवेदिनादिने तुझसेवासुरवेल सु० सीचीजेप्र
भुजेनिजसेवके नगतिअमीरसरैल वा० ६ सु० सो
लकलासंपूर्णचंद्रमा सुंदरतुझमुखजोय सु० अगेआण
दउपजेमाहरे ठरीआंलोचनदोय वा० ७ सु० इक्षांग

वीनीतविजयजीकृत. (४२१)

वंसेविमलाविभुपणं विमलाचलतुङ्गवासः सु० शिवसुंद
 रीरुं प्रभुमुजआपजो अविहडसुखविलासः वा० ८ सु०
 सकलपंडितसुंदरसिरसेहरो लावण्यविजयगुरुराय
 सु० पंडितनेरुविजयगुरुसेवकः विनीतविजयगुणगाय
 वा० ९ सु० इति ॥ अथ श्रीअजितजिनस्तन
 ॥ देशीवीछीयानी ॥ सारदसारदयाकरी सातआपो
 आविरवाणिहो ब्रीजोजितमनमावस्यो गुणगाउगुणम
 णीखाणिहो १ मनमोहनजिनजीमनवस्यो आंकणी
 विजयाराणीनोनंदहो सोनांगमिहिमानिलो मनवांछि
 तसुरतरुकंदहो २ म० चउसयपंचासधनुपनुं देहमान
 सोवन्नसमानहो बहुतरलोखपुरवतणुं आउपूरणपून्त्र
 निदानहो ३ म० मुखसारदकोचंदलो गतिजित्योते
 गजराजहो जाणुं चरणसरणआवीनिवे पशुदोपहरो
 जिनराजहो ४ म० मोहनमूरतिताहरी सुखदाइनयत्तानं
 दहो जोतांत्रपतिनपामिए जिमच्चतुरचक्रोराचंदहो ५
 म० साचोसयणतुंमाहरे ताहरेदिलहोयत्तहोयहो मुझ
 सरीखातुझलाखछे पणमुझमनअवरनकोयहो ६ म०
 मित्रएकतुंमाहरे तुजदीठेपरमाणंदहो मेरुविजयगुरु
 राजतो सीसविनीतकहोचिरनंदहो ७ म० इति ॥

अथ श्रीसंनवजिनस्तवने ॥ लुंगांकीलकडीजातुंगांठि २

(४२२) वीनीतविजयजीकृतः

लीलालनगंठिली एदेशी ॥ वंदारेन्नविकासंभवनाथजि
एंडा जितारिनरवरवंसेउग्योदिणंदा लालनउग्योदि
एंडा मातसेनादेवीउअरेअवतरिया करमखपावीप्र
नुनवजलतरिआ लालन भवजलतरिआ १ अनोप
मसाहिवतोरिसेवामेपामी तोलहीवंचितसुखसंपदसा
मी लालनसंपदसामी ताहरोदरिसणजिनजीलागेछे
प्यारो इकवारमोहिनेहनिजरेनिहालो लालननिजरे
निहालो२ जिमदिनकरउग्येकमलविकासे तिमतुमदीठे
मोरुंमनडुंहीसेलालन म. तुमेनीरागीमाहरामनडानारा
गी तुमरुयुंपुरवन्नवनीश्रीतडीजागी लालनश्री०३ तुमे
रोदिलकोजानीतुंहीछेग्यानी माहराप्रभुजीताहरीअक
लकहानी लालनअ० अकलसरुपनिरंजनकहीये ता
हरीआणसदासिरवहीये लालन स०४ वाहालधरिसा
हिवचाकरिकीजे तोमनमनाव्याविनाकिममनरीझे ला
लनकि० पंडितमेरुविजयगुरुचरणे सेवकविनीतकहे
राखोसरणे लालनराखोसरणे ५ इति ॥

अथ श्रीअचीनंदनजिनस्तवन ॥ मनमधूकरमोहीरहो
एदेशी ॥ अभिनंदनजिनताहरी मूरतिमोहनवेलीरे व
हुगुणकुसुमपरिमलजरि मनमधूकरकरकेलीरे १ अ
भिनंदनजिनताहरी आंकणी. नविजननगतिअतीअ

द्विनातविजयजीकृत. (४२३)

मीरसे सींचीजेनीतमेवरे मनवंछीतफलपामीये सुखसं
योगसनेहरे २ अ. देखतहीदिलमांवसी माहरानयनलु
नाणाजायरे मालतीमधुंकरनीपरे अवरनआवेदायरे ३
अ० चंदचकोराप्रीतडी घनगरजारवमोररे एकपखोइं
मनेहलो तेदुखदिलदियेजोररे ४ अ० परमदयालद
याकरी हमतुमअंतरटालोरे मेरुविजयगुरुसीसने विनी
तविजयप्रतिपालोरे ५ अ० इति ॥ अथ श्रीसु
मतीजिनस्तवन ॥ इंडरआंवाआंवालीरे एदेशी ॥ सुम
तिजिणेसरसाहिवोरे सुमतितणोदांतार सेवतांसंपद
मिलेरे कुमतितणोपरिहार १ जिणंदरायमाहरेतुमस्युं
नेह जिमंवाप्पियडामेह जि० आवोमुजमनगेह जि०
आंकणी. त्रिगडेवेठासोहीयेरे उदयाचलजिमनाण दु
रिततिमिरदूरेहरेरे अनुपमकेवलनाण जि० २ रतन
सिंहासणवेसणोरे छत्रत्रयसिरसार चंदकिरणपरेउज
ळारे चमरढलेजयकार ३ जि० वाणीजोजनगामिणीरे
सरससुधारससार देवध्वनितिहांदीपतोरे नविजनम
नसुखकार ५ जि० अशोकवृक्षसुरतरुसमारे नवपल्लव
सीतलछांह देवदुंदुचीगयणंगणोरे गाजेप्रभुसुपसाय ५
जि० एफूलपगरपरिमलभरेरे महकेदहदिसिसारं पंडि

तमेरुविजयतणोरे विनितविजयजयकार जि. ७ इति ॥

(४२४) वीनीतविजयजीकृत.

अथ श्रीपद्मप्रभुजिनस्तवन ॥ देशीनाहनानाहलानि
॥ पद्मप्रभुजिनवरजयोरे पदमसुकोमलगात जिनजी
वालहोरे पदमलंछनसोहामणुरे मातसुसीमाजात १
जि० वदनपदममनत्रमरलोरे लीनोगुणमकरंद जि०
प्रभुचरणपदमसरणसदारे राखोमोहिजिणंद २ जि०
अढीसंधनुपनादेहडीरे पदमवरणसोहाय जि० त्रीस
पूरवलखआउखुरे सुरपदमणिगुणगाय जि० ३ धर
नरवरकुलदिनमणीरे सुरमणिवंछितदान जि० मुझम
नमंदिरतुंवस्योरे जिमकमलामनकहान जि० ४ नमतां
नवनिद्विसंपजेरे प्रभुसमरतासीझिकाज जि० मेरुविज
यगुरुसीसनेरे दीजेअविचलराज जि० ५ इति ॥

अथ श्रीसुपासजिनस्तवना ॥ देशीझुवपडानी ॥ श्रीसु
पासजिनगाईये पाईयेहरपडल्लास सनेहीसाहिवा पर
तिष्ठनरपतिकुलतिलो पुरवेमननीआस १ स० पृथ
वीमातउयरेधरयो जिममानससरहंस स० निजगुण
मणिपरकासके अजुआल्योनिजवंस २ स० इंद्रचंद्र
चक्रवर्तिजे तेसहुताहरादास स० हुंसेवकछुंताहरो च
रणेआव्योकरिआस स० ३ आसकरीजेआवीया ता
सनकीजेतिरास स० आसपूरोप्रभुदासनी जिमलही
येलीलविलास स० ४ ताहरुध्यानसदाधरु जिममृग

मदशुभवास सं० पंडितमेरुविजयतणो ॥ विनीतविज
 यएहजास सं० ५ इति ॥ ॥ अथ श्रीचंद्रप्रज
 जितस्तवन ॥ देशी ॥ नींदरुडीनी ॥ चंद्रप्रभगुणउ
 जला ॥ चंद्रप्रजरेजिनताहरीसेव ॥ करीयेंतोडरीयेंतही
 पिंडनरीयैरेपुण्येदेवाधिदेव १ चंद्रप्रजगुणउजला
 आंकणी सोलंकलापूरणनरयो पुनिमेनोरेजेसोसारद
 चंद रजतकांतिजितराजनो मुखदीठेरेहोयेंनयणानंद
 २ चं० लछनमिसिप्रनुवीनवे मुझटालियेरेचवध्रमण
 नोफंदचरणकमलाजितताहरा दिनरातैरेसेवचंदसूरिंद
 ३ चं० अरजकरेवलीएहवी ग्रहगणंपतिहोप्रभुगुणम
 णिधाम मलिनकलंकजगमाहरु दूरेहरोहोपूरोवंछित
 काम ४ चं० चतुरेचकोरजेभविजना तेचाहेरेतुझदरि
 सत्रमूल मेरुविजयकविराजनो सीसविनीतनेरेदिश्रो
 सुखअनुकूल ५ चं० इति ॥ ॥ अथ श्रीसुविधि
 जितस्तवन सुणमेरीसजनिरजनीनजावरे एदेशी ॥ न
 वमासुविधीजिणेसरनमीयैरे जिमजवसागरमांहेिनज
 मीयैरेनिरमलमनवचकायादमीयैरे तोदुरितसवेदुखदु
 रगमीयैरे १ आंकणी रामाराणीउयरेउपनोरे जिममु
 गताफलसिपेनिपनोरे सुग्रीवतरवरकुलअवतंसरे २

विक्रमलवणरायहंसरे २ न० तुझविणअवरनकोड

(४२६) वीनीतविजयजीकृत.

रसीयोरे माहरामनमांतुंहीजवसिञ्जोरे तुझदीठेहीय
डोउल्लसीयोरे जिमचंद्रदीठेसाघरधसीयोरे ३ न० धनर
मणीवल्लजसंयोगरे देवमनुजगतिनावरजोगरे तुंतुठेसा
मीपामीजेरे ताहरीसेवनिरंतरकीजेरे ४ न. एकसोधनुष
नुंदेहप्रमाणरे दोपूरवलाखत्राउखुजाणरे पंडितमेरुवि
जयसुजाणरे वीनीतविजयकरेगुणवखाणरे ५ न. इति ॥
अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥ देशीपाहुणडानी ॥ साहेव
जीरे तुनिसनेहीदेव नेहनवलहोयेकिमसहीरे जिन
वरजीरे जलिजलिमरेरेपतंग दीपककेमनमेंनहीरे १
सा. जिमकुसुममांहिवास जिमचंदनशीतलपणुरे जि.
जिमघृतमांहिसनेह इमरहीयेतोसुखघणुरे २ सा० तु
मगुणमालतीफुल मुझमनजमरमोहीरह्योरे जि० नं
दामातानंद जगदानंदनतुंकह्योरे ३ सा० दृढरथनरप
तिवंस उदयोअजिनवदीवडोरे जि० शीतलनाथसीव
साथ शीतलदारिसणदीठडोरे ४ सा० ताहरुसोवनवा
नसरीर नेवुधनुषनुंजाणियेरे जि० मेरुविजयगुरुसीस
विनीताविजयनेमानियेरे ५ सा० इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ देशीअलबेलानी ॥ श्री
श्रेयांसजिनसाहिवारेलाल मोरीअरजसुणोएकंत जा

उवारीरे प्राणवल्लभतुंमाहरेरेलाल तुजसमअवरनसंत

वीनीतविजयजीकृत. (४२७)

जा० १ श्री० आंकणी मोटाप्रचुनीचाकररीरेलाल ते
 किमनिष्फलजाय जा० सेवकनेसुखीयोकररीरेलाल म
 नमोटेकरिसुपसाय जा० २ श्री० अंतरजामीतुजवी
 नारेलाल किणआगलकहयिवाप जा० दिलनीतरनी
 वातडीरेलाल कह्यापाखेतुंजाणेआप जा० ३ श्री० प
 रमेसरस्युंनेहलोरेलाल किमकिजेकिरतार जा० चंच
 लमततेमाहरुरेलाल खिणनरहेथिरनिरधार जा० ४
 श्री० विशुनंदनवंदनमाहरीरेलाल तुह्मोजाणजोवारं
 वार जा० मेरुविजयविवुधतणोरेलाल सीसविनीतनां
 विघननिवार जा० ५ श्री० इति ॥ अथ श्रीवा
 सुपुज्यजिनस्तवन ॥ सुगुणालारेमाहराआतमरामके
 प्राणवल्लभप्रचुमाहरि जोसुणिविनतीरेएकस्वामीसार
 के सुमतिनारीहुंताहरी पाहुणडोरेएकअतुलापिछाणके
 अनोपमगुणछेजेहना मनमंदिररेहुंतेडिसतेहके अपछ
 रगुणगायतेहना १ वलतुबोलेरेआतमपिउएमके मंदि
 रशुचिकरोसुंदरी उपसमजलोरेनिरमलकरिदेहके ज्ञा
 नरतनभुपणधरी पंचवरणारेव्रतचरणाचीरके विवेक
 दीपकवरकीजीये फुलसज्यारेसमतामयजाणके एह
 स्युंलाहोलीजिये २ नलीनगतेरेरीझववोएहके चतुर
 चकोरतुंगोरडी वडवखतेरेसुणनारिसुजाणके एहस्युं

(४३०) वीनीतविजयजीकृतः

मथरे २ ध० तुङ्गपसायनरपामीया चवश्रटवीनोपारो
रे नरसुरसंपदज्ञोगवी थयासिवनगरीसिणगारोरे ३
ध० जेतुङ्गत्राणावाहिरा तेनरगनिगोदज्ञमंतोरे क्रो
धलोभमोहकामना दुखत्रनेकसहंतोरे ४ ध० जेतुङ्ग
वाणीरातडा धनधनतेनरनाररे मेरुविजयगुरुरायनो
विनीतवंछितजयकाररे ५ ध० इति ॥ अथ श्री

शांतिजिनस्तवन ॥ देशीपारधियानी ॥ सकलमनोर
थसुरमणीरे सोलसमोजिणजाणरे मनवसीश्रो विश्व
सेननररायनोरे वंसविजासणजाणरे शिवरसीश्रो १ अ
चिराराणीजनमित्रोरे चउदसुपनसुविचाररे म० छ
पनदिगकुमरीमिलीरे गायोगुणनिधिसाररे शि० २
चउविहदेवनिकायनारे नायकचोसठइंदरे म० जनम
महोछवबहुपररे कीधोमेरुगिरिंदरे शि० ३ खटखंडपृ
थवीवसकररे वयरीतणामदमोडिरे म० बत्रीससहस
नरेसरुरे सेवकरेकरजोडिरे शि० ४ इमराजसिरीवर
ज्ञोगवीरे थयोकेवलकमलाकंतरे म० मेरुविजयसी
सइमज्ञणेरे सेवोएश्ररिहंतरे शि० ५ इति ॥

अथ श्रीकुंथुजिनस्तवन ॥ रहोरहोरहोरहोवालहा ए
देशी ॥ कुंथुनाथजिनवरजयो सूरनरेसरनंदलालरे जा
वेनविश्रणजेटतां आपेवंछितवृंदलालरे १ कुं० आंक

णी. अहोअहोअहोजिनताहरी. रीद्वीअनंतीकोड ला०
 सुरनरनाजेराजवी प्रणमेवेकरजोड ला० २ कुं० कनं
 करयणमणिमंदिरे. देवकरेवसुवृष्टि. ला० चक्रीनी
 पणरिद्धिजे तेवलिथइउतकृष्टि ला० ३ कुं० रजतरतन
 सोवनतणा त्रिणगढझाकझमाल ला० दसदिसनेपर
 गासतां जोजननूमिविसाल ला० ४ कुं० चउत्रीसअ
 तिसयराजता. सेवेपरखदवार. ला० मेरुविजयगु
 रुसीसने दीजेरिद्विरसाल ला० ५ कुं० इति ॥
 अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ सुणबहिनीपिउडोपरदेशी
 एदेशी ॥ सुणमेरीवहिनीएजिनसाचो रयणचिंतामणि
 जाचोरे रायसुदर्शननेकुलदीवो देवीसुतचिरंजीवोरे १
 सु० एसाहिवमोरादीलमांवासिअओ जिमकमलेंजमरोर
 सीअोरे एहजसयणसदानिरवहीये जिमकुसुममांपरि
 मलवहीयेरे २ सु० ताहरीसूरतिकिबलिहारी देखत
 हीदीलप्यारीरे मैपापसंतापकेतांअवगाह्यां आजसु
 धाकुंडनाह्यारे ३ सु० नाथमेरोअरनाथसुहावे जिससे
 वेसुरनरनाथोरे दानसंवछरीबहुधनदीधां सुरतरुसम
 वडहाथोरे ४ सु० त्यागीजोगीनेसोजागी जोगीसरव
 यरागीरे मेरुविजयगुरुचरणसेवाकर वीनीतहेतुमगु
 णरागीरे ५ सु० इति ॥ अथ श्रीमल्लिजिन

स्तवन ॥ पुज्यजीपधारघोहो आविजिकोकहये एदे
 शी ॥ धनधनतेदिनजइयेदेखस्युं साहिवतुममुखचंदो
 रे मनमोहनजिनतुंमनवालहो दीठेनयणाणदोरे १
 ध० कुंननरेश्वरवंसविजाकर उदयोअन्निनवजाणरे
 परजावतीराणीएजनमीओ जिणंजीत्योपंचवाणरे २
 ध० तुंपरमेसरतुंजगदीसरुं अलवेसरअवधोरारे रात
 दिवसतुंजगुणसमरणकरी सफलकरुअवतारारे ३ ध०
 जोदिलसाचोसेवकजाणीये तोमहिरकरोमहराजोरे
 जिनकरुणाकरअंतरटालीये तोसीझेसविकाजोरे ४ ध०
 मल्लिनाथजिनतुंजगुणमालती मुझमनभमरोलीनरे मेरु
 विजयगुरुसेवकवीनवे प्रजुगुणगणआधीनरे ५ ध० इति ॥
 अथ श्रीमुनिसुव्रतजिनस्तवन ॥ कंततमाकुपरिहरो ए
 देशी ॥ श्रीमुनिसुव्रतसाहिवो सेवोदिलएकंत मोरा
 लाल वीसमोजिनमनवीसस्यो एसमअवरनसंत मो०
 १ श्रीमु० पदमावतिउरउपन्यो पुत्ररयणपरगड मो०
 विद्याधरसुरपतिसवे मानेमहीपतिघट्ट मो० २ श्री०
 रायसुमित्रकुलसायरे उग्योशारदचंद मो० अतुलीव
 लअवतीजयो महिमाभेरुसमान मो० ३ श्री० मनमा
 न्यास्युंगोठडी जोकरीयेकिरतार मो० पाणीदूधपट्टंत
 रो तोलहियेएकवार मो० ४ श्री० कळछपलंछणजि

एवरुं सामलीत्रोसुकुमाल मो० मेरुविजयगुरुसीस
 ने दीजेमंगलमाल मो० ५ श्री इति ॥ अथ श्री
 नमिनाथजिनस्तवन ॥ देशीजावननी ॥ नमीनमीने
 नमिजिनवदियेरे करिमनवचकायाशुद्ध लखमीलीला
 तसघरबहुपररे पामीजेअविरुद्ध १ नमी० आंकणी
 जोतुझवयणरिदयमांधारीयेरे संचारियेसोवार शोक
 संतापसवेदुखवीसररे आनंदअधिकअपार २ नमी०
 वप्राराणीकुखेत्रवतरथारे मानससरबरोहंसमोहमहाज
 डहेलांजीतीयोरे दीपाव्योनिजवंश ३ न० स्वामिसुहं
 करसेवामाहरीरे मुजरेआणिमयाल हुरागीतुनीरांगी
 प्रचूरे किमरिझवियेकपाल ४ न० विजयनरेसरनंद
 ननाहलारे तुंजाणेदिलेनीवात पंडितमेरुविजयगुरुसी
 सनीरे पूरोमननीखांत ५ न० इति ॥ अथ श्री
 नेमिजिनस्तवन ॥ आयेसडानी एदेशी ॥ मनमोहनी
 या पिउसुणरेसामलीयानाहके हूससेनेहीसुंदरीरे म
 नमोहनीया पिउअष्टनवंतरप्रीतिके नोमेनवकिमपर
 हरीरे १ म० पिउतुंछेचतुरसुजाणके हंगोरीगुणआग
 लीरे म० पिउबोलेराजुलनारके वालिंमाविरहेआकली
 रे २ म० पिउजोवननादिनजायके अवसरलाहोली
 जीयेरे म० पिउअवसरउचितअजाणके पशुउपमतसदी

(४३४)

वीनीताविजयजीकृत.

जीयेरे ३ म० पिउफुलमालाभुकमालके कुमलायेतुझ
कामिनरीरे म० पिउदिनजायेजनवातके पणनविजाये
यामिनीरे ४ म० पिउसिवादेवीमातमल्हारके सार
करोअबलातणीरे म० पिउयदुपतिनेमिकुमारके आ
वोमंदिरअमन्नणीरे ५ म० पिउबोल्याश्रीजगदीस
के वीसविसवातुमेजावजोरे म० पियाएसंसारअसार
के मुगतिमंदिरमांआवजोरे ६ म० पियाराजुलने
मिजिएंदकं अविहडसिवसुखदीठडारे म० पिउमेरुविज
यगुरुसीसके विनीताविजयमनमीठडारे ७ म० इति ॥
अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन ॥ माहरीसहरिसमाणी ए
देशी ॥ निरमलनीरेअंगपखाली पहिरोखीरोदकसा
डीरे माहरीसहारेसमाणी वावन्नचंदनजरियकचोली
पासपूजोन्नरचोलीरे १ माहरीसहारे आंकणी चंपक
केतकिमालतिमोगर मांहिवोलसिरीसुखकारीरे मा०
लाखीणांटोडरकरीजिनवर कंठेठवोजयकारीरे मा०
२ करग्रहीवीणावेणुमृदंगा हाथेंदीओएकतालीरे मा०
नवनवरागमेलावतगावत जिनगुणरंगरसालीरे मा०
३ मनवांछितसुखसुरतरुकंदो वामानंदनवंदोरे मा०
निरखतनेहअमीरसवरषत जसमुखपुनिमचंदोरे मा०
४ प्राणपियारेमोहनगारे माहरुंमनडुंमोहीनेलीधुरे

विनीतविजयजीकृत. (४३५)

मा० देखतहनि यणेनेहलागो जाणुं कामणहुं कांडकीधुरे
 मा० ५ अंतरंजानीसाहिवसेती जाणुं खिणएकदु
 रनथाउरे मा० अहनि सचरणकमलआराहुं वलि
 जाउतोसुखपाउरे मा० ६ श्रीलावण्यविजयगुरुराया
 पासपरमसरंध्यायारे मा० पंडितमेरुविजयगुरुसीसे
 विनीतविजयगुणगायारे मा० ७ इति ॥
 अथ श्रीमहावीरजिनस्तवन ॥ आजसाहरेसुरतरुफ
 लीओसार घरआंगणिसोनाकरु जीरेजी आजमेंत्री
 सलानंदनदेव दीठोदेवदयाकरु जरिजी १ जिनजी
 ताहरागुणअवदात गंगतरंगपरेनिरमला जी० जिन
 जीसंचारुंदिनरात मुकीमन्ननाआंबला जी० २ जिन
 जीउत्तमजनस्युंरंग चोलमजीठतणीपरे जी० तुमस्युं
 अविहडनेह निरवहजोरुडीपरे जी० ३ जिनजीताहरी
 गुणमाणिमाल कंठेजेभविधारस्ये जी० जिनजीधनध
 नतसेअवतार जेताहरुनामसंचारस्ये जी० ४ जिन
 जीमेरुविजयगुरुसीस विनीतविजयनांवयणडां जी०
 जिनजीजेचित्तधरस्येनित तसघररंगवधामणां जी० ५
 इति ॥ इतिश्रीविनीतविजयजीकृतचोवीसीसंपूर्ण ॥

(४३६) चतुरविजयजीकृत.

अथ श्रीचतुरविजयजीकृतचोवीसी.

अथ श्रीआदिजिनस्तवन ॥ महाविदेहपेत्रसोहामणुं
एदेशी ॥ जगतगुरुजिनमाहरो जगदिपकजिनरायला
लरे शांतिसुधारसध्यानमां आतमअनुभवआयला०
१ ज० चित्तप्रभतादृढथि क्रिडतिखेलाखेल ला० ते
दृगदृगतेज्ञानथी वधतीवेलकलोल ला० २ ज० प्रजावी
कपांचेनला अवरनएकाएक ला० खटद्रव्यद्रव्येक
रथां देखतसोचादेख ला० ३ ज० तेतुजदरीसणजा
णीये आणीयेचित्तआणंद ला० वीहसीतवदनकमल
मुदा जिमसुरतरुसुखकंद ला० ४ ज० इमगुणजिनजीता
हरा माहराचित्तमांआय ला० नवलविजयजिनध्या
नथी चतुरानंदपदपाय ला० ५ ज० इति ॥

अथ श्रीअजितजिनस्तवन ॥ सुतलाडकडाउवहो ए
देशी ॥ महिमामहिमागाजतो राजिंदमोरा तुझगुणगु
णवीख्यातहो अनुभवप्रगटचोचित्तमां रा० जागीमुज
मनभ्रांतहो १ सुगुणसनेहिआरो मननीमोहनगारो
साहेबो रा० जुहारोअजितजिणंदहो आंकणी इंदूजी
मग्रहगणमांहि रा० तीसीपतीतेमदीणंदहो दिनकर
उदयथीजमिहोवे रा० तीमअनुभवथीमुणंदहो २ सु.
म० स० रा० जु० मुंधामोलनुंजेसही रा० रहतुजच

रणनीसेवहो. लंछनतेहवीराजतो रा० जर्गत्रनमेजसं
 देवहो ३ सु० म० सा० रा० जु० लिलाधरजगजा
 णीये रा० लीलालेहरकरंतहो. संकलपदारथजेहोवे
 रा० तेमुझवासवसंतहो ४ सु० म० सा० रा० जु०
 अजितरजिनेवंदतां करकरुणाभगवंतहो. चरणकमल
 नीचाकरी रा० चतुरतेमागेसंतहो ५ सु० म० सा०
 रा जु० इति ॥ अथ श्रीसंज्ञवजिनस्तवन ॥

अरणीकमुनीवर एदेशी ॥ संज्ञवस्वामीरेस्वामीजगं
 धणी. करोकृपादयालजी. च्यारपदारथपदतैअनुज्ञ
 वै जिमजाएपापपयालजी सं० १. चरणेरुपीरेअरुपी
 तापणे वेपक्षेसुवीचारोजी. तेजगजिविरेजीव्युंजाणीये
 संफलकरेअवतारोजी सं० २ अरथअगोचरगोचरको
 नही जगदायकजिनधारेजी एकएकनेदेरेरसनविलप
 जे दोयमील्यासुखसारेजी सं० ३ बहुनरबुधीरेबुधेआ
 गलां. करतीअपवखाणजी खेलांखेलेरंगस्युरमे अ
 वरतेपरिमाणजी सं० ४. जससुरसेवारेइंद्रादिककरे
 तससेवामाहुंलीनजी. नवलरसंज्ञोगिरेदीनकरतेजथी
 तेजसचतुरआधीनजी सं० ५ इति ॥ अथ श्रीअ
 चिनंदनजिनस्तवन ॥ देशीझुवखडानी ॥ मुखमटकेज

गमोहिरह्यारे दृगलटकेललचाय जिणेसरसांभिलो अ

(४३८) चतुरविजयजीकृत.

जिनंदनजिनताहरीरे मुरतिमोहनराय जि० १ ग्रहि
अंगेगुणताहरारे परमारथपदएक जि० हुंनमुंकचुंहवे
तेसदारे एमुझमोटिटेक जि० २ कमल२दलपांखडीरे
आंखडीनिरमलथाय जि० परमप्रभुरूपजोवतारे आवे
नदूजोदाय जि० ३ सफलफलीहवेमाहरीरे जोमुझम
लीओइष्ट जि० रंगपतंगनदाखवुरे साखुंचोलमजाठ
जि० ४ गगनेवाजांवाजीयारे अमघरमंगलतुर जि० नवल
विजयजिनवंदतारे चतुरनेसुखनरपुर जि० ५ इति ॥
अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ देशीगरबीनी ॥ हारेवा
ल्होसुमतिजिणंदजुहारीरे वारीजाउभामणैरेलो हारे
प्रभुसुरतरुफलीओमाहरेरे गुणनीद्वीआंगणैरेलो १
हारेमेंतोदेवनोदेवनीहालीरे जिवनजगधणीरेलो हारे
प्रभुतेजेझलामलदीपेरे ओपीजेमओपणीरेलो २ हारे
वाहलानयणरह्यालोनाइरे मोह्युंमुझमनडुंरेलो हारेप्र
भुवाणीसरसरसपीधेरे नाजेनवचुखडीरेलो ३ हारेप्र
भुजीवनजगदाधाररे वाहलाछोपतीरेलो हारेप्रभुमहो
दयपदवीआपोरे कापोदुरगतीरेलो ४ हारेप्रभुअरज
करेअरदासरे आसतेपुरीयेरेलो हारेवालहारसजररसी
ओकहावेरे चतुरदुखचुरीयेरेलो ५ इति ॥

अथ श्रीपद्मप्रज्जिनस्तवन ॥ वाहलोमारोदीएछेदे

चतुरविजयजीकृतः (४३९)

सनारे एदेशी ॥ अंतरजामीप्रचुमाहरारे पदमप्रचुवी
तराग सनेहलसामुखपेखतारे मेधरचोतुझथीराग १
वालोमारोपदमजिनसेवीयेरे गुणसताधरत्रोलखेरे ते
गुणगुणनोजाण अवगुणछांडीनेगुणस्तवेरे तेजसजग
त्रप्रमाण २ वा० अंगथकीरिंगडपनारे जिमचातुकघन
मेह तेलबिंदुजिमविस्तररे तीमतीसतुझसुनेह ३ वा०
सुरनरइंदमुनीवरारे अहनीसधरेतुझध्यान सरीखा
सरीखासाहेलडीरे गावेजिनगुणग्यान ४ वा० चरण
कमलनीचाकरारे अवीहडधरज्योनेह नवलविजय
जिनसाहेवारे चतुरनीवधतीरेह वा० ५ इति ॥
अथ श्रीसुपार्श्वजिनस्तवत्त ॥ माहराघणुंवाइढोला ए
देशी ॥ श्रीसुपार्श्वजिनराय हारेतुमेसारीसेवककांजरे
माहरापरमसनेहीदेवा परमारथपदधारी हुंतोवारीजा
उवारहजारीरे मा० १ एकलहेरमुझकीजे प्रचुवायसु
वायवरीजेरे मा० तनमनधनचीतचोखुं दृढनयणेकरिमु
खनरखुरे मा० २ अंतरध्यानतुमेआवो जगसंघलाजावदे
वारे मा० अनुचवचवीमुझसाचो जेणेकांइनराख्योका
चारे मा० ३ हारेप्रभुतेजेझलामलदीपे जलजलथी
जलनेजापेरे मा० मृगतृश्रायेंनवीभाजे प्रभुमलीयां
अंबरगाजेरे मा० ४ इमनीतरजेगुणगावे प्रभुसुखीआ

(220)

मनुष्यविजयनीकृत.

तेनरसायने मा० गुरुनारायणीजयजिनराधा एतौद्वयमे
चतुर्गव्याये मा० इति ॥ अथ श्रीविंशत्यभिनिग

सुतवच ॥ वेदरगजातेन जरेद्वेपनीती एतौती ॥ तेमन
महिनाजिनजीमाहरीती जगद्वेपनजगत्तापर वर

एतनमरेतीहाहरीती अविशेषोहकल्याणरे तुं० ३ म
नद्व्यातेपुत्रपुत्रपनाती अरुणस्योपायरे अर्जुनीतीम

पीठिनलोती अरुणस्योपायरे तुं० ४ शिवपुत्रजक
नकारणेती महोरथमहोदीयायरे अरुणस्योपायरे

ती जिनगुणविनजीमहायरे तुं० ५ नाश्या
विरुहाजगत्याती वायकजिनवर्दीयायरे अरुण

तामपुत्ररुदरेती पुरीजतेनोद्यायरे तुं० ६ सुवन
जजंतरेतेनहिती जिनकरतुरीयनवायरे अरुणताम

चंदनेती प्रमथतरप्रकायरे तुं० ७ इति ॥
अथ श्रीसुनिधिजिनरत्नवच ॥ प्रभुजीतीवाकर्गरे ए

देवी ॥ अलवेसरअवधारिधरे सेवकीअरुहायरे स
जुणासोनलोरे वरणाकमजनीवाकर्गरे नागुंहेतुमया

मरे १ स० जगत्कमीत्रतेमाहरे तेतीरहोतुजसंगरे
स० अथसरलहिजवआपणारे आवीकहेसगरंनरे २
स० घनमारहिजीमदामतीरे करतीहालकल्याणरे स०
इमअमेगुणसुगुणजलीरे तुजरसुंवेलासेलरे ३ स० प०

ग्रामांमणीसृतजेलवीरि प्रविमुरखबुधरे स० रसनारस
 नीजालचरे जोहो एसाकरदुधरे ४ स० मोटाथीमोटा
 थइएरे कनककचोलेनीररे स० खीरोदकनीउततारे
 तेपामेनरधीररे ५ स० काकंदीनयरीधुणीरे मगरलंछ
 नजसपायरे स० सुविधिजिनेसरवंदतारे जवजवनादु
 खजायरे ६ स० एहीतसीखनीवातडीरे जाणेजाणसु
 जाणरे स० तवलचतुरनीचातुरीरे मकरोखेंचाताणरे
 ७ स० इति ॥ अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥
 साहेववाहुजिणेसरवीनवुं एदेशी ॥ होसाहिवश्रीसीत
 लजिनचेटिये मेटियेसवीदुखदंडहो सा० सुनज
 रेकृपाथकी उदयोज्ञानदीणंदहो सा० श्री० १ सा०
 पारनपामीएजेहनो तेकहोअवदातहो सा० अक्षरदो
 यरेफेकरी जाण्योमेएहविरुयातहो सा० श्री० २ सा०
 एरीधएसिद्धएहथी आवेसघलीआथहो सा० करेकर
 जेउपरे तेलहेहाथोहाथहो सा० श्री० ३ सा० सीत
 लेसीतलताहोवे होवेतेसुखविलासहो सा० नयणेकम
 लनीरखतां वरपतांउदयउलासहो सा० श्री० ४ सा०
 दढरथराजानंदाजयो नदीलपुरेअवतारहो सा० श्री
 वल्ललंछनजससदा प्रणमुंप्रेमेपायहो सा० श्री० ५ सा०
 वाणीएसुरतरुवेलडी प्रगटीप्रेमनीपालहोसा० सुजसच

(४४२)

चतुरविजयजीकृत.

तुरतेएहने महोदयदीजेदयालहो सा० श्री० ६ सा०
इति ॥ अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ धरमजी

णोसरगावोरंगसु एदेशी ॥ श्रीश्रेयांसजीणोसरमाहरा
परमनीद्धीप्रगट सोभागी धन२तेदीनधनवलीमाहरो

सेवकनेगहगट सो० श्री० १ कमलादीनकरकमला
कमलनी वधतीछेजसवेल सो० सुरीजनपुरीजनसेवे

जेसदा तेतुजकैलासकेल सो० श्री० २ तेमाटेप्रजूहुं
तुजतुजकने मागुजगमांजिसार सो० पूरवप्रीतवीचार

तहुंकडी लहीजीमलगननीरधार सो० श्री० ३ उठ
वोअनुभवहवेएवातनो तेकीमरह्योएजाय सो० कालां

तरफरतातुजमिल्यो हवेमुजआतमठाय सो० श्री० ४
लंछनपडगीजेजससींहपुरी सुतश्रीवीशुनुकुमार सो०

कृतकृतारथकृतएकरमथी फललहेचतुरश्रीकार सो०
श्री० ५ इति ॥ अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तवन ॥

तुमेबहुमीत्रीरैसाहेवा एदेशी ॥ सुविहितकारिरैसाहि
बा सुंदररुपनिधान तुजमुजरीझनीरीझमां उपजेआत

मग्यान सु० १ आकर्षिअवयवताहरा लक्षणलक्षीत
देह प्रेमप्रगटतापुन्यनी वधतीमोहनेजेह सु० २ कि

हांउपनोकीहांनीपनो रुपातीतसजाय अचरीजएमुज
वातनो कहौनेश्रीजिनराय सु० ३ पूरवगतीप्रयोगथी

चतुरविजयजीकृत. (४४३)

जोगमील्योछेआय तोजेदग्रथीनराखीये राखिनआवे
होदाय सु० ४ कामीतपूरणसुरतरु सुरतमोहनवेज
साचोजाणीमैसेविआो जिमघनचात्रुकमेल सु० ५ ल
जनानयणेनरखतां हियडोहेजेभराय चंपानयरीनोरा
जिआो वासुपूज्यजिनराय सु० ६ करकमलेजिनकेत
की नमरपरेरसलति जेयोचतुरतेआतमा थडरह्योतु
जआदीन सु० ७ इति ॥ अथ श्रीविमलजिन
स्तवन ॥ गुणरालायक एदेशी ॥ जगलोचनजवउगी
आो पसरचोपोहविप्रकासहो गुणरालायक अनुभव
एमुजवातनो उदयहुआोउजासहो गु० १ वीमल२जी
नसेवीये आंकणी, नजनथकीजवजयहरु दरीसणथी
दुरदुखहो गु० पडवकपुरनीवासते पामेमाहासुरसुख
हो गु० वी० २ अवीहडएहनेकारणे धरेधरमस्युंध्या
नहो गु० चीतवीतपात्रसंजोगसुं प्रगटेवहुरीदीदानहो
गु० वी० ३ वानवधारणसाहेवो कामीतकामनोधामहो गु०
जलहरजलवरसेसदा नजोविठामकुठामहो गु० वी० ४ प
छीमइंदुरवीपुर्वेजगत्रनमेजसपायहो गु० थीरचीतवीत
चीतनेकारणे आवेचतुरनेदायहो गु० वी० ५ इति ॥

अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ लालकसुंबलपाघडीजी
एदेशी ॥ चालोसहीयरजिनवंदवाजीरे अनंतनाथगुण

(४४४) चतुरविजयजीकृत.

गेहरेजीरे चा० सरीखासरिखीसाहेलीजीरे वधावेघ
एनेहरेजीरे चा० १ तालमृदंगध्वनीवाजतीजीरे सम
वसरणमंडाणरेजीरे ताथेइतत्थेइनाचतीजीरे लीएफु
दडीघमसाणरेजीरे चा० २ द्वारकरवारकमोहनाजी
रे तरणतारणजीहाजरेजीरे लाग्योछेरंगतेचोलनोजी
रे आतमराममहाराजरेजीरे चा० ३ गोमयअगनी
समाणाजीरे च्यारतेकरीरह्याचुपरजेरि अतीसयधारी
आपणाजीरे त्रीलोकीकजिनचूपरेजीरे चा० ४ आठ
सतरएकवीसनीजीरे पुजाप्रकारएजावनारेजीरे अरची
चरचीमालसुंजीरे नाटिककेइरागनारेजीरे चा० ५
त्रिविधभावनाजावताजिरे परीमलतापणुथायरेजिरे
अवसरलहिनवीचुकीएजीरे जिमजुआरावणरायरेजी
रे चा० ६ जिनगुणगुणसंगोठडीजीरे अवरनआविको
इदायरेजीरे ललीरकरतिलुंछणांजीरे प्रभुगुणचतुरस
हायरेजीरे चा० ७ इति ॥ अथ श्रीधरमंजिन
स्तवन ॥ प्रश्नोतरपुछेपीतारे एदेशी ॥ धरमधुरधरध
रमजीरे धरमएनाथनिध्यान अवसरपामीआपणारे
समयथइसावधानरे १ धरमनमुंकीये अगवीलेपनता
हरेरे माहरेमनसुरेजाव ग्रहिअगुणमुदारे हवेनखे
लुंहुदावर ध० २ मोहमदेमुजजोलव्यारे कुमातिकदा

चतुरविजयजीकृत. (४४६)

ग्रहिनार समतासुमनमेलवीरे किधोइणउपमाररे ध०
 ३ करहवेकरुणानाथजीरे सरणागतसाधार करममेल
 नीवारवाररे एमोटोआधाररे ध० ४ सेवाकीधी
 मंताहररी फलीहवेमाहररीआस प्रेमपदारथजोग
 वारि चतुरनेलीलवीलासरे ध० ५ इति ॥

अर्थ श्रीशांतिजिनस्तवन ॥ सीताहोप्रीयासतिकहे
 सुणीवात एदेशी ॥ शांतिहोजिनशांतिकरोसांतीनाथ
 अचिराहोजिनअचिरानंदनवंदनाजी केवलहोप्रभुकेव
 ललहिधदीदार चांगीहोजिनचांगीचावठनजनाजी
 १ प्रगटीहोजिनप्रगटिरीद्वनीदान माहरेहोजिनमाह
 रजससुरतरुफलयोजी तोरणहोजिनतोरणवाध्यावार
 अजयहोजिनअजयदानदातामलयोजि २ दायकहो
 जिनदायकदीनदयालजहेनेहोजिनजहेनेबोलेहुएमुदा
 जि जिननीहोजिनजिननीवाणीमुज प्यारीहोजिनप्या
 रीलंगितसदाजि ३ उदयोहोजिनउदयोज्ञानदिणंद घा
 ठीहोजिनघाठीअसुनसुनदिनवल्योजि मलीआहोजि
 नमलीआइष्टसंजोग सुंदरहोजिनसुंदरतातनमनच
 ल्योजि ४ साखीहोजिनसाखीइदनरिंद अवरहोजि
 नअवरअनुचवआतमाजि प्रेमहोजिनप्रेमचतुरसुजा
 ण गायहोजिनगायागुणएतातनाजी ५ इति ॥

(४४६)

चतुरविजयजीकृत.

अथ श्रीकुंथुजिनस्तवन ॥ हांजिअजितजीणंदस्युंप्री
तडी एदेशी ॥ हांजिसिरतरुसमोवडसाहेबो जिनकुंथु
होकुंथुभगवानके हुंतुजदरीशाणअलजयो करकरुणाहो
करुणाबहुमानके सु० १ जिमससीसायरनीपरे वधेव
धतीहोजीमवेलनोरलके तिममुजआतमअनुजवे नवी
मुकेहोबहुलोतसमेलके सु० २ छीलरताजलजलग्रही
पीवे मुरखहोकोइचतुरसुजाणके निरमलचीतनाचीत
धणी जाणेमाणेहोगुणनीगुणखाणके सु० ३ चितचोखेम
नमोकले धरेताहरुंहोनिरमलएध्यानके तोतससवीसुष
संपदा लहेखीणमांहोखीणमांहेग्यानके सु० ४ मेहेर
करोमाहरानाथजी जाणीप्राणहोएतुमचोदासके नव
लविजयजिनसाहेबा तुमेपुरोहोचतुरनीआसके सु० ५
इति ॥ अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ घणराढोला

एदेशी ॥ श्रीअरजिनजीमाहरेरे तुजस्युंअवीहडरंग
मनरामान्या रंगपतंगनदाखवारे चोलमजीठअनंग
गुणरागेहा १ चात्रुकचाहेजेहनेरे पीउपीउजपेजसना
म म० प्रेमपदारथएहवारे माहरेतुमसुंकाम गु० २
साचोसाजनसाहेबारे काचोकेवलकाच म० मुलनहो
वेजेहनोरे होवेतेसाचोसाच गु० ३ गजपुरीनयरनी
धणारे देवीहोराणीजाय म० लंछननंदावर्तसाथीअरे

चतुरविजयर्जाकृत. (४४७)

पुरजिनसेवेपाय गु० ४ सुंदरसनसुतसाहेवारे दरीशाण
 योमहराय म० चतुरवीजयाजिनध्यानर्थारे लीलाल
 हेरकराय गु० ५ इति ॥ अथ श्रीमल्लिजिनस्त
 वन ॥ देशीपारधीयानी ॥ नयरीमीथूलाएराजतारेकुंज
 पीताकुलहंसरे मल्लिजिनमाहरा प्रजावतीकुंखेजातथी
 रे उपन्योतेजसवंसतरे म० १ पुरवकृत्यनाकृत्यथीरे
 मायायेरचीत्रोफंदरे म० त्रियादिकपणेतीरथनीरे अ
 तिसयधारिएवृदरे म० २ आचोवीसीयेइणीयेरे घणी
 राखीजगख्यातरे म० केइरअंतरदाखवेरे अदभुतएह
 छेवातरे म० ३ जेहनीमिनजीहावेद्वीत्रारे तेवेघकसुवी
 लासरे म० चाखवीसमकीतसुखडीरे हेलवीश्रोएहंस
 रे म० ४ सेवाजाणोदासनारे लंछनकलसनीधानरे म० अ
 नुचवेचतुरएआतमारे दिनरचढतेवानरे म० ५ इति ॥
 अथ श्रीमुनीसुव्रतजिनस्तवन ॥ कोइलोपरवतधूंधलो
 रे एदेशी ॥ चउमुखदेतादेसनारेलाल नविककमलउ
 घोतरे जिणंदराय जलहलतजिवउगीआरेलाल अर्क
 प्रजासमकंतरे जि० ची० १ लक्षणअंगवीराजतारेला
 ल अडहियसहसउदाररे जि० अभितरगुणताहरारे
 लाल केताकहुअपाररे जि० ची० २ जगतीजलीपरे
 उधस्थारेलाल साहेबसरलसजावरे जि० विमलकम

(४४८)

चतुरविजयजीकृत.

लदललोयणेरालाल अतिसयथीहावजावरे जि० ३ राज
ग्रहीरलीयामणीरेलाल सुमीत्ररायकुलचंदरे जि०
मुनिसुवृतजिनसाहेवारेलाल कछपलंछनसुनकंदरे
जि० ची० ४ वीनयअधीकजगमांवडारेलाल तो
तसहोवेआदीनरे जि० त्रिहुंजगजगमांविस्तरेरेला
ल जसचतुरसुभचीनरे जि० ची० ५ इति ॥

अथ श्रीनमिजिनस्तवन ॥ संचवजिनवरवीनती ॥
रामप्रजाती ॥ मनमान्यानीवातडी साहिवसीपेरेकही
जेरे लवएकउदकबींदुनल्यो सायरलेहेरालहिजेरे १
म० लघूताफलेरसकटुकता अवरवयेतेखटासरे वयसी
तुपालटोजेकरे तोतेसघलेमीठासरे म० २ मगननयेमा
हरानाथजी सरणांतारेआएरे अवनहिकीसीवातकी
स्वामीरहेतनकांडरे म० ३ वीजयराजाविप्राघरे थडकुं
सरबद्वारे नमिनिरंजननीरषतां परमानंदपदपायेरे म०
४ नीलुपललंछनजगधणी करकरुणास्वामीरे सवीसु
खसंपदाचतुरने दिजेअंतरजामी म० ५ इति ॥

अथ श्रीनेमिनाथजिनस्तवन ॥ देशी भठीयाणीती ॥
वीनतडीअवाधारोहोपधारोवाहलानेमजी अरजसुणो
मुजदेव तुमेछोजगनातारुहोचववारुमोहनमारु अह
नीसकरस्यांसेव वी० १ जादवकुलनाधारीहोअधिका

चतुरविजयजीकृतः (४४९)

रीसुरतताहरी मुरेतमोहनिवेल देखतदिलडुहरखेहोत्र
 तानरखेवरसेमेहुलो आपाडोगजगेल वी०२ दीसोछो
 जगन्याराहोदिलप्यारावारधानवीरहो कीमकरीदाख
 वुंप्रीत जीमजुओकेतकीवनमांहोवलीदीलमेमनतेभम
 रज्युंइमअमेकुलवटरीत वी०३ समुद्रविजयसुतइंदाहो
 सीवानंदाहंदासाहेवा नयणरह्यांलोजाय तुमेमुजअंत
 रजामीहोसीवगामीसामीमाहरा गुणनीधीकेहेवाय
 वी० ४ पसुनीकरुणापेखीहोउवेखीदेखीनवीरह्या आ
 णीरुदयविचार मनमाच्यातीहांराच्याहोसविआस्या
 मुजमेनमांरहि कुणघरएहआचार वी० ५ मेंजाप्युंतु
 मेरागीहोसोभागीत्यागीप्रेमना पुन्यतणांअंकुर मुज
 मंदीरिएआवोहोदिललावोनांवोकीमनहि जीमघरहि
 येहजुर वी० ६ दिजेसीहेवसेवाहोसुखमेवादेवाहेजथी
 अष्टकरममदमोड चतुरविजयचीतधरवाहोसुखकरवा
 वरवानेमने सुंदरवेकरजोडे वी० ७ इति ॥

अथ श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवन ॥ पदमणपाणीडांसंच
 री मारुजीवावखोदाव एदेशी ॥ नयरीवणारसीसाहे
 वो प्रभुजीपार्श्वजीणंद जगदानंदन चंदजगतगुरुरा
 जतो नवीजननयणानंद १ कामीतंपूरणसुरतरु प्रभु

जीपरमआधार दुखदावानलवारजगतगुरुतुंजयो

(४५०) चतुरविजयजीकृत.

सजलदलसुखकार २ तुजदरिसणधीरुचीरागथी प्र
चुजीपरमकृपाल पामुंग्यानरसाल जगतगुरुसेवतां
चारीत्रगुणसुविसाल ३ मुखमटकेजगवस्थकस्थो प्र
भुजीपरमपुनीत वामादेवीसुत प्रीतजगतगुरुमाहरो
अश्वसेनसुवीनीत ४ अनीतअनागतजिनपती प्रभु
जीजेवर्तमान तुझवंदनगुणग्यान जगतगरुतेसवे प्रण
मुंपरमनीधान ५ गणधरमुनीवरप्रमुखजे आद्यअंतप
रीवार तेवंदुसुवीचार जगतगुरुध्याइए फणीपतीलंछ
नसार ६ पार्श्वप्रमुखजेयक्षछे प्रभुतीरथरखवाल दीजेदी
नदयाल जगतगुरुचतुरने चरणरीसेवारसाल ७ इति॥
अथ श्रीमहावीरजिनस्तवन ॥ श्रीपदमप्रचुजिनानाम
ने एदेशी ॥ सासनपतीवंदना होज्योवारहजारहोसा
हेव गंगाजलमांजेरम्या तेकीमछीलरछारहोसाहेव १
जाइजुइजससेवता मालतीमोगरमालहो सा० चंपकगु
लावनीवासना तेआउलेकरेकीमआलहो सा० २ स
तीयअवरइछेनही नरजोगीनरतारहो सा० अवरक
दाग्रहीआतमा तारतारमुझतारहो सा० ३ मृगमदघ
नजमिवासना वासीतबोधअगाधहो सा० मृगपतिजे
जससेवना दुरगयांदुखदंधहो सा० ४ नीर्यामीकस
थसाहेवा आलिंबनतुझलीधहो सा० नवीजनमनजि

नतुंवस्यो त्रिसलानंदनरीधहो सा० ५ एरीधएसीध
 ताहरी पामिपरमाणंदहो सा० अज्ञानतीमीरितानय
 हरु प्रगट्योज्ञानदिणंदहो सा० ६ सुरिप्रतापेराज्य
 मां गुणीयलजिनगुणगायहो सा० चतुरविजयजिन
 नामथी दिनदोलतथायहो सा० ७ इति ॥ इति
 श्रीचतुरविजयजीकृतचोवीसीसंपूर्ण ॥

अथ श्रीरामविजयजीकृतचोवीसी.

अथ श्रीरुषजिनस्तवन ॥ हारिम्हारेयोवनीयानोल
 टकोदाहाडाच्यारजो एदेशी ॥ हारिआजमलिआमुजने
 तीनभूवनोनाथजो उदयोसुखसुरतरुमुजघटवरआंग
 णेरेजो हारिआजअष्टमहासिद्धीआवीमाहरेहाथजो ना
 ठामाठादाहडादरिसणप्रभुतणेरेजो १ हारिम्हारेहिय
 डेउलटीउलटरसनीराशिजो नेहसलुणीनजरनिहाली
 ताहरीरेजो हारिहुंतोजाणुनिशदिनबेसिरहुंतुजपासजो
 ताहरेनेहेनेदीमीजीमाहरीरेजो २ हारिम्हारीपूगीपूरण
 रीतेमननीहुंसजो दुरजनीयातेदुपजरिआवटस्येपड्या
 रेजो हारिप्रभुतुंतोसुरतरुबीजाजाण्यातुसजो तुजगुणही
 रोमुजहियडाघाटेजड्योरेजो ३ हारिप्रभुतुजस्युम्हारे
 चोलमजीठोरंजो लाग्योएहवोतेछेकुणटालीशकरे

(४५४)

रामविजयजीकृत.

गडरेलो तेहंसोकिमआनडरेलो आपविचारीदेखस्योरे
लो तोमुजकेमउवेखस्योरेलो ४ सं० अन्निनंदनजिन
नेटियोरेलो नवसायरनयमेटिओरेलो वाचकविमल
विजयतणोरेलो रामलहेआणंदघणोरेलो ५ सं० इति॥

अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ अरजअरजसुणोनेरुडा
राजियाहोजी एदेशी ॥ सुमति२सलुणामाहरासाहि
वाहोजी जगजीवनजिनचंद धनधन२मातामंगलाहो
जी जीणेतुजायोरेनंद १ सु० गिरुआ२इप्रचूताहरी
होजी दीठीजोतारेजोर तुमगुण२जेनविरंजिआहोजी
तेमाणसपणढोर २ सु० अमने२तुमारोआयजोहोजी
जोपणदाखोनवेण अधीकुं२बोलीदाखवेहोजी तेतोउ
छारेसेण ३ सु० देखी२तुममुखचंद्रमाहोजी जेसुखपा
मेरेनेण तेमन२जाणेमाहरुंहोजी पणनकहायेरेवेण ४
सु० एकण२तुममेलावडेहोजी सफलहुओअवतार वि
मल२विजयउवझायनोहोजी रामलहेजयकार ५ सु०
इति ॥

अथ श्रीपद्मप्रज्जजिनस्तवन ॥ नथगडरे
मेरीनथगड एदेशी ॥ अजबवनीरेमेरेअजबवनी आंच
ली अजबवनीप्रभुसाथेप्रीति तोमुझदुर्गतिनीशीनि
ति मेरेअजबवनी देखीप्रचूनीमोटीरीति पामीपूरणरी
तिप्रतिति १ मे० जेदुनियामेंदुरलननेटि तेमेंपामी

प्रचुनीजेठि मे० आलसुनेधरआविगंग पाम्योपंथीस
 रवरतुरंग २ मे० तिरसेपायोमानसतीर वादकरतांवा
 धीजीर मे० चितचोरयासाजननोसंग अणचित्योमि
 ल्योचढतेरंग ३ मे० जिमजिमनिरखुंप्रभूमुखनूर ति
 मतिमपाउंआनंदपूर मे० सुणतांजनमुखप्रचुनीवात
 हरखेमाहरासातेधात ४ मे० पदमप्रचुजिननेगुणगा
 न लहीयेशिवपदवीअसमान मे० विमलविजयवाचक
 नोसीस रामेपायोपरमजगदीस ५ मे० इति ॥

अथ श्रीसुपार्श्वजिनस्तवन ॥ माहरेजाइंसहियरनोसा
 थ कांबलीमेलोनेकानजीरे एदेशी ॥ दीसेअकलसरुप
 स्वामीसुपासजीताहरोरे लोकवदीतीवात रागनरोस
 हियेधरोरे १ दी० जेहनेवसमहादेव उमयानारिनचा
 वीयारे वृंदावनमांकान्ह गोपीरासरमावियारे २ दी०
 ब्रह्मापाड्योफंद सावित्रिनिजदीकरेरे, तेतेमदनपिशा
 च हणतांकरुणाकसीकरेरी ३ दी० क्रोधसरीखायोध
 तेतोखिणमांहिमारीआरे जेवलीझाल्याबांहि तेतोहेज
 स्युंतारियारे ४ दी० कहीयेकेतोएम तुझअवदातअछे
 घणारे रामकहेशुजसीस वाचकविमलविजयतणारे
 ५ दी० इति ॥ अथ श्रीचंद्रप्रभुजिनस्तवन ॥

थापरिवारिमारासाहिवा काविलमतचालो एदेशी ॥

(४५६)

रामविजयजीकृत.

चंद्रप्रभूनीचाकरी मुनेलागेमीठी जगमांजोडीजेहनी
किहांदीसेनदीठी १ चं० प्रभुनेचरणेमाहरुं मनडुंलल
चाणुं कुणछेबीजोजगे जिणेजोयेपलटाणुं २ चं० कोडि
करेपणत्रवरको मुझहियडेनावे सुरतरुफूलेमोहियो
किमत्राकसोहावे ३ चं० मुझप्रचुमोहनवेलडी करुणा
स्युंभरीत्रो प्रभूतापूरीत्रिभूवने गुणमणिनोदरित्रो ४
चं० जिमजिमनिरखुंनयणडे तिमहियडुंउलसे एकघ
डिनेअंतरे मुझमनडुंतरसे ५ चं० सहजसलुणोसाहिबो
मिल्योशिवनोसाथि सहजेजीत्योजगतमें प्रभूनीसेवा
थी ६ चं० विमलविजयगुरुसीसनो सीसकहेकरजोडी
रामविजयप्रभूनामथी लहेसंपदकोडि ७ चं० इति ॥
अथ श्रीसुविधीजिनस्तवन ॥ मुरलीवाइछेरेरसाल मु
रलीसांजलवाजइये एदेशी ॥ प्रभुनीवाणीजोररसाल
मनडुंसांजलवातरसे आंकणी सजलजलदजिमगाज
ती जाणुंवरसेअमृतधार मन० सांजलतांलागेनही
खीणनुखनेतरसलगार १ म० तिरजंचमनुषनेदेवता
सहु समझेनिजनिजवाण म० जोजनखेत्रेवीस्तरे नय
उपनयरतननीखाण २म० बेसेहरिमृगएकठा उंदरमां
जारनांवाल म० मोह्याप्रभुनीवाणीये कोनकरेकेहनी

आल ३ म० सहसवरसजोनीगमे तोहेतृपतिनपामेम

न म० सांतायेसहुजीवना रोमांचितहुवेतन्न ४ म०
 वाणिसुविधिजिणंदनी सीवरमणीनिदातार म०
 विमलविजयउवझायनो सीसरामलहेजयकार ५
 म० इति ॥ अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥

अंबकोचोमासोमाहरापूजजीरहोने एदेशी ॥ जगति
 नोन्निनोमारोमुजरोथिल्योने नेहलेसलुणोथारोदरसण
 योने मोरादिलमेरेआविरहोने आंचली शीतलजिन
 त्रिभुवनधणीरे प्रभूसेवकनेचितलहोने दासकहायोआ
 पणारे प्रभुतेहनीलाजवहोने १ जग० जाणपणुंमेंता
 हरुरे प्रचुतेनविदीठुक्याहिने मोहनमुंद्रादेखिनेरे प्र
 भुवसीमुझहयडामांहिने २ ज० रातदिवसतुझगुणज
 पुरे प्रभूबीजूकांडनसुहायने जिमजाणोतिमराखजारे
 प्रभूहुंवलगतुमपायने ३ ज० नरगतिगोदतणाधणी
 रे प्रभुजेतैझाल्यावांहिने तेहथयातुझसारिखारे प्रभू
 सेवककेमनचाहिने ४ ज० तुमदीठेदुखवीसर्यारे
 प्रचुवाध्यावधतोवानने विमलविजयउवझायनारे प्र
 नूरामकरेगुनगानने ५ ज० इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ प्रचूनीचाकरारे एदे
 शी ॥ श्रीश्रेयांसनीसेवनारे साहिवामुझनेवाल्हीजो
 र प्रभूनेसेवीयेरे प्रचूदेखीहरखुहियेरे साहिवाजिमघ

नदेखीमोर १ प्र० अणियालीप्रभुआंखडीरे सा० मु
 खपुनिमनोचंद प्र० अहनिसेउभाओलगेरे सा० जेह
 नेचोसठइंद २ प्र० फूलपगरठीचणसमारे सा० ल
 हकेवृक्षअसोक प्र० दिव्यध्वनिप्रभुदेशनारे सा० मो
 हेत्रिभूवलोक ३ प्र० चामरछत्रसोहामणारे सा०
 नामंडलमनोहार प्र० वाजेदेवनीदुंदुजीरे सा० सी
 हासनसुखकार ४ प्र० आपेशिवसुखसंपदारे सा०
 प्रभूस्युंपूरणप्रेम प्र० विमलविजयउवझायनारे सा०
 रामविजयकहेएम ५ प्र० इति ॥ अथ श्रीवा

सुपूज्यजिनस्तवन ॥ उचोगढगिरनारीकोरे मनमोह
 नानिम एदेशी ॥ श्रीवासुपूज्यजिणंदजीरे दिलरंजनाहो
 लाल मुझमनवाध्योरंगहो दुखजंजनाहोलाल चाहुना
 हुनिसदिनेरे दि० तुझगुणगंगतरंगहो दु० १ जेसंगी
 जगसंगनारे दि० तेहस्युंकेहोसंगहो दु० त्रिभूवनहे
 मनीमुंद्रडीरे दि० तुंतोअमुलखनंगहो २ दु० बांहप्र
 हिमुझवालनेरे दि० राखोनिजउछंगहो दु० मोहस
 रीखाराजवीरे दि० जेमनमंडेजंगहो ३ दु० वातडी
 आंसमझावियारे दि० समझेकिसएकंगहो दु० अट
 क्योतेनविउजगेरे दि० मानसधवलविहंगहो ४ दु०
 नगतिवसेलेस्युंअमेरे दि० प्रभूतुमपदवीचंगहो दु०

वाचकविमलनारामनेरे दि. प्रचूस्युंप्रेमअचंगहो ५ दु. इ
 ति ॥ अथ श्रीविललजिनस्तवन ॥ नितनविनितनविनि
 तनविरे काजलवालीगोरीनितनविरे एदेशी ॥ मनवसी
 मनवसीमनवसीरे प्रभुजीनीमूरतिमाहरेमनवसीरे आं
 चली जिमहंसामनवाहजगंग जेमचतुरमनचतुरनोसं
 ग माहरेमनवसीरे प्रभुजीनीमूरतिमाहरेमनवसीरे
 जिमवालकनेमातउछंग तिममुझनेप्रभुसाथेरंगरे १
 मा० मुखसोहेपुनिमनोचंद नेणकमलदलमोहेइंद मा.
 अधरजिस्वापरवालीलाल अधससीसमदीपेभाल
 २ मा० बांहडीजाणेनालमृणाल प्रभुजीमेरोपरमकृपा
 ल मा० जोतांकोनहीप्रभुनीजोड पुरेत्रिभुवनकेराको
 ड ३ मा० साधरधीअधीकोगंजीर सेव्योआपेभवनो
 तीर मा० सेवेसुरनरकोडाकोड करमतणामदनाखेमो
 ड ४ मा० जेटयोजावेविमलजिणंद मुजमनवाध्योपर
 मआनंद मा० विमलविजयवाचकनोसीस रामकहेमु
 झपूरोजगीस ५ मा० इति ॥ अथ श्रीअनंतजिन
 स्तवन पीउडावारुजरिलो एदेशी ॥ अरदासअमारी
 दिलमेधारीसांजलारेलो प्रभुजिप्राणपियारालो हित
 तजरेनिहालोटालोमननोआमिलारेलो प्र० जेपालवव
 लगाअलगातेतोकिमहूस्येरेलो प्र. आसंगहलियामलि

(४६०) रामविजयजीकृत.

यातेतोचाहस्येरेलो १ प्र. मोटीठकुराइवलीचतुराइता
हरीरेलो प्र० देखीसविशेखीवाधिदिलसामाहारिरेलो
तुमपाखेबीजास्युंतोदिलगोठेनहिरेलो प्र० सुरतरुने
छोडीबावलसेवेकुणकहिरेलो २ प्र० जोवांतुझदरिस
णखिणखिणतरसेआंखडीरेलो प्र० हुंध्याउउडीआ
उपाउपांखडीरेलो प्र० सेवकगुणजोस्योपरसनहोस्यो
तोसहिरेलो प्र० पामीनेश्रवसरमुझनेवीसरस्योनहि
रेलो ३ प्र० जगजननेतारोविरुदतुमारोएखरोरेलो
प्र० तोमाहरीवेलाआनाकानीकिमकरोरेलो प्र० सेव
कसंजालोवाचापालोआपणीरेलो प्र० तुंजगनोनाय
कपायोमेंधणीरेलो ४ प्र० सिवनारीसारीमेलोतसमे
लावडोरेलो प्र० अविगतपरमेसरअनंतजिनेसरतुंवडो
रेलो प्र० विमलविजयवाचकनोबालकइमजणेरेलो
प्र० रामविजयबहुदोखतनामेतुमतणेरेलो ५ प्र० इति॥
अथ श्रीधर्मजिनस्तवन ॥ देशीमोतिडानी ॥ धरम
जिणंदतुमेलायकस्वामी ॥ मुजसेवकमांपणनाहिस्वामी
साहिबारंगिलाहमारा मोहनारंगीला जुगतिजोडिम
लीछेसारी जोज्योहियडेआपविचारी १ सा० जगतव
छलएविरुदतुमारो भगतितणोगुणअचलअमारो सा०
तेहमांकोविवरोकरिकलस्ये तोमुझगुणअवरयमांजल

स्ये २ सा० मुलगुणतुनिरागकहावे तोकिमरागभुवन
 मांआवे सा० वलछोटैघटमोटोनमावे तेमंआण्योसह
 जसजावे ३ सा० अनुपमअनुचवरचनाकीधी इमसा
 वासीजगमांलीधी सा० अधीकुओछुअतिआसंगे बो
 ल्युखमजोप्रमेप्रसंगे ४ सा० अमथीहोडीहुयेकिमजारी
 आसधरुअमनेठितुमारी सा० हुंसेवकतुंजगविसराम
 वाचकविमलतणोकहेराम ५ सा० इति ॥

अथ श्रीशांतिजिनस्तवन वेडलेनारघणोछेराज वातां
 केमकरोछो एदेशी ॥ माहरोमुजरोल्योनेराज साहिब
 शांतिसलुणा आंचली अचिराजिनानंदनतारे दरशण
 हेतेआव्यो समकितरिझिकरोनेस्वामी जगतिचटणे
 लाव्यो १ मा० दुखजंजनछेविरुदंतुमारो अमनेआ
 सतुमारी तुमेनिरागीथइनेछुटो सीगतिहुयेअमारी २
 मा० कहस्येलोकतताणीकहवुं एवहुंस्वामीआगे पण
 बालकजोवोलीनजाणे तोकिमवाहलोलगे ३ मा० मा
 हरेतोतुसमरथसाहिब तोकिमओछुंमानुं चिंतामणि
 जिणेगांठिवांध्युं तेहनेकामकिस्यानु ४ मा० अभ्यातमर
 विउग्योमुझघट मोहतिमिरहरद्यानूगति विमलविज
 यवाघकनोसेवक रामकहेशुजजगति ५ मा० इति ॥

अथ श्रीकुंयुजिनस्तवन थारिकेसीरीयेकेसवरि वागेहु

मोहिरेमारुजी एदेशी तुझमुंद्रासुंदररूपपुरंदरमोहिया
 साहिबजी तुझअंगेकोडिगमेगुणगिरुआसोहिया सा०
 तुझअमियथकीपणलागेमीठीवाणिरे सा० विणदोरि
 सांकललिधुंमनडुंताणीरे सा० १ खिणखिणगुणगाउ
 पाउतोआरामरे सा० तुझदरिसणपाखेनगमेबीजाका
 मरे मुझरिदयकमलविचिवसीयुंताहरुंतामरे सा० तु
 झमुरतीउपरवारुंतनमनदामरे सा० २ करजोडि
 निसदिनउजोरहुतुजआगेरे सा० तुझमुखडुजोतां
 भुखेनतरसनलागेरे सा० मेक्यांहिनदीठीजगमां
 ताहरीजोडरे सा० तुझदीठेपूरणपहुतांमननाकोड
 रे ३ सा० मुझनगमेनयणेदीठाबीजादेवरे सा०
 हवेनवन्नवहोजोमुझनेताहरीसेवरे सा० तुपरमपुरुषप
 रमेसरअकलसरुपरे सा० तुझचरणेप्रणमसुरतरकेरा
 भुपरे ४ सा० तुंकापेन्नवदुखआपेपरमानंदरे सा०
 बलीहारीताहरीप्रनूजीकुंथुजिणंदरे सा० मनवांछित
 फलियोमलियोतुमुझजामरे सा० इमपन्नणेवाचक
 विमलविजयनोरामरे सा० ५ इति ॥

अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ सरोवरीयेझीलणजास्यां
 जी एदेशी ॥ गास्यांजीगास्यांजीअमेगास्यांजी मनरं

गोजिनगुणगास्यांजी अरनाथतणागुणगास्यांजी दि

लरंगेजिनगुणगास्यांजी आंचली प्रभूमुखपूरणचंदस
 मोवड निरखीनिरमलथास्यांजी म० जिनगुणसमरण
 पानसोपारी समकितसुडीखास्यांजी १ म० समतासु
 दरीसाथेसुरंगी गोठडीअजववनास्यांजी म० जेधुता
 रीतृश्रानारी तेहस्युंदिलनमिलास्यांजी २ म० दूति
 कुमतिजेमायाकेरी तेहनेतोसमझास्यांजी म० लीनठ
 गारानेदिलचोरी वातडीएनरमास्यांजी ३ म० मोह
 महिपतिजेमुझवैरी तेहस्युंजगजूडास्यांजी म० ग्यान
 सरीखायोधसखाइ करिनेदूरकढास्यांजी ४ म० सि
 वराणीनेवरवाहेते जीतनिसानवजास्यांजी म० विमल
 विजयउवझायपसाए रामकहेसुखपास्यांजी ५ म०
 इति ॥ अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ २ जु देशीझूव
 खडानी ॥ अनुपमश्रीअरनाथनारे पायोमदीदार सा
 हिवमनमांवस्यो चंद्रजिस्योमुखउजलारे उजलंगुणन
 हीपार सा० १ जगजननांदिलरीझवेरे तारेआणीहे
 त सा० कोकहस्येवीतरागनेरे रागतणांएहेत २ सा०
 तेतोतलमतिनहिरे फोकटपामेखेद सा० गिरुआसहजे
 गुणकरेरे तेनविजाणेजेद ३ सा० तापहरेजिमचंद्रमा
 रे शीतहरेजिमसूर सा० चिंतामणिदालिद्रहरेरे आपे
 वासकपूर ४ सा० तिमप्रचूनोगुणसहजनारे जाणेजेगु

(४६४) रामविजयजीकृत.

एगोह सा० विमलविजयउवझायनारे रामकहेधरेने
ह ५ सा० इति ॥ अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥
मेंजाणितुमारीप्रीति परपंचगालारे एदेशी ॥ हवेजाणी
मल्लिजिणंदमें मायातुमारीरे तुमेकहवात्रोनीराग जूत्रो
नेविचारीरे १ प्रभुतेहस्युंताहरीवात जेरहेतुझवलगा
रे तेमूलनपामेधात जेहोवेअलगारे २ तुमेकहवात्रो
नियंथतो त्रिभूजनकेरीरे प्रभुकेमधरोठाकुरात कहस्यो
स्युंफेरीरे ३ तुमेवारोचोरीनाम जगतचितचोरारे तुमे
मेंतारोजगनालोक कसव्योनिहोरारे ४ प्रभुमोटाकेरी
वात कहेकुणजाणारे तुमेबोलोथोडोबोलनचुकोटाणारे ५
प्रभुतुझस्युंमाहरेप्रिति अनेदकजागीरे म्हाराजवजव
केरीआज जावठसहूजागीरे ६ गुरुवाचकविमलनोसीस
कहेगुणरागेरे इमपरमजगदीस मिल्योतुंजाग्येरे ७ इति
अथ मुनिसुव्रतजिनस्तवन ॥ घोडितोआइथारादेश
मेमारुजी एदेशी ॥ मुनिसुव्रतस्युंमोहनिसाहिवजी
लागीमुजमनजोरहो सामलडी सूरतिमनमोहित्रो
सा० वाल्हीपणुंप्रभुथीनहि सा० कालेजानकीरहो
१ साम० अमनेपुरणपारखु सा० एप्रजुअंगीकारहो
साम० देखीदिलबदलेनहिसा० अमचादोषहजारहो
२ साम० निरगुणपणवांहिग्रह्या सा० गिरुआछंडेकेमहो

सामः विपथरकालाकंठमे साः राखेइश्वरजेमहो ३सामः
गिरुआसाथेगोठडी सा० तेतोगुणनोहेतहो साम० करे
चंदननिजसारिखो सा० जिमतरुअरनोखेतहो ४
साम० ज्ञानदशापरगटथइ सा० मुझघटमिलियोइस
हो साम० विमलविजयउवझायनो सा० रामकहेशु
नसीसहो ५ साम० इति ॥

अथ श्रीनिमिजिनस्तवन ॥ लंकानोराजा एदेशी
॥ श्रीनिमिनाथमुझमनवस्योरे गिरुआगुणनिखा
णारे त्रिचूवननोराजा दीपेरेजसचडतदिवाजा आंच
ली ॥ चउदराजनेछेहडेरे उंचोजेहनोठाणरे १ त्री० मु
जरोकोपावेनहीरे इंदचंदनागिंदरे त्री० रागेनजरन
मेलवेरे तोकुणजाणेछंदरे २ त्री० तेहस्युंमंकरतांकरी
रे अचरजवालीवातरे त्री० नगतिअपूरवदोरीयेरे आ
करप्योइणजातरे ३ त्री० उरमंदिरआवीकरयोरे
आविचलवासोतेणरे त्री० मनमेलुकीधोखरोरे जेनवि
होवैकेणरे ४ त्री० नवजलनोचयमेटीआरे वाध्योअ
धिकउमंगरे त्री० विमलविजयउवझायनोरे रामकहे
मनरंगरे ५ त्री० इति ॥ अथ श्रीनिमिजिनस्तवन
॥ परण्घाथीमाहरेपाडोसीसुजाणजो जातांनेवलतांम

नडुंरिअवेजो एदेशी ॥ सहियांमोरीसाहिवोनेममनावो

(४६६)

रामविजयजीकृत.

जो दिलडुंनेदाझेपीउविणदीठडेजो दिलमेलीनेकीधो
दुशमनदावोजो अबलानेवालीयादवमीठडेजो १ क
रतांस्युंतोजाणीप्रीतिसोहलीजो दोहिलीनेनिरवहतां
दीठिनयणडेजो सामलीयोसांनरतांहियडेसालेजो दु
खतेकहेतांनविवयणडेजो २ रहस्येदुनियामांहिवातव
दीतीजो वाहलेजीकीधीछेएहवीरीतडीजो स्युंजाप्युंवि
सरस्येकिणअवतारजो तोडीजेयदुनाथेकाचीप्रीतडीजो
३ मतकोइनेछानोवेरीनेह जो लागीनेदुखदेतोकहियेएह
वोजो नेहतणांदुखजाणेतहजछातीजो जेमांहिविचरेअ
वरनतेहवोजो ४ नेमीसरनेध्यानेराजुलनारीजोमेलोनेम
नगमतोलहेशिवमंदिरेजो विमलविजयउवझायतणेशु
नसीसेजो रामविजयसुखसंपतिपामीशुनपरेजो ५ इति
अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन ॥ गायोरेसिद्धाचलमंडणध
णीरे एदेशी ॥ प्रभूजीपासजीणंद ताहरीरे २ मुंद्राअनि
नवमोहिनरीरे एहवीदुनीयांमांहि वजीरे २ दीठिमेंनहि
कोइनीरे १ कामणगारीतुझ कीकीरे २ निकीपरिहि
यडेवसीरे नेणालंपटमुझ चाहरे २ जोवाखिण २ उल्लासि
रे २ तुझदीठिसुखहोय तेकुणरे २ जाणेकहोविणकेव
लीरे एहजमुजअरदास चरणेरे २ राखोस्युंकहियेवली
रे ३ सरणोराखिनाग तेतरे २ कीधोनागतणोधणीरे

कमठतणाअपराधबहुलारे२तुरुठ्योनहितेभणीरे४ देइ
 वरसीदान जगनारे२जनसघलासुखियाकर्यारे एह
 वावहुअवदात ताहरारे२त्रिजोवनमांहिविस्तर्यारे५तो
 मुझनेपरवाह स्यानीरे२जेपोतेब्रांहिग्रह्यारे तुझजगति
 लयलीन एहजरे२शिवमारगमेसह्यारे ६ धनधन
 वामामात जेहनीरे२कुखेतुंप्रभूअवतर्यारे विमलविज
 यउवझाय सीसिरे२रामेजनमसफलकर्यारे७ इति॥
 अथ श्रीमहावीरजिनस्तवन॥ चरतनृपचावस्थुंए एदे
 शी ॥ आजसफलदिनमाहरोए भेटयोवीरजिणंदके त्रि
 जोवननोधणीए त्रिसलाराणीनोनंदके जगाचिंताम
 णीए दुखदोहगदूरेटल्यांए पेखीप्रनुमुखचंदके१ त्रि०
 रिद्धिद्विसुखसंपदाए उलटअंगेनमायके त्रि० आनि
 मुझघरआंगणेए सूरगविहेजसवायके २ त्रि० चिंता
 मणिमुझकरचढ्युंए पायोत्रिभूवनराजके त्रि० मुहमा
 ग्यापासाढल्याए सीध्यांवंचितकाजके ३ त्रि० चितचा
 ह्यासाजनमिल्याए दुरजनउड्यावायके त्रि० सोमन
 जेरप्रभूनीलहीए जेहवीसुरतरुछायके ४ त्रि० तेजझ
 लांमलदीपतोए उग्योसमकितसूरके त्रि० विमलवि
 जयउवझायनोए रामलहेसुखपूरके ५ त्रि० इति ॥

इति श्रीरामविजयजी कृत चौबीसी संपूर्ण ॥

(४६८) अमृतविजयजीकृत.

अथ श्रीअमृतविजयजीकृत चोवीसी.

अथ श्रीरीषन्नजिनस्तवन ॥ रागदेवगंधार ॥ तेरोद
रसन्नलेपायो रिषन्नजीमेंतेरोदरस० आंकणी. काल
अनंतहिन्नटकत पुन्यअनंतेमिलायो रि० १ जिनपती
नरपतीमुनीपतीपहेलो एसोविरुद्धरायो मानुंतुंहीन
मिमयाअवतारी जगतउधारणआयो रि० २ तेप्रनु
जगकीआदिनिवारी सबव्यवहारसिखायो लिखन
शिलपशतगणितवतायो ताथेजगचलायो रि० ३ या
जुगमेतुमनहीओरे अवसरपनीयेकहायो अठारकोडा
कोडिसागरअंतर तेप्रनुधर्मदीखायो रि० ४ लाखपं
चासतकोडीसागरलग सुखकरसासनठायो तुझरत्ना
करवंसविभुसण एसोकोनसुनायो रि० ५ करुणाकर
ठाकुरतुंमेरो हुंतुमचरणेआयो द्योपदसेवाअमृतमेवा इ
तनेनवनिधपायो रि० ६ इति ॥ अथ श्रीअ
जितजिनस्तवन ॥ रागखमाची ॥ तुंगतमेरीजाने जि
नजी तुं० मेंजगवासीप्रनुसहीदूखरासी सोतोतुंमसेन
छाने तुं० १ सबलोकनमेजोजीउकीसत्ता देखतदरि
सनज्ञाने तुं० २ इनकारणकहातुमसेकेहेवो कहीयेतो
नसुनोकाने तुं० ३ अपणोहिजजाननिवाजसकिजे
देइसमकीतदाने तुं० ४ मानोअजीतप्रभुअरजएइत

नी ज्युंअमृतमनमाने तुं० ५ इति ॥ अथ श्री
संचवजिनस्तवन ॥ रागकाफि ॥ लागीमोरीप्रीतप्रभु
जीसो ला० एसीबनीजिनजीमोहेतोसो ज्यौंजलमीन
प्रतीत प्र० १ घरी२पल२तुंचीतआवे ज्युंमनराघव
सीत लगनलगीमोरीक्युंकरछुटे चंदचकोरसीरीत
प्र० २दीलविप्पारीप्रभुतुमगुणयारी ज्यौंचातुकघनचीत
परसोतोरीमेंतुमसेजोरी मालतीमधुकरमित प्र० ३ आवी
धप्रीतनईप्रभुतुमसे कहाकहूकरीगीत अपनोजाणश्री
संचवजिनजी तारिएअमृतपतित प्र० ४ इति ॥
अथ श्रीअग्निंदनजिनस्तवन ॥ रागषट ॥ तेरेनेनो
कीमेंबलेहारी मानुछकीसमतामतकारी ते० चंचलता
गतिमीनकीहारी खंजनवारहजारउवारी तेः १ जीती
चकोरकीशोनासारी तासोअखेअगतीदुखनारी ते० २
लाजोपेकजअलीकुलगुनधारी भएउदासहुएजलचा
री ते० ३ त्रासीतहरननयनसुखछारी तपसीहोतचले
उजारी ते० ४ जेंतीकहुंउनकीउपमारी अग्निंदनजि
नपरसंववारी ते० ५ एसीसुन्नगताकामणगारी दीजे
अमृतदृगमेंअवतारी ते० ६ इति ॥ अथ श्री
सुमतिजिनस्तवन ॥ रागजेजेवंती ॥ तुंहीएकप्यारोप्रा

ण तिहारोहीज्ञानध्यान सवगुणकोनिधान तेरोहीस

(४७२) अमृतविजयजीकृत.

गटी निरखततुममुखचंदा करमजरमतमदुरपलाए उ
दयोज्ञानदिनंदा आ० २ अवमुजकारजसीद्वनएस
व परसपएअरविंदा सीतलजिनकरुनाकरदीजे अमृ
तपदबकसंदा आ० ३ इति ॥ अथ श्रीश्रेयांस

जिनगीत ॥ रागखंवाती ॥ मेरोमनकितहीनलागे मे०
सुखकरश्रीश्रेयांसजिनंदसो प्रेमबढयोगुणरागे मे० १
समताचरीतुजसुरतनीकी देखतहीहीतजागे लगनल
गीसटकधोरहेअहनीसी अलिज्यौकमलपरागे मे० २
एतीनिवाजीसकरतहोराजी तुमगुणएकवीजागे कहेअ
मृतइतनोहीदीजे कछुअनचाहुंआगे मे० ३ इति ॥

अथ श्रीवासुपूज्यजिनगीत ॥ रागकाफी ॥ एसोनहि
कोइत्रिभुवनमे सबदेवनमे ए० जाकेजनमसमयेअमरी
आइछपनदिसियकुमरी निज२कृतकरेप्रचुलाइं केली
सदनमे ए० १ चोसठहरीआएप्रचुले मेरुशिखरठाए
करीजनमोहोत्सवजक्तिबनाये पांडुकवनमे ए० २ तजी
घरआश्रमसंजमठाए क्षपकश्रेणीचढीकेवलपाये छदमे
धर्मकथाकहेआये समोवसरणमे ए० देखोमातजयाको
छोना लालमणीतनसेहेजसलोना सुरनरपतीसबसी
सतमाए जाकोप्रणमे ए० ४ दूखभंजनजनरंजनदे
वा पाउचवचवइतनीसेवा कहेअमृतमुजरखलेसाये

तेरसिरनमे ए० ५ इति ॥ अथ श्रीविमलाजि
नगीत ॥ रागसोरठ ॥ अबउधास्योचहिये विमलाजि
न अ० दिनदयालदयानिधिआगे अपनेदूखकीकहीं
ये वि० १ जातिज्योनीकुलकोडितामे केतेनवदुखस
हिये देशवदेशपुरठामनए सबकरतेफीरतेरहिए वि०
२ एसोनरह्योएकुंथानक मरनबीनाक्योपैए वांहां
फीरसुछमवादर पुहंलपरावर्तसोगहिये वि० ३ काल
चक्रअनंतभटकत पायोन्नवयामहीये एसीसाहेवमुज
परगुजरी क्याकहुंबोहोतसबहिये वि० ४ मोसोपापीप
तीतनहिदूजो जगमांकोउनहीलहिये पतितउद्धारन
वीरुदतीहारो कहेअमृतनरवहीये वि० ५ इति ॥

अथ श्रीअनंतजिनगीत ॥ रागकाफीजलो ॥ एसेजि
नवरधाइएप्राणी ए० ज्योनिजप्रभुतापाइएप्राणी ए०
१ सुजसानंदनपरउपगारी जगतारनकुंजयेअवतारी
ए० २ वीरजीतदोपअठारेनारी महीमावंतबडेसीरदारी
ए० ३ अनुपमरुपकीआगुहारी देवअनुतरकीछबीसा
री ए० ४ अनंतचतुष्टयअविकारी गुणपर्यायरहेवि
स्तारी ए० ५ सेहेजविहारीकेवलधारी अतिशयवंत
कमलसंचारी ए० ६ यादेवनकीखीजमतगारी करहो
जानपीछानसुधारी ए० ७ बगसोअपनोपदसुख

(४७४) अमृतविजयजीकृत.

कारी वासाहेवसोकीजेयारी ए० ८ कहेअमृतमोहेशीव
अधीकारी कीजेअनंतजिनआपसीकारी ए० ९ इति ॥
अथ श्रीधर्मजिनगीत ॥ रागअमन ॥ येसेकेसेजसप
इहोलालन जसपइयेहोलालन तुमतोजाकरवेठसुख
जोरी ये० १ सबहीठोरमोसोनीपटनलाइ प्रथमकी
नीकेसेकरतारी ये० २ इतहिआनतुमरहतछपाइ कव
नकीनीतोसोहमचोरी ये० ३ कहेतअमृतकविधरमप्र
नुसो चरणसेवादीजेअवतारी ये० ४ इति ॥

अथ श्रीशांतिजिनगीत ॥ रागकाफी ॥ मिलवोमन
मंदिरमेरा होसलुणासाहेवमेरा मि० कालअनंत
योहीतेरेदरशबीन चारोगतीदेवतजीयेफेरा मि० १
पांचोइंद्रीकेसुखराचो युमरह्योमदमेअतधिरा मि० २
आपअरुपीअकलसरुपी केसेपाउंजिनदरसनतेरा मि.
३ समकीतज्ञानपाउंअवतेरा सबामिटेमोहमथियातअं
धेरा मि० ४ कहेतअमृतमुझशांतिसयाने आयमिले
मनमंदीरमेरा मि० ५ इति ॥

अथ श्रीकुंथुजि
नगीत ॥ रागबीलावर ॥ श्रीकुंथुजिनेसखीनति अव
धारियेदिलमेलायरि खिजमतमेखामीनहिमेरी तुमक
बहोगेफलदायरी श्री० १ हाथजोडीआगलरहूं धरूं
नीसीधासरतेरोध्यानरी योकरतेल्याआनहीचीतमें क

हाकहीयेवातननकानरी श्री० कछुंनाहीखजानेखोटहे
कीजेवंचीतदानपसाधरी. फिरकेगरिवनिवाजकहावो
श्ररुदेतघटनहीजायरी श्री० ३ श्रवदेतेकछुंनवीचारी
ये सामीकाललवधकोदोपरी नावलवधीरहीतुमकर
तासो दीजेश्रनुचोश्रमृतपोखरी श्री० ४ इति ॥

अथ श्रीश्ररजिनस्तवन ॥ रागकाफी ॥ मनजिनपद
कजलीनोभ्रंग म० लीननयेज्यौंसंकरशिरपर पावन
कारीगंग म० १ ज्यौंचपलारहीधाराधरमे सीतारवु
वरसंग म० २ श्रटकरह्योचितजोगीसरको ज्यौंमहा
मंत्रसुचंग म० ३ ज्यौंलयपायोश्रध्यातममे उजलज्ञान
श्रजंग म० ४ योश्ररजिनचरणंवुजलयसो लीजेश्र
मृतपदरंग म० ५ इति ॥

अथ श्रीमल्लिनाथजि
नगीता॥रागकाफी ॥ मल्लिनाथजिनमेंथापरवारीवो म०
नीलवरणश्रतिश्रदभूतनीकी मुरतमोहनगारिवो म०
१ अजववनीकुंनरायकेकुलमे तनयातीस्थधारीवो म०
२ परनवदंनकीयेयेपाये बहुमित्रसोश्रचरीजजारिवो
म० ३ कालश्रनंतेनव्यलहेकोइ जीनपदभावकु
मारीहो म० ४ खटनृपनंदनकुंप्रतिवोधी लेसंजमवी
धीसारीवो म० ५ वेदोछेदसोश्रायविराजे त्रिगडेचो

मुखधारिवो म० ६ एशीसुणीप्रभुदेशणाकाले आंगे

(४७६)० अमृतविजयजीकृत.

जुरेछदनारीवो म० ७ पुरुषोत्तमचोवीसोजिनवर अ
मृतप्रणमेकराविवो म० ८ इति ॥ अथ श्रीमु
नीसुव्रतजिनस्तवन ॥ रागपंजावी ॥ जीउनेकाक्यावि
सासा जी० यातनधनजोवनथीरनाहीवो चलदसका
सापानखरासा जी० १ जोहोयसंध्यापंचवरनकी ज्यौं
चपलाकारहेउजासा जी० २ काहेकुंअवललचाहेप्या
रेवो यादूनीयांकादेखतमासा जी० ३ परमानंदनदि
लदारंजनवो सुव्रतकेसंगकराविलासा जी० ४ कहेअ
मृतमेरेजीउकेजीवनवो नेकनजरकरोदीलासा जी० ५
इति ॥ अथ श्रीमुनीसुव्रतजिनगीत ॥ रागपंजा

वी ॥ प्यारोमनजावनमेरेदीलआओरे मे.प्या.हृदयक
मलमेंध्यानतोसाढावो मेडीअरजदीललावारे प्या०
१ परमानंदनदिलदारंजन तारकतुमहीकहानरेप्या०
२ जागजंजालथेकइकइकतारेवो तिणेकेहादिआजुव
ताओरे प्या० ३ अश्वकेकारननिशीचलेआयेवो मेरा
वखतनमनावारे प्या० ४ चरनसरनकीलाजनिवहिये
वो अपनोकरकेइठरावारे प्या० ६ मुनिसुव्रतअमृत
केस्वामीवो ज्योतिसोज्योतिमिलावारे प्या० ६ इति ॥

अथ श्रीनमिनाथजिनगीत ॥ रागकानडो ॥ करदी

लरंजनलालहीरा मनिगनकंचनजरावर धरावेश्राचुष

ननमीनाथकी छवीअमीतसोनादेत क० १ वदनकी
 चंद्रज्योत अधरबीवजलकत रागचवकटाछ निरखत
 नवलरुप एसोतहीकोखुबसोहेजेख क० २ छत्रहीवी
 राजेसीस चपलाचोरटलकत नक्तिजाववनाय प्रनमत
 नविटुंदवारा प्रभुताओरसुरकीपेख क० ३ कहतअमृ
 तएसोप्रवल कोनमतीधरआदिअंततुमाम तुमगुनवर
 नपारनलहे एकगुनकीलेख क० ३ इति ॥

अथ नेमीनाथजिनगीत ॥ रागकानडो ॥ होवालेमा
 तुमीमोसेनयनखवर आएजुमेंतोसेपीतपीछानी हो०
 हमसोअवधवदीअनत बेलमरहेतजकरपीतपुरानी
 हो० १ अपनीसमजकरबिर्जकाहानरसोवतीयाकर
 तअलसानी हो० २ एतनीअरजसुणीअमृतनजरप्र
 भु राजुलकीनीगुनषानी हो० ३ इति ॥

अथ श्रीनेमनाथजिनगीत ॥ रागअरगजो ॥ को
 नमनावोरेरुठडानेमसो को० बहुअतमामसोतोरनआए
 फेरचलेचलेरथकेमसो को० १ आठनवांतरनेहनीवा
 ही नवमेनवकरीएमसो को०
 विगरयोपानज्यौंचोलिकसो को० ३ रेमृगनयनीचिंदा
 वदनी अरजकरोजइसेनसो को० ४ बिरहदिवानीरा
 जुलरानी पोहोतीपीयासंगप्रेमसो को० ५ संजमआपी

(४७८) अमृतविजयजीकृतः

पदसोथापी शीवसुखअमृतवेनसो को० ६ इति॥
अथ श्रीनेमजिनगीत ॥ रागअसावरी ॥ होजुए
सेरीसानेतुमो हेतजकरकेसेसयाने फीरयदूलालआ
येपीछे हो० सखीजाओसबवेगेमनाओ क्यौतोरन
आयेफीरजाओकहा चुकपरीमोसोकहिये गुनओगुन
सबहीनीनइए फी० १ सखीवाकोजायसमजाओ तुम
मीनतीकरकेओ हुकमीहाजरबंदीतेरी मेंआठभवोकीचे
री फी० २ सखीजोनीसपतकरछोरी मोरेपीयानेप्रीत
ज्युंतोरी सीरअंगवीभुतीलगाओ मेंतोजोगनहोकरजा
ओ फी० ३ सखीयाछबीदेखुननयनामोहे विनदेखेन
हीचहना गरेबीचडारोसेली मेढुढतीफिरहुंअकेली फी०
४ सखीएसीअरजसुनप्यारी करीलिनितिजएकतारी
नइनेमराजुलगनगोरी कहेअभृतअविचलजोरी फी०
५ इति ॥ अथ श्रीनेमजिनगीत ॥ रागवसंत ॥
लालनअवमानलालअवमानगुमान बरजघरआवोकी
नसंगखेलुमेवसंतप्रान अ० अंबकंदवसबतरुवरमो
हेरे केसुफुलेसयानेजानको कीलकुंजतमधुरगुंजत म
तनएरसखानपान अ० २ खुरसानसमारैवरवीरहका
रे पाचुहीपीरतप्रानवान अवीरअरगजागुलालअतर
सो खेलतफागजहानरान अ० २ तालमृदंगडफविन

सुगावे होरीधुमारकेतानगानं योविकलपकरतेवहापाइ
 गतमोहीकोनिज्ञानध्यान अ० ३ संजमखेलखेलीय
 दूपतिसो रेवतगिरिउधानठान कहेअमृतप्यारीकोदी
 नो शिवफगुआअसमानदान अ० ४ इति ॥

अथ श्रीनेमजिनगीत ॥ राग वसंत ॥ अवतोगुला
 वजेनछरकयो मोरीसखीयां पीयनबिछरीयाखीजेगी
 अ० चंदमुखीसखीसोयोजने अपनीएवतीयालीजेगी
 अ० १ रसवसकेसंगजइहे कुरकवावानदूरहीयारीजे
 गी केसरजरीपीचकारीनीवारी सुरंगचुनरीयाजीजेगी
 अ० पीरीजइपीयु२रटनाथे जेसीजुन्हीयाछीजेगी खेल
 वरजसंखीयाकीमहीया कहाजुसुनइयाकीजेगी अ० ३
 राजुलसीरवढीतोमतयाकीछोटीटीसीननदीयादीजेगी
 मनजावनपीयानेमीसरसो अमृतरसयापीजेगी अ०
 ४ इति ॥

अथ श्रीनेमजिनगीत ॥ राग जं
 गलो यामनवसीअनीहायामनवसी छवीनीकीप्यारे
 की या० जवतेदृष्टपरियामेरे लोकलाजसवखसी अ०
 १ तनमनधनयापरहीवारुं मोहपासमुजकसी अ० २
 अपनीजानजदूपतिहुंवालाइ मानुंअमृतरसी अ० ३
 इति ॥

अथ श्रीनेमजिनगीत ॥ राग जोपा
 ली ॥ सुनोरीअरीखरीपरीपीआजीकी अपटवीरहाकी

लगीमोरेहेरी सु० १ सुनतमारुतमानुमेन अगतीकी
 लगनटरतनावडिअधिकेरी सु० २ इतहीकारनआ
 लीचलीयलालनसो आयमनायवनायलोघेरी ओर
 हीदोरछोरउतहीरहतचीत विछरीलाजकीलावघनेरी
 सु० ३ आयबीसजोछाजे शीवादेकेलालागेजनछोरुं
 पकरीजुंतोरीनकविचेकजर अमृतनजरकीमोपरकीजे
 सहीयातेरीजुवेरी सु० ४ इति ॥ अथ श्रीपार्श्व

जिनगीत १ ॥ राग आढानो त्रितालमध्ये ॥ एरीतम
 सुरतरुंसरसेदरसे महाराजआजश्रीअश्वसेन नृपनंद
 नवंदनजनरंजनजिनराज ए० कृपसिधूंजगवानसम
 तानिधानसरणगतजनरखवारेरखवारेथाहीवैरअववां
 हीग्रहेके अमृतसरखलाज ए० १ इति ॥

अथ श्रीपार्श्वजिनगीत ॥ रागकाफीरेखतो ॥ चेतनतुं
 क्याकरेयारी दीवानेकर्मसोजारी तेसंपतिसवेहारि
 समजलेसीखतुंसारी चे० १ सजनतुंमोहकासंगी चल
 तहेचालवेढंगी घरदाराकामकारंगी कीनानहीवातए
 चंगी चे० २ अनादीकीनुलहेतेरी कुमतीसोचेतनाघे
 री संगलगीडोरदेफेरी ठगोरीमोहकीचेरी चे० ३
 ज्ञानीतुंज्ञानविनाभुला प्रेमकेफंदमेझुला सहीयेसीक

र्मकीहुंला सयानेसमजतुंदुला चे० ४ खोजकरएकतुं

मेरा आपमेआपपदतेरा अमृतकहेपासजीकेरा सेवी
पेपदयूगसवेरा वे० ५ इति ॥ अथ श्रीपार्श्व

जिनगीत ॥ राग अरगजो ॥ वारीजाउरेचिंतामनपा
सजी वा० १ नरकनिगोदमेवहुदूखपायो खवरली
नीनहीदासकी वा० २ नमत२तारेचरणेआयो द्यो
सेवापदआपकी वा० ३ अब्रहीटेडींगलीनछोडुं लागी
सुरतपरआसकी वा० ४ दिलमेरामनतुंदिलकीजा
ने क्याकहुंवचनवीलासकी वा० ५ अखयचिदानंदअ
मृतलीला देइगुणपदरासकी वा० ६ इति ॥

अथ श्रीवीरजिनगीत ॥ रागजंगलो ॥ नयनजमाक
डो एदेशी ॥ सासननायकसोअबमेरी अरजकरणकुं
आयो होजीसाहेवा अब्रमुजवालयो सा० १ कालअ
नतेपुदगल आवर्तनसोवहायो हो० २ नमत२सरि
तोपलन्याये तुमसासनहुंपायो हो० ३ अब्रसेवककुं
बंधितदीजे लीजेजराहुंसवायो हो० ४ जोतुमतारेसो
इहुंजानुं तिणेकहादिनोवताओ हो० ५ योकरनेसा
मीकोनरहे तारकविरुद्धरायो हो० ६ आगेपीछेकछु
नविचारो पारसअयजोमिलायो हो० ७ तुमपदसेवा
अमृतक्रीयासो दिजेहुंनवनिधिपायो हो० ८ इति ॥

इति श्रीअमृतविजयजीकृतचोवीसीसंपूर्ण ॥

अथ हरषचंदजीकृतचोवीशी.

अथ श्रीआदिजिनस्तवन ॥ रागजैरुं ॥ उठतप्रजात
 नामजिनजीकोगाइये नाभजीकेनंदकेचरणचितलाइये
 उ० आनंदकेकंदजाके पुजितसुरिंदवृंद श्रीसोजिनरा
 जछोड औरकुंनध्याइये १ उ० जनमअजोद्धाठाम मा
 तामरुदेवानाम लंछनवृषजजाकेचरणसुहाइये उ०
 पांचसंधनुषमान दीपतकनकवान चोरासपुर्वलाख
 आयुस्थितिपाइये २ उ० आदिनाथआदिदेव सुरनर
 सारेसेव देवनकेदेवप्रभु सिवसुखदाइये उ० प्रभूके
 पादारवृंद पूजतहरषचंद मेटोदूखदंदसुख संपतिव
 ढाइये उ० ३ इति ॥ अथ श्रीअजितजिनस्त
 वन ॥ रागगुजरी ॥ अजितजिनकोध्यान करमनअ
 जितजिनकोध्यान रिधिसिधिआनंदमंगल होतकोडक
 ल्याण १ क. याकीजनमनगरीनामअज्ञोधा पिताजित
 शत्रुजान मातविजयादेवीनंदन कुलइक्षांगप्रधान
 २ क० चारसंपंचासउपर धनुषजसुतनुमान लाखबहु
 तरपुरवआयु देहकंचनवान ३ क० गुणअनंतउदार
 महिमा लंछनगजसुप्रधान हरषचंदप्रभुजीकेगुनको
 कहतनावतग्यान ४ क० इति ॥

अथ श्रीसंभवजिनस्तवन ॥ रागआसाउरी ॥ साहि

वसेवीयेहो संनवनाथजिणंद सावथीनगरीनलीहो पि
 ताजितारिनरिंद लंछनतुरंगमदीपतोहो राणीसेनामा
 तानंद १ सा० उंचपणोधनुपपांचसेहो मुखशोजित
 राकाचंद साठलाखपूरवतणीपितहो दीपतदेहदिनंद
 २ सा० जैनधरमपरकासीयोहो प्रभुमेढोभवदुखदंद
 हरपचंदहरपेकरीहो प्रणमेप्रभुअरविंद ३ सा० इति ॥
 अथ श्रीअजिनंदनजिनस्तवन ॥ रागविलाउल ॥ अ
 जिनंदनसनेहहमारे अजिनंदसोनेह निसदिनमनमां
 हिजपुंजैसे चातकमनमेहहमारे १ अ० ज्युंमधुकरम
 नमालतीहो ज्युंससिकुमदसनेह ज्युंगजमनरेवानदी
 तेसेमुजमनप्रनुएह ह० २ अ० जनमनगरअवझापु
 री जसुपितासंवरगुणगेह मातासिद्धारथाराणी कपि
 लंछनचरणेह ह० ३ अ० लाखपंचासपूरवतणोहो
 आयुप्रमाणमुणेह वंसइक्षांगेदीपतो साढीतीनसेधनुदे
 ह ह० ४ अ० देवजीकेदोपनचरे दोदिलनहीआवेते
 ह हरपचंदकेसाहिवा निकलंकनिराकृतरहे ह० ५
 अ० इति ॥ अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ राग
 रामकली ॥ निरखवदनसुखपायीमेंप्रभुतेरो नि० सु
 मतिनाथजीकेमुखकीसोना देखतचितउमायो नि० १
 मेघनृपतिकेनंदआनंदन मातसुमंगलाजायो लंछनको

चत्रजोध्याउपजत कनकवरणतनुछायो नि० २ धनुष
तीनसतमानविराजत जसुजसत्रिहुजगछायो चालीस
लाखपूरववछरको आयुप्रमाणवतायो नि० ३ पंचम
जिनपंचमगतिगामी परमपुरुषजिहध्यायो हरषचंदके
चितमेंतुमविन अवरदेवनहीआयो नि० ४ इति ॥

अथ श्रीपद्मप्रभुजिनस्तवन ॥ रागअलाहियौवैलाउला
चरणकमलमेचितदियोरी पदमप्रचुकेमुखकीसोभा दे
खतचितआनंदजयोरी १ अ० श्रीधरपितासुसीमामा
ता कोसंबीपुरजनमलीयोरी धनुषअढीसेंउंचीकाया
लंछनपंकजचरणरह्योरी २ अ० तीसलाखपूरवृष्पि
तजाकी अरुणवरुणमानुरविउदयोरी केवलग्यांनप्र
कासकप्रचुजी तीनलोकजाकौसिसनयोरी ३ अ०
नामलेतनवनिधसुखपायो दरसणदेखतदुरितगयोरी
हरषचंदकेसाहिवसाचो जगजीवनजिनराजजयोरी ४
अ० इति ॥

अथ श्रीसुपार्श्वजिनस्तवन ॥ राग
आसाउरी ॥ आजमेंदेख्योरीमुखचंदा आ० श्रीसुपास
जिनेसरजीको देखतचित्तआनंदा १ आ० जनमवना
रसीप्रथवीमाता पिताप्रतिष्ठनरिंदा लंछनस्वस्तिक
वीसेधनुषतनु कंचनवरणदिपंदा २ आ० बीसलाखपू
रवथितजाकी कुलइक्षांगनरिंदा अदभुतरुपअनोपमम

हिमा पूजितसुरचंद्रा ३ आ० केवलग्यांनश्चरंतगुणा
कर संसयतिमरहरंदा ह

रपचंदप्रचुचंद्रा ४ आ० इति ॥ अथ

श्रीचंद्रप्रभुजितस्तवन ॥ राग ॥ रहतनयनलज

चानेदरसकुं २० चंद्रप्रचुकेमुखकीसोजा देखतना

हिंश्रछाने जाकेतनकीआकृतआगे कोटदिनंददुराने

द० १ २० महसेनपितालछमनामाता ससि

लंछनठहराने दसलाखपूरवआयुदोढसो धनुषस

रीरप्रमाणे द० २ २० चंदपूरीअवतारजीयोजिन कु

लइक्षांगकहांने उजलवरणतरणअरुतारण जगतजतुं

हितकाने द० ३ २० दोपतसहितदेवहेजेते मेरेमननहीं

माने हरपचंदकेसाहिवतुमही हमतुमहाथकीकाने

द० ४ २० इति ॥ अथ श्रीसुविधिजिनस्तव

न ॥ सुखदायकसुखकंददयानिधि साहिवसुविधिजिनं

द काकंदिपुरराजीयोरी पितासुग्रीवनरिंद धनुषसत

मानमगरवरलंछत रामारानीनंद द० १ दोयलाखपु

रवआउपोहो कुलइक्षांगनरिंद उजलवरणतरणअ

स्वरमहिमा पूजतपदसुरचंद्र २ द० दरसणदेखतसु

खनयोरी मिटेदुरितदुखदंद प्रभुकेवरणकमलकीसेवा

चाहतमुनिहर्षचंद ३ द० इति ॥ अथ श्रीशतिल

(४८६)

हरषचंदजीकृत.

जिनस्तवन ॥ राग गुणाकरी ॥ अटक्योचितहमारोरी
जिनचरणकमलमे अटक्योचितहमारो सतिलनाथजि
नेस्वरसाहिव जीवनप्राणआधारोरी १ जि० मातानं
दादेवीकानंदन दृढरथनृपकोप्यारोरी श्रीवल्लंछनजन
मन्नदिलपुर कुलइक्षांगउजवालोरी २ जि० नेउधनुष
सरीरसुसोजित कनकवरणअनुकारोरी एकलाखपुरव
थितकहियत नामलिखांसितारोरी ३ जि० दिनदया
लजगतप्रतिपालक अबमोहेपारउतारोरी हरषचंदके
साहिवसाचे हुंतोदासतुमारोरी ४ जि० इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ रागगौडमलार ॥ अबतो
उधारयोमोहिचहिये जिणंदराय अ. राखुतन्नरोसोहुंतो
रारेचरणको सुणोश्रीश्रेयांसनाथ साचोसिवपुरसाथ
विरुदतुमारोप्रभुतारणतरणको १ अ० साहपुरीजनम
ठाम विश्नुसेनपितानाम विप्राराणीकुखेजामकंचनव
रणको वएसचोरासीलाख आयुप्रमाणजाख लंछनच
रणखगसुखकेकरणको २ अ० हुंतोहुअनाथ
तुमनाथ प्रभुतुमविनओरमोहिदूसरोसरणको प्रभुके
पादारचंद पुजतहेहरषचंद दीजीएआनंददुखमेटी
यमरणको ३ अ० इति ॥ अथ श्रीवासु

पूज्याजिनस्तवन ॥ रागहिडोल ॥ श्रीवासुपूज्यवार

माजिणंद शिवसुखकेदायकश्रानंदकंद जाकीजत
 मनगरीविख्यात इक्षांगवंसवसुपुज्यत रानीश्रीजयादे
 वीप्रसिद्धमात पदसाहिपलंछनाविद्रुमगात १ श्री० द
 ससाठधनुषकायामान बहुतरलाखवरसायुमान सु
 रनरमानतजसुंश्रान कामितपुरणकरुणानिधान २
 श्री० जगजीवनजगनायकजिणंद मिथ्यामतिमिरह
 रनेदिनंद प्रभुदुरकरोदुपदुरतदंद नितचरननमतसु
 तिहरपंचद ३ श्री० इति ॥ अथ श्रीविमल

जिनस्तवन ॥ रागआडाणां ॥ तुमस्युंलागोनेहविम
 लजिन तु० कृतवृह्णासुस्यामादेवीनंदन सुणसाहिव
 गुणगेह वि० १ कुलइक्षांगकंपिलपुरजनमे साठधनु
 पछेदेह साठलाखपुरवथितिआयु सूकरलंछनरेह वि०
 २ ज्यौंचकोरशसीहीनितचाहे ज्यौंचातकमनमेह त्युं
 हीनिसदिनतुमकुसमरुं मुजमनरटनारेह वि० ४ दुख
 नसहितदेवहेजेते दिलहीनावेतैह हरपंचदहिततुमस्युं
 कीनो रखेदिखावोछेह वि० ४ इति ॥

अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ रागधुंवरीयामलार॥ चर
 णसरणमेंतकआयो तेरीप्रभु० हुंतोदीनअधीनअधम
 नर तुजगबंधुकहायो ते० १ सिंघसेननरपतिकेनंदन

सुजसामातामलायो लंछनसींचाणोअजोध्याउपजे कं

(४८८)

हरषचंदजीकृत.

चनवरनसुहायो ते० २ तिनिलाखवरषप्रभुआयु तनु
धनुषपचासवतायो कुलइक्षांगमुगटसोभागी शिवरम
णीचितलायो ते० ३ अनंतनाथअतुलीबलसाहिब
तुमजसतिहुजगछायो हरषचंदकुदेहअखयसुख
नवदुखबोहतसंतायो ते० ४ इति ॥

अथ श्रीधर्मनाथजिनस्तवन ॥ रागटुंदावनीसारंग ॥
जबमेंमूरतदेखीप्रभूतेरी तवहीपुन्यदसामेरीजागी ज
नम२केदुरिगतगएसब कुमतिकुटलतादुरमतजागी
ज० १ धर्मरायश्रीज्ञानुरायसुत सुवृतामाताहेबडजा
गी लंछनवज्ररतनपुरजनमे दसलाखवरसआयुस्थिति
पामी ज० २ पंचअधिकचालीसधनुषतनु कायाकंचन
वरनसोजागी कुलइक्षांगविभूसनसाहिब महिमावंत
महंतअनुरागी ज० ३ संजमलेपंचमपदसाध्यो राज
रमाणममतासबत्यागी हरषचंदसाहिबसुखदायक मे
रीलगनप्रचूजीसेलागी ज० ४ इति ॥ अथ श्री
शांतिनाथजिनस्तवन ॥ रागसारंग ॥ चितचाहतसेवा
चरणकी चि० विश्वसेनअचिराजीकेनंदा शांतिनाथसु
खकरणकी चि० १ जनमनगरहथिणापुरजाको लंछ
नरेषाहिरणकी तीसअधिकदसधनुषप्रमाणे कायाकं
चनवरनकी २ चि० कुरुवंशकुललाखवरसथिति सो

जासंजमधरनकी। केवलग्यानअंततगुणाकर। कीरतता
रनतरनकी। चि० ३। तुमविनदेवअवरनहीध्याउमै। अप
नेमनेपरनकी। हरप्रचंददायकप्रभूशिवसुख। नीतमिटा
वोमरनकी। चि० ४ इति ॥ अथ श्रीकुंथुनाथजि
नस्तवत् ॥ रागविहागो॥ रेमनमधुकरमीतहंमारे। कुंथु
नाथकेचरणकमलते। नेकनहोजिनन्यारे रे० १। सह
जसुगंधसुकोमलाश्रीपुतसुभूपसुखकारे। रागदोषकट
कनहीयाकेपापिपंकसेन्यारे रे० २। विकसितरहतस
दानिसेवासर। अतिअद्भुतअविकारि। एसेपदपंकजत
जीइतउत। डोलतमूढकाहारे रे० ३। माताश्रीश्रीमति
केनंदन। सूरनृपतिकेधारे। राजपुरजनममछागारलेछ
न। कुरुवंशकुलउजुवाले। रे० ४। सहसपंचाणुआयतनु
धनुपैतीसंमोहरि। हरप्रचंदकेसाहिब्रजिनवर। जगतजंतु
हितकारे रे० ५ इति ॥ अथ श्रीअरजिनस्त
वन ॥ राग। इमन ॥ श्रीअरनाथजिनंदरहतमनमैरे
श्री० गजपुरनगरसुदर्शननृपसुत। श्रीदेवीजीकोनंद
रे० १। सहसचौरासोवरसआयुथिति। तीसधनुपतनुदि
पतदिनंदी। लेछननंदावत्तसुसोन्नित। कुलइक्षांगनरिंद
रे० २। कंचनवरनसुकोमलकाया। मुखदुतिदीपतराका

चंद्र। जगतजंतुप्रतिपालकप्रभूजी। सवतघोसठइंद्र रे०

३ तुमतोसाहिबसिवसुखदायक हुंसेवकमतिमंद हरष
चंदकीराखोलज्या दुररहोदुखदंद २० ४ इति ॥

अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ राग नट्ट ॥ मनमानीरेमे
रेमनमानी म० मल्लिनाथकीमुरती म० कुंजन्पतिके
नंदआनंदन मातप्रजावतीरांनी म० १ धनुषपचीस
लंचपणेकाया नीलवरणगुणमणिखाणी लंछनकलश
जनमहथिणापुर करुणानिधिकेबलज्ञानी म० २ पच
पनसहस्रप्रमाणवर्षथिति तारेबहुतन्नविकजनप्रांनी जै
नधरमप्रकासकीयोप्रभू दुरगतिदुखदूरनगाणी म०

३ अरेदेवदिलमांहिनध्याउमें अपनेजीयइहठानी हर
षचंदसेवककीलज्या राखोप्रभुअपनोजानी म० ४
इति ॥

अथ श्रीमुनीसुव्रतजिनस्तवन ॥ राग
नायकी ॥ सुंदरमुखकीसोजा नितदेखवोकीजे मुनीसु
व्रतजीकोदरसन देखतदुरितदुखछीजे नि० १ पिता
सुमित्रनगरीराजअही पदमावतिकीबलिलिजे वीसधनु
षतसुकुरमलंछन हरिवंशकुलअवतारलहीजे नि० २
तीससहस्रसंवत्सरआउ इयामवरणदेखतहीजीजे च्या
रुकोटकामकीमूरतकूं ऐसौजाकीओपमदीजे नि. ३ जब
देखतबअतीसुखउपजे विनदेख्येमेरोमननपतीजे हरष
चंदकेप्रजूकीमूरत देखतनेनअमृतरसपीजे नि. ४ इति ॥

अथ श्रीनामिजितस्तवन ॥ रागजेजेवंती ॥ प्रभुजी
 स्युंप्रीतकरीजाइ मेंतोप्र० श्रीनामिनाथजिनेसरजीसुं
 लागीलगनखरी में० १ माताविप्राविजयनृपातिसु
 तमिथुलाजनमपुरी पणदशधनुषशरीसकनकदुति से
 वतचरणहरी में० २ दसहजारवरसकोआयु महिमा
 जगतभरी दोषश्रद्धारहितहितकारन साधीशिवनग
 री में० ३ जबमेंचरणकमलचितदीनो तबहिविपतड
 री हरपंचंदचितआनंदपायो मतकीआसफली में० ४
 इति ॥ अथ श्रीनेमनाथजिनस्तवन ॥ रागसो
 रठ ॥ नेमजीथेंकांडहठमांड्योराज ने० राजुलउभीवि
 नवेजी मेरीअरजसुणोमाहाराज ने० १ समुद्रवजिजी
 केलाडलेजीतुम यादवकुलशीणगार नायकतीनुलो
 ककाजी तुंसवगुणनिधीगरिबन्निवाज ने० २ तुमजली
 वरातबणायके आयेव्याहनकाज तोरणसेरथफीरके
 जीतुम फिरतनआइथानेलाज ने० ३ आवोउलटघर
 आपणेजी हठछोडोनणदरावीर तुमविनएसंसारमेंजी
 कवणामिटावेपीर ने० ४ तुमपसुअनपरकरुणाकरीजी
 मांपरकीनोरोस दीनदयालकहायकेजी तुमनेनिपटल
 गेगोदोसने ५ प्रीतपुराणीजाणीकेतुमराजुलराखोपास
 हरपंचंदप्रचुराजुलबनिवे जोथानेमुगतिनांवास ने० ६ इति

(४९२)

गुणविलासजीकृतः

ति॥ अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवन॥ रागसोरठ॥ वामाजकेन
दञ्चरजसुणो वा० अश्वसेनकेलाडलाहो श्रीजिनपा
सजिणंद अ० १ जनमपुरीवाणारसीहो लंछनचरण
फणिंद सोवरसनोआउखोहो कुलइक्षांगनरिंद अ०
२ नीलवरणनवहाथनोहो दीपतदेहदिणंद एकध्यान
प्रनूकोजपुंहो मनधरिअधिकआणंद अ० ३ हुंसेवक
छुंताहरोहो तुंसाहिवसुखकंद दीजेसेवाचरणकीहो चा
हेनितहरषचंद अ० ४ इति ॥ अथ श्रीमहावी
रजिनस्तवन ॥ रागपरजचाल ॥ मनमान्योमाहावी
रमेरे म० सिद्धारथनृपकुलतिलोहो प्रभुत्रिसलानंदन
वीरमेरे म० १ क्षत्रीकुंडप्रनुजनमीयोहो सुरगिरीविर
समधीर वरसबहुतरआउखोहो लंछनपगसउडीर मे०
२ सातहाथतनुंदीपतोहो कंचनवरणशरीर काशपकुल
उजवालकेहो प्रभुपुहताजवजलतीर मे० ३ सासन
नायकसमरीयेहो नजेनवजयजीड हरषचंदकेसाहिवा
हो तुमदुरहरोदुखपीर मे० ४ इति ॥ इति श्रीहरषचंद
जीकृत चोवीशी संपूर्ण ॥

अथ श्रीगुणविलासजीकृतचोवीशी.

अथ श्रीरुषजदेवजिनस्तवन ॥ रागदेवगंधार ॥ अथ

गुणविलासजीकृतः (१९३)

मोहीगेतारोदिनदयालः सबहीमतमंदेखे ॥ जीततीततु
 महिनामरसाल १ अ० आदिअनादिपुरुषहोतुम्ही तु
 र्हीविश्वगुणपालः शिवब्रह्मातुमहीमसरधे ॥ नाजीगयो
 अमजाल २ अ० मोहवीकलज्जुल्योजवमांही फिरथो
 अतंताकील गुणविलासश्रीरुषज्जिनेसर मेरीकरोप्र
 तिपाल ३ अ० इति ॥ अथ श्रीअजितजिनस्त
 वन ॥ रागविजास ॥ सुनत्रिभुवनकेराय अजितजिने
 सरस्वामी प्रजुमोहितारोदूखनिवारो ॥ किजेशिवपुरगा
 मी अ० १ कालअतादिजमतमेनलह्यो निजअनुजे
 वहितकामी परपरणतिसोमाचीरह्योनित ज्युअंधोनअ
 तरनामी २ अ० परमपुरुषतुहीपरमेसर पुन्यतोरीसे
 वापामी अवभ्रमजावमिटावकरोसव गुणविलासजस
 नामी अ० ३ इति ॥ अथ श्रीसंजवजिनस्तवन ॥ राग
 विलासलअहिया ॥ सारजगश्रीजिननामसजार श्री०
 श्रीजिननामितेवछीतपावे रिद्धिसिद्धिनिद्धिविस्तार सा
 १ धरचितजाउदाउहेनीको लहिमानवअवतार ॥ म
 टिविजावदसाकीपरनती जिनसुमिरनचितधार २ सा
 श्रीजिननाममज्जनतेजविजन ॥ बहुतकउतरेपार गुण
 विलाससंजवजिनजपीले सुखआनंदजयकार ३ सा
 इति ॥ अथ श्रीअभिनंदजिनस्तवन ॥ रागकाफी ॥

(४९४) गुणविलासजीकृत.

तारोमोहेस्वामी सरनतीहारीश्रायो कालत्रनंतानंतनमं
ते श्रवमेंदरीशणपायो १ ता० तुमशिवनायकसबगु
णग्यायक तारकविरुद्धरायो लायकजाणिश्राणिमन
जावन पायकमलचितलायो २ ता० तुमनिरंजनजन
मनरंजन खंजननेनसुहायो गुणविलासप्रभुजिनश्राजि
नंदन वंदनकोललचायो ३ ता० इति ॥

अथ श्रीसुमतीनाथपद ॥ राग जेरव ॥ तेरीगतितुंही
जाणेमेरेमनतुहीहे औरसर्वजर्मजाव मोहजालयुहीहे
१ ते० ग्यानमेविचारठांनिशुद्धिबुद्धिगहीहे श्रापकीप्र
सादपाइसुष्टदृष्टिलहीहे २ ते० चंदज्योचकोरप्रिति ए
सीरीतिसहीहे श्रादिअंतएकरूप तोसोहोइरहीहे ३
ते० एदयालबहुतचातकहाजातनहिहे तारिहोसुमति
नाथगुणविलासवहीहे ४ ते० इति ॥ अथ श्री

पद्मप्रभुपद ॥ राग आसाउरिदेवगंधार ॥ प्रभुजीतुमा
रीअकथकहानी दांनविनासबजेरकीएहे सुरनरजगके
प्राणी १ प्र० निरअंबरसुंदरसहजेही विनुसंपतिरज
धानी क्रोधवीनासबकर्मविनासे अपठितवडेवीनानी
२ प्र० रागविनासबजगतजनतारे सुधअक्षरसुवांनी
गुणविलासप्रभुपदमजिणेसर कीजेआपसमांती ३ प्र०

इति ॥ अथ श्रीसुश्वनाथपद राग रामकली ॥

गुणविलासजीकृतः (४९५)

पुरिमनोरथसाहिवमेरा अहनिसिसुमरनकरिहुंतेरा १
 पु० अंतरायश्रिकरिरह्योघेरा ताकोततछीनकरहुंनि
 बेरा २ पु० नवननमाहेनम्योवहुंतेरा पुन्यसंजोगेल
 ह्योतुमडेरा ३ पु० गुणविलासप्रचुटारोफेरा दीजेसुपा
 सजीपासबसेरा ४ पु० इति ॥ अथ श्रीचंद्र
 प्रभुपद ॥ राग रामकली ॥ चंद्रप्रचउरआनंदो नवि
 कजनचंद्र. दरसणचंदनतेश्रतीसीतल उज्जलचंद्रसमा
 नहो १ न० चंद्रसरागिप्रचुनिरागी जागतज्योतिअ
 मानहो २ न० राहुमलीनकरेनितससिको सोयेधरेप्र
 भुध्यानहो ३ न० सदाउदीतसंपुरनस्वामी वाकिकला
 वढहानहो ४ न० निरखतअनुपमअमृतवरसे
 मोहतीमरहरजानहो ५ न० गुणविलासप्रचूके
 चरणांबुज सेवोसुरराजानहो ६ न० इति ॥
 अथ श्रीसुविधिनाथपद ॥ रागविलाउलसुहव ॥ इ
 हेविधसुविधिजिनंदका लखिरुपउदारा रिदयकमलमें
 ध्याइये लहियेनवपारा १ इ० असनवसनजाकेनही
 नहीमदनविकारा नयवरजीतआयुधविना करनीसो
 न्यारा २ इ० लिंगनहिसंग्यानही नहिवरणवीच्या
 रा नीरंजतपरमातमा सोदेवहमारा ३ इ० ब्रह्मावि
 श्नुमहेसरोपरमेसरप्यारा गुणविलासश्रीजिनराजसे

(४९६) गुणविलासजीकृत.

जिनरागनिवारा ४ इ० इति ॥ अथ श्रीशीतल
जिनपद ॥ रागगौडी ॥ आजमेंपुन्यउदेप्रभुदीठो सी
तलचीतज्ञयोअबमेरी प्रसम्योमोहअंगीठो १ आ०
एसोरंगलग्योजिनजीसो जेसोचोलमजीठो नाजानुक
बनेननीकेपथ रिदयमेआनंदपइठो २ आ० सोनीजरु
पमेंआजप्रीछान्यो जोअमृततैमीठो गुणविलासशीत
लजिननीरखत घातकपंकसुनीठो ३ आ० इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनपद ॥ रागमल्हार ॥ महिरकरोमा
हाराज हमपरमहिर० तुमविनसुखदुखअंतरगतकी
किसआगेकहोजाय ह० १ अपनेसेवककुंसबचाहे तुम
कोरहेहोचुलाय जोकछुचुकपरीवहेहमपे तोदीजेबकसा
य २ ह. तुमहोसबलनिबलहमसामी जोरकछुनवसाय
सोइजांतकरोतुमसाहिब जोकछुआवेदाय ३ ह० एसो
कोणसंदेसोसिवपुर जोआवेपुहचाय गुनविलासश्रेयांस
सकृपाकरि लीजेपासबुलाय ४ ह० इति ॥

अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तवन ॥ रागसोरठतथासामेरी
॥ प्रभुजीतेरीपरतीतनजाणी मीनितिवीनतिकरि २था
को तुममनमेकछुनाणी १ प्र० औरअनेकविवेकरहित
जे मांसजखीमदपानी वीनुंविचारसंसारउद्वधित पार

उतारेप्रानी २ प्र० मेरीविरकहाजएसाहीब आजका

लकेदानी तारकविरुद्धराइजगतमें कोनसयनपठानी
 ३ प्र० श्रवतोतारोहीवनीश्रावे औरवातसवकानी गु
 नवीलासश्रीवासुपुजजी घोसीवपुरराजधानी ४ प्र०
 इति ॥ अथ श्रीविमलजिनपद ॥ राग जेजेव
 ती ॥ विमलविमलमल रहीतसकलकल अमलकमल
 दल समवपुवासकी १ वि० नयनविसालनाल पलक
 नहिलचाल अचरीजनाहीरूपाल लोकालोकनासकी
 २ वि० तेहकीनरेहजाके बलछनसूदेहताके समताको
 गेहेवाके नाहीवासआसकी ३ वि० सुरपतिआपआइ
 थुतिकरेगाइगाइ कहांलौवषानीजायसुगुनवीलासकी
 ४ वि० इति ॥ अथ श्रीअनंतजिनपद ॥ राग वसं
 त ॥ मेरेरिदयकमलफुल्योवसंत जवतेमेजाप्योजिन
 अनंत १ मे० जाकोजसपरिमलहंमहंत मेरोमनमधूक
 रतहारुणझुणंत २ मे० करुणाकरितारोजगजंत निज
 रसमेराचेसुद्धसंत ३ मे० सुखदरसनग्यानसुशक्तिवंत
 श्रीगुणविलाससिवरमाणिकंत ४ मे० इति ॥
 अथ श्रीधर्मजिनपद ॥ राग सारंग ॥ मनध्यानसदा
 जिनकोधरुं प्रितिप्रतीतिधरीचितअंदर इकतुहीतूहीक
 रं १ म० जगकेमुलनुलचेतनकी रागादीकअरिपरहरु
 रत्नत्रयगुणतीरमलकरके दुरगतिदुखमेंनापरु २ म० जि

(४९८) गुणविलासजीकृतः

नवरनामध्याननावाचढि अगमअतरभवजलतरुं गुण
विलासधर्मनाथकृपाकर सिवकमलाहेलावरु ३ म०
इति ॥ अथ श्रीशांतिजिनस्तवन ॥ राग ललि
त ॥ नविजनसेवोसांतिजिनंद कंचनवरनमनोहरमुर
ति दिपततेजदीनंद १ न० पंचमचक्रधरसोलमजिन
वर विश्वसेननृपकुलचंद्र २ न० नवदुखनजनजनम
नरंजन लंछनमृगसुखकंद ३ न० गुंनवीलासपदपंक
जनेदत पायोपरमानंद ४ न० इति ॥ अथ श्री
कुंथुनाथपद ॥ राग तोडी ॥ अबमेरिप्रभुसुंप्रितलगी
री घनसौमोरचकोरससिज्यौं कमलमधुपज्यौंपुष्टपगी
री १ अ० दीनकरकुंचकवीजीमचाहे त्वुंमेरेमनआंन
जगीरी गुंनवीलासप्रभुकुंथुजिनदेखत दीलकीदूविधा
दुरभगीरी २ अ० इति ॥ अथ श्रीअरनाथजिन
पद ॥ राग श्रीरग ॥ भजरेमेनअरचरणं नवजल
पतीतउधारननविको तरनीज्यौंतारनतरनं १ न० न
मितअमरगण सीसमुकुटमणीताकीदुतिअधीकीधरनं
विपतविदारकसंपतिकारक पुरवसांचितअधहरनं २ न०
इतीअनीतउदंगलवारक नीतनव २ मंगलकरनं गुणवी
लाससुरकिन्नरवंदीत नीतजनांअसरनसरनं ३ भ० इति ॥

अथ श्रीमल्लिजिनपद ॥ रागकनरो ॥ मेरेतुमहीहो

गुणविलासजीकृत. (४९९)

स्वामि ध्यावतहुवसुजामि १ मे० अन्यदेवजैहरिहरादि
 कं नहीतानिसाकछुकाप्र २ मे० तुमसुखसंपतीसाता
 दाता तुमहीहागुणग्राम ३ मे० गुणविलासमल्लिजि
 नाकिरपाकरी जियपावेविसराम ४ मे० इति॥

अथ श्रीमनीसुव्रतपद ॥ रागश्रीमनकल्याण ॥ सुन
 मारिस्वामीअंतरजामी जनमजनमतुमदासकहाउ १
 सु० अनदवकिसरननकरीही तुमचरणतीसेवाचितध
 राही श्रीमनिसुव्रततुमगुनगाउ २ सु० गुणविलासनि
 हेचकरिमानो साचोसवकअपनोजानो जोकहुसोवछि
 तफलपाउं ३ सु० इति ॥

अथ श्रीनिमिनाथ
 पद ॥ रागनट्टा ॥ होनमिजिनमैनीजरुपनजान्यो अ
 वीकलपीअजअजरअजलपी अचलअमलमनमान्यो
 १ हो० परंकोरुपसरुपनिहारत मनमैअतीहरपान्यो
 पुदगलसोसब्रदेखीपसारी ताहीमैचरमान्यो २ हो०
 नरचवपायअकारथस्वोयो बोयोबीजअजानो ग्यान
 द्रष्टिधरीरुपनजोयो सोयोनिदअथान्यो ३ हो० का
 लअनादिअविद्यासंगति निजपरचवनठान्यो गुनवि
 लासपरअबकीरपाकरी ज्योसुधपरतपीछान्यो ४ हो०
 इति ॥

अथ श्रीनेमनाथपद ॥ रागमारु ॥ ने
 मिमोहेअरततेरीहो तुमदरसणविनुचिहुगते सहीपीड

(५००) गुणविलासजीकृत.

घनेरीहो १ ने० करमत्ररीमीलीएकठे रास्योहुंवेरी
हो बहुविधनाचनचावीयो मनदुवीधाघेरीहो २ ने०
अनंतपरावर्तनकीयो जमतेनवफेरिहो गुनविलासजि
नसामीजी अबखबरलोमेरीहो ३ ने० इति ॥

अथ श्रीपार्श्वजिनपद ॥ रागकेदारो ॥ प्रभुमेरेकरिइ
सीवकसीस द्वार२नपरयोऽनटको नाउकीसहीनसी
स १ प्र० सुधआतमकलाप्रगटे घटेरागत्ररुरीस मो
हपाटकखुलेछीनमे रमेग्यानअधीस २ प्र० तुमअ
जाइवपाससाहिव जगपातजिगदिस गुणविलासकी
आसपुरो करोआपसरीस ३ प्र० इति ॥

अथ श्रीमहावीरस्वामीजिनपद ॥ रागजैतसीरी ॥
मनमेनीरमलजावगही सुरनरकिन्नरकोटी निसेवित
सोजिनसेउसहि १ म० अदभूतकांतीसांतीरसराजी
त वसुरससंगनही निरदूषणभूषणविनुभुषीत रवीछ
बीलाजतही २ म० जविजनतारकसासनजाको जा
नेसकलमही गुनवीलासमाहावीरकीमहीमा • कि
सपेजानकहि ३ म० इति ॥ रागधन्यासीरी ॥

इहिविधचौवीसेजिनगाए रिषजअजीतसंज्ञवअज्ञीनं
दंत सुमतीपदमप्रभुध्याए १३० सुपासचंद्रप्रभसुविधी
सतिलश्रेयांस वासपुज्यमनलाए वीमलअनंतधर्मसां

तीकुंथुअर मल्लिमुनिसुव्रतजाए २ इ० श्रीनमिनेमि
 पासवीरजी गुणकरिएकमिलाए तीज२तीरथकेसब
 करता सातेजिनकहाए ३ इ० संवतसत्तरसताएवेव
 रसे माघसुकलदुतिआए जेसलमेरनयरमेहरषे करि
 पुरनसुखपाए ४ इ० पाठकश्रीसिद्धिवर्धनसदगुरु जि
 हिविधिरागवताए गुणविलासपाठकतिहिविधसौ श्री
 जिनराजमल्हाए ५ इ० इति ॥ इति श्रीचौवीसजि
 नेश्वराणांपदानी समाप्तं ॥

अथ श्रीजावविजयजीकृत चौवीसी.

अथ श्रीरुषभदेवजिनगीत ॥ रागआशाउरी ॥ अवस
 रआजहइरे एदेशी ॥ सकलसमीहितपुरणसुरतरु इं
 द्राणीयेगायोरे तांजिनरेसरनंदनसुंदर मरुदेवीयेजा
 यो १ त्रिभुवनराजिओरे श्रीरिषजिणेसरराया सुर
 नरजससेवेप्राया जसलंछनदृषनसुहाया त्रि० आंत्र
 ली प्रथमरायमुनिवरजिरुयावर प्रथमकेवलीवंदारे
 अवसरपाणिमांहिप्रथमतिर्थकर एजिनवरचिरनंदो २
 त्रि० धनुषपंचसयमानमनोहर कंचनवरणीकायारे पु
 रंवलखचउरासीजिवित नयरीचिनीताराया ३ त्रि०
 वंशइक्षांगगोत्रकाश्यपनो आदिहेतुविस्मातारे नारि

(५०४)

जावविजयजीकृत-

कुंवरबहुली मंगलवेलिवधारे २ सु० कौचलंछनत्रण
संधनुउन्नत कायाकंचनसमवाने वंशइक्षांगदिवाकर
ध्यात्रो रागतिमिरसमवाने ३ सु० कोसलपुरनायकने
सेवे पायकपरिसुरवृंदा आयुपूरवलाखच्यालीसपाली
पाम्योपरमआनंदा ४ सु० शासनदेवीमहाकाली
जस सुरवरतुंवरुंनामे तेपंचमजिनथुणतोजावे जा
वपरमपदकामे ५ सु० इति ॥

अथ श्रीपदमप्रज्ञगीत ॥ रागरामगिरी ॥ चंद्रिकाचो
पडउंचितठरे एदेशी ॥ श्रीपदमप्रभप्रणमिये छठीजि
नवरचंदरे रिषनकुलकमलकलहंसलो सेवेसुरनरवृद
रे १ श्री० पुत्रवरधरधराधरतणो महाधरणिधरधीररे
कमललंछनसुसीमासुतो मुनिमनतरुकीररे २ श्री०
बालरविर्विवनेजीपतो जसत्रंगनोवानरे धनुषशतत्रढीय
उन्नतपणे जसदेहप्रधानरे ३ श्री० जीवितजेहजिन
जीतणे त्रीसपूरवलाखरे नयरीकोसंबीनोनयवरु नमुं
निजमनसाखरे ४ श्री० कुसुमसुरदेवीश्यामात्रिधा से
वेशाशनजासरे जावमनकमलमांहिसदा करोतेप्रभुवा
सरे ६ श्री० इति ॥ अथ श्रीसुपार्श्वजिनगीत ॥

राममालवीगोडत्रो ॥ मेरेमनतुंअजिनंदनदेव एदेशी ॥

रमोमनश्रीसुपासनेपासे स्वस्तिकलंछनसातमोजिनव

रं सुरवरदंडउपासे १३ र० वाणारसीनयरीयेउदयो
 जिमदितकरश्राकासे पडठनरेसरपुहवीनंदन दीपेजा
 नप्रकासे २ र० जसतनुकांतिकनकमदुगाले नविय
 णकमलविकासे रिपनवंशरयणाधरसुरमणि सेवंतादु
 खनासे ३ र० धनुपदोयशततुंगअंगजस देखतदुरित
 पणासे वीसपूरवलाखआयुजोगवी पुहतोशिवपुरवासे
 ४ र० मातंगसुरवरशांतादेवी शासनसुरजसजासे च
 रणकमलतसंअनुदिनध्याये जावमुनीडल्लासे ५ र०
 इति ॥ अथ श्रीचंद्रप्रभजिनगीत ॥ रांग मा
 लवीगोडश्रो ॥ तुहनेप्रभुतारककिमकहींये एदेशी ॥
 श्रीचंद्रप्रजप्रजुजयकारी आठमोजिनवरपरउपगारी
 जेणकरमतणोजयवारी नविकंश्रेणिनवपारउतारी १
 श्री० महसेननरपतिपुत्रसुजातो मातलक्ष्मणानोअंग
 जातोकरेमोहसेनानोंघातो दयावंततोहेविख्यातो २
 श्री० चंद्राननापुरीपतिराजे चंद्रानिनचंद्रलंछनछाजे त
 नुवानेजससधरलाजे रिपनवंशरविजावठनाजे ३
 श्री० पंचासाधिकशतधनुतुंग निरुपमरुपरुचिरज
 सअंग आयूपूरवदसलाखसुचंग जोगवीजेपाम्प्रोशिव
 संग ४ श्री० भृकुटिदेवीविजयवरदेवा शासनसुरजस
 सारेसेवा जाविकहेमुझहोज्योहेवा तोजिनजीनीआणव

(५१०)

जावविजयजीकृतः

अथ श्रीशांतिनाथगीत ॥ रागसामेरी ॥ वीरातेरीगति
पुनइं एदेशी ॥ शांतिप्रभुसोहेपरमदयाला सोलसमो
जिनपंचमचक्री गुणगावेसुरबाला १ शां० वंशइक्षांग
सदनवरदीपक तेजतपेत्रसराला देहतणेवानेकरीजीपे
जाचीचंपकमाला २ शां० विश्वसेननरवरकुलमंडण
खंडेमोहजंजाला अचिरानोनंदनचिरप्रतपो सचराचर
प्रतिपाला ३ शां० च्यालीसधनुषमानतनुराजे हथिणा
उरभूपाला जीवितलाखवरसजससुंदर मृगलंछनसुकु
माला ४ शां० गरुडयक्षनिरवाणीदेवी सेवितचरणमयाला
जावमुनिजिननेसेवंतो पामेलछिविशाला ५ शां० इति ॥
अथ श्रीकुंथुनाथजिनगीत ॥ रागकाफी ॥ सेवोजावे
श्रीकुंथुजिणेसरसामी रिषजवंशभूषणगतदूषण नित
प्रणमुंसिरनामी १ से० निजतेजेजितसूरसूरनृप अंग
जसुरगजगामी नंदनश्रीनंदनजिणेजेणे जीव्योकामह
रामी २ से० अजलंछनगजपुरनोनायक त्रिभुवनवनत्रा
रामी देहतणेवानेकरिजीती अनिरामी अनिरामी ३ से०
अंगतुंगपणतीसधनुषजस देखतदुरमतिवामी वरसस
हसपंचाणूंजीवित जोगवीशिवगतीगामी ४ से० सुर
गंधर्वअच्युतादेवी जिससेवेजसकामी सत्तरमोजिनसत्त
मनमतां जावेशुजमतिपामी ५ से० इति ॥

अथ श्रीअरनाथगीत रागकाफी ॥ प्रभुनेकतजरिकरि
जोइये एदेशी ॥ श्रीअरजिनवरजगदीसरु प्रभुकोप
दावानलमेहरे ॥ नंदावर्त्तसुलंछनशोभित गुणमणिमंडि
तदेहरे १ श्री० रायसुदर्शनकुयरु मुद्गदरिसणद्योगु
णवतरे २ देवीनंदनरुपनिहाली देवीपणमोहंतरे ३
श्री० रिपन्नवंशमजयात्रले प्रचुवंदतवृक्षसमानरे ४ कम
लगभ्यपरिगोरसगौरव त्रीसधनुषतनुमानरे ५ श्री०
दाखेदेवअठारमो शीलांगसहस्रअठाररे वरससहसच
उरासीजीवित हथिणाउरअवताररे ६ श्री० सुरजखिं
दोधारिणी देवीसेवेजसेपायरे ७ प्रावकहेतेजिनवरनामे
मंगलमालाथायरे ८ श्री० इति ॥ अथ श्रीम
ल्लिनाथगीत ॥ रागनट ॥ महावीरमेरोलालन एदेशी ॥
श्रीमल्लिजिणेसरउपगारी १ अगणीसमोतिथेकरसोहे
जनमथेकीजेन्नह्यचारी २ श्री० मिथिलानयरीकुंचनरे
सर प्रावतीतसवरनारी तसकुखेअवतारहुअजसस
पलजंतुदुखअपहारी ३ श्री० अंगनेरंगेगंधतरंगे
निलकमलवनजयकारी पंचवीसधनुउन्नतनिरुपम रूप
विराजिततनुंधारी ४ श्री० सहसपंचावनवरससुजी
वित वंशइक्षांगअवतारी ५ कुवरसुरवैरोटयादेवी ज
ससेवासारेसारी ६ श्री० लंछनरुपेजेहनेसेवे का

(५१२)

जावविजयजीकृतः

मकुंजशुचनुसारी भावकहेसेवकनेतेजिन कर
ज्योशिवसुखअधिकारी ५ श्री० इति ॥
अथ श्रीमुनिसुव्रतगीत ॥ रागदेवगंधार मेरेमनअइ
सीआयवनी एदेशी ॥ श्रीमुनिसुव्रतनाथगुणी श्रीह
रिवंशमहेसरमस्तक मंडनरयणीमणि १ श्री० त्रिजु
वनमित्रसुमित्ररायसुत कामितदेवमणि पदमाराणीपु
त्रतणागुण गायेसुररमणी २ श्री० वीसधनुषमानेजसका
या नवजलधरवरणी कछछपलंछनकछछपनीपरे गो
पितकरणमुणी २ श्री० राजगृहनोराजाराजे गौतम
गोत्रमणि त्रीससहससंवच्छरजीवीत जविककमलत
रणि ४ श्री० वरुणयक्षनरदत्तादेवी सेवेजगतिभणी जाव
कहेवीसमोजिनेसर आपेलछछीघणी ५ श्री० इति ॥
अथ श्रीनमिनाथगीत ॥ राग गोडी ॥ मनमोहनप्या
रेनेमजी एदेशी ॥ नमीनाथनमुंएकवीसमो जिनवर
जोडीदोयहाथरे इक्षांगवंशचूडामणी प्रभुमुगतिपुरी
नोसाथरे १ न० नंदनवरविजयनरिंदनो मोहारिविज
यवरकाररे निलुपललंछनमनोहरु मातवप्रादेवीम
ल्हाररे २ न० मिथिलानयरीनोराजीओ पन्नरधनुउन्न
तअंगरे निजतनुवानेकरीजीपतो चंपकनांफुलसूरंगरे
३ न० सूररायभ्रकुटिअतिदीपतो गंधारीदेवीउदाररे

जसचरणकमलसेवेसदा मनश्राणीजगतीश्रपाररे ॥ ४
 न० दससहस्ररसनुश्राउखु पालीपाम्यापदनिरवाणरे
 मुनिजावभणतेजिनवरु मुझनेद्योकेवलताणरे ५ न०
 इति ॥ अथ श्रीनेमिनाथजिनस्तवन ॥ रागगोडी ॥
 नेमिसरवीनतीमानीयेयुं एदेशी ॥ नेमिसरजिनवावी
 समोजी विसमोमुजमनमांहि वाल्होजीवतपांहि ने०
 श्रांचली ॥ श्रीहरिवंशमेरुगिरिमंडन नंदनवनयदुवंश
 तिहांजेजिनवरसुरतरुउदयो सुरतररचितप्रशंस १ ने०
 समुद्रविजयनृपसिवादेवीसुत सोरीपुरश्रवतार अंगतुं
 गदसधनुपमनोहर श्रंजनवरणउदार २ ने० एकसह
 ससंवच्छरजीवित लंछनशंखसुहाय सुरगोमेधश्रंवि
 कदिवी सेवतिजसनितपाय ३ ने० केशवनोवलमद
 जेणेगाल्यो जिमहिमगालेजाण जेणेप्रतिबोधीजवि
 श्रणकोडि मोडीमिनमथवाण ४ ने० राजीमतिमनक
 मलदिवाकर करुणारसचृंगार तेजिनजीमनवंछितदे
 यो जावकहेश्रणगार ५ ने० इति ॥
 अथ श्रीपार्श्वनाथजिनस्तवन ॥ राग धन्यासी ॥ हीर
 गुरुतुमतोयाजलिकीनी एदेशी ॥ पासजिनसेवकजन
 साधारे त्रेवीसमोप्रभुपुरुपादान्ती जवसांयरउतारे १

पा० अश्वसेननृपवामादेवी कुंवरकुलसिणगारे वंशइ

(५१४) भावविजयजीकृत.

क्षांगउदयगिरिदिनकर अवगुणतिमिरनिकारे २ पा०
नीलवरणनवकरउन्नततनु फणधरलंछनधारे एकसो
वरससुजीवितपाली मुगतिनयरिपाउंधारे ३ पा०
वाणारसीनयरीएजनम्यो जनममरणत्रयवारे पासय
क्षपदमावतीदेवी जेहनीसेवासारे ४ पा० कमठदर्पदा
वानलजलधर मंगलवेलिवधारे सेवकभावमयूरत्र
णीप्रभु नेकनजरअवधारे ५ पा० इति ॥

अथ श्रीमहावीरजिनस्तवत ॥ राग धन्यासीमेवाडो ॥
आजरहोरेजिनिचलेजिनिचले एदेशी ॥ वर्द्धमानप्रभुवं
दीये चोवीसमोजिनराज चविजन क्षत्रियकुंडेअवत
रयो आपेत्रिभुवनराज न० १ व० वंशइक्षांगसरोवरे
जेप्रभुहंससमान न० कनककमलनेजीपतो जेहतणो
तनुवान न० २ सुतसिधारथरायनो त्रिसलाजातप्र
धान न० वरसबहोत्तरआउखूं सातहाथतनुमान न०
३ वर्त्तमानशासनतणो नायकअकलअबीह न० लंछ
नमिसिसेवेसदा जससत्वेजीत्योसीह ४ न० मातंगय
क्षसिद्धायिका नितुंसेवेजसपाय न० महावीरजिनराय
ना भावविजयगुणगाय ५ न० इति ॥ इतिभाववि
जयजीकृत चोवीशी संपूर्ण ॥

अथ श्रीश्राणंदवरधनजीकृत चोवीसीः
 अथ श्रीरुपज्ञजिनज्ञास ॥ श्रीजिनवाणिमयाकरो ए
 देशी ॥ आदिजिणंदमयाकरु जागोतुम्हस्युनेहारे
 दिनरयणीदिलमेंवसे ज्युंचातुकचितमेहारे १ वलिजा
 उवातसुणोमेरी मरुदेवीकेलालना मूरतिनवलसुहा
 नीरे अंखीयातंपतिबूझावही ज्युंप्यासेकुंपात्रीरे २ व०
 तुम्हसाहिवहमदासहे अवकछुकरहोदिलासारे श्रातं
 दवरधनकेप्रभु हमहेतुझारीआसारे ३ व० इति ॥
 अथ श्रीअजितजिनगीत ॥ चलनदेशुंपानी एदेशी ॥
 अजितसयानेसजनीअजितसयाने त्रिनुवन्ननायकस
 जनीमोमनमाने स० १ वदनसलूणोसजनीनयतरसी
 ले वचनअमृतरसलागतसीले स० २ नगतवछछलनी
 केत्रिभुवनस्वामी जीधकेजीवनमेरेअंतरयामी स०
 ३ वलिवलिजाउसजनीप्रभुगुणगाउ श्राणंदवर
 धनकहेदरिसनपाउं स० ४ ॥ इति ॥
 अथ श्रीसंचवजिनज्ञास ॥ जीहोअवधिप्रयुजानि ए
 ढाल रागमल्हार ॥ जीहोसुंदरनामसोहामणो सखि
 संचवनाथजिणंद जीहोअंगेउलटअतिघणो सखिसुं
 णतांहुएश्राणंद १ वाल्हेसरमुजरोछेजिनराय आंकणी
 जीहोसहिजेसीतलचंदलो मीठोअमीयरसाल जीहो

(५१८) आणंदवरधनजीकृत.

अमृतपूर विंमनोहरविमलकलानिलो शीतलवानस
नूर २ व० मुखडुंजोतांप्रभुपोतेमिले जोइजाणेजेह
आणंदवरधनप्रेमपटंतरो सहीसुधारेतेह ३ व० इति॥
अथ श्रीसुविधिजिनजास ॥ मोरासाहिवहोश्रीसीतल
नाथके एदेशी ॥ रागमल्हार ॥ मनमान्योहेसखीसुव
धिजिणंदके मिलवामुझअलजोधणो सुपनंतरेहेसखी
कीजेसेवके परतक्षपिणरलीयामणो १ म० अतिझाझी
हेसखीमननीवातके एकवचनमांकिमकडूं गयणंगणेहे
सखीताराकोडिके मुंठिमांकहोकिमग्रहुं २ म० मोरेम
नडेहेसखीएहसनेहके रातदिवसरमतोरहुं कहेआणं
दहेसखीचगतप्रमाणके जावेतिमकोईकडूं ३ म० इति ॥
अथ श्रीशीतलजिनगीत ॥ रागकाफी मुरि२झरमहि
षेलुंगी एदेशी ॥ अबप्रभुसुंदतनीकडूं नीकेअपनेदि
लकीबातहो अ० मेरेप्रभुजीदुसमनकरमलगेरहे मेरी
गेलनछोडेआठहो आठूकेजूदेमते मोहिघेररहेजडका
ठहो १ अ० तुमसुंमिलणनदेतहे मेरेपूरवकरमविला
सहो दुतीयांसबलागतफीकी ताथेजीउरारहतउदा
सहो २ अ० तुमहीतेसुखपाइये तुम्हसमरथसीतल
नाथहो आणंदसुकरुणाकरो निकेआइमिलेंप्रनुसाथहो
३ अ० इति ॥ अथ श्रीश्रेयांसजिनगीत ॥ राग

केदारो कुमरपुरंदसाहसी एदेशी सहेरबडासंसारका द
 रवाजेजसुच्यार रंगीलेआतमा चौरासीलक्षघरवसे अ
 तिमोटेविस्तार १ रं० घरघरमेंनाटिकबने मोहनचाव
 नहार २ रं० वेसबनेकेइजांतके देखतदेखनहार २ रं०
 चउदराजकेचउकमें नाटिकविविधप्रकार रं० जमरीदेई
 करतततूथेई फिरि२एअधिकार ३ रं० नाचतनाचअत्ता
 दिको हुंहारचोनिरधार रं० श्रीश्रेयांसकृपाकरो आणं
 दकेआधार ४ रं० इति ॥ अथ श्रीवासुपूज्य

गीत ॥ ढाल वीछीयानी ॥ हारेसखीसाचविनाकिमपाइ
 ए साचेसाहिवसंप्रीतिरे सखीझूठेकुंसाचाकिउंमिले झू
 ठेकीक्यापरतीतिरे १ स० हारेसखीसाचेमेंसाहिवमि
 ले झूठेकोनांहीकोयरे सखीचामकेदामबलाईये जोनी
 तरीसाचाहोयरे २ स० हारेसखीमुखमीठेकिसकामके
 भीतरिकेसाचेसाचरे साचेरंगनपालटेसाहिवकुंप्यारेसा
 चरे ३ स० साचेदिलसुसेवयि श्रीवासुपूज्यजिनरायरे
 मेरेअंतरयामीजिनके आणंदवरधनगुणगायरे ४ स० इति
 अथ श्रीविमलनाथगीत ॥ वीरेवखाणीराणीचेलणाजी ए
 देशी ॥ विमलकमलदलआंखडीजी मनोहररातडीरे
 ह पूतलडीमधरमितारिकाजी शामलीहसितससनेह

१ वि० इंद्रतणांमनरंजतीजी ललकलेतीसुकमाल अ

(५२२)

आणंदवरधनजीकृत.

मानुमुगतिरमणिसिरटिकोहो मनरंगमचे मनमोहन
मुखजिनजीको अहोकुंथुजिनेसरनीकोहो १ म० मन
मूरखकयुंनपतीजे दिनरतनयोवनछीजेहो म० पलप
लदिलनीतरलीजे प्रभुस्युंरगरलीयांकीजेहो २ म०
श्रीनंदनप्रभुप्रहिचान्यो तवहीतेमोमनमान्योहो म०
आणंदनरिप्रभुगुणगाया मोरासोवतवखतजगायाहो
३ म० इति ॥ अथ श्रीअरनाथगीत ॥

देशीअलवेलानी ॥ अरजसुणोअरनाथजरिलाल देवी
नंदनदेव जाउंवारीरे चाहधरीचितमेंखरीरेलाल सेव
करुनितमेव १ जा० मोटेप्रभुकीचाकरीरेलाल मोटेअ
वसरकाज जा० सागतवालकवाउरोरेलाल दीजेअवि
चलराज २ जा० लागतकोमलमीठरोरेलाल काचेव
चनअमोल जा० मातातनमनउलसेरेलाल सुनिबा
लककेवाल ३ जा० महिरकरोमनमेंधरीरेलाल
राखोमोहिहजूर जा० आणंदकेप्रभुमानीयेरेलाल
आतमरामसनूर ४ जा० ॥ इति ॥

अथ श्रीमल्लिनाथ गीत ॥ रागगोडी ॥ मोहनमेहेल
वनाय मूरतिकनकरचीरी उछववरनीनजाय योवनरु
पमचीरी १ पूरवभवकेमीत आणुहराजारी हयवर

गयवरकोड पायकरथताजारी २ मोहनमूरतिसंग प्र

तिबूझेनृपतीरी पूरवन्नवकीप्रीति तपसंघातयतीरी ३
मल्लीमहीरीरूप त्रिभुवननाथभईरी अजवकरमकरिख
अंतुलगेतिबहिरी ४ उलसतअंगोअंग प्रचुजकोना
मलीयेरी आनंदवदनसुरंग मनकुंमगनकीयेरी ५ ॥
इति ॥ अथ श्रीमुनिसुव्रत गीत ॥ रागजेतसिरी
देशीपारधीयानी ॥ सुणिपंजरकेपंखीयारे करिमीठेप
रिणामरे पंखीयडा तूहेतोरैरंगकारे जपहुजितेश्वरनाम
रे १ पं० मेरेजीउकासूडा नकिरंगकारुडा एतोबोलारे
बोलोप्रचुकेप्यारसुरे खेलोकरि एकताररे २ पं० उडत
फिरतअनादिकारे नमिटेभुखनेप्यासरे च्यारदिनका
खेलनारे यापंजरकेवासरे ३ पं० इतउतचंचनलाईये
रे रहीयेसहजसुभायरे मुनिसुव्रतप्रभुध्याइयेरे आणंद
सुंचितलायरे ४ पं० इति ॥ अथ श्रीन
मिताथगीत ॥ रागमारु ॥ मोरुंमनलारेगुंविप्रानंद
शुरे देखाउंतोदूखडांजायरे जवरकेरीतपतिनिवारिये
रे सुखअनंतांथायरे १ मो० वनअतिमोटुरेअटविदो
हिलीरे चौरासीलाखखाणरे भुलाजमतांपारनपामी
येरे मोहेतेछायामेराप्राणरे २ मो० मारगादिखालोरेप्रचु
मिलवातणारे दिआदरिशाणमहाराजरे जगतउधारारे
आणंदआपणारे नमिजिनसारोमोरांकाजरे ३ मो० इति ॥

(५२४) आणंदवरधनजीकृत.

अथ श्रीनेमनाथगीत ॥ रागधन्यासी ॥ डोलिमगुज
री एदेशी ॥ योवनपाहुनाजातनलागतवार यो० चं
चलयोवनथिरनहीरे ज्यांन्योनेमिजिनां १ यो० नींद
नकीजेजागीयेरे अंतसहीमरना बालसंघातीआपणा
देखोकिहांगयोवालपनां २ यो० नवलवेसनवयोवन
पणारे नवल२रचना अलपन्नरमकेकारणे लेखोकीज
तफेलघणां ३ यो० दुनीयांरंगपतंगसीरे वादलसेस
जनां एसंसारअसारहिरे जागतकोसुपनां ४ यो०
तोरनहितेफिरिचलेरे समुद्रविजयनंदनां आणंदकेप्र
चुनेमजीं मेरीघरी२वंदनां ५ यो० इति ॥

अथ श्रीपार्श्वजिनगीत ॥ रागकाफी ॥ प्रचुनरगपडं
तांराखीये एदेशी ॥ मेरेजीयमेंलागीआसकी हूंतोप
लकनछोडुंपासरे ज्युंजानोत्युंराखीये तेरेचरणकाहुदा
सरे १ मे० क्युंकहोकोइलोकदिवाने मेरेदिलेएकता
ररे मेरीअंतरगतितुंहीजानत औरनजाणणहाररे २
मे० मेहेरतुमारीचाहिए मेरेतुम्हीसाथसनेहेरे आणंद
केप्रचुपासमतोहर अरजअम्हारीएहरे ३ मे० इति ॥

अथ श्रीवीरजिनगीत ॥ श्रीमंधरकरोमया एदेशी ॥
तुंमनमान्योरेवीरजीं त्रिसलानंदनदेव जव२साहिबतुं

हज्यो हुंतुजसारुरेसेव १तुं० वयणसंजारुरेताहरां वा

धेधरमसनेह हैडेकूपलपालवे प्रफुलितथायरेदेह २
 तू० जोतुझवचनेरेचालीये तोहुयेरुडीरीत सुखअनंतां
 पामीये कीजितुम्हस्युंजोप्रीत ३ तू० आदितकुलगिर
 चंद्रमा संवतखरतरवाण चउवीसेजिनवीनव्यां आतम
 हितमनआण ४ तू० जिनवर्धमानमयाकरो चउवीस
 मांजिनराय महिमासागरवीनती आणंदवर्धनगुणगा
 य ५ तू० इति ॥ इतिआणंदवर्धनकृतचतुरविंशति
 तीर्थकरजिनराजस्तवनसंपूर्ण ॥

अथ श्रीउदयरत्नजी कृत चोवीशी

अथ श्रीरूपज्ञजिनगीत ॥ चारवाररेवीठलवंशमुनेतो न
 गमेरे एदेशी ॥ मरुदेवीनोतंदमाहरो स्वामिसाचोरे
 सिधवधुनीचाहधरोतो एहनेयाचोरे म० १ केवलकाच
 नाकुंपाजेइवो पिंडकाचोरे सत्यसरुपीसाहिवोएहने रं
 गेराचोरे म० २ यमराजानामुखडाउपर देइतमाचोरे
 अमरथईउदयरत्नप्रभूस्युं मिलीमाचोरे म० ३ इति ॥
 अथ श्रीअजितजिनगीत ॥ विपयनेविसारीविजया नं
 दवंदोरे आनंदपदनोएअधिकारी सुखनोकंदोरे वि०
 १ नामलेतांजेनिश्रयफेडे चवनोफंदोरे जनममरणज
 रानेटालि दुखनोदंदोरे वि० २ जगजिविनजेजगजय

कारी जगतीचंदोरे उदयरत्नप्रभूपरउपगारी परमानं
दोरे वि० ३ इति ॥ अथ श्रीसंज्ञवजिनगीत ॥ दीनद
याकरदेवसंज्ञव नाथदीठोरे साकरनेसुधाथकीपण ला
गेमीठोरे १ दी० क्रोधरह्योचंडालनीपरे दूरधीठोरे
अज्ञानरुपअंधकारनोहवे वेगनीठोरे २ दी० जली
परेजगवंतमुने जगतेतूठोरे उदयकहेमाहरत्राज
दूधे महवूठोरे ३ दी० इति ॥

अथ श्रीअग्निनंदनजिनगीत ॥ सिद्धारथानासुतनाषे
मे पायपूजोरे दुनीयामांहिएहसरिखो देवनदूजोरे १
सि० मोहरायनीफोजदेखी कांतुंमेधूजोरे अग्निनंदने
उठेरहीने जोरेझूझोरे २ सि० सरणागतनोएअधिकारि
बूझोबूझोरे उदयप्रभुस्युंमलीमननी करीयेगुजोरे ३
सि० इति ॥

अथ श्रीसुमतिजिनगीत ॥ सुमति
कारीसुमतिवारु सुमतिसेवोरे कुमतिनूजेमूलकापे दे
वदेवोरे सु० १ जवजंजीरनाबंधदेजागी देखतांखेवोरे
दरसनतेहनंदेखवामुहने लागीटेवोरे सु० २ कोडिसुं
मंगलकारीसुमंगला सुतएहवोरे उदयप्रभुएमुजरोमा
हरो मानीलेवोरे सु० ३ इति ॥

अथ श्रीपद्मप्र
भुगीत ॥ लालजासूनाफूलसोवारु वानदेहनोरे १ चुव
नमोहनपद्मप्रभू नामजेहनोरे १ ला० बोधबीजवधा

रवाजेमः गुणमेहनोरे मनवचनकायाकरीहुं दासतेह
 नोरे २ ला० चंद्रप्रकोरपरतुजनेचाहूं वंध्योनेहनोरे
 उदयकहेप्रभुतुंविणनही आधिनकेहनोरे लां. ३ इति॥
 अथ श्रीसुपासजिनगीतः ॥ सुपासजीताहरुंमुखडुंजा
 तां रंगजीनोरे जाणेपंकजनीपांखडीउपर जमरलीनोरे
 सु० १ हेतधरीमिताहरेहाथे दिल्लदीनोरे मनडामांहिआ
 वतुंमोहन मेहेलीकीनोरे सु० २ देववीजोहुंकोइन
 देखु तुजसमीनोरे उदयरत्नकहेमुजप्रभूएछे नगीनोरे
 सु० ३ इति ॥ अथ श्रीचंद्रप्रभुगीतः ॥
 चंद्रप्रभुनामुखनीसोहे कांतिसारीरे कोडिचंद्रमाना
 खूवारी हुंवालिहारीरे चं० १ स्वैतरजतसीज्योति
 विराजे तननीताहरीरे आसकथइतेउपरजमे आंखडी
 माहरीरे चं० २ चावधरीतुजनेनेटेजे नरनारीरे उदय
 रत्नप्रभुपारउतारे जवजलतारीरे चं० ३ इति ॥
 अथ श्रीसुविधिजिनगीतः सुविधिसाहिवसुमन्नमाहरु
 थयुंमगन्नरे जिहांजोउतिहांतुजनेदेखू लागीलगनरे
 सु० १ मनडामांजिममोरइछे गाजेगगनरे चितडामां
 जिमकोइलचाहे मासफगन्नरे सु० २ एहवीतुजस्युंआ
 सकीमुन्ने चरुडगनरे जोरजसफोजतोतू एकठगनरे
 पंचइंद्ररुपश्चुनोजे करीयनगनरे उदयरत्नप्रभुमिलीते

(५२८) उदयरत्नजीकृतः

सु खायसोगनरे सु० ४ इति ॥ अथ श्रीशीतल
जिनगीत ॥ शीतल२नाथसेवो गर्वगालीरे नवदावान
लज्जवने मेघमालीरे १ शी० आश्रवरुधीएकबुधि
आसनवालीरे ध्यानएहनंमनसांधरो लेइतालीरे २
शी० कामनेबालीक्रोधनेटाली रागनेराली उदयप्रभूनं
ध्यानधरतां नितदीवालीरे शी० ३ इति ॥

अथ श्रीश्रेयांसजिनगीत मूरतिजोतांश्रेयांसनीमाहरुं
मनडुंमोह्युरे चावेनेटतांनवनादुखनुंखांपणखोयुरे मू
१ नाथजीमाहरीतेहनीनिजरे साहमुंजोयुरे महिरलहि
माहाराजनीमेंतो पापधोयुरे मू. २ सुद्वसमकितरुपशिवनूं
बीजबोह्युरे उदयरत्नप्रचुपामतांजाग्य अधिकसोह्युरे
मू. ३ इति ॥ अथ श्रीवासुपूज्यजिनगीत ॥ जू० २ रेजयानंद
जोतांहर्षथयोरै सूरगुरुपणपारनपांमे नजायकह्योरै जू.
१ नवअटवीमांनमतांबहुकालगयोरै कोइपुण्यकलोल
थीअवसरमें आजलह्योरै जू० २ श्रीवासुपूज्यनेवांदतां
सयलो दुखदह्योरै उदयरत्नप्रभुअंगीकरीने बांहियह्यो
रे जू० ३ इति ॥ अथ श्रीवीमलजिनगीत ॥ वि

मलताहरुरूपजोतां रठिलागीरे दुखडागयावीसरनि
भूखडीजागीरे वि० १ कुमतीमाहरीकेडतजी सुमतीजा
गीरे क्रोधमानमायालोने सीखमागीरे वि० २ पंचवि

पयविकारनोहवे थयोत्यागीरे उदयरत्नकहेआजथी
हुतोताहशेरागीरे वि० ३ इति अथ श्रीअनंत
जिनगीति ॥ अनंतताहरामुखडाउपर वारीजाउरे मु
गतनीमोनेमोजदीजे गुणगाउरे अ० १ एकरसोहुंत
लसुतुहने ध्यानध्याउरे तुजमिलवानेकारणताहरो दा
सथाउरे अ० २ नजनताहरोनवनवे चित्तमांचाहुरे
उदयरत्नप्रभूजोमिलेतो छेहडोसाहूरे अ० ३ इति ॥
अथ श्रीधर्मनाथगीति ॥ वारुरेवाहलोवारुतुतो मेदि
लवाहीरे मुजनेमोहलगाडयोपोते वेपरवाहीरे वा०
१ हवेहूहठलेइवेठो चरणसाहीरे केइपरेमेलावस्यो
कहोने घोवताइरे वा० २ कोडगमेजोतुजस्युंकरुं ग
हिलाइरे तोपणतुप्रभुधर्मधारि ल्याोनिरवहीरे वा० तुं
ताहराअधिकारसाहमुं जोनेचाहिरे उदयप्रचुगुनहीन
नेतारतां छेवडाइरे वा० ४ इति ॥ अथ श्रीशांति
नाथगीति ॥ पोसहमांपारेवडोरारुयो सरणजेइरे तन
साटेजीवाडयोअभय दानदेइरे पो० १ अनाथजिवनो
नाथकहावे गुणनोगेहीरे तोमुजनेप्रचुतारताकहो
एवातकेहिरे पो० २ गरिवनिवाजतुगरुआसाहिव
शांतिसनेहीरे उदयरत्नप्रभुतुजसुंवांधी प्रीतअछेही
रे पो० ३ इति ॥ अथ श्रीकुंथुनाथगीति ॥

(५३०) उदयरत्नजीकृतः

वाइ२रेअमरीवीणवाजे मृदंगरणकेरे ठमकठमक
पायोविछुवाठमके नेरीनेनणकेरे घम२घुघरी
घमकी झांझरीझमकीरे नृत्यकरतीदेवंगनाजाणे दाम
नीदमकीरे वा० दौदौकिंदौदुंदनिवाजे चूडीखलकेरे
फूदडीलितांफूमतीफरके झालझलकेरे वा० २ कुंथुआ
गेइमनाचनाच चालनेचमकेरे उदयप्रभुबोधवीजआ
पे ढोलनेढमकेरे वा० ३ इति ॥ अथ श्रीअर

नाथगीत ॥ अरनाथताहरीआंखडीयेमुझ कामणकी
धारे एकलेहेजामांमनडुंमाहरुं हरिलीधारे अ० १ तु
झनयणेवयणेमाहरे अमृतपीधारे जन्मजरानोजारे
जागो काजसीधारे अ० २ दुरगतनासरवेदुखनोहवे
दुवारदीधारे उदयरत्नप्रभुसिवपंथनोए संबलसीधारे
अ० ३ इति ॥ अथ श्रीमल्लिनाथगीत ॥ तुझ

सरीखोप्रभुतुजदीसे जोतांघरमारे अवरदेवकुणएहवो
वलियो हरीहरमारे तु० १ ताहराअंगनोलटको
मटको नारीनरमारे महीमंडलमांकोइनावे माहराहर
मारे तु० २ मल्लिजिनआविनेमाहरा मनमंदिरमारे
उदयरत्नप्रभुआविवसो तुंनिजरमारे तु० ३ इति ॥

अथ श्रीमुनीसुव्रतगीत ॥ मुनिसुव्रतमाहराजमाहरा
मन्ननोवासारे आसादासीकरीनेथयो तूंउदासीरे मु० १

मुंगतिविलासीतुं अविनासी चवनीफांसीरे चञ्जनिचग
वतथयोतं सहजविलासीरे मु० २ चौदराजप्रमाणलाका
लोकप्रकासीरे उदयरत्नप्रभुअंतरजामि जोतीविका
सीरे मु० ३ इति ॥ अथ श्रीनमिनाथगीत ॥
नमिनिरंजननाथनिर्मल धरुध्यानरे सुंदरजेहनोरुप
सोहे सोवतवानेरे न० १ वेणताहराहुंसुणवारसीयो
एकतानेरे नेणमाहरारहाछितरसी निरखवानेरे न० २
एकपलकजोरहसपामुं कोइकथानेरे हुंतूअंतरमह
लीमलुं अनेदग्यानरे न० ३ आठपहुरहुतुजआराधु
गावुंगांनेरे उदयरत्नप्रभुनिहालकजि बोधदानेरे न०
४ इति ॥ अथ श्रीनेमनाथगीत ॥ बालररे
प्रीतमतुंमुजस्युं मेहेलआंठारे पगलेरपडिमुजने
प्रेमनोकांठारे बो० १ राजेमतीकहेछोडछबीला मन
नोगांठारे जिहांगांठातिहारसनहीजिम सेलडीसांठा
रे बो० २ नवचवनीमुहनेआपनेनेमजी नेहनोआंठारे
धोयोकिमधोवायजादवजी प्रतिनोछांठारे बो० ३ नेमरा
जुलवेमुंगतिपोहता विरहनाठारे उदयरत्नकहेआपने
स्वामी चवनोकांठारे बो० ४ इति ॥ अथ श्री
पार्श्वनाथगीत ॥ चालररेकुमरताहरी चालगमरे तुज
दीठडाविणामीठडामाहरा प्राणचमरे चा० १ खोलामां

(५३४) जिनराजसूरीजीकृतः

त जोकिमहाथहलावस्यो वि० ३ वि० वाहि छठो
हाथ साथचलाउसोअछे वि० वि० सुणिलोकांनीवात
पछतावेपडस्योपछे वि० ४ वि० पहुंचिसाहिवसीम
विणंजकरोमनमोकले वि० वि० पूठिरखोजिनराज
अरियणमूलनकोकले वि० ५ वि० इति ॥

अथ श्रीअचिनंदनजिनगीत ॥ ढाल ॥ चांदलीओउ
ग्योहिरिणीआथमी ॥ एहनी ॥ बेकरजोडीवीनवुरे
अचिनंदनअवधाररे दयालराय अंतरयामीमाहरोरे
आवागमननिवाररे द० १ वे० आगमवचनेआकरोरे
सांजलिकरमविपाकरे द० हुंसरणागतताहरोरे सरणे
आयोताकरे द० २ वे० मीटअमीणीजोकरेरे तोजा
जेनवचीडरे द० परमेसरपीहरपखरे कुणजाणेपरपी
डरे द० ३ वे० थेउपगारिसिरसेहरोरे जयजंजणभग
वंतरे द० अरियणतोहिजत्रौहटेरे जोपखोकरेवलवंत
रे द० ४ वे० हुंअपराधीसउपरेरे सहिरकरोमहाराज
रे द० मेघनजोवेवरसतारे समविषमीजिनराजरे द०
५ वे० इति ॥

अथ श्रीसुमतिजिनगीत ॥ राग
मल्हार ॥ करतासुंतोप्रीतसहुंसुंसेकरेरे स० परमेस
रसुंप्रीतकरुंसुंसिपरेरे क० आपणपैनीरागनरागीसुंअ
डेरे न० तालीएकणहाथकहोकिणिविधिपडरे क० १

सेवीजोयासांमिआगलउचारहीरे, आ० पडि२मरेपतं
 गदीवाचेमननहिरे दी० जगतिकरुसोचातनसोमनज
 रकरेरे न० नाणेमनअसवारघोडोदोडीमरेरे, घो० २
 सुमतिनाथजगनाथप्रखेमनमाहरेरे प० देवअवरनीसे
 वनआवेकाहरेरे आ० वापीहोजीमचंचूनवोलेजलनवे
 रे न० जलधरस्युंएकतारकरीप्रीउ२लवेरे क० ३ ति
 रजंचनानेहलखिनविकोसकेरे ल० कइयेवीजाजेमचि
 हुंमाहेवकेरे चि० आपेअविचलराजलागीजोकोरहेरे
 ला० जगतिवछललजिनराजविरुदसाचोवहेरे वि० ४
 इति ॥ अथ श्रीपद्मप्रजुजिनगीत ॥ ढालचाव
 ननी ॥ कागलिओकिरतारनणीसीपरेलिखूरे कविपुछुं
 करजोड जिमतिमलिखतांहाथवहेनहीरे लिखवानोप
 एकोड १ का० सेंगुमाणससिवपुरिचालतारे नमिलेइ
 ऐकलिकाल प्रभुलगिसपगोप्रहुचिसकेनहिरे निपगा
 नोजंजाल २ क० हाथनझालेकागलकेहनारे तोवांचे
 किमतेह अलविणपाछोपणनउतरलिखेरे साहवीओ
 निसनेह ३ का० निरंजनतोकिमहिनरंजीयेरे जोलि
 खुंवीनतीलाख दूरथकीपणजगतिहूइरहारे लेसहुको
 नीसाख ४ का० एकपखीजोजाणोपालिस्यारे पदम
 प्रजुस्युंप्रीत तोकागलजिनराजनेमुकज्यारे इणियर

(५३६) जिनराजसूरीजीकृत.

छेआरित ५ का० इति ॥ अथ श्रीसुपासजिन
गीत ॥ रागमारु ॥ आजहोपरमारथपायो ग्यानीगु
रुअरिहंतवतायो रागनेद्वेषतणेवसनायो परमपुरुषमें
सोहिजध्यायो आ० १ करजोडिजोकोगुणगावे कडू
एवचनेकोइमल्हावे तूंअधिकोओछोनजणावे समतासा
गरन्यायकहावे आ० २ साचोसेवकजाणिनमीलिओ
दुरिजनदेखिअलगोनटलिओ अकलपुरुषजिणविधि
ओलखिओ सहजसरुपीतिणिविधफलिओ आ० ३
झालीहाथनकोतंतारे फेरेकोइनतूंसंसारे तूंकिमजावकु
जावविचारे फलइमसगतिसारासारे ४ आ० एकनजर
सहुकोपरराखे बीजोकुणपरमेश्वरपाखे श्रीजिनराजजि
नागमसाखे सुजससुपासतणोएमआखे ५ आ० इति ॥
अथ श्रीचंद्रप्रभुगीत ॥रमोरेसुरंगागेहरिएहनी ढाला॥
श्रीचंद्रप्रभुप्राहुणोरे किमआवेघरवाररे जेहनेप्रभुछीपे
नहीरे पाखलतेपरिवाररे १ श्री० पाणीवलपणवेग
लोरे नरहेकामअछेपरे मायामाछणीकाढ्वारे मेनाकि
योआखेपरे २ श्री० लोचनअनीतोवागरिरे नांखेपगर
जालरे आठपहोरउजोकरेरे चोकीक्रोधचंडालरे ३
श्री० वसनवनेचरवारणोरे उजाकरेपोकाररे माछीगर
अजिमानचोरे नटलेपग२साररे ४ श्री० समरणश्री

जिनराजसूरीजीकृत. (५३७)

जिनराजनारे. आवेआगेवानरे तोपापीपासोलीयेर
 वंछितचढेप्रमाणरे ५ श्री० इति ॥ अथ श्रीसुवि
 धिजिनगीत ॥ रागसोरठीकडखानी ॥ सेवावाहिरो
 कहीयेकोइसेवक तारचोहुवेंतोतवीये कधिकामससा
 कतिदीधा तेदातारनचवीये १ से० वेडीजिमतारेबुडं
 तां तेतारकसरदहीये आपणपेंतरतानेतारे तेस्थुतार
 कंकहीये २ से० आठपंहोरउच्चांओलगतांमोजकदे
 किणदीजे विरुदगरीबनिवाजतणोप्रनु तिणीउपरन
 वहीजे ३ से० तेकिमपात्रकुपात्रविचारे जेउपगारि
 होवे समविपमीधारेवरसंतो जलधरकदेनजोवे ४ से०
 पडिआसुजसलीयेपरमेसर पूर्योछतोपवडे श्रीजिन
 राजसुविधिसाहिवसुं किमपहुचीजेआडे ५ से० इति॥
 अथ श्रीशीतलजिनगीत राग मल्हार॥आजलगेधरि
 अधिकजगिस सेवोसीतलविसवाविस जोकांडकीधीहु
 वेवगसीस तोसंनारेज्योजगदिस १ अवसरकरीयहुं
 सेंअरदास तेंतोकांडनपूरीआस तोपणतुजउपरवेसास
 सेवकनेआपोसावास २ जातेकोकाढचोहुंवैकाम तोते
 दाखोलेइनाम हुंतेसेवकतुंतेसांम कितलाइकादिनचल
 सेआम ३ जनमलगेंनवनवअवदात गातांवोलेमुजदि
 नराज तुंकिमनेहधरेतिलमात ततवेलावातांरिवात ४

(५४०) जिनराजसूरीजीकृत.

मतेहनोपातककापे ३ नगतिजुगतिनोपहिलोपार में
लाधोजिनवरआधार जिणतुहकांइनलोपीकार तिण
तोन्नगतिकरीसोवार ४ नाथअनंततणोजिनराज
लाधोमाझसहिमेंआज आगमनेवचनेमुनिराज
चालेतोद्येसिवपूरराज ५ इति ॥

अथ श्रीधर्मनाथगीत ॥ रागगोडी ॥ चतुरसनेहीरेमे
रेलाला एहनीढाल ॥ नवसायरहुंतीजोहेले तारिस
हुंपोतानेमेले आगलपाछलइमजाणोछो तोइवडोस्या
नेताणोछो १ करमविवरदेसेजिणदीसे संयमपाली
स्युंविसवाविसे तइयेफलस्येवांछितमोरो तोस्योतुमचो
नाहनिहोरो २ तारोमुजसरिखोमेवासी तारकविरुद
खरोतोथासी जेजायाछेजसनिराते तेतोजसल्योजिण
तिणवाते ३ पहिलीतोसउमीनतिकीजे मोटासुंठपि
णमांडिजे गिरुआकिमहीछेहनदाखे जिमतिमसहुको
नांमनराखे ४ नवनवदेवल२नमीयो सिवसुखदाय
ककोइनमिलीयो धर्मनाथजिनराजसखाइ करतांचढ
तीदोलतपाइ ५ इति ॥ अथ श्रीशांतिजिनस्त
वन ॥ ढालहांजरनी ॥ कालअनंतानंत नवनमांहिचम
तांहोजेवेदनसहि शुकहियेलेइनाम बांभणपणहोगत
तिथिवांचेनाहि १ पारेवास्युंप्रित तेजिमकीधीहोतिमंतुं

हिजकरे सांजलिएश्रवदात सहुकोसेवकहोमनआसा
धरे २ हुंआयोतुमतिरः हरिकरिमुजपरहोसोमनजर
करो नलहेअंतरपीड अंतरजामीहोतुंकिममाहरो ३
स्यानोदीनदयाल दुखीयांदेखीहोजोनावेदया कुणक
रस्येतुझसेव वहतेवारेहोजोनकरोमया ४ लाधोत्रिभु
वनराज जोसाचीसीहोतुजसेवासधे दुयेंसमवडजिन
राज रुखप्रमाणेहोजिमवेलोवधे ५ इति ॥ ० ॥
अथ श्रीकुंथुनाथजिनगीता ॥ जिमतिमहुंआविचढ्योजि
नजी मीटितुह्माणीमांह मंतकरज्योबीजावसूं जि०
ल्योपोतेनिस्वाह १ हिवरेजगतगुरुसुधसमाकितनीवी
आपीए करुणाकरहोकरुणाकरीकुंथुकि सेवकथिरकरि
थापीये २ हि० पड्योघणोछेपांतरो जि० जोजोस्योक
रतूत पणप्रभूनेपूठारखे जि० सकलरहेघरसूत ३ हि०
मेंखातोमांड्योनवो जि० तिमछेपग२धीज दीठोअण
दीठोकरो जि० लाजरहेतोहीज ४ ही० उंचीनीची
वातमे जि० हुंस्युंधालुंजीव मोटावगसेसोगुन्हा जि०
सांचकहेसदीव ५ हि० चरणनछोडुंताहरा जि०
इणनवछेइकतार राजअछेविवहारीश्रो जि० करि
चाल्योविवहार ६ जि० इति ॥ अथ श्रीअरना

थगीत ॥ रागवैलाउल ॥ प्रहसमेसूधासाधुनमो एह

थास्येसान्निधिकारनरे ४ म० कीजेचोलतणपिरे परमे
 श्वरसुप्रीतनरे श्रीजिनराजमिल्यापछी चढेनवीजोचि
 तनरे ५ न० इति ॥ अथ श्रीमहाविरजिनगी
 त ॥ सुण२वालहा एदेशी ॥ नविककमलपडिबो
 हतो साधुतणेपरिवारः गामगरपुरविहरतो मिलि
 नसक्योतिणवारारे १ चमरजिणेसर लीणोशि
 वपुरुवासारे सर्वलविमासण केमकरुंअरदासारे २
 च० हिवेअलगोजार्इरह्यो तिहांकिणकिमअवराय
 चलतोसाथनकोमिले किमकागलदिवरायारे ३ च०
 वातकहुतेसांजले दुरथकोपणविर पणपाछोनउतरलि
 खे तिणंमोमनदिलगीरारे ४ च० इमजिनराजविचार
 तां आळ्योचावप्रधान तिणतुंपरतक्षमेलव्यो हवेकरआ
 पसमानारे ५ च० इति ॥ कलस ॥ सुण२वहिनीप्रीड
 डोपरदेशी ॥ एनीजातितीढाल ॥ इणपरेचावन्नगति
 मनआणी सुधसमकितसहीनाणीजी वर्तमानचउवी
 सीजाणी श्रीजीनराजवखाणीजी १ इ० जोमुरतिन
 यणेनिरखीजे जोहायेपूजीजेजी जोरसनायेगुणगाइजे
 नरन्नवलाहोलीजेजी २ इ० जुगवरश्रीजिनसिंहसवा
 इ खरतरगछवरदाइजी पामेजिनवरनागुणगाइ अ
 विचलराजसदाइजी ३ इ० पिहिलिपरतलिखाइसा

(५४६) आतमारामजीकृत.

ची वारुगुरुमुखवांचीजी समझीअरथविशेषेराची ढा
लकहेज्योजाचिजी ४ इ० केइगुरुमुखेढालकहावो केइ.
जावनजावोजी केजिनराजतणागुणगात्रो चढतीदोल
तपावोजी ५ इ० इति जिनराजसूरिकृत श्रीचउवीस
तीर्थकराणां गीतसमाप्तानिः २५ ॥

अथ श्रीआतमारामजीकृतचोवीशी.

अथ श्रीरुषभदेवाजिनस्तवन ॥ आसणरायोगी एहे
शी ॥ प्रथमजिनेसरमरुदेवीनंदा नाजगगनकुलचंदा
रे मनमोहनस्वामी समवसरणत्रिकोटसोहंदा रजत
कनकरतनंदारे म० १ तरुअसोगतलेचिहुंपासे कन
कसिंहासनकासेरे म० पूर्वदिसिसुरछंदेजासे बिंवत्रि
हुदिसजासेरे म० २ मुनिसुरनारीसाधवीसारी अग
नकोनसुखकारीरे म० जोतिचवनवनदेवीनिरते इनप
तिव्यायवथिरतेरे म० ३ सुरनरनारीकूणइसाने प्रजू
निरखीसुखमानेरे म० तुल्यनिमित्तचिहुंवरथाने सम्य
गदरसीजानेरे म० ४ आदिनिक्षेपात्रिगउपगारी वंद
कजावविचारीरे म० वागजोगसुनमेघसमानो जव्यसि
खीहरखानोरे म० ५ कारणनिमित्तउजागरमेरो सरण
गहोअवतेरोरे म० जगतवछलप्रभूजगतउजेरो तिमर

श्रातमारामजीकृत. (५४७)

होतुमचरणमेंमंड चितहुलसायसुललना ७ इति ॥
 अथ श्रीश्रिनिंदनजिनस्तवन ॥ होरीकीचाल ॥ पर
 मश्रानंदसुखदीजोजी श्रिनिंदनप्यारा श्रखयश्रजेद
 श्रछेदसरुपी ग्यानज्ञानउजवारा चिदानंदघनश्रंतर
 जामी धामीरामी २ त्रिचुवनसाराजी श्रा० १ चारप्रका
 रनाबंधविडारी श्रचरश्रमरपदधारा करमचरमसवछो
 रदीयेहे पामीसामी २ परमकरताराजी श्र० २ अनंतग्या
 नंदरसनसुखलीना मेटमिथ्यातश्रंधारा श्रमरश्रटल
 कुणश्रगुरुलघुको धारासारा २ अनंतवलनाराजी श्र०
 ३ बंधउदयविननिरमलजोति सत्ताकरीसवछारा नि
 जसरुपत्रयरतनाविराजे छाजेराजे २ अनंदश्रपाराजी
 श्र० ४ ग्यानवीर्यसुखजीतवधारी मदनभूतजिनगा
 रा त्रिचुवनमेंजसगावततेरा जगस्वामी २ प्राणपियारा
 जी श्र० ५ निजश्रातमगुणधारीजिनजी सकलजग
 तसुखकारा आनंदचंदजिनेसरमेरा तेराचेरा २ हुंसुख
 काराजी श्र० ६ इति ॥ अथ श्रीसुमतीजिन
 स्तवन ॥ कैसेगजकाफंदछोडायो एदेशी ॥ सुमतिजि
 नतुमचरणोचितदीनो एतोजनमजनमदुच्छीनो सु० कु
 मतकुटलसंगदूरनिवारी सुमतिसुगुनरसजीनो सुम
 तिनामजिनमंत्रसुण्योहे मोहनीदजइखीनो सु० १

करमपरजंकबंकअतिसिज्या मोहमूढतादीनो निजगुन
 नूलरच्योपरगुणमे जनममरणदुखलीनो सु० २ अव
 तुमनामप्रज्ञजनप्रगट्यो मोहअनछयकीनो मूढअ
 ग्यानअविरतिएतो मूलाछीननयतीनो सु० ३ मनचं
 चलअतिभ्रमकमेरो तुमगुणमकरंदपीनो अवरदेवसव
 दुरेतजतुहे सुमतिगुपतचितचीनो सु० ४ माततातति
 रियासुतजाइ तनधनतरुणनवीनो एसवमोहजालकी
 माया इनसंगजयोहेमलीनो सु० ५ दरसनग्यानचारि
 तरतीनो निजगुनधनहरलीनो सुमतिप्यारीअइरख
 वारी विषइंद्रीअइहीनो सु० ६ सुमतिसुमतिसमतारस
 सागर आगरग्यानजरीनो आतमरुपसुमतीसंगप्रगटे
 खमदमदानवरीनो सु० ७ इति ॥ अथ श्रीप
 द्मप्रभजिनस्तवन ॥ तखतहजारेनुगयोरीराजामैनुछ
 डकेएदेशी॥पदमप्रभूमुझप्याराजिमनमोहनगाराचंदच
 कोरमोरघनचाहे पंकजरविवनसाराजी म० १ त्पुंजि
 नमूरतिमुझमनप्यारी हिरदेआनंदअपाराजी म० २ अ
 वक्युंवेरकरीतुमसामी अवदधीपारउताराजी म० ३
 पंचविधनजयरतितुमजीती अरतिकामविडाराजी म०
 ४ हाससोगमिथ्यासवछारी नींदअत्यागतुषाराजी
 म० ५ रागद्वेषघनमोहअग्याना अष्टादसरोगजारा

मोहहरोमेरोरे म० ६ जगततिहारीमुझमनजागी कु
 मतिपंथदियोत्यागीरे म० श्रातमग्यानज्ञानमतिजा
 गी मुझतुझअंतरजागीरे म० ७ इति ॥
 अथ श्रीअजितजिनस्तवन ॥ सुणजिगीकरुणानाथभ
 वदधिपारकीजोजी एदेशी ॥ तुमसुणज्योजीअजित
 जिनेसजवदधीपारकीजोजी जनममरणजलफिरतअ
 पारा आदिअंतनहीघोरअंधारा हुंअनाथउरज्योमुझ
 धारा टुकमुझपीरकीजोजी तु० १ करमपहारकठनदु
 खदाइ नावफसीअवकोनसहाइ पूरणदयासिंधुजगसा
 मी झटतिउधारकीजोजी तु० २ चारकपायकरसअ
 तिजारे वरवाअनंगजगतसवजारे जारेत्रिदेवइंदकुनदे
 वा मोहेउवारलीजोजी तु० ३ करणपंचअतितरुकर
 भारे धरमजहाजप्रीतकरफारे रागफांसडारे
 गरेमोरे अबप्रभूझिरकदीजोजी तु० ४ त्रिसनातरंग
 चरीअतिजारी वहेजातसवजनतनधारी मानफेनअति
 उमगचरयोहे अबप्रभूज्ञांतकीजोजी तु० ५ लाखचौ
 रासीजमरअतिजारी मांहिफस्योहुंसुदबुद्धहारी काल
 अनंतअंतनहीआयो अबप्रभूकाढलीजोजी तु० ६ आ
 तमरुपदयोसवमेरी अजितजिनेसरसेवकतेरो अवतो
 फंदहरोसवमेरी निरजयथानदीजोजी तु० ७ इति ॥

अथ श्रीसंज्ञवजिनस्तवन ॥ हिरणीयवचरे एदेशी ॥
 संज्ञवजिनसुखकारीयाललना पूरणहोतुमगुणजंडार
 पुजोप्रभुभावसेललना दुखदुर्गतिदूरेहरेललना
 काटेहोजनममरणसंसार पदकजजोमनलावसेल
 लना १ प्रथमविरहेप्रभूतुमतणोललना दूजाहोपूरव
 धरछेद देखोगतकरमनीललना पंचमकालकुगुरुवहु
 ललना पाड्याहोजिनमतवहुजेद वातकोतरनकील
 लना २ रागदोषवेहुमनवसेललना जरेहोजिमसौकन
 रांड भूलेअतिजरममेललना अमृतछोरजहरपीयेल
 लना लीयेहोदुखजिनमतछांड वाधेअतिकरममेलल
 ना ३ करुणारसजरेथोडलेललना संतहोपरदुखजा
 ननहार झूलेसुखसरममेललना मनकीपीरनकोसुने
 ललना कैसेहोकरीयेनिरधार प्रभूतुमधरममेललना ४
 एकआधारछेमोहजणीललना तुमरेहोआगमपरतीत
 मनमुझमोहीयाललना अवरसवीधमछोरीयाललना
 धारेहोतुमआणपुनीत एहीसवजोहीयाललना ५ जु
 गप्रधानपुरुषतणीललना रीतीहोमुझमनसुखदाय दे
 खीसुनकारणीललना एहीजिनमतरीतछेललना मीत
 होउरसवहीविहाय जवसिंधुतारणीललना ६ धन्यज
 नमतिसपुरुषकाललना धारीहोतुमआणअखंड मतव

चकायसुललना आतमअनुचवरसपीयाललना धायो
 जी० म० ६ तुमहूँनिरंजनत्रयअविनासी अवसेवक
 कीवाराजी० म० ७ हुंअनाथतुमत्रिभुवननाथा वेग
 करोमुझसाराजी० म० ८ तमपूरणगुणप्रभुताछा
 जे आतमरामआधाराजी० म० ९ इति ॥ १ ॥ अथ
 अथ श्रीसुपासजिनस्तवत ॥ मंदीरपधारोमुझपुंजजी
 एदेशी ॥ श्रीसुपासमुझवीनती अवमानोदीनदयाल
 जी तरणतारणतुमविरुदछे जगतवछलकिरपालजी
 श्रीः १ अक्षरजागअनंतमे चेतन्यतामुझछोरजी करमभर
 मछायामहा जिनकीनोतममहाघोरजी श्री० २ घन
 घटाछादतरविजिस्यो तिस्योरह्योग्यानउजासजी कि
 रपाकरोजोमुझजणी थायपूरणब्रह्मप्रगासजी श्री० ३
 विनहीनिमित्तननीपजे माटीतणोधटजेमजी तिमही
 निमित्तजिनजीविना उज्जलथाउहुंकेमजी श्री० ४ त्रिक
 रणसुद्वययेजदा तदासम्यगदरसनपामजी दुजेत्रिकेव
 ह्यग्यानहे त्रिकमिटेसिवपुरठामजी श्री० ५ एहीत्रण
 तिकमुझदीजिये लीजीयेजसअपारजी कीजीयेजगत
 सहायता दीजीयेअजरअमारजी श्री० ६ अवजिनवर
 मुझदीजिये आतमगुणचरपूरजी करमतिमरकेहरण
 को निरमलगगनजूसूरजी श्री० ७ इति ॥

(५५२) आतमारामजीकृत.

अथ श्रीचंद्रप्रज्ञजिनस्तवन ॥ चाहतथीप्रभुसेवकरुं
गी उलठीकरमवनाइरी एदेशी ॥ चाहलगीजिनचंद्र
प्रभूकी मुझमनसुमतिजूआइरी नरममिथ्यामतदुरन
स्योहे जिनचरणाचितलाइसखीरी चा० १ समसंवेग
निरवेदलस्योहे करुणारससुखदाइरी जैनवैनश्रतीनी
केसगरे एजावनमनजाइसखीरी चा० २ संकाङ्खा
फलप्रतिसंसा कुगुरुसंगछिटकाइरी परसंसाधर्महीन
पुरुषकी इननवमांहिनिकाइसखीरी चा० ३ दूग्धार्से
धुरसश्रमृतचाखी स्यादवादसुखदाइरी जहरपानश्रव
कौनकरतुहे दूरनयपंथनसाइसखरी चा० ४ ज्वलग
पुरणतत्वनजान्यो तवलगकुगुरजुलाइरी सप्तजंगिग
मिततुमवानी नव्यजीवमनजाइसखीरी चा० ५ नामर
सायणजगसहुजाखे मरमनजानेकाइरी जिनवानीरस
कनककरणको मिथ्यालोहगमाइसखीरी चा. ६ चंदकि
रणजसउज्जलतेरो निरमलजोतिसवाइरी जिनसेव्योनि
जआतमरुपी श्रवरनकोइसहाइसखीरी चा० ७ इति ॥
अथ श्री सुविधिजिनस्तवन ॥ छंदचाल ॥ सुविधि
जिनवंदनापापनिकंदना जगतआनंदनामुक्तिदाता कर
मदलखंडनामदनविहंडना धरमधुरमंडनाजगत्राता

श्रवरसहुपासनाछोरमनआसना तेरीउपासनारंगराता

करोमुञ्जपालनामीनमदगालता जगतउज्जालनादेहसा
 ता सु० १ विविधकिरियाकरीमूढतामनधरी एकपक्षेखरी
 जगतजूल्यो ग्यानमदमनधरीसुमतसवपरहरी जैनमु
 निनेषधरमूढफूल्यो एहीएकांतताअतिदुरदंतता ना
 सकरसततादुखजूल्यो संगसिद्धिकहीग्यानकिरियाव
 हीदूधसाकरमिलिरसघोल्यो सु० २ विनासरधानकग्या
 ननहीहोतहे ग्यानविनत्यागतहीहोतसाचो त्यांगविन
 करमकानासनहीहोतहे करमनासेविनाधरमकाचोतत्व
 सरधानपंचगीसंमतकह्यो स्यादवादेकरीवैनसाचोमूल
 निर्युक्तिअतिजाण्यचूणैजलो वृतिमानोजिनधरमराचो
 सु० ३ उत्सर्गअपवादअपवादउत्सर्गहे सर्गअपवादम
 नधारलीजो अतिउत्सर्गउत्सर्गहेजैनमे अतिअपवाद
 अपवादकीजो एखडजंगहेजैनवानीतिणे सुगुरुपरसा
 दरसेधुटपीजो ज्वलगवोधनहीतत्वसरधानका तवल
 गग्यानतुमकौनलीजो सु० ४ समयसिद्धांतनाअगसा
 चासवेसुगुरुप्रसादधीपारपावेदर्शनग्यानचारित्तकरीसं
 युता दाहकरकरमकोमोक्षजवि जैनपंचगीकिरितिजाजि
 अति कुगुरुतरंगमनरंगलीवे तेनराग्यानकोअसनहीउ
 पनाहारनरदेहसंसारधावेसु० ५ तत्वसरधानविनसर्वक
 रणीकरी वारअनंततुरह्योरीतो पुन्यफलसुरगमेजाग

उंधोगिरघो तिर्थगत्रवतारबहुवारकीतो उंटकामेगना
 षांडलागीजिसो अंतमेस्वादसेंजयोफीको चारगतवास
 बहुदुखनानाजरे जयोमहामूढसिरमोरटीको सु० ६
 सुविधिजिनंदकीआणअवधारले कुमतकुपंथसबदूरटा
 रो पक्षकदागरमूलनहीतानीयो जानीयोजैनमतसुद्ध
 सारो महासंसारसागरथकीनिकली करतआनंदनिज
 रुपधारो सुकलअरुधरमदोउध्यानकोसाधले आतमा
 रुपअकलंकप्यारो सु० ७ इति ॥

अथ श्री
 शीतलजिनस्तवन ॥ विणजारेकीदेशी ॥ शीतलजि
 नरायारेत्रिभूवनपूरणचंद शीतलचंदनसारिसो जिनरा
 यारे जि० मुझमनकमलदिनंद ज्युंलोहनेपारसो जि०
 १ जि० अरवनदाताकोय अजयअखेदअनेदनो जि०
 जी० समरेदेवनिहार कौनहरेमुजकेवनो जी० जी०
 जि० २ जि० गर्जवासदुखपूर कलमलसंयुतथानमे जि०
 पित्तसलेखमभूर दुखजरेबहुजानमे जि० ३ जि० ज
 नमतदुखअपार मोहदसामाहाफंदमे जि० जि० अव
 मनमांहिविकार कीटफस्योजैसेगंदमे जि० ४ जि० प
 रवसदीनअनाथ मुझकरुणाचितआनीये जि० जि० ता
 रोजिनवरदेवविनतडीचितठानीये जि० ५ जि० करुणा
 सिंधुतुमनाम अवमोहेपारउतारीये जि० जि० अपणा

विरदनिवाह श्रवणगुणगुणनविचारीये जिः ६ जि० सीत
 लजिनवरनाम सीतलसेवककीजीये जि० जि० सीतल
 आतमरुप सीतलजावधरीजीये जि० ७ जि० इति ॥
 अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ पीलेरेप्यालाहोजामत
 वाला एदेशी ॥ श्रीश्रेयांसजिनअंतरजामी जगविस
 रामीत्रिभुवनचंदो कल्पतरुमनवंछितदाता चित्रावेल
 चिंतामनिधाता मनवंछितपूरेसवश्रासा संतउधारण
 त्रिभुवनत्राता श्री० १ कोइविरचईसमनध्यावे गोविं
 दविश्वनुंउमापतिगावे कार्तिकसाममदनजसलीना क
 मलाभवानीजगतरसजीना श्री० २ एहीत्रिवेवदेवअ
 रुदेवी श्रीश्रेयांसजिननामरटंदा एकहीसूरजगतपर
 गासे तारप्रजातिहांकौनगिणंदा श्री० ३ एरावणस
 रिसोगजछाडी लंबकरणमनचाहकरंदा जिनछोडीमन
 श्रवरदेवता मुढमतिमनजावधरंदा श्री० ४ कोइत्रिसूल
 चक्रफुनकोइ नामनीकेसंगनाचकरंदा शांतिरुपतुममू
 रतीनीकी देखतमुझतनमनहुलसंदा श्री० ५ चारअ
 वस्थातुमतनसोजे बालतरुणमुनिमोक्षसोहंदा मोदह
 रपनतध्यानप्रदाता मुढमतिनहीनेदलहंदा श्री० ६
 आतमग्यानराजजिनपायो दूरजयोनिरधनदुखधंदा
 समतासागरकेविसरामी पायोअनुजवग्यानअमंदा

श्री० ७ इति ॥ अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तवन
 अडलछंदकीचाल ॥ वासुपूज्यजिनराजआजमुझतारी
 ये करमकठनदुखदेनकवेगनिवारीये वीतरागजगदी
 सनाथत्रिभूवनतिलो महागोपनिरजामधामसवगुण
 निलो १ कालसुजावमिलानकरमअतितीसरो होनहा
 रजीयसक्तिपंचमिलीधीसरो एकअंसमिथ्यातवातएह
 सांजली कियेमंदरापानआंखजइध्यामली २ पंचमका
 लविहालनाथहुंआइयो मिथ्यामतबहुजोरघोरअति
 छाइयो कलहकदाग्रहसोरकुगुरुबहुछाइयो जिनवानीर
 सस्वादकविरलेपाइयो ३ तुझकिरपाभइनाथएकमुझजा
 वना जिनआग्यापरीमानउरनहीगावना पक्षपातनही
 लेसद्वेसकिनसुकुरु एहीस्वजावजिनंदसदामनमेधरु ४
 किंचितपुन्यप्रजावप्रगटमुझदेखीये जिनआणायुतच
 क्तिसदामनलेखीये होनहारसुजपायमिथ्यामतछांडी
 यो सारसिद्धांतप्रमाणकरणमनमांडीयो ५ एकअरज
 मुजधारदयालजिनेसरु उद्यमप्रबलअपारदीप्रोजगइ
 सरु तुझविणकोनआधारनवोदघीतारणे विरदनिवाहो
 राजकरमदलवाशणे ६ आत्मरुपभूलायरस्योपररुपमें
 पर्योहुंकालअनादिजवोदधीकूपमें अवकाढोगहीहाथ
 नाथमुझवारीयां पाउपरमानंदकरमरजझारीयां ७ इति ॥

अथा श्रीविमलजिनस्तवन ॥ सुंदरचेतवहारसारपा
 लसफुले एदेशी ॥ विमलसुहंकरनाथश्रासिअवहमारी
 पुरो रोगसोगजयत्रासत्रासिममतासवचूरो दीजोनिर
 जयथानखानअजरामरचंगी ॥ जतमेजनमजिनराजता
 जवहुजगतसुरंगी ॥ १ ॥ माततातसुतश्रातजनिबहुसजेन
 सुहाये कनकरतनबहुभूरकूरमेनफंदलेगाये रंजारमण
 अनंगसंगवहुकेलकराये ॥ संध्यारंगविरंगदेखछितमेवि
 रलाये ॥ ३ ॥ पदमरागसमचरणकरणअतिसोहेनके तरुण
 अरुणसितनयनवयनअमृतरसनीके ॥ विदनचंदजुसोम
 मदतसुखमानेजके ॥ तुजचक्तिविननाथरंगपतंगजूफके
 ३ ॥ गजवरतरलतरंगरंगवहुचेदविराजे कंकनहारकिरी
 टकरणकुंडलअतिसाजे ॥ रागरंगसुखचंगजोगमतनीके
 जायो ॥ तुझभक्तिविननाथजानतिनजन्मगंगीयो ॥ ४ ॥ रत
 नजरतविनजानजूजयेसनूरे ॥ रंजारमणअनंदकंदसुख
 पायपुरे खोडसनित्यसिंगारनाचस्थितिसागरपुरे ॥ जिन
 चक्तिफलपायमोक्षतिननाहिदूरे ॥ ५ ॥ धनधनतिनअवतार
 धारजिनचक्तिसुहानी ॥ दयादानतपनेमसीलगुनमनसा
 ठानी ॥ जिनवरजसमेलीनपीनप्रभुअर्चकरानी ॥ तुजाकिर
 पाजइनाथआजहुभक्तिपछानी ॥ ६ ॥ जगतारकजगदसिका
 जअवकीजोमेरो अवरनसरणआधारनाथहुचरोतेरोदी

(५५८) आतमारामजिकृत.

नहीनअवदेखकरोप्रचूवेगसहाइ चातकज्युंघनघोरसो
रनिजआतमलाइ ७ इति॥ अथ श्रीअनंतजिन
स्तवन ॥ निंदडलीवैरणहोरही एदेशी ॥ अनंतजि
नंदसुंप्रीतडी नीकीलागीहोअमृतरसजेम अवरसरा
गीदेवनी विषसरिखीहोसेवाकरुकेम अ० १ जिमपद
मनमनपीउवसे निरधनीयाहोमनधनकीप्रीत मधुकर
केतकीमनवसे जिमसाजनहोविरहीजनचीत अ० २
करसनसेघआसाढजुं निजवाछरुहोसुरजिजिमप्रेम
साहिवअनंतजिनंदसुं मुझलागीहोअक्तिमनतेम अ०
३ प्रीतअनादनीदुखजरी मैकीधीहोपरपुदगल
संगजगतभ्रम्योतिणप्रीतसुंसांगधारीहोनाच्योनवनव
रंग अ० ४ जिसकुअपनाजानीयो तिनदीधाहो
छिनमेअतिछेह परजनकेरीप्रीतडी मेंदेखीहोअनतेनि
सनेह अ० ५ मेराकोइजनजगतमें तुमछोडीहोज
गमेंजगदीस प्रीतकरुअवकौनसुं तुंत्राताहोमोने
विसवावीस अ० ६ आतमरामतूमाहरो सिरसे
हरोहोहियडानोहार दीनदयालकिरपाकरो मुझ
वेगाहोअवपारउतार अ० ७ इति ॥

अथ श्रीधर्मनाथजिनस्तवन ॥ मालाकिहांछेरे एदेशी ॥

जिविकजनवंदोरे धरमजिनेसरधरमसरुपी जिणंदमोरा

परमधरमपरगासे परदुखभंजनभविमनरंजन जि०
 द्वादसपरखदापासे भविकजननंदोरे धरमजिनेसरवंद
 परमसुखकंदोरे न० १ धरमधरमसहुजनमुखजासे
 जि० मरमनजानेकोइरे धरमजिनंदसरणजिनलीनो
 धरमपिछानेसोइरे न० २ दरव १ जाव २ दया ३ मनआणो
 जि० परम ४ रूप ५ अनुबंधोरे ६ व्यवहारी ७ निहचेगिनली
 जो पालोकरमनबंधोरे भ० ३ जयणासरवकाममेकर
 णो जि० धरमदेसनादीजेरे जिनपूजायात्राजगतरणी
 जि० अंतकरणसुद्धलीजेरे न० ४ खटकायारक्षादिल
 ठानी जि० निजश्रातमसमजानीरे पुदगलीकसुखका
 जेकरणी जि० सरुपदयाकहीग्यानी भ० ५ करिअडं
 वरजिनमुनिवंदे जि० करीप्रजावनामंडेरे विनकरुणा
 करुणाफलजागीजनमभरणदुखडंडेरे न० ६ विधिमारग
 जयणाकरीपाले जि० अधिकहीननहीकीजेरे श्रातमरा
 मअनंदघनपागो जि० केवलग्यानलहीजे न० ७ इति॥
 अथ श्रींशांतिजिनस्तवन ॥ भविकजननित्यएगिरिवं
 दु एदेशी ॥ नविकजनशांतिहेजिनवंदू भवजवताअरे
 २ पापनिकंदू नविकजनशांतिहेजिनवंदू १ पूर्वज
 वशांतिकरानो कापोतपालसुखलीनो करुणारससुध
 ममनभीनो तेताअजपदानबहुदानी भ० २ अचिरानं

(५६०) आतमारामजीकृत.

दनसुखदाइ जिनगर्जेशांतिकरी इसुरनरमिलमंगल
गाइ कुरुमंडलअरे२मारिनसाइ न० ३ जगत्यागदा
नबहुदीना पामरकमलापतिकीना सुधपंचमहाविरत
लीना प्रायाकेवलअरे२ग्यानआइना न० ४ जगशां
तिकधरमप्रकासे नवनवनाअधसहुनासे सुद्धग्यानक
लाघटनासे तुमनामेअरेतुमनामेपरमसुखपासे न० ५
तुमनामशांतिसुखदाता तुंमाततातमुझआता मुझतस
हरोगुणगयाता तुमशांतिकअरे२जगतविधाता म० ६
तुमनामेनवनिधलहीये तुमचरणसरणगहिरहीये तम
अरचनमनतनवहीये एहीजशांतिकअरे२जावनाकही
ये न० ७ हुंतोजनमरणदूखदहियो अवशांतिसुधा
रसलहीयो एकआतमकमलउमहियो जिनशांतिअरे
२चरणकजगहियो म० ८ इति ॥ अथ श्रीकुं
थुजिनस्तवन ॥ जावनाकीदेशी ॥ कुंथुजिनेसरसाहि
वतुधणीरे जगजीवनजगदेव जगतउधारणसिवसुख
कारणरे निसदिनसारुसेव कुं० १ हुंअपराधिकाल
अनादिनारे कुटलकुबोधअनीत लोअक्रोधमदमोहेमा
चीयारे मछरमगनअनीत कुं० २ लंपटकंटकनिंदकदं
भियारे परवंचकगुणचोर आपथापकपरनिंदकमानो
यारे कल्हाकदाअहघोर कुं० ३ इत्यादिकअवगुणकहुके

तलारे तुंसवजान्तनहार जोमुझवीतकवीत्योवीतसेरे तु
जानेकरतार कुं० ४ जोजंगपूरणवैद्यकहाइयोरे रोगकरे
सवदूरतिनहीअप्रणारोगदिखावियेरे तोहोवेचिंताचूर
कुं० ५ तुमुझसाहिबवैद्यधनंतरुरे करमरोगमोहकाट रत
नत्रयीप्रथमुझमनमानीयोरे दीजोसुखनोथाटकुं० ६ नि
रगुणलोहकनकपारसकरेरे मागिनविकछुतेह जोमुझआ
तमसंपदनिरमलिरे दासजणीअवदेहाकुं० ७ इति ॥
अथा श्रीअरजिनस्तवन ॥ चंद्रप्रभुमुखचंदसखीमोने
देखणदे एदेही ॥ अरजिनेस्वरचंदसखीमोनेदेखणदे
संतकालिमलदुखधंद स० त्रिभूवननयनानंद स० मो
हतिमरचयोमंद स० १ उदरत्रिलोकअसंखमे स० म
हरिदनीरनिवास स० कठनसिवालआछादीयो स०
करमपडलअठतास स० २ आदिअंतनहीकुंडनी स०
अतिहीअग्यानअधेर स० स्वजनकुटवेमोहीयो स०
वीतेसांझिसवेर स० ३ खयउपसमसंयोगथी स० कर
मपटलजयोदूर स० उरधमुखीपुन्येकरयो स० स्वज
नसंगकरयोचूर स० ४ हुंतोजिनवरआसना स० दी
ठाआनंदपूर स० दीनदयालकृपाकरी स० राखोचर
णहजूर स० ५ जिनकटहुंआवीयो स० जाणेतुंकिरतार
स० विरदसुण्योजिनताहरो त्रिभूवनतारणहार स०

(५६२) आतमारामजीकृत.

६ सुमतिसखीसुणवारता स० एसवतुङ्गउपगार स०
आतमारामदिखालियो स० वंचितसुखदातार स० ७
इति ॥ अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ रामचंदकेबा
गचंपामोलरह्योरी एदेशी ॥ मल्लिजिनेस्वरदेवभवदधि
पारकरोजी तुप्रभूदीनदयालत्तारकविरदधरोजी १ तु
मसमवैद्यनकोयजानोमरमखरोरी जाहीजिसविधरोग
तैसोहीग्यानधरोरी २ अडकमचारकपायरोगअसा
ध्यकह्योरी मदनमहादुखदेनसवजगव्यापरह्योरी ३
तुप्रनूपूरणवैदत्रिभुवनजाचलह्योरी किरपाकरोजगना
थअवअवकासथयोरी ४ वचनपयूषअनूपमुझमनमां
हेधरोरी दीजोपथ्यप्रदानमनतनदाहहरोरी ५ सम्य
गदरसणग्यानखममृदुसरलनलोरी तोषअवेदअजंग
तोसहुरोगदल्योरी ६ पथ्योदनजिननक्तिआतमाराम
रम्योरी तुठोमल्लिजिनेसअरिदलकूरदम्योरी ७ इति ॥
अथ श्रीमुनीसुव्रतजिनस्तवन ॥ प्रमलापरणी एदे
शी ॥ श्रीमुनिसुव्रतहरिकुलचंदा दुरनयपंथानिसायो
स्याद्वादरसगर्जितवानी तत्वसरुपजनायो सुणग्यानी
जिनवानी रसपीजोअतिसन्मान्ती १ बंधमोक्षएकांते
मान्ती मोक्षजगतउछेदे उन्नयनयात्मभेदगहीने तत्वप
दारथवेदे सु० २ नित्यअनित्यएकांतकहीने अरथाक्रि

यासवनासे उन्नयस्वरुपेवस्तुविराजे स्यादवादइमजासे
सु० ३ करताभुगतावाहिजदृष्टे एकतिनहीथावे निश्च
यसुद्धनयातमरुपे कुणकरताभुगतावे सु० ४ रुपवीना
जयोरुपस्वरुपी एकनयातमसंगीतनव्यापीविभुएकअ
नेका आनंदघनदुखरंगी सु० ५ सुद्धअसुद्धतासअवनासी
निरंजननिराकारो स्यादवादमतसंगरोनीको दुरनयपं
थनिवारो सु० ६ सप्तजंगीमतदायकजिनजी एकअनुग्रह
कीजो आतमरुपजिसोतुमलाधो सोसेवककुदीजो सु० ७
इति॥ अथश्रीनमिजिनस्तवन॥ अ मिलेदवसीबालेया
कान्हा एदेशी॥ तारोजमिरेजिनवरसाइवाहपकरकरमो
रीकुगुरुकुपंथफंदथीनिकसी सरणगहीअवतारी ता०
१ नित्यअनादिनिगोदमेरुलता झुलताजवोदधीमांहि
पिरथीअपतेजवातस्वरुपी हिरितकायदुखपाही ना०
२ वितिचउरिंद्रीजातिज्यानक संखादुखकनिकाइ दी
नहीनजयोपरवसपरके असेजनमगमाइ ना० ३ मु
नजअनारजकुलमेउपना तारीखवरनकांइज्यंत्युंकर
प्रभुमगअवपररुयो अवक्युंवेरलगाइ ता० ४ तुमगुण
कमलअमरमनमैरो उडतनहीहेउडाइ तृपतमनुजअ
मृतरसपाइ रुचसेतपतबुझाइ ता० ५ भवसागरकी
परिहरोसव मिहेरकरोजिनराइ दृगकरुणाकीमोपर

(५६६)

आतमारामजीकृत.

अखंगराजल नेमहोरीखेलीया ११ सीलसजतनुकेस

रोपिच कारीयासुन्नजावना ग्यानमादलतारसमरस रा

गसुधगुणधावना धूरडडीकरमकीसवसांगसगरेत्यागी

यानिमआतमरामकाधरि ध्यानशिवमगलागीया १२ इ

ति॥ अथ श्रीपार्श्वजिनस्तवना॥ रागवटंसा॥ मूरतिपास

जिनंदकी सोहनीमोहनीजगतउधारणहारी एटेक ॥

नीलकमलदलतनप्रभूराजे साजेत्रिभूवनजनसुखका

री मोहअग्यानमानसवदलनी मिथ्यामदनमहाअघ

जारी मू० १ हुआतिहीनदीनजगवासी मायामगनभ

योसुधवुधहारी तोविनकौनकरेमुझकरुणा वेगालेयो

अवखबरहमारी मू० २ तुमरेदरसनविनबहुदुखपाये

खायेकनकजेसेचरीमतवारी कुगुरकुसंगरंगवसउरइयो

जानीनहीतुमंनगतिप्यारी मू० ३ आदिअंतविनजग

जरमायो गायोकुदेवकुं पथनिहारी जिनरसछोरअनर

सगायो पायोअनंतमहादुखजारी मू० ४ कौनउधा

रकरेमुझकेरो श्रीजिनविनसहुलोकमझारी करमकलं

कपंकसवजारे जोजिनगावतनगततिहारी मू० ५ जैसे

चंद्रचकोरननेहा मधुकरकेतकदलमनप्यारी जनमजन

मप्रनुपासजिनेसर वसोमनमरेभगततिहारी मू० ६

अस्वसेनवामाकेनंदन चंदनसमप्रभूतभवुजारी निज

श्रातमश्रनुचवरसदीजो कीजोपलकमेप्रतसंसारो मू०
 ७ इति ॥ अथ श्रीमहाविरजिनस्तवन ॥ गी
 तकीदेशी ॥ नवदधिपारउतारणीजिनवरनीवाणी प्या
 रीहेअमृतरसकेल जिनवरनीवाणी चरमामिथ्यातनि
 वारीयो जि० धीधोहेअनुचवरसमेल प्या० १ अम
 सरीखाअतिदिनने जि० दूपमहेअतिघोरअंधार प्या
 ग्यानप्रदीपजगावीयो जि० पास्योहेअतिमार्गसार
 प्या० २ अंगउपंगसरुपसुं जि० पइनेहेछेछेदग्रथ
 प्या० चूर्णजाषनियुक्तिसु जि० वृतिहेनीकीमोक्षनोप
 थः प्या० ३ सदगुरनीएतालका जि० जसुहेखुलेग्या
 नचंडार प्या० इनविनसूत्रवखानीयो जि० तस्करहे
 तिणलोपीकार प्या० ४ सोहमगणधरगुणनजो जि०
 किधोहेजिनग्यानपरगास प्या० तुझपाटोघरदीपता
 जि० टारयोहेजिनदुरनयपास प्या० ५ अमसरखा
 अनाथने जि० फिरताहेवित्योकालअनंत प्या० इन
 नववितकजेथया जि० तुजाणेहेतोसुकौनकहंत प्या०
 ६ जितवानीविनकौतथा जि० मुझनेहेदेतामारगसार
 प्या० जयोजिनवानीजारती जि० जारयाहेमिथ्यामत
 नार प्या० ७ हुंअपराधीदेवनो जि० करीहेमुझनेब
 गंसीस प्या० निंदकपारउतारना जि० तुहीहेजगनि

(५६८)

जिनविजयजीकृत.

मलइस। प्या० ८। बालकमुरखआकरो जि० ये ठोहे व
लीअतिअविनीत प्या० तोपिणजनकेपालीये जि० उ
त्तमहेजननीएरीत प्या० ९। ग्यानहीनअविवेकीया
जि० हठीहेनिंदकगुणचोर प्या० तोपिणमुझनेतारिये जि०
मेरीहेतेरोमोहनीदोर प्या० १०। त्रिसलानंदनवीरजी
जि० तुतोहेआसाविसराम प्या० अजरअमरपददी
जीये जि० थावुहेजिमआतमराम प्या० ११। कलस॥
चउवीसजिनवरसथलसुखकर गावतासनगहगहे संघ
रंगउंमगनिजनन गावताशिवपदलहे नामेअवा
लानगरजिनवर वैनरसअविजनपीये संबळरोपअगनी
निधिविधु रुपआतमजसकीये ॥ दोहा ॥ जिन
वरजससनमोदथी हुकममुनिकेहेत जोअविगावतरंगसु
अजरअमरपददेत १ इति ॥ आत्मारामजि कृत चो
वीशी संपूर्ण ॥

अथ श्रीजिनविजयजीकृत चोवीशी.

दुहा ॥ सगवीसेढालेकरी थुणस्युंजिनचोवीस सांजल
ज्योसहुचतुरनर श्रवणोविश्वावीस १ ढाल ॥ अथश्री
रिषजजिनस्तवन ॥ जगहित श्रीआदिशरजगजयो आ
दिपुरुषअरिहंतहो जगहित आदिधरमजिणदाखीओ

आदिनमुं एकंतहो ज० १ ॥ अथ श्रीअजितजिनस्तव
 न ॥ ढालविछीआनी ॥ हारिलालाअजितजिनेसरजग
 घणी जेहनीजगमांहिप्रतीतरे जेसेवेतेसुखलहे प्रभुसे
 तिमांडोप्रीतरेलाला अ० २ ॥ अथ श्रीसंभवजिनस्त
 वन ॥ देशीललनानी ॥ सुखदायकनायकलह्यो लाय
 कसंभवदेवललना तेनरनवनिधिसंपजे जेकरेएहनीसे
 वललना सु० ३ ॥ अथ श्रीअभिनंदनजिनस्तवन ॥
 अजिनंदनचोथाअरिहंत केवलकमलानारीकंत जेध्या
 नेध्यावेएकंत तेहनोचिंत्योथायअनंत ४ ॥
 अथ श्रीसुमतिजिनस्तवन ॥ राणकपूर एदेशी ॥ सु
 मतिजिनेसरपांचमारेलाल सुमतितणोदातार जग
 सामीरे सुमतिरजगसेवीएरेलाल सेवकतारणहार
 ज० सु० ५ ॥ अथ श्रीपदमप्रभुजिनस्तवन ॥ रहो३
 वालहा एदेशी ॥ श्रीपदमप्रभुदेखतां लोचनअमिअन
 रायलालरे जिमरफिररजोइए तिमतिमत्रिपतनथा
 यलाखरे श्री० ६ ॥ अथ श्रीसुपासजिनस्तवन ॥
 सातमोसीरीअसुपास जोतांअधिकउलास आस्यास
 विफलेए दोहंगदुखटलेए मनवंछितमलेए ७ ॥ अथ
 श्रीचंद्रप्रभुजिनस्तवन ॥ श्रीचंद्रप्रभुमुखजिनवरु ए
 सुखदायकसामीरे रातदिवसचरणेरहे जेहनेचंद्रमाना

मीरे ८ ॥ अथ श्रीसुविधिजिनस्तवन ॥ श्रीसुवाधिर्
 जिनरायाजसप्रणमसुरनरपाया मंतोपुण्यपसायेपाया
 जाणोगंगाजलनाद्या ९ ॥ अथ श्रीशीतलजिनस्तवन ॥
 भवजलतारणहार तुझविणदुजारे नायकलायककोन
 हीरे वीनतडीअवधार करधरीधरीतारोरे शीतलमुझ
 सहीरे १० ॥ अथ श्रीश्रेयांसजिनस्तवन ॥ ढाल ॥ श्रे
 यांसजितअग्गारमा नायकमोरेमनरम्यो दुखगमोज
 विजेजेउपजेए ११ ॥ अथ श्रीवासुपूज्यजिनस्तवन ॥
 मधुकरनीदेशी ॥ वासुपूज्यजिनवारमा वासवपूजित
 जेह सुखकर दुखहरसाहिवतुंमल्यो वाध्पोनवलसने
 ह सु० वा० १२ ॥ अथ श्रीविमलजिनस्तवन ॥ ढा
 ल ॥ केवलप्रभुतापाइ जिणजविजननेसुखदाइहो हि
 तकरसमरोजी विमलजिनेशरसाइ जिणेदुरगतदूरग
 माइहो हि० १२ ॥ अथ श्रीअनंतजिनस्तवन ॥ ढा
 ल ॥ रामचंद्रके० ॥ लेतांजेहनंनाम अंगउपांगधरेरी ते
 जिननामअनंत दारिद्रदूरहरेरी १४ ॥ अथ श्रीधर्म
 जिनस्तवन ॥ ढाल ॥ इणपुरकंवल० कतकसिंघासन
 वेसीदेखावे आपणोधरमतेआपदिपावे तेजिनधरमजि
 णेसरदीठो लोचनलाग्योअमिधज्युंमीठो १५ ॥ अथ
 श्रीशांतिजिनस्तवन ॥ देखीकामनीदोयकेकामेवापी

आरेके का० एदेशी ॥ अचिरामाताकुखेप्रभुतुं अवतरयोरे
 के तुं शांतिकरोजगमांहितेशांतिजितेसरुरेके शां० धोमु
 झअधिकउछांहकेजव२तारवारैके नः पांचमाचक्रवर्तिदे
 वकेसदाएसेववारैकेस० १६ ॥ अथ श्रीकुंथुजिनस्तवन ॥
 नदीयमुनाके० एदेशी ॥ अडवडिआंआधारसंसारजेअ
 वतरयोः करुणासागरनागरलोकेआदर्शयोः कुंथुनाथसु
 खसाथअनाथतणोधणी मेहेरकरोमहाराजसेवकउपर
 घणी १७ ॥ अथ श्रीअरजिनस्तवन ॥ ढालि ॥ जीहो
 अरजनेदेवअठारमा जीहोमुझमनवसीआआयः जीहो
 मुझप्यारोलागेघणुं जीहोअवरनआवेदायचतुरत्तरसा
 चाएहिजदेव १८ ॥ अथ श्रीमल्लिजिनस्तवन ॥ इंडर
 आंवांआंवलीरे एदेशी ॥ मल्लीजिणेशरमाहरारोः नाथो
 कदायकदेव पूरवपून्यप्रसायथीरे पामीमेंहिजसेवः भ
 विकजनसेवोआणीनावः जेवसमुद्रजलतारवारै अभि
 नवअविचलनाव न० १९ ॥ अथ श्रीमुनिसुव्रतजि
 नस्तवन ॥ श्रीमुनीसुव्रतवीसमाहोः सामलवरणसरीर
 सुहंकरसाहिबो कोडगमेसेवाकरेरे सारेप्रभुतीसेवः न
 विकजेतइणपरे २० ॥ अथ श्रीनमिजिनस्तवन ॥ ढा
 ल ॥ नमिजिननामजपोनितमनमां जोतुंमसुखनीचाह
 रे हरिहरब्रह्मपुरंदरछेवहू पिणइणसमकुणनाहरे न०

शमधरा नमतशिवचंदप्रभुचरणबंधा ३ काव्य ॥ स
 लिलचंदनपुष्पफलत्रयैः सुविमलाक्षतदीपसुधुपकैः
 विविधनव्यमधुप्रवरान्नके जिनममीजिरहंवसुनिर्यजे
 उँहिश्री परमात्मने अनंतानंतज्ञानशक्ति एनमः जन्म
 जरामृतनीवारणाय श्रीमत्तूरुपजिनैन्द्राय जलचंदनपु
 ष्पंदीपंधूपं अक्षतं नैवेद्यं फलं यजामहे स्वाहा १ इति ॥
 अथ श्रीअजितनाथपूजा दोषक ॥ जयजिणंददिणइं
 दसम लखिन्नविकजविकसात परमानंदसुकंदजल वि
 जियामातसुजात १ रागत्रायरहोदिलवागमेप्यारेजी
 नजी इणचालमे ॥ एकत्ररजत्रवधारिये अजितजिन
 एकत्ररजत्रवधारिये अजितजिणेसरजगत्रलवेसर कू
 रमनिजरनहारिये अ० तारणतरणविरुदसुणतेरो आ
 योसरणातिहारिये अ० ए० १ चरमसिंधुन्नवन्नयजलजि
 नपति चरणपातितमोहितारिये अ० परमानंदघनशिवब
 नितानेत्तकजमधुपानसुकारिये अ० २ चिरसंचितघनदुरि
 ततिमरहरतुमजिननएतिमेरारीये अ० एककहेशिवचंद्र
 अजितप्रभुमेरे एहत्ररजनविसारिये अ० ३ काव्य. उँ. इति
 अथ संचवजिनपूजा दोषक ॥ जयजितारिसंचवसदा
 श्रीसंचवजिनराज सकललोकजिणजीतलिय जीत्यो
 मोहसमाज १ जैनाकरगुणपूर सेवोतेजसनूर नक्तिनाव

(५७८) शिवचंद्रजीकृत.

दाजितमहंता १ प० कुमतिमततिमरन्नरहरियपुनिभू
रिन्नव कुमुदसुखकरीयगुणरयणदरिया गहिरभवसिं
धुतारणतरणितरणगुण धारिन्नवितारजिनराजतरिया
२ प० राखियेआजमोहिलाजजिनराजप्रभु करणसु
खजिनचरणसरणपरिया परमाशिवचंद्रपदपद्ममकरंद
रस पाननितकरणततपरन्नरिया ३ प० ॥ काव्य०

उ० इति ॥ अथ श्रीसुविधिनाथपूजा ॥ दोधक
सुविधरसमरणथकी कामितफलप्रकटाय अतिहगहन
संसारवन बहुलअटनमिठजाय १ ॥ रागचंपककेतक
कमालती एचाल ॥ सुविधिचरणकजवंदिए अइयोवं०
नंदीएअतिचिरकाल शिवतरवारिनिकंदिए विघनकंद
ततकाल १ आजजन्मसफलोचयोए अइ० ले० दीठो
प्रजुदीदार तनमनदृगविकसतन्नए जिमकजलखिवि
नकार २ अमृतजलधरवरसियोए अइ० व० भविउ
रखेत्रमझार दरसनसुरतरुउगियो शिवफलनोदातार ३
काव्य० उ० इति ॥ अथ श्रीशीतलनाथजिनपूजा

॥ दोधक ॥ मुडतनुमनुशीतलकरो श्रीशीतलजिनरा
य तुमसमरणजलधारसे अंतरपतितपुलाय १ ॥ दा
दाकुसलसुरिदइएचालमें मेरेदीनदयालतुमभए

मकललोकप्रतिपाल आं० सुणिशीतलजिनवरमहारा

ज चरणसरणधरयो प्रभुत्राज मेरे नमनंमुंसहुसवि
 कारीदेव करिसुंचरणकमलनीसेव मे ० १ जैसैसुरम
 णिकरतलपाय कुणलेकाचसंकलउलसाय मे ० तुमस
 मसुरवरश्रवरनकोय हेरहेरजगतिरख्योजोय मे ० २
 प्रभुदरसणजलधरघनघोर लखियनृत्यकरेनविजत
 मोर मे ० पदशिवचंद्रविमलनरतार श्रिरजएहउरधरि
 येसार मे ० ३ काव्य ० उ ० इति ॥ अथ श्रीश्रे
 यांसनाथजिनपूजा ॥ दोधक ॥ श्रीश्रेयासजिनेंद्रपद
 जददुतिशालिलाधार जेनेत्रेमजनकरे तेसुचिहुइविधुसा
 र १ ॥ रागसोहमसुरपदवृषनरुपधरि एंचाल ॥ श्री
 श्रेयांसजिणेसरजगगुरु इंद्रियसदनसजदहे जिसुवसु
 विधिपूजतसेश्ररचू उरधरपरमानंदहे एसमकितधर
 श्रावककरणी हरिणीजवसनरंगरे विजयदेवजितप्रति
 मापूजी जीवाजिगमउवंग १ सूरियांनप्रभुपूजनकरि
 यो रायपसेणीउवंगहे ग्यातात्रंगेद्रुपदश्राविका पूज्या
 जिनचितचंगहे जेनिहवकुमतीजिनपूजन उथपतेहंअ
 नंतहे कांललगेनमसीजववनसे मंदमतीनयभ्रांत २
 विश्नुमाततनुजातविश्वनुप विमलकुलांबरहंसहे सक
 लपुरंतरश्रमरअसुरगणासिरुवरुप्रभुअवतंसहे इणसुर
 वरनीपरिश्रावक जेपूजेजिनउछरंगहे तेशिवचंद्रपरम

नपतत्रवतारा म० करमवैरीदलकरिजविलहिस्वयो प
दशिवचंद्रउदारा मे० ध० ३ ॥ काव्य० उ० इति ॥

अथ श्रीशांतिनाथजिनपूजा दोषक ॥ अचिरादेउरे

अवंतरी शांतिकरीसुखकार भारिविकारमिटायकरी ना

मधरयोसांतिसार १ ॥ रागविजाग भावधरिधन्यदि

नआजसफलागणुं एचाल ॥ शांतिजिनचंद्रनिजचर

एकजशरणगत तरणगुणधारिन्नववारितारी कुमतज

नबिपिनजनि कुमतिघनव्रततति तिष्ठितिनिसितधार

तरवारिवारी शां० १ एकत्रविपदउन्नयचक्रधरतीर्थ

करि धारियावारियाविघनसारा सकलमदमारियावि

मलगुणधारिया सारियाजक्तिवांछितअपारा शां० २

हरिणलंछनधराकरणसुवणकरा सुरवराहितधरागत

विकारा मोहनटधरणिधरगणहरणवजधर कुमुदशि

वचंद्रपदरजनकारा शां० ३ काव्य० इति ॥

अथश्रीकुंथुनाथजिनपूजा॥दुहा॥सतरमजिनवरदीवस

म मुडिन्नवसागरजान भक्तियुक्तिनितपूजिये लहियेश्र

मलविनाण १ ॥ राग अरहंतपदनितध्याइए एचाल ॥

कुंथजिणंदमुणगाइये मनवांछितफलपाइयेरे प्रनुस

मरणलवलाइये नविन्नवतजिशिवजाइए कुं० १ नव

जलगतनिजआतमा वारी० करुणाउरधरताइयेरे चर

एकरणउपयोगिता ग्रहणकरणकूं ध्याइयेरे वा०० कुं०
 २० एप्रचुदरसणजीवने श्रनुचवरसनोदाइरे वरशिवचं
 द्रविमलवधे दिनदिनसोजसंवाइरे वा०० कुं० ३ ॥ का
 व्य० उं० इति ॥ अथ श्रीश्ररनाथजिनपूजा ॥ दुहा
 जिनअठारमोध्याइये चवियणचित्तमंडार करणतीन
 इककरमुदा प्रतिदिनजयजयकार १ ॥ वसंतसंगला
 गोहोश्रावेकुणखेलतोसूहोरिरे ॥ एचाल ॥ निजविमल
 चक्तिसे श्ररजिनसेनितरमियेरे नि० श्र० जिनगुणनि
 जगुणतुल्यकरणकूं चंचलचितहयदामिरे नि० १ ॥ सु
 मतियुवतिसंगमउरधरिके कुमतिनारसंगगामिरे नि०
 श्रनुचवअमृतपानकरणसे ॥ विषयविकृतिविषवामियेरे
 नि० २ ॥ जिनवरसंगिरमाणदवश्रनले ॥ पंकसघनवरध
 मियेरे कहेशिवचंद्रजिनेंद्रमाणसे चववनमेनहिभामिये
 रे नि० ३ ॥ काव्य० उं० इति ॥ अथ श्रीमल्लिजि
 नस्तवन ॥ दोधक ॥ उगणीसमजिनचरणकज ॥ नमर
 होयलयलाय सेवेतसुभवचमरतां श्रगणिततुरितविला
 य १ ॥ राग मल्लिजिणंदउपगारीरेवाला ॥ मल्लिजिणंद
 उपगारी हारेहोरेवाला ॥ वारीजाउवारहजाररेवाला ॥ म
 कुंनरेसरगगनांगणमे ॥ सहसकिरणअवतारीरेवाला
 म० १ ॥ पूरवचवखटमित्रनरिंदप्रति बोधिसिंधुचवतारी

(५८४) सिवचंद्रजीकृत.

वेदत्रयीविरहीतनुधारचो सकलसंघसुखकारीरेवाला
म० २ सकलकुसलहरिचंदनतरुवर नयनवनत्र
नुकारी संघचतुरविधभूरिखचरगण प्रणतचंद्रमनु
हारीरेवाला म० ॥ काव्य० उँ० इति ॥ अथ
श्रीमुनीसुव्रतजिनपूजा ॥ दुहा पद्मादेरवरपद्मनद ग
तपरपद्मसमान विंशतितमप्रभुपूजिये केवललच्छिनि
धान १ ॥ गरवो सुणचतुरसुजाणपरनारीसुप्रीतडी
कवहुनकीजिये एचाल ॥ सुणसुव्रतजिनेंद्रसुनिजरधरि
मुझपरवरदरसणदीजीये प्रभुदरशप्रीतनिरुपाधिकता
करियेलहियेशिवसाधकता तवतुरतमीटेशिवबाधकता
१ सु० अमृतमैसाध्यपणोविलसे प्रभुदरशणसाधन
ताउलसे तदमुझमैसाधकतामिलसे सु० २ चिन्नाधि
करणतायदिविघटे एकाधिकरणतायदिसुघटे तदमुझ
शिवसाधकताप्रगटे सु० ३ एकाधिकरणतामुझकरिये
चिन्नाधिकरणतापरहरिये शिवचंद्रविमलपदतदवरि
ये सु० ४ काव्य० उँ० इति ॥ अथ श्रीनामि
नाथजिनपूजा ॥ दुः अंतरवरिनमाविया तवलहियोनामि
नाम भावियणएप्रनुपुजसे सरियेवांछितकाम १ ॥ राग
हमत्रा एहसरणतिहारे तुमप्रभुसरणागततारे एचाल ॥

श्रीनामिजिनवरचरणकमलमे नयननमरजुगधरिऐरे

सिवचंदजीकृत. (५८५)

तिणाकिप्रगुणमकरंदपानसे चेतनमदमतकरियेरे वारी
 चेतने० श्री० १ एहचरणकजअहनिसविकसे परकज
 तिशिकुमलावेरे वा० प० एनवलेवलतिहीनअनलसे अप
 रकमलबलजावेरे वारी. श्री० २ एपदकजगुनमधुरसपी
 वत जीवअमरतापावेरे वा० अवरकमलरसलोभांमधु
 कर कजगतगजगिलजावेरे वा० श्री० ३ परकजनि
 जगुणलछपात्रहे पदकजसंपददेवेरे तातेपदशिवचंद्र
 जिणंदके अहनिससुरनरसेवेरे वा० श्री० ४ ॥ का
 व्य० उ० इति ॥ अथ श्रीनेमनाथजिनपूजा ॥
 बाविसमजिनजगगुरु ब्रह्मचारिविख्यात इणवंदनचंद
 नरस पापतापमिटजात १ राग रामगिरि गात्रलूहे
 जिनमनरंगसुरंदेवा एचाल ॥ नेमजिणंदउरधारिये
 रेवाला विषयकपायनिवारियेरेवाला वारियेहारेवाला
 वा० एजिननेनविसारीयेरे जलधरजिमप्रभुगरजतारे
 वाला देसनाअमृतवरसतारेवाला वर० अविकमोरसु
 णिउलसितारे २ समवसरणगिरिरह्यारेवाला जा
 मंडलचपलावह्यारेवाला भा० सुरनरचातकउमह्या
 रे ३ बोधबीजउपजावियेरेवाला अविउरक्षेत्रवधा
 वियेरेवाला० अ० अविकमुगतिफलपावीयारेवा
 ला ४ ॥ काव्य० उ० इति ॥

(५८६)

शिवचंद्रजीकृत.

अथ श्रीपार्श्वनाथजिनपुजा ॥ दोधक ॥ अस्वसेननंद
नसदा वामोदरखनिहीर लोकशिखरसोनेप्रभु विजि
तकरमचडवीर १ ॥ वाजेतेराविछुवावाजेतेराविछुवा
केरवाकीचाल ॥ पासजिणंदाप्रभुमेरेमनवासिया पा०
मेरेमनवसीयारेमेरे० शिवकमलाननकमलविमलकल
तरमकरंदपानअतिरसिया पा० वामानंदनमोहनमूर
त सकललोकजनमनाकियवासिया पा० १ परमज्यो
तिमुखचंद्रविलोकित सुरनरनिकरचकोरहरसीया च०
पा० अंजनगिरतनुदुतिजिनजलधर देसनअमृतधार
वरसिया धा० पा० २ पीयकरजविचिरकालतिरसी
या मुगतियुवतितनुतुरतपरासिया पा० कुमुदसुपद
शिवचंद्रजिणंदनी वारीजाउंमनमेरोअतिहउलसीया
पा० ३ ॥ काव्य० उँ० इति ॥

अथ श्रीमाहाविरजिनपुजा ॥ दोधक ॥ वरइक्षागकुकुल
केतुसम त्रिसलादेरअवतार एप्रभुनीनितकिजिये वि
विधजक्तिसुखकार १ रागतेज तरणिमखराजेहारेमुख
राजेप्रभुजीनो एचाल ॥ चरमविरजिनरायाहारेजिनरा
यामेरेप्रभुचरमविरजिनरायाहारे. सिद्धारथकुलमंदिर
धजसम त्रिसलाजननीजाया निरुपमसुंदरप्रभुदरश
एते सकललोकसुखपाया हारेसु० मे० १ वामचर

एकजअंगुष्ठफरसते सुरगिरवरकंपाया इन्द्रजूतिगण
 धरमुनिजन सुरपतिवंदितपाया हारिवं० मे० २ वरत
 मानसासनसुखंदाया चिदानंदघनकाया चंद्राकिरण
 गणविमलरुचिरशिव चंद्रगणीगुणगाया हारिगु० मे०
 ३ वरसनंदिमुनिनागधरणिमित द्वितयाश्विनमनजाया
 धवलपक्षप्रंचमितिथिशानियुत पुरजयनगरसुहाय हारि
 न० मे० ४ श्रीजिनहरपसूरिसुरीसर वरस्वरतरगछरा
 या क्षेमकीर्तिशाखाभुपणमणि रुपचंद्रउवज्ञाया हारि
 उ० मे० ५ महापूर्वजसुभुरिनरेस्वर वंदेपदउलसा
 या तासुसीसवाचकपुण्यशलिगण तसुसिषनामधरा
 या हारिना० मे० ६ समयसुंदरअनुग्रहिरुषिमंडल
 जिनकिसोभसवाया पूजरचीपाठकशिवचंदे आ
 नंदसंघवधाया हारिसं० मे० ७ काव्य० उं० इति ॥
 स्वाधरावृत्तद्वयम् ॥ दुर्वारस्फारविघ्नोत्कटकरटिघटो
 त्याटनस्यष्टजाग्र द्वीर्यप्राग्भरिचंवत्कुसलहरिदरिजि
 त्वरीदुर्मतानां संसारापारसिंधूत्तरणतरतरीनक्तिजाजा
 मजस्रनव्यानां ब्रह्मपद्मप्रवणमधुकरिसंकरीसंकरीसा
 १लोकालोकप्रलोकास्खलितविमलसदर्शनज्ञानकांति
 श्रीमज्जेनेश्वरियांत्रिभुवनविभुतासिश्चतुर्विंशतिश्च श्री
 सिद्धानंतनाथालयविसदलसत्सर्वलोकाग्रजाग प्रसा

(५८८)

शिवचंद्रजीकृत.

दायप्रदेशेजगतविजयतैवैजयंतीजयंतिरइति शिवचंद्र
कृत शीषमंडल पूजा संपूर्णम् ॥

इतिचोवीशीसमुदायसंपूर्णे

अथ श्रीवीशीयो प्रारंभते ॥
 अथ श्रीजसोविजयजीकृत वीसीः
 अथ श्रीमंधरजिनस्तवन ॥ इडरआंवाआंवलीरे एदे
 शी ॥ पुखलवइविजएजयोरै नपरीपुंडरिगणिसार श्री
 सिमंधरसाहिवारे रायश्रेयांसकुमार १ जिणंदाराय ध
 रज्योधर्मसनेह आंकणी सोटानाहनांअंतरोरे गिरुआ
 नविदाखंत सासिदरिशाणसाधिरवधेरे कैरववतविकसं
 त २ जि० ठामकुठामनविलेखवैरे जगवरसंतजलधा
 र करंदोइकुसुमेवासीएरे छायासविआधार १ जि०
 रायरांकसरिखागणैरे उद्योतेससिसूर गंगाजलतेबिहु
 तणारे तापकरेसविदुर ४ जि० सरिखासहुनेतारवार
 तिमतुमेलोमहाराज मुझस्युंअंतरकिमकरारे वाहेग्रह्य
 नीलाज ५ जि० मुंहदेखीटीलुंकरेरे तेनविहोवेपरमा
 ण भुजरोमानेसवितणारे साहिवतेहसुजाण ६ जि०
 वृषजलंछनेमातासत्यकीरे तंदनरुखमिणकंत वाचक
 जसइमवीनव्यारे जयचंजनजगवंत ७ जि० इति ॥
 अथ श्रीयुगमंधरजिनस्तवन घणराढोला एदशी ॥
 श्रीयुगमंधिरमाहरेरे तुमस्युंअविहडरंग मननामान्धा
 चोलमजीठतणीपरैरे तेतोअचलअचंग गुणनागेही १
 अविजनमनत्रांबुकरेरे वेधककंचनवान म० फरित्रांबु

(५९०) जशोविजयजीकृत.

तेनविहुएरेरे तिमनुंमनेहप्रमाण गु० २ एकउदकजव
जिमजल्योरे श्रखयजलधीमांसोय म० तिमतुझस्युं
गुणनेहलोरे तुझसमजगनहिकोय गु० ३ तुझस्युंमुझ
मननेहलोरे चंदनगंधसमान म० मेजहुओएमुलगोरे
सहजस्वचावनिदान गु० ४ वप्रविजयविजयापुरीरे
मातसुतारानंद म० गजलंछनप्रियमंगलारे राणीमन
यानंद गु० सुद्वठरायकुलदिनमणीरे जयजयतुंजिनराज
श्रीनयविजयविविधतणोरे सीसनेद्योसिवराज गु० ६ इति
अथ श्रीबाहुजिनस्तवन ॥ देशी नणदलनी ॥ साहि
वबाहुजिणेसरवीनवूं वीनतडीअवधारहो सा० जव
भवथीहूंउजग्यो हिवेजवपारउतारहो १ सा० तुमस
रीखामुझसिरछते करमकरेकिमजोरहो सा० भुजंग
तणोजयतिहांनही जिहांवनविचरेमोरहो २ सा० जि
हांरवितेजेझलहले तिहांकिमरहेअंधारहो सा० केसरि
जिहांक्रीडाकरे तिहांनहीगजप्रचारहो ३ सा० तिमजो
तुमेमुझमनरमो तोनासेदुरितसंभारहो सा० वछविजय
सुसीमापुरी रायसुग्रीवमल्हारहो ४ सा० हरणलंछ
नइममेंस्तव्यो मोहनीराणीनोकंतहो सा० विजयानं
दनमुझदीओ जसकहेसुखअनंतहो ५ सा० इति ॥

अथ श्रीसुबाहुजिनस्तवन ॥ चतुरसनेहीमोहनां एदे

जशोविजयजीकृतः (५९१)

शी ॥ स्वामीसुबाहूसुहंकरु भूनंदानंदनप्यारोरे निस
 ढनरेसरकुलतिलो किंपुरुषाजरतारोरे १ स्वा० कपि
 लंछनललितावति वप्रविजयश्रजोध्यानाहोरे रंशेमि
 लियतेहस्युं एहमणुअजनमतोलाहोरे २ स्वा० तेदिन
 सविश्रहिलेगया जिहांप्रभुस्युंगोठिनबांधीरे जगति
 दूतीकाइमनहरचूं पणवातकहीछेश्राधीरे ३ स्वा० अ
 नुचवमीत्तजोमोकलुं तोतेसघलीवातजणावेरे पणतेह
 विणमुझनविसरे कहोतोपुत्रविचारतेआवेरे ४ स्वा०
 तेणेजइवातसवेकही प्रचुमेल्यातेध्यातनेटाणोरे श्रीन
 यविजयविवुधतणो इमसेवकसुजसवखाणोरे ५ स्वा०
 इति ॥ अथ श्रीसुजातजिनस्तवनः ॥ रामचंदके
 बागचांपोमोरीरह्योरी एदेशी ॥ साचोस्वामीसुजात पू
 रवअरधजयोरी धातकीखंडमझार पुष्कलावइविजयो
 री नयरीपूंडरगिणीनाथ देवसेनवंसतिलोरी देवसेना
 नोपूत लंछनचानुचलोरी २ जयसेनानोकंत तेहस्युं
 प्रेमधरयोरी अवरनआवेदाय तेणेवसिचित्तकरयोरी
 ३ तुमेमतिजाणोदूर जइपरदेशरह्यारी छोमुझचित्तह
 जूर गुणसंकेतग्रह्यारी ४ उगेचानुंआकास सरवर
 कमलहसेरी देखीचंदचकोर पीवाअमीश्रधसेरी ५
 दूरथकीपणतेम प्रभुस्युंचित्तमित्यूरी श्रीनयविज

(५९२) जशोविजयजीकृत.

यसुसीस कहेगुणहेजेहिल्युंरी ५ इति ॥
 अथ स्वयंप्रभुजिनस्तवन देशी पारधीयानी स्वामी
 स्वयंप्रभुसुंदरुरे मित्रनृपतिकुलहंसरे गुणरसीश्री मा
 तसुमंगलाजनमीयोरे ससीलंछनसुप्रसंसरे मनवसी
 श्री १ वप्रविजयविजयापुरीरे धातकीपूरवश्रद्धरे गु०
 प्रियसेनापिउपुन्यथीरे तुमसेवामेलद्धरे म० २ चख
 वीसमाक्तिसुखडीरे हेलवीश्रहूंबलरे गु० केवलर
 ललह्योविनारे नतजूचरणत्रिकालर म० ३ एकनेल
 लचावीरहोरे एकनेश्रापोराजरे गु० एतुमकरवोकिम
 घटरे पंक्तीभेदजिनराजरे म० ४ केडिनछोडुंताहररी
 श्राप्याविणाशिवसुखरे गु० नोजनविणजाजेनहीरे जां
 मणडेजिमभुखरे म० ५ आसंगागतजेहुस्यरे तंकहसे
 सोवाररे गु० नोलिजगतेरीझस्यरे साहिबपणनिस्था
 ररे म० ६ सविजाणैथीडुंकहरे प्रभुतुंचतरसुजाणर
 गु० वाचकजसकहेदीजीएरे वंछितसुखनिरवाणरे म०
 ७ इति ॥ अथ श्रीरुषज्ञाननजिनस्तवन ॥ बन्या
 कुंश्ररजीनोसेहरो एदेशी ॥ श्रीरुषज्ञाननगुणनिलो
 साहेमृगपतिलंछनपायहो जिणंद मोहेमनतुंसवित
 णा जलीवीरसेनातुझमायहो जि० १ श्री. वछविजये

सुसीमापुरी खंड धातकी पूरव जागहो जि. राणीजयावती

नाहलो कीरतनृपसुतवडजागहो जि० २ श्री० हुंपूछूक
 होतुमेकिणपरे दिश्रोचगतिनेमुगतिसंकेतहो जि० रु
 सोनहिनिद्याकारणे तुसोनहीपूजाहितहो जि० ३
 श्री० विणसमकितफलकोनविलहे एहग्रंथेछेअवदात
 हो जि० तोएस्यावासीतुमनेचढे तुमेकहिवाओजगता
 तहो जि० ४ श्री० हवेजाण्युंमनवांछितदीए चिंताम
 णिनिसुरकुंजहो जि० अगनीमिटावेसीतने जेसेबेथइ
 थिरथंभहो जि० ५ श्री० जिमएगुणवस्तुस्वजावथी
 तिमतुमथीमुगतिउपायहो जि० दायकनायकओपमा
 नगतेइमसांघकहवायहो जि० ६ श्री० तपजपकिरी
 याफलदीये तेतुमगुणध्याननिमित्तहो जि० श्रीनयवि
 जयविवुघतणो सेवकनेपरमतुंमित्तहो जि० ७ श्री०
 अथ श्रीअनंतवीर्यजिन स्तवन ॥ नारायणदेशी ॥
 जिममधूकरमनमालतीरे जिमकुमुदनीचित्तचंदो जिणंद
 राय जिमगजमनरेवानदीरे कमलामनगोविंदहो जि०
 १ इयुंमेरेमनतुंत्रस्योजी आंकणी ॥ चातुकचितजिममे
 हलारे जिमपंथीमनगेहरे जि० हंसामनमानसरोवर
 रे तिममुद्गतुझस्युंनेहहो जि० २ इ० जिमनंदनवन
 इंदनेरे सीतानेवालोरामरे जि० धरमीनेमनसंवरु
 व्यापारीमनदामरे जि० ३ इ० अनंतवीर्यगुणसागरु

(५९४) जशोविजयजीकृत.

रे धातकीखंडमझाररे जि० पूर्वअरधनलिनावतीरे वि
जयअजोध्याधाररे जि० ४ इ० मेघरायमंगलावती
रे सुतविजयावतिकंतरे जि० गजलंछनयोगीसरुरे
जिमसरुमहामंतरे जि० ५ इ० चाहेचतुरचुडामणीरे
कविताअमृतनीकेलरे जि० वाचकजसकहेसुखदीअरे
मुझतुझगुणरंगरेलरे जि० ६ इ० इति ॥ अथ
श्रीसुरप्रभजिन स्तवन ॥ रामपुरावेजारमां एदेशी ॥
सुरप्रभजिनवरधातकी पछीमअरधेजयकार मेरेलाल
पुष्कलावइविजयेसोहामणो पुरिपुंडरिगिणिसिणगार
मे० चतुरसीरोमणीसाहिबो आंकणी ॥ नंदसेनानोना
हलो हयलंछनविजयमल्हार मे० विजयावतीकूखेउ
पनो त्रिभुवननोआधार मे० २ च० अलवेजससाह
मूंजोए करुणाअरनयनविलास मे० तेषामेप्रभुताजग
तणी एहवोछेप्रभुसुखवास मे० ३ च० मुखमटकेज
गजनवसकरे लोयणलटकेहरेचित्त मे० चारित्रचटके
पातिकहरे अटकेनहिकरतोहित्त मे० ४ च० उवया
रीसिरसेहरो गुणनोनविआवेपार मे० श्रीनयविज
यसुससिने होज्योनितमंगलमाल मे० ५ च० इति ॥

अथ श्रीविसालजिनस्तवन ॥ देशी लुहारी

नी॥धातकीखंडेहोकेपछिमअरधजलो विजयानयरीहो

केवप्रतेविजयतिजो तिहांजिनविचरेहोकेस्वामीविशा
लसदानित२वंदूहोकेविमलांकंतमुदा१नागरनरसरहो
केवंसउद्योतकरुः चद्राएजायाहोकेपरतक्षदेवतरुः भानु
लंछनहोकेमिलवामनतलसे तसगुणसुणियाहोकेश्रव
णेश्रमीवरसे । आंखडीदीधीहोकेजोहोएमुझमनने पां
खडीदीधीहोकेअथवाजोतनने मनहमनोरथहोकेतोस
वितुरतफले तुझमुखदेखवाहोकेहरखीतहेजमले ३ आ
डाडुंगरहोकेदरीयांतदियघणी पणसकतिनतेहवीहो
केआवूंतझनणी तुझपायसेवाहोकेसुरवरकोडिकरे जोइ
केआवेहोकेतोमुझदुखहरे ४ अतिघणुरातीहोकेअगनि
मजीठसहे घणस्युंहणीयेहोकेदेशविधोगलहे पणगि
रुआप्रचूस्युंहोकेरागतेदुरितहरे वाचकजसकहेहोकेध
रीएचित्तखरे ५ इति ॥ ॥ अथ श्रीवज्राजिनस्त्व
न ॥ साहारासुगणसनेहाप्रभुजी एदेशी ॥ संखलंछन
वज्रधरस्वामी मातासरसतिसुतसिंवगामीहो जावेम
विवंदो नरनाथपदमरथाजायो विजयावनिचित्तसुहा
याहो जा १ खंडधातकीपछिसजागे प्रभुधरमधुरंध
रजागेहो जा २ वछविजयमानयरीसुसीमा तिहांथापे
धरमनीसीमाहो जा ३ प्रचुमनेअमेवसवुंजेह स्वपने
पणदुर्जनतेहंहो जा ४ पणअममत्तप्रभुजाविससे तो

(५९८) जशोविजयजीकृतः

णारे एदेशी ॥ भुजंगदेवजावेजजो रायमहावलनंद
लालरे साहिमाकुखेहंसलो कमललंछनसुखकंदलालरे
भु० १ वप्रविजयविजयापुरी करेविहारउछाहलाल
रे पूरवअरधेपुरकरे। गंधसेनानोनाहलालरे भु० २
कागललिखवोकारमो आवेजोदुरजनहाथलालरे भु०
अणामिलवुंदूरेतरे चित्तफिरेतुमपासलालरे भु० ३ कि
सिअसारनकीजीये तुमेजाणोछोजगजावलालरे साहि
बजाणअजाणने साहमुंकरेप्रस्तावलालरे भु० ४ खिम
जतमांखामीनही मेलनमनमांकोयलालरे करुणापुरण
लोयणे साहमुंकांइनजोयलालरे भु० ५ आसिंगोमो
टातणो कुंजरप्रहवोकानलालरे वाचकजसकहेवीन
ती जगतिवसेमुझमानलालरे भु० ६ इति ॥

अथ श्रीइश्वरजिनस्तवन ॥ राजाजोमिले एदेशी ॥
नृप्रगजसेनजसोदामात नंदनइश्वरगुणअवदात स्वा
मसिबीए पुष्करवरपूरवारधकछ विजयसुसीमानयरी
अछ स्वा० १ ससीलंछनप्रजुकरेरेविहार राणीचद्राव
तिनोअरतार स्वा० जेपामेप्रभुनादीदार धनरतेनर
नोअवतार स्वा० २ धनतेतनाजिननमीएपाय धनते
मनजेप्रभुगुणध्याय स्वा० धनजेजीहांगुणगाय धन्य
तेवेलावंदनथाय स्वा० ३ अणामिलवेउतकंठाजौर मि

जशोविजयजीकृतः (५९९)

लवेविरहतणोचयसोर स्वा० अंतरंगमिलवेजीउछांहि
 शोकविरहजिमदूरेपलाय स्वा० ४ तुंमातातुबंधवमुझ
 तुंहीपीतातुझसुंमुझगुझ स्वा० श्रीनयविजयविवुधनो
 सीस वाचकजसकहेपुरोजगीस स्वा० ५ इति ॥
 अथ श्रीनेमिप्रभूजिनस्तवन ॥ थारेमांथेपचरंगीपा
 गसोनानोछोगलोमारुजी एदेशी ॥ पुष्करवरपुरवत्र
 रधदिवाजेरे साहिवजी नलिनावतीविजयेनयरीअजो
 ध्याछाजेरे सा० प्रभुवीरनिरेसरवंसदिणेसरध्याइएरे
 सा० सेनासुतसाचोगुणस्युंजाचोगाइएरे सा० १ मो
 हनीमंतवल्लभदरसनदुरलजजासरे सा० रविचरणउ
 पासोकिरणविलासीखासरे सा० नविजनमदरंजनजा
 वठजंजनजंगवतरे सा० नेमिप्रभुवंदुपापनिकंदूतंतरे
 सा० ३ घरसुरतरुफलीयोसुरमणिमिलिआहाथरे
 सा० करिकरुणापुरीअघचूरीजगनाथरे सा० अमि
 धनवुठावलितुठासविदेवरे सा० शीवंगामिपामीजोमेतु
 झपयसेवरे सा० ३ गंगाजलनाह्योउमाह्योआजरे
 सा० गुरुसंगतसारीमुझअवधारीलाजरे सा० म्होमा
 गयाजाग्यापुरवपुन्यअंकुररे सा० मनलीनोकीनोतु
 झगुणप्रेमपंडुररे सा० ४ तुंदोलतदातातुंजगत्राता
 माहाराजरे सा० चवसायरतारोसारोवंछितकाजरे

(६००)

जशोविजयजीकृत.

सा० दुखचूरणपूरणकीजेसयलजगीसरे सा० अरदा
सप्रकासेश्रीनयविजयसुसीसरे सा० ५ इति ॥

अथ श्रीवीरजिनस्तवन ॥ श्रीरषिन्नोवंसरयणायरो
एदेशी ॥ पछिमअरधपुष्करवरे विजयपुखलवइदीपेरे

नयरिपुडरिगिणीविहरता प्रभूतेजेरविजीपेरे १ श्रीवी
रसेनसुहंकरु एआंकणी चानुसेनाभुमीपालनो अंग

जगजगतिवंदोरे राजसेनामनवल्लहो वृषनलंछनजिन
चंदोरे २ श्री० मसिविणजेलिख्यातुझगुणे अक्षरप्रे

मनाचित्तरे धोइएतिम२उघडे नगतिजलैतेहनितरे ३
श्री० चक्रवर्तिमनसुखधरे रुपनकुटेलिखीनामोरे अ

धिकारितुझगुणतेहथी प्रगटहुआठामठामोरे ४ श्री०
निजगुणगुंथिततेकरी कीरतिमोतीनीमालारे तेमुझकं

ठेआरोपतां दीसेझाकझमालारे ५ श्री० प्रगटहुएजि
मजगत्रमां सोजासेवककेरीरे वाचकजसकहेतिमकरो

साहिबप्रीतघणेररे ६ श्री० इति ॥ अथ श्री
महानद्रजिनस्तवन ॥ आजहोछाजेरे एदेशी ॥ देव

रायनोनंद मातउमामनचंद आजहोराणीरेसूरिकंता
कंतसोहामणोजी १ पुष्करपछिमरद्व विजयतेवप्रसुव

द्व आ०नयरीरेविजयाएविहरेगुणनिलोजी २ माहा
भद्रजिनराय गजलंछनजसपाय आ० सोहेरेमाहेम

नलटकालेलोयणेजी तेहस्युंमूझअतिप्रेम परसूरनंम
 वानेम आ० रंजेरेदुखजंजेप्रनुमूझतेगुणेजी ४ धर्म
 घोवननवरंग समकितपाम्योचंग आ० लाखीणीला
 डीमुगतितेमेलस्येजी ५ चरणधर्मअवदात तेकन्या
 नोतात आ० माहराप्रभूजीनेतेछेवससदाजी ६ श्रीनि
 यविजयसुसीस जसकहेसुणोजगदसि आ० तारोरेहुं
 सेवकदेवकरोदयाजी ७ ॥ इति ॥ अथ श्रीचं
 द्रयसाजिन स्तवन ॥ चंद्रयसाजिनराजीओ मनमो
 हनमेरे पुष्करदीवमझार म० पछमअरधसोहामणो
 म० वछविजयसंजार म० १ नयरीसुसीमाविचारता
 म० संवरभूतिकुलचंद म० ससिलंछनपदमावती म०
 वल्लजगंगानंद म० २ कटीलीलाएकेसरि म० तेहा
 रयोगयोरान म० हरचोहिमकरतुझमुखे म० हजीय
 वलेनहीवान म० ३ तुझलोचनथीलाजीया म० कम
 लगयाजलमांहि म० अहिमतिपातालेगयो म० जी
 त्योखलीततुझवांह म० ४ जीत्योदिनकरतेजस्युं म०
 फिरतोरहेतेआकाश म० निंदनआवेतेहने म० जेह
 मनिरवेदअभ्यास म० ५ इमजीत्योतुमेजगतने म०
 हरिलीयेंचित्तरतन्न म० बंधुकहावोजगत्रना म० ते
 किमहोयेउपमन्न म० ६ गतितुमेजाणोतुमतणी म०

(६०२)

जशोविजयजीकृत.

हुंसेवंतुज्ञपाय म० सरणकरेबलीयातणुं म० जसकहे
तससुखथाय म० ७ इति ॥ अथ श्रीअजित
विर्यजिनस्तवन ॥ एछंडिकिहाराखी एदेशी ॥ दीव
पुष्करवरपछिमत्ररधे विजयनलिनावेइसोहे नयरीअ
योध्यामंडनरुवस्तीक लंछनजिनजगमोहेरे १ नवि
आं अनंतविरयजिनवंदो एआंकणी ॥ राजपालकुल
मुगटनगीनो मातकनिनिकाजायो रतनमालाराणी
नोवलन परतक्षसुरमणिपायोरे न० २ दुरिजनसुं
करीजेहुयोदुषण हुयेतससोषणइहा एहवासाहिबना
गुणगाये पवित्रकरुंहुंजीहारे भ० ३ प्रनूगुणगंगाज
लेन्हाइ कीयोकर्ममलदूरे स्नातकपदजिननगतिलहि
ये चिदानंदनरपुररे ४ न.जेसंसर्गअनेदारुपे समापत्ति
मुनिमाने तेजिनवरगुणथुणतांलहीये ज्ञानध्यानलय
ताने ५ न० स्पर्सज्ञानइणपरेअनुभव त्यांदेखीजेजि
नरुप सकलजोगजीवनतेपामी निस्तरियेनवकूपरे
न० ६ सरणत्राणआलंबनजिनजी कोइनहीतसतो
ले श्रीनयविजयविबुधपयसेवक वाचकजसइमबोले
न० ७ इति ॥ इति श्रीजसोविजयजी कृत वीशी संपूर्ण

विनयविजयजीकृत. (६०३)

अथ श्रीविनयविजय उपाध्यायजी कृत त्रींसीः
 अथ श्रीमंधरस्वामीभास ॥ रागकेदारो ॥ नयरीवि
 नीतामाहीतुमेछोरायारे मातातुम्हेछोराया एदेशी ॥
 सीमंधरस्वामीसुणजोवीनती कीजेरेस्वामीवीनतीवा
 जे दरिसणंदयाकरिअहमनेदीजेरेस्वामी सगुणसनेही
 तोरे हियडुंरीझेरेस्वामी ० चरणतुह्यारारे लागीशिवसु
 खलीजेरे सा ० १ विजयपुंखलावेइवेगलोवासरे नय
 रिपुंडरिगिणीलीलविलासरे सा ० वांदवानीतोहिज
 पुगेअहमनेआसरे सा ० गयणागामिणिविद्याजोहोय
 पासरे सा ० २ मुखडुंवाल्हानुंजोवाहियडुंहिसरे सा ०
 कवारीजाणुंएवाल्होनयेणंदीसरे सा ० जेहदिनतुह्यत
 णेपासेआवीसरे सा ० धनधनदिनतेहविसूआवीसरे
 सा ० ३ वाल्हास्युंवातडीकरतांवेलाजेजायेरे सा ० सस
 वादीसघलीतेआउखामांहिरे सा ० श्रेयांसराजानाकुं
 वरप्रणमुंपायरे सा ० मनमंदिरमुझआवोजिमसुखथा
 यरे सा ० ४ सुरनरसेवेजेहनापायोरे सा ० साहिव
 सोजाजागी परवपुण्येतेपायोरे सा ० वृषजलछंनमा
 तासतकीजायोरे सा ० राणिरुकमिणीवालहोविनये
 गायोरे सा ० ५ इति ॥ अथ श्रीयुगमंधर
 जितनास ॥ रागकेदारो ॥ सुणिमेरिसजनीरजनीन

(६०४)

विनयविजयजीकृत.

जावरे एदेशी ॥ सामिजुगीधरसुणिससनेहारे दरिस
एदाखोअह्यगुणगेहारे इणेअलजेसेअह्यदेहारे जिम
चातकचितेमनमेहारे १ सा० जिम२सुणिएगुणतुह्य
केरारे तिम२मिलवाहर्षघणारे श्रवणनयणस्थुंलाग्यो
वादरे तेहनिवारोकरीयप्रवादरे २ सा० तुह्येअमनेदे
खोछोनाहारे अमनेतुमजोवाउमाहारे एकपखीकिम
वाधेप्रीतरे नयणमिलावेसुखहोयेचित्तरे ३ सा० वि
जयवप्रविजियापुरिइसरे सुदढरायकुंवरजगदीसरे मा
तासुतारानंदनवंदोरे गजलंछननमतांआनंदोरे ४
सा० प्रियमंगलाराणीनाकंतरे घनधातीनोकीजेअंत
रे केवलज्ञानदीओसुखकंदरे विनयविलोकेतुममखचं
दरे ५ सा० इति ॥ अथ श्रीबाहुजिनजास ॥

रागअसाउरिसिंधुओ ॥ राजुलरंगीकेरतिरुपेजसारे
एदेशी ॥ बाहुजिणेसरआजकेवंदोमनधरीरे सारोआ
तमकाजकेनवदूतरतरीरे एहवोबीजोकोयनजोवासा
रिखोरे काचफटिकतजीदुरकेहीरोपारिखोरे १ जिनमु
खजोताहेजकेहियडुंउल्हसेरे दिनकरदेखीरुपकेजिम
पंकजहसेरे गुणवंतासुंगोठकेचितचाहेधणुरे पणपामी
जेपुण्यहोयजोआपणुरे२ जवदीठोजिनरायकेओरन
मनवस्येरे चाखीसाकरकोणकेरझिखलरसेरेप्रनुनीवा

पीसारकेमीठीसेलडीरे टालेनवसंतापकेगुणनीवेलडी
 रे ३ वल्लविजयसिएगारकेसामीसोहामणारे नयरि
 सुसीमानाहकेसुतविजयातणारे रायसुग्रीवमल्हारके
 जनमनमोहतोरे हिरणचरणरणह्योजासकेलछनसोहतो
 रे ४ मोहनीराणीकंतकेकलिमलश्रपहरेरे विरहमान
 जिनएहकेसुखसंपदचरेरे किर्त्तिविजयउवज्ञायनोसेव
 कइमन्नणैरे विनयवसेसुखवासकेचरणेतुमतणैरे ५
 इति ॥ अथ श्रीसुबाहुजिननास ॥
 रागमल्हार ॥ ओसखिभ्रमियरसालके वंदोविषझरी
 रे २ एदेशी ॥ सामिसुबाहुजिएंदकेपुजोमनरुजारे २
 नाहीनिरमलनीरकेसुरिजनसविमिलिरे २ केसरपुरी
 कपूरकेचंदनस्युंधसीरे २ रजतकचोलीसोहिकेजिनपु
 न्तमससीरे २ १ तिलककरोनवभ्रंगकेरंगेप्रभूतणैरे २
 कंठेकुसुमचीमालकेठवोउलटघणैरे २ कृश्रागरघनसा
 रकेसरसउखेवीयेरे २ देवतणोजेदेवतेएणीपरसेवीयेरे २
 २ २ वीणावेणुंमृदंगकेतालसुंमेलवीरे २ गायगुणजिन
 गीतकेनवरसकेलवीरे २ नाटिकनवरभातकेप्रभुआग
 लकरैरे ३ भावतणेअनुभावकेजिनपदअनुसरैरे ३
 विजय २ सुखकारकेजगनिखिणावतीरे नयरीश्रयोद्धा
 मोहेकेविचरोजिनपतीरे २ धन २ तेनरनारिजेप्रभु

(६०६)

विनयविजयजीकृत.

वांदसेसदारै२ निसठनरिंदमल्हारकेआपेसंपदारै
२ ४ भूनंदानोनंदनकेनमीजितेहस्युरे२ चतुरपणेमुझ
चित्तकेबांधुजेहस्युरे२ कपिलंछनजगवंतकेविनयेंआ
राधीयेंरे२ किंपुरषाभरतारकेनजीसिवसाधीयेंरे२ ५
इति ॥ अथ श्रीसुजातजिनजास ॥ रागकेदा
रो ॥ सेत्रुंजेजइएलालनसेत्रुंजेजइए एदेशी ॥ प्रहउ
ठीवंदोलालनप्रहउठीवंदो सामीसुजातमुखपुनीमचं
दोलालन० आंकणी नयणसकोमलजाणेअमीअक
चोला वयणसरसरसगंगकलोला लालन० समोवस
रणवेठासामीजीसोहे रुपअनुपदेखीत्रिभूवनमोहेलाल
न० १ पुरवअरधवरघातकीखंडें विजयपुखलावइज
वदुखखंडें ला० नयरिपुंडरिगिणीप्रजुजीविराजे क
रेविहारतिहांसबलदिवाजे ला० २ देवसेनरायकुली
मुगठनगीनो धर्मप्रकाशिजगउद्योतकीनो ला० देवा
सेनामाताजायोपुत्ररत्न जेणेजिनदिठोनयणतेधनधन्न
ला० ३ जयसेनाराणीमनमोहनकंतो अकलसरुपी
प्रभुअलखअनंतो ला० लंछणमिसिरविजसपायला
गे सबलप्रतापेंजीत्योमीनतिमागे ला० ४ वंदणअ
ह्मारीदिनप्रतिअवधारो देइधर्मलाजअह्ममहोतवधा
रो ला० दोइकरजोडिपायेनामीजेसीस विनयविज

यनमेतुमानिसादिस ला० ५ इति ॥

अथ श्रीस्वयंप्रभजिनभास ॥ रागरामगिरि ॥ रायक
हेराणीप्रति एदेशी ॥ सामिसयंप्रभसांजलो अरिहं
ताजी तुह्यस्युंअविहडनेह नगवंताजी फेडयोतेफिटैन
हिअ० जिमपथ्थरसिररेह न० १ तुह्यनथीअह्यवे
गला अ० छोअह्यहियाहजूर न० सासपहिलाजेसां
नरे अ० तेकिमथाइदूर न० २ जुतीथायेदेहडी अ०
प्रीतिनजूनीहोय न० वागेविणसिजरकसी अ० पण
सोनुसामनहोय न० ३ वप्रविजयसोहामिणो अ० धा
तकीखंडमझार न० तिहाविजयानगंरिजली अ० पू
रवअरधसिणगार भ० ४ तिहांविहरंतावंदिये अ०
मित्रभूतिनृपनंद न० सुमंगलामायजनमात्रो अ० ज
सपायलंछनचंद भ० ५ प्रियसेनाराणीतणो अ० पि
उनिरमलगुणखाण न० किरतिविजयउवझायनोअ०
विनयनमेसुविहाण म० ६ इति ॥ अथ श्रीरुप
जाननजिनभास महावीरजीनिदेशनाए एदेशी ॥ म
नहमनोरथवांदवा सखिश्रीरुपभाननदेव गिरुआसा
हिवगुणनीलो सखिजससुरजससुरसारसेव १ जयवं
ताजिणवरवंदिए सखिवांदतांवांदतांपरमानंद जयवं०
आंकणी सिहासनसुरेवररचे सखितरुअरतुंगअशोक

(६०८)

विनयविजयजीकृत.

तिहांदीयेप्रभुजिदेशना सखिदेशना २ सुणे लोक २ ज.
त्रिणिछत्रसिरसोहिये सखिचामरढालेइंद वडंसइंबारे
परषदा सखिपरषदा २ लहेआनंद ३ ज० घातकीखंड
मनोहरु सखिपूरवअरधसुहाय वछविजयसोहांकरुं
सखिनयरीएनयरीसुसीमाराय ४ ज० कीरतिराय
कुलचंदलो सखिवीरसेनाजसमाय राणिजयावतिना
हलो सखिलंछनमृगपातिपाय ५ ज० कीरतिविजयउ
झायनो सखिविनयवंदेकरजोडि विहरमानजिनवांद
तां सखिपामीये २ मंगलकोडि ६ ज० इति ॥

अथ श्रीअनंतवीर्यजित नास ॥ रागकेदारो ॥ प्रथम
गोवालातणेनवेजी एदेशी ॥ अनंतवीर्यअरिहंतनुंजी
अहजिसीकीजेध्यान समरथस्वामीसेवतांजी आपेशि
वसुखदानरे १ आतमकीजेविषयविराम लीजेजिनव
रनामरे आतम० थिरनहीदोलतदानरे आ० आंक
णी ॥ एसंसारेनवनवोजी रुपेरमीअरेआप। नरगनि
गोदतणाघणाजी पाम्यादूखसंतापरे २ आ० नाठा
दुखदोहगहवेजी पुन्यप्रगटथयांआज मनमंदीरमाहरे
वस्याजी महेरकरीमहाराजरे आ० ३ घातकीखंडेजा
णीयेजी पूरवअरधसुखकार विजयविमलनलिणावती
नयरिअयोध्यासाररे ४ आ० तिहांविचरेवसुधामणी

जी मेघनरिंदमल्हारः माताजसमंगलावतीजी विजया
वतीचरताररे ५ आ० गजलंछतसोहामणोजी स्वा
मिसदासुप्रसन्न वित्तयकहेचवेचवेहज्योजी जिनचरण
मुद्गमन्नरे ६ आ० इति ॥ अथ श्रीसुरप्रज्जि
नजास ॥ आवुशिषरेदेवता एदेशी ॥ सूरप्रभजिनसेवी
प्रेरे जेसेव्रतारेलहीयेलील वंदनिकमांहिजेवडारे जिन
संवररेमांहिसील ७ सू० तेजवंतमांहिजिमरविरे परि
मलमांहिरेजिमघतसार धातुमांहिसोवतवडुरे तरुश्च
रमांहिरेजिमसहकार १२ सू० गिरिमांहिसुरगिरिजि
स्थारे जलमांहिजिमजलधारं जगमांहिजिनशासनच
लुरे जाहियेरेजेहथीचक्रपार ३ सू० पछिमश्चरधेधातकी
रे स्वडेरेंविजयउदार मुष्कलावइपुंडरींगीणीरे नयरी
रेप्रचुकरेविहार ४ सू० विजयरोयविजयावतीरे सुत
लंछनरेससंहरजास नंदसेनातोनाहलारे पायेंनमीयेंरे
वित्तप्रेतास ५ सू० इति ॥ अथ श्रीविसालजि
नजास ॥ प्रद्वपुरंजगिजाणीयें एदेशी ॥ मनमिलवा
मुद्गअलजपु वंदणदेवदयालरे दुरेजइवांलिमवस्या
साजनस्वामीविसालरे ७ म० मतोहरसारगदीजीयें
सुणिसायरलवणोदरे आडोआवीस्थुरह्यो मकरतरंग
वित्तोदरे २ म० विरहविप्रमवांलिमतणो आपसरुपवि

(६१०)

विनयविजयजीकृतः

चारीरे चंदवियोगेतुअहोये तेहदशासंजारीरे ३ म० धा
तकीखंडपछिमारधे वप्रविजयजयकाररे विजयानग
रियेविहरता रायश्रीनागमल्हाररे ४ म० चद्राराणी
येजनमियो विमलादेवीनोकंतरे लंछनजानुमनोहरुं वि
नयनजेनगवंतरे ५ म० इति ॥ अथ श्रीवज्र
धरजिनजास ॥ रागगौडी ॥ जिनरसमिठडोरे एदेशी ॥
मविजनजावस्युरे वंदोवज्रधरस्वामी शिवसुखआदरो
रे साहिवसमरथपामी अजरनकीजीयेरे अजरामरप
दलेवा वलिदोहिलारे श्रीजिनवचननामेवा १ वाणी
सूरगवीरे प्रचुनीअमृतदुझे नवदुखसविटलेरे पीतां
शुभमतिसुझे मायामोहियारे आतमआपनबुझे निजप्र
तिबिंबस्युरे दर्पणकूकडोझुझे २ जुखोहुंनस्योरे नवर
समाकितपाखे जिनपतितुमविनारे शरणेकहोकुणाराखे
देवदयाकरिरे दुत्तरनवजलतारो तुह्यपायेनमुरे फेर
जनमनावारो ३ पछिमअरधमारे सुपरेधातकीखंडे व
छछविजयतणीरे वसुधाविचरंतामंडे जगपावनकरीरे
नचरीसुसीमानोरायो मातासरसतीरे पितापदमरथजा
यो ४ लंछनशंखनुरे राणीविजयावतीकंतो ध्यानशुक
लंधरीरे कीधोकरंमनोअंतो नेकनजरकरीरेसेवकजन
मुखजोज्यो विनयनवेररे स्वामितुमतणोहोज्यो ५ इति

अथ श्रीचंद्राननजिननास ॥ देशीरशीयानी ॥ च
 तुरविहारीहोत्रातसमाहरा ॥ एदेशी ॥ चतूरखंद्राननम
 अचाकरी साहिवाचितमांहिआणराजेसर ॥ हुंतिगुणपण
 तुमनेश्राश्रयो ॥ निजसेवककरिजाणजोगीसार ॥ च ० दूध
 महिजगेजलजइजोमिल्युं ॥ कीश्रुआपसरुपसतोहर चंद्र
 ननिजपवनियकरितरुघणा कीधावंदेतरुपसुहंकर ॥ च ०
 सूततागपुंसंगतीकुसुमनां ॥ ॥ प्रामेतरुपतिशिससदुणो
 चांदेजेजगेहरणतपरिहरयो ॥ सीसचढाव्योतेइसतदुणो
 श्व ० ॥ निगुणजाणीजोउवेखीए तोरुयुंगुणवंतजविचासो
 निर्गुणनिखीगुणकरीलीजिमें ॥ जोहोयहियडानुहेज
 सुधारो ॥ च ० पछिमत्ररवेविजयनलिणावती ॥ धातकीखि
 डसझारविराजे ॥ नयसीअयोध्यामातप्रदमावती ॥ रायधा
 लिमकमलहारदिवजि ॥ च ० ॥ राणीलीलावतीनेनाह
 लो ॥ लंछनचपनसुहायसहोदय ॥ सेवककीर्तिविजयउव
 झायनो ॥ वित्तप्रयोसुपसायमहोदय ॥ च ० ॥ इति ॥
 अथ श्रीचंद्रबाहुजिननास ॥ चाइजीतुहाराकाहातेनो ॥ से
 नविराखोवारी ॥ एदेशी ॥ ॥ चंद्रबाहुजिनचंद्रअनोपम
 उदयोमुझाचितमांहि ॥ दुखदोहगतडकोसविताठो ॥ प्रग
 टिसुनमतिछांहि ॥ च ० ॥ गुणतारेजेपरवरयो ॥ समतारो
 हिणीकंत शुक्लध्यानखीरोदधीचिहुंदिस ॥ जेदेखापस

(६१४)

विनयविजयजीकृत.

जसेवकविनयनिवाजीये ५ जि० इति ॥

अथ श्रीविरसेनजास ॥ रागरामगरी ॥ इणीरंगेरा
तीराजीमती एदेशी ॥ दरिसणदाखारेराजीया वंदावो
एकवाररे विरसेनजिनअहमतणो सफलकरोअवताररे
१ द० मनमान्यारेसज्जनविना किमकीजेगुणगोठरे
वातहिआनीरेजेविना किमइनसांचरेहोठरे २ द० सु
खदूखगतिसुरिजनविना कोइनप्रगठकरेइरे रविस
सिमाणिरविससिविना अगनिनअमृतझरेइरे ३ द०
पुष्करदीवपछिमारे विजयपुष्कलावइमांहेरे नयरिपुं
डरिगिणिविहरता किरतीजगअवगाहेरे ४ द० नू
मीपालनृपनंदनो ज्ञानुमतिसुतदेवरे राजसेनापतिवि
नयनुं वृषन्नलंछनसेवरे ५ द० इति ॥

अथ महाजद्रजिनजास ॥ रागसिंधुआो ॥ प्रीतडीनकी
जेहोनारीप्रदेशीयारे एदेशी ॥ सुगुणसोनागीहोवंदु
वलीरे जिनवरश्रीमहाजद्र नामजपंताहोजुगतेजे
हनुरे पामीजेमहाजद्र १ सु० जोतिरुपजसध्यानेतुरह्यो
रे मोहनरुपमयाल रविउगेतसतिमिरतणीपररे
जायेपापपयाल २ सु० कोहिनेकांजीहोक्रहोकुण
आदरेरे छोडिअमृतपान तिमतुह्यछांडीअवरनेकुणन
जेरे जाहोयिहिअडसान ३ सु० पुष्करदीवहोपछिमअ

रधमारे वप्रविजयसुठामः नयरिविजयाहोस्वामीविरा
 जीयेरे गजलंछनगुणधाम ४ सु० देवरायनोनंदनदी
 पतीरे देविउमाजसमाय राणीसूरकंतानोवालहारे वि
 नयनमेनितपायः ५ सु० इति ॥ अथ श्रीदेव
 जसाजिनजास ॥ रागमलहार ॥ लाछलदेमातमलहार
 एदेशी ॥ चेतनकरिचितचोख दुरकरोसबदोख आज्ञ
 होदेवजसाजिनमुझघरआवसेजी १ ध्यानकुसुमकी
 सेज ज्ञानदीपकबहुतेज आजहोचारीत्रचंद्रोदयचिहुदि
 सिद्धलहलेजी २ संवरखेउदार तिहांमहकेवनसार
 आजहोमृगमदचंद्रनपावनजावनाजी ३ सुमतिगुपति
 सहकार तेहतणांदलसार आजहोतोरणवहुगुणबंध
 बांधोबारणेजी ४ पुष्करदिवमझार पछिमअरधसंजार
 आजहोवछतामेविजयतिहांघणुंसोहेजी ५ नयरिसुसी
 मानाम तिहांविहरेजगसाम आजहोनरप्रतिसरवभु
 तिकुलब्रह्मलोकी ६ गंगामातमलहार पदमावतीजर
 तार आजहोहिमकरलंछणविनेयवंदीयेजी ७ इति ॥
 अथ श्रीअजितवीरजजिनजास ॥ चंदामेराजा
 इहोगोदबिछाउ एदेशी ॥ अजितविरजजिनओलगक
 रतां मनवंछीतफलआपेआपेजी साहिवसमरथनिज
 सेवकने धिरकरिशिवसुखथापथापेजी १ अ० मुझमनवा

डिसमकितघाले रोपुजीनमंदाररंगेजी सुकलध्यानप
 रिमलतपसरे आनंदहोयउदाररंगेजी २ जिनदिपक
 जसरिदयेदीपे अहनिसीतिहाउद्योतदिसेंजी अलिय
 तिमिरतेदुरनिवारी अद्भुतआतमजोतजोत्रेजी ३
 अ० दीवपुष्करवरपछिमअरधे विजयनालिणवइहार
 सोहेजी नयरीअयोध्यामेरुनस्वस्तिक लंछनजनमनुदा
 रमोहेजी ४ अ० राजपालराघकुलमुगटमणी कनि
 निकाउरेहंसदेवोजी स्तनमालाराणीपतिविनये मुनि
 जनघरअवतंससेवोजी ५ अ० इति ॥ कलस ॥ राग
 धन्यासी ॥ नयरीअयोध्याथीसंचर्याए एदेशी ॥ वांछि
 तदायकसुरतरुए विहरमानजिनवीश नमोजविभाव
 स्युंए रिद्धिसिद्धीसविसंपजेए पुगेमनहजगीस १ न० सो
 वनवानसोहामणाए धनुषपांचसेकाय न० लाखचौरा
 शीपुरचनुए एसविजिननुंआय २ न० प्रतिहारजआ
 ठेसदाए बलीअतिसयचोत्रीस न० त्रिगडेबैठासोहीये
 ए वाणीगुणपांत्रिसि ३ न० दसेलखकेवलधराए को
 डिसतअणगार न० विरहमानविसेतणेए प्रत्येकेपरिवा
 र ४ न० संघचतुरविधभापनाए जिनवरसयलकरंत
 न० निज२खेत्रेविचरताए इगठादोयनमलंत ५ न०
 महाविदेहएकेकमांए विजेहोयेवत्रीस न० जरतएवरत

विमुधविमलजीकृत. (६१७)

चाखियाए पांचरजगदीश ६ न. उत्कृष्टकालेहोयेए इए
 खेत्रेएकेक न० इमसित्तेरसोजिननमुए विहरमानसुवि
 वेक ७ न० कालजघन्येजेहोयेए तेथुणियाजगदीश न
 जनमसमेप्रभुवंदीयेए दशअथवाजिनवीश ८ न० सी
 लदेवपंडितरच्योए एकवीसठाणुंजेह न० तेजोईअनु
 क्रमकह्योए श्रीजिनवरनोएह ९ न० बीजेग्रंथेदेखीये
 ए नामक्रमपदफेर न० तेपणसाचाजिनविनाए कुण
 दाखेसुधसेर १० न० श्रीकिर्तीविजयउवझायनोए विन
 यवंदेकरजोड न० श्रीजिननागुणगावतांए लहीएमंग
 लकोड ११ नमो० ॥ इति श्रीविनयविजयउपाध्या
 यजीकृतवीसविहरमानजिननाससमाप्त ॥

अथ श्रीवीसुधवीमलजीकृत वीशी.

अथ श्रीमंधरजिनस्तवन ॥ निंदरडीविरणहोइरही
 एदेशी ॥ श्रीसीमंधरसाहिवा सुणोसंप्रतिहोअरत
 खेत्रनोवातके श्रीहाकेवलीकोनहि केनेकहीयेहोमन
 नाअवदातके १ श्रीसीमंधरसाहिवा झाजुंकहेतांजुग
 तुनहि तुमसोहेहोजगकेवलनाणके भुख्यान्नोजनमा
 गतां आपेउलटहोअवसरनाजाणके २ श्री०कयस्योत
 मेजुगतानही जुगतानेहोवलीतारेसांडके जोगजतनुं

(६२०)

विसुधविमलजीकृत.

नलाखनव्यासीउपरलह्याजी व्यासीहोजिनव्यासी
सहसजिनराज एकहोजिनएकमासमांनवथयाजी ४
नवमांहोजिनभवमांनमतांजेह दुःकरहेजिनदुःकरनर
नवतेकह्योजी तारोहोजिनतारोमुजनेदेव वीसुधहोजि
नवीसुधनरनवमेंलह्योजी ५ इति ॥ अथ श्री

सुजातजिनस्तवन ॥ गोकुलगामनेगुंदरेरे एदेशी ॥
चेतनचंतासीकरेरे स्युराखांमनवीकमाशावालाऱे सुजा
तसामासेवजेरे तारेएतयकीक १ माहाराव्हालारेसु
जातसांमीसेवजेरे आं. परउपगारीपरमेसरुरे परमप
दआपेपुज मा० परमातमनेपामवारे सैवेचरणांबु
ज २ मा० परप्राणिनितारवारे प्रयत्नकरिकेइभुर
मा० उन्नयसुखदाइसदारे उग्योकेवलसुर ३ मा० रा
यरंकसरखागणैरे सरखाशत्रुमीत मा० आराध्योआ
पपदवीदीएरे उतमएहनीरीत ४ मा० विरवीमलगुरु
सीषनीरे वीसुधवाणिएह मा० उरनचाहुसाहिबा
रे सीविसुखदिआोगुणगेह ५ मा० इति ॥

अथ श्रीसयंप्रभजिनस्तवन ॥ हुंदारीतारानामने वा
सरमावारहजारोरे वारीरातदीवससुतांजागतां वारी
ताहरोएकआधारोरे १ वारीसयंप्रभुचीतराखजी आं. वा
रीउपगारीसीरसेहरो वा० वंछीतसुखनीखांणीरे वा.

जोगत्रजोगनेजोत्रस्यो वा० एकहेवायकुणकहांणारे २
 वा० वा. रदयकमलआवीरह्यो वा० दोयसीखादिश्रो
 स्वामीरे वा. घरहणासुचीआसेवणा वा. पछेजोउसीव
 गामीरे ३ वा० वा० अंकुशेरहीतएआतमा वा० दसो
 दसेंएदोडेरे वा० अंकुशेकरीगजआकरो वा० आलण
 आणीजोडेरे ४ वा० वा० एमउपदेसअंकुशडे वा०
 सेवकनेसुखदीजेरे वा० विरवीमलगुरुसीषने वा० वी
 सुधवांछातकीजेरे ५ इति वा० ॥ अथ श्रीरीखजानन
 जिनस्तवन॥मथुरांनीसेरीरेअतीरलीयामणारे॥एदेशी
 माहरुमनमोहुरेरीषजाननस्युरे अवरनआवेदायसुर
 तरुछायारेशांतलछोडीनेरे करीरकहोकुणजाय १ मा०
 कालअनंतरेअवसरमेंलह्यारे करोहमारीमालि पामी
 हारेरेलहयोफरीदोहलारे रखेकरताहवेढील २ मा०
 वायदोकरंतारेविलंबाघेघणुरे मदतपोतीजिनराज कर
 मनरेसरनरभवमेलयारे दुःकरपछेअलाज ३ मा० दु
 जोहोयरेतोकोइदाखवारे तेस्युंकीजेवात सरखासरखे
 रेरसरीझउपजेरे अवरस्युंधर्मनोघात ४ मा० मोडो
 वहेलारेमनहोयतारवारे तोदीजेमुजवाचविरवीमलरेक
 हेजिनसेवनारे वीसुधफलसेएसाच ५ मा० इति ॥

अथ श्रीअनंतवीरजजिनस्तवन ॥ आछीनेवणावाहो

(६२२) विसुधविमलजीकृत.

मेडतीआठाकोरलोवडी एदेशी ॥ अनंतगुणहोअनंत
वीरजताहरा कैअनंतखजानोतुज लवएकदेतेहोओछु
कंडनवीहोये कैदीपकद्रष्टांतेपुज १ अ० वासीनचंदन
होसमलीठुकंचने कैएकहेवायकेम एकनेआलंबीहोअ
विचलपददीओ एकनेउतारोफेम २ अ० लोकीकनचा
लेहोसारांतारांकहे कैतेणेगयांकालअनंत लोकोतरपं
थहोप्रनुजीताहरो कैससीसरखोजगवंत ३ अ० अंत
रेमलेहोअनंतवीरजअनंतनी कैकहेवायगुणगोठ जेसु
नवातहोनीतपटंतररहे कैतेनेनकहवायकांडीहोठ ४
अ० एकेनेहाथेहोतालीकडनवापडे कैएकपखोजीमराग
धातानेधेइहोसेवकसाताउपजे कांडवीसुधकहेश्रीवीतरा
ग ५ अ० इति ॥ अथ श्रीसुरप्रभुजिनस्तवन ॥ वा
रीहुंगोडीपासने एदेशी ॥ जगतारणजिनजनकहे ए
कारणकारजउपचार नवीजन जोगनेजिनवरउधरे अ
नव्यनेनहिप्रतिकार नवीजन१सुरप्रभुनीसेवना भवो
नवएहितकार न. सु. उतरसाधकेसिधीमंत्रने पामेते
ततकाल न० उत्तमआलंबनेसीधीनुं पामेसुखरसाल
भ०२सु० च्यारनिखेपाताहरा त्रिहुकालेहीतकार न०
पुन्याढोपरतक्षजोयो पाम्योसुखश्रीकार न० ३ सु०
इमअनेकप्रभुताहरु दरसणकरतादेव न० भवसायर

विसुधविमलजीकृतः (६२३)

भुरितरे करतांहारीसेव न० ४ सु० विरविमलगुरुसी
पनी । वीनतीएवीतराग न० १ नवत्रयजावठजागी
ये महरकरीमहाजाग न० ५ सु० इति ॥
अथ श्रीवीसालजिनस्तवन ॥ पयलोवधावोमाहारो
आवीओसइयां एदेशी ॥ देववीसालजिनताहरे प्रनु
सरखासत्रुमीत प्रभुप्यारारेदरसणदीजिये प्रनुआलं
व्यानेउधरे प्रभुएउतमनीरीत प्र० १ अरहंटघटीका
नीपरे प्रभुएसंसारमोजार प्र० चडतापडताचवकरचा
प्र० एमअनंतीवार प्र० २ दसेद्रष्टांतेदोहलो प्र० सो
हलोनकह्योनाथ प्र० तेहुंनरचवपामीओ प्र० सफल
करोसनाथ प्र० ३ पंचमकालेहुंपामीयो प्र० सामग्री
सुधच्यारेअंग प्र० उतमअवसरओलखो प्र० आवीरा
खेरंग प्र० ४ घणादीवसनीवीनति प्र० अवधारोजि
नराज प्र० विरविमलगुरुसीपनां प्र० सारोवंछितकाज
प्र० ५ इति ॥ अथ श्रीवज्रधरजिनस्तवन ॥ उं
चोचोरेरेचोवटो माएमोरंगीखाटआछेलाल एदेशी ॥
सुरवररुचीतसिंघासणे वेसीवज्रधरसाम आछेलाल
प्राणीवाणीरेजिनतणी पांत्रीसगुणेरपरवडी वाणीवद
यउदाम १ आ० वाणीविघननीवारणी वाणीमोह्या
आवेलोक आ० सफरथासवीमनतणी छंडीसुणेथोके

(६२४) विसुधविमलजीकृत.

थोक २ आ० वाणीमीठीरेमनोहरु पीतांजायसघलां
पाप आ० ज्वजलतारणवेडली नासेसोगसंताप ३
आ० दरसणताहरुरेदेखवा लोयणथायछेलोल आ०
जिमजिमसांजरेरेचीतमां तिमतिमत्राणंदकलोल ४
आ० विरवीमलगुरुसीषनी विनतीएहजदेव देवदया
करीदीजीये ज्वज्वताहरीसेव ५ आ० इति ॥

अथ श्रीचंद्राननजिनस्तवन ॥ वांसलीवाजेरेवीणारण
झणे एदेशी ॥ जिनजी मुझमनमंदरपधारीयए जिनजी
सेवकछुथारुजोउमाम जिणेसरत्रावोरंगसेए जिनजी
कुंकुमवइंकणुंधरकरुंए जिनजीश्रवसरत्रावीराखोमाम
१ जिने० जि० सगपणनेहतेआव्येजाणीयए जि०
अडवडेदियरेआधार जि० आपखजानोआपीउधरेए
जि० सज्जनजनतेहीतकार २ जि० जि० नेकनजरेप्र
भुताहरी जि० करुं२कुडवजायदुर जि० सज्जनमेलावां
होयमुलगोए जि० वाजेएमंगलतुर जि० ३ जि० आ
तमराजारंगमोलमांए जि० सीवसुंदरीधरीनेह जि०
चीदानंदसदासुखअनुभवए जि० अवचलजोडीगुणगे
ह ४ जि० जि० चंद्राननचीतचाहीनेए जि०
दरसणदीत्रोएकवार जि० विरवीमलगुरुसीसनीए
वेंदणाएवारोवार जि० जि० ५ इति ॥

अथ श्रीचंद्रबाहुजिनस्तवन ॥ राजानंहीमिले एदेशी ॥
 चंद्रबाहुमुझमंदरवास रंगनरआवीरहोआवास जिन
 जीसांजलो मुजमनमंदरपांभीसाम मनमसकरुजोउ
 करेकेवांकाम १ जि० मारुतथीएमनडुजोर छानोरहि
 एघरमेंचोर जि० खीणमेंखात्रदेयेएह अखयखजानो
 काढेजेह २ जि० आलपंपालअजोडेजोड घरमेंवेठो
 बंधेकेइकोड जि० अणदीठुअणसांचल्युंकान धाइआ
 वेंतेहजध्यान ३ जि० माछीगरजिमगुंथेजाल एहनेए
 हजअनादनोढाल जि० आठपहोरअटतुरहेएह गमणा
 गमणनोनावेछेह ४ जि० दुररहेकेममलेंएघात आप
 आपेमलेकरसुंवात जि० विरवीमलगुरुसीषनीवाण
 वीसुधवचनकरोप्रमाण ५ जि० इति ॥ अथ श्री
 भुजंगजिनस्तवन ॥ अरजअरजसुणोनेरुडाराजीयाहो
 जी एदेशी ॥ दरसणदरसणदेइरुडाराजीयाहोलाल
 वंदावोएकवार चरणचरणकमलफरसनकरीहोलाल
 सफलकरुअवतार १ द० गमणागमणागमणीविद्या
 नहिहोलाल जेआवुंतुमहजुर दरिआदरिआडुंगरआ
 डाघणाहोलाल वाटवीपमपंथदुर२ द० आठआठकरम
 आडाडुंगराहोलाल मोटोमोहनीरोग पुदगलपुदगल
 सुंप्यारोरहुहोलाल दुःकरतारोसंजोग ३ द० द्रव्यद्र

(६२६) विसुधविमलजीकृत.

व्यदरसणकीधांधणांहोलाल जावदरसणवीचार जाव२
दरसणजावठहरेहोलाल तेतोअनुभवसार ४ द० भु
जंगजुजंगदेवभव्यप्राणीनेंहोलाल तारणतरणजहाज
विरविरविसुधेवलीवीनवेहोलाल तारोश्रीजिनराज ५
द० इति ॥ अथ श्रीइश्वरजिनस्तवन ॥ जि

होलाल एदेशी ॥ प्रहउठीप्रजात सुचिकरिप्रणीपात
जीहोलाल वंदुइश्वरस्वामीनेंजी १ देखतदेवदयाल
पापगयांपयाल जी० आजमनोरथमुझफल्याजी
२ नव्यहोयजेनरनार पडुपधास्थाघरवार जी० दातद
यउलटधरीजी ३ वरसीदानदियेजगनाथ नव्यहोयते
मांडेहाथ जी० अन्नव्यनेजोगमलेनहिजी ४ धनहुंमानुमु
ज दरसणदेखीतुज जी० वीसुधमनवंदणथयुंजी ५ इति ॥

अथ श्रीनेमिप्रजाजिनस्तवनं ॥ जगजीवनजगवाल
हो एदेशी ॥ शशीवंदनजिनसोलमो सांहेसोवन
वानलालरे गुणगणमणीआगरो नीरमलजेहनंध्यान
ला० १ अकलसरूपमिनवसो आंकणी हुंरागीरसरूपनो
तुंनीरागीनीरबंध ला० हुंपुदगलेप्यारोरहु केममलेते
संध ला० २ अ० हुंनीरगुणपणताहरो सेवककहावुं
साम ला. रघअंबुगंगाजलु गंगाजलथउनाम ला. ३

अ. जगजसवादप्रभुताहरो ज्युंजगजीवनतोय ला. दा

तावीरुदताहरु अवरनहिजगकोय ला० १४ अ० गुण
 अरुगुणगुणनिवीगणे जिमपुष्करवरमेह ला० श्रीनेमी
 नीरंजनकीजीये वीरवीसुधगुणगेह ला० ५ अ० इति ॥
 अथ श्रीविरसेनजिनस्तवन ॥ ममकरोमायाकाया
 कारमी एदेशी ॥ सेवनांश्रीजिनराजनी कीजीये
 कहोकेइरितरे अंतरायपगपगेएकरे सांभलोश्रीजगमी
 तरे १ से० आंकणी आठनोठाठसहुसांचलो मेलवेक
 रमनाकाठरे अंगउपांगजोउमुखविना सीखवेपोपनी
 पाठरे २ से० दोषअनादनाआकरा नवीतजिमाहरी
 केडरे जिमजिमसुकृतचीतधरु तिमतिममंडेएवेडरे ३
 से० क्षुद्रलोचनवदीनता अनाणमछरिसठरे आणंद
 एकसंसारमां सेवताहोयएनठरे ४ से० धरमधरमी
 निवीवेचणा संसारसीवसमजावरे सेवनासफलेएवाह
 रि उतरेमोहमदतावरे ५ से० वीसुधवीरसेनसेवना
 आदरोत्रिकर्णयोगरे सरवसुखमुलअनुकुल एमेलवे
 सीवसंयोगरे ६ से० इति ॥ अथ श्रीमहानद्र
 जिनस्तवन ॥ रागप्रताता ॥ तारणजिनवरआवीयाए
 एदेशी ॥ मोलोदीओदेवरायनानंद सोभागीजिनजी
 मोलोदीओए० आसकरीनेहुआवीओए तुंप्रनुदीनदि
 याल सो० अनंतखजानोप्रभुताहरेए आव्योहुंदाता

(६२८) विसुधविमलजीकृत.

निहाल १ सो० आतमरिद्वेसहुसारीखाए क्यमलहु
तेहजसाम सो० चरमनयणेकरीजोयताए क्यममले
तेहजठाम २ सो० हुंअनाणोप्रभुआवरुए ससीरवीवा
दलजेम सो० आतमताआतमतणीए पामीयेकहोप्र
भुकेम ३ सो० अनुचवअंजणेअंजयिए अंतरउघडी
यांनेण सो० ज्ञानदीवोघटमांहोयए देखीएआतमजेण
४ सो० महाजद्रजिनमाहरेए ताहरीहोयेजोसेव सो०
वीरवीसुधेवलीवीनवेए माहरेतुहीजदेव ५ सो० इति॥
अथ श्रीदेवजसाजिनस्तवन ॥ रसीयानीदेशी ॥ एम
किमकिजेहोसुगुणसहोदरा एसतिमारीरेरीत सोजा
गी एकनेआलंबीरेअविचलपददिश्रो एकनेउतारोरे
चीत सो० १ ए० जगचिंतामणीजगमांतुंवडो पुरेवंछी
तकाज सो० जगउपगारीरेजगमांजागहो अवनहीको
इअलाज सो० २ ए० जगसथवाहरेजहुं सिहुकहे क
हवाओजगतनानाथ सो० देवजसाजिआहिवमेली
ये सेवकसीवपुरसाथ सो० ३ ए० अखर्षपरुपीरेआ
तमताहरो माहरेनहीरेफेर सो० करमअटारीरेअंतर
बहुकरयो कहिसरसबकाहिमेर सो० ४ ए० धनधन
जिवतमानीसमाहरु देखीसआतमरुप सो० विरवीम
लगुरुसीषनीसेवना विसुधहोजोरेअनुप सो० ५ ए०

इति ॥ अथ श्रीअजितवीरजजिनस्तवन ॥

मोतीनोलुवखझुवखानतफुलीनी नवरंगवाडोरे ॥ ज
 गजीवोरे कीजेवधामणां एदेशी ॥ आजसफलदिनमा
 हरो मुजअनुभवकलीकाजागरि जगजीवोरे कीजेव
 धामणां मारुअजितवीरजजिनराजने मुजथुणवानेल
 पलागरे १ ज० माहरेमंगलरंगवधामणां वंधावोतो
 रणवारोरे ज० वयनीचंदनछडोदेवराविघे वयनीगीत
 गाउमनोहारोरे २ ज० वंदोवंदोरेकणीकाराणीने जेणे
 जायोएहवोपुतोरे ज० ललीलालिकीजेलुछणां बली
 हारकिनीकासुतोरे ३ ज० एहजसखिनेएहजसाधो
 श्रीहंतपदआराधोरे ज० रिधिसीधिअठलाधिप्रासि
 धि सुन्नगुणठाणेवाधोरे ४ ज० धनधनतेनरनारने ध
 नधनतेनीजिहारे ज० गुणगणजिनराजना एथुणीता
 वोलेदिहारे ५ ज० जेनरगासेतेसुखपासे जिनपदजि
 नपंजाचुरे ६ ज० वीरवीसुधपदएसमजगमें अवेर
 नहिकोआछुरे ७ ज० इति ॥ अथ सामान्यजिनस्तव
 न ॥ तपसुरंगलाग्यो एदेशी ॥ संप्रतीकालेवीचरे
 रे वेहरमानजिनवीस जिनसुरंगलाग्यो चउत्रीसअति
 सयेसोन्नतारे वाणीगुणपात्रीस १ जिन० रंगलाग्यो
 कुंकुमचोल जिन० उंचीधणुसयपंचनरि कंचनवरणी

(६३२) कांतिविजयजीकृत.

एदेशी ॥ विहरमानबीजासुणोरिलो युगमंधरश्ररदास
रे चतुरजिन जगवंततोउदेखीयेरेलो आपणपोजेदास
रे च. १ मनमान्युंमहाराजस्युरेलो आंकणी अवरनआ
वेदायरे च० गंगाजलमांजेरम्यारेलो तेकीमछीलरजा
यरे च० २ म० सेवासमरथहुंसदारेलो तेतोनपूरीश्रा
सरे च० तोपणतुझस्युंमाहरेरेलो अधीकोछेवेशासरे च.
३ म० नीगुणोगुणवंतनेमल्योरेलो छेहनदीजेदेवरे
च. खांडोवांकोचांदलारेलो शीसधरेमहादेवरे च० ४ म.
साचोन्नरुसोताहरारेलो मुझमनवीसवावीसरे च० आ
सवीलूधापालीयेरेलो अतुलीबलजगदीसरे च० ५
म० उमाहिनेटणनलरिलो कीधाकोडउपायरे च०
ज्ञाननजरदेखीहवेरेलो बोदरसणमहारायरे च. ६
म० साहिवशेवाकरतडारेलो एकपखीकीमहोयरे
च० प्रेमवधारणकांतिनेरेलो दीलनरिसाहमुंजोयरे च.
७ म० इति ॥ अथ श्रीबाहुजिनगति ॥ धण
राढोळा एदेशी ॥ बाहूजिणेंसरमनवशारे हेजालोजि
नराय त्रीजोवनसाचा साचा२होजिणंदगुणशाचा म
णीजाचामहाराजामणीजाचा आछाजगशीरताज त्री
जोवनसाचा एआंकणी१ओलगमंडिओलगुरे आणा
मनएकतारत्रि०तेतोछोड्योजगधणीरे जावेकिमदरबा

र त्रि० २ गुणदेखाडीजोलव्योरे तेजायोकिमदुर त्रि०
मनमेलूगुणआगलारे राखोदासहजुर त्रि० ३ आज
दीवशलगेताहरीरे मैनवीलोपीआण त्रि० मनजागण
तुझकोमल्योरे तेणेकरीमननीतांण त्रि० ४ तुंकीमचीत
थीउतरेरे आतमनोआधार त्रि० जुठोहोयतोदेखज्यो
रे नेहनिजरकिरतार त्रि० ५ जोहूवेनयणामेलावडुं
रे तोलहीधेंसंतोष त्रि० देवअढारेवाशीयारे प्रदेशे
वीणदोष त्रि० ६ कांतिविजयप्रभुमाहरोरे प्रेमधरी
नीसदीह त्रि० वंछीतफल्यादाननीरे तेहवालीछेलीह
त्रि० ७ इति ॥ अथ श्रीसुबाहुजिनगीत ॥ नां
नानाहलानीदेशी ॥ देवसुबाहुमोहनारे जयवंताजग
नाथ वाहलासांजलोरे नवजलनीधीमांबुडतारे राखो
साहीहाथ वा० १ जोपोतानोजाणस्योरे तोकरशोशं
जाल वा० सोजालहिस्थोलोकमारे पालंतांनिजबाल२
वा० लोयणतरसेदेखवारे रतिनलहिदीनरात वा० उ
तकंठामीलवातणीरे हइडामांनसमात ३ वा० खीण२
होयआसंगलोरे संजारचावारंवार वा० वीछडीआंनी
वेदनारे जाणुंतुंकरितार ४ वा० आसंगेकरीहेलव्यारे
पोप्यांचढाविलाड वा० तेछोडेकिमजेहनारे नेहेजेघां
हाड ५ वा० कांइकहावोजगधणीरे सेवकमुखथीआ

गाडीनेथायउदाशी पणकिमलेवेतेहजआसी प्री० ख
जमतिगारछांगुणसाटे नेहधरोजीवनतेमाटे २ प्री०
जोमाग्याफलतुंनवीदेवे तोआसवेटेकुणशेवे प्री० जग
तिगुणेकरीखेचीलेसुं तोतुमनेइमस्यानेकहेस्युं प्री०
३ तुंहमसीरचोमोडसलुणो जगवसेकरणोतुंहिजटुणो
प्री० मुरतिदेखणनेणउमाह्यां आजलगेजिमतिमनिवा
ह्यां ४ प्री० धोलूजाणुंसघलोदुध मोहवसेनपडेमनेसुध
प्री० कांतिदयानिधीप्रेमप्रकाशी दीन२ल्योसबली
सावाशी प्री० ५ इति ॥ अथ श्रीअनंतवीर्य
जिनगीत ॥ नदीघमुनाकेतीरउडेदोपंखीयां एदेशी ॥
अनंतवीरजअरदाससुणोनेमाहरी मीठडीसुरतिखास
चाहुहुंताहरी उल्यावणगतिएकअछेजगसाहरी १ सम
रुताहरुनामसरागेफरी२ जाणोलहुजगदीसवडारी
चाकरी नीगमीयेदुखकालइस्योएहकीणपरी धारनखं
चेजेहथयोजनआतुरी २ धन्यजलघरनरीतबनीजे
आकरी जलवीरहोनखमायजेजायेतेमरी प्रारथीयांसं
जालनकीधीकोखरी जाणासांतिप्रीतहमासुंउतरी ३
नीवसोतुमचीशेवकृपानेश्रनुसरी पालोप्रीतमप्रीतमयु
रांघणपरी लेखेतेबहुमोलगणुएकाघरी जबप्रीतमनो
संगजुहुइडेठरी ४ मुहटालोदेजायधरांमांतेठरी नहु

वेतसुधरिआपिप्रगाढीहाथरी नयणकटोरीप्रिमसुधार
 सस्युंभरी कांतिमल्योप्राणेशरुडीधरीचातुरी ५ इति ॥
 अथ श्रीवीसालजिनगीत ॥ गोविंदउचितेश्रांबलीरे
 गोविंदनीचामाहरावापजीनाराजरे ॥ आसुनजाणोहर
 यीनीसरंधारे एदेशी ॥ अरजसुणोनेसाचाराजवीरे रु
 डादशमादेववीसालरे मनडुंचोरच्युतेंजगजीवतरे मोह
 लंगाडीगाढाआपणारे तेतोपाड्यासवलजंजालरे म.
 १ आंकणी जवचितारुचितचूपस्युरे प्रभुसुखहेतेउछा
 हरे म० उपरांतोदूखकारणारे तवदीपेत्तनमांदाहरे
 म० २ नीपटनीरागीतूंतोसहजमेरे रुडाकुणहीनेनक
 लायरे म० अघोतोएहवोसजावछेरे स्वामीलेहिलिमि
 लिजायरे ३ म० सहजसोजागीजाणुंपालशेरे रुडीज
 मवारानीप्रीतरे म० छटकदेखाडयोखीणमांछेहसारे ते
 तोलोप्रीउतमरीतरे म० ४ प्रेमधरीनेजगवाहलारे
 रुडीकरमोरडीसाररे म० कांतिमहिरकरिशोजिनारे
 हवेवांहिग्रह्यानीस्ताररे म० ५ इति ॥
 अथ श्रीवज्रधरगीत ॥ तारकरतारसंसारसागरधकी
 एदेशी ॥ वज्रधरदेवसंजलनिजवालने तीपखिशोरकु
 णसुधिलेसे नेहकरीलेहवीतागतिकेलेवी नितनलीम
 नरुलीतुजदेशे व० १ सेवतांसुरमणीसुरगविसुसतस

कामघटकामपरगङ्गपुरे अकलगतितुझतणीदीठीत्रीभो
 वनधणी चितनामात्रदारिद्रचूरे व० २ कालघणनीग
 म्योदुखजरिमेंखम्यो नवीरम्योकाजअणकाजकरतां
 नटपरेनाचीओमोहरसराचीओ अबलह्योतुंहिजवमां
 हिफरतां व० ३ अवरसुरतणांवरकिस्यांघणघणा
 एकतुंपुरवेसयलआसा जोरघणघोरनीसारएकाघडी
 किसरेअरहटांवारमासा व० ४ कुसलसंदेशपरदेश
 थीपाठवी प्रेमपरतीतवडरातदाखो कांतिकमलाकरी
 नीडजावठहरी जवजवेतुंमतणेपासराखो व० ५ इति॥
 अथ श्रीचंद्राननजिनगीत ॥ शीताहोप्रीयाशीता एदे
 शी ॥ सुणसुणहोजिनसुणचंद्राननदेव राखोहोजिनरा
 खोपुरणनेहलोजी जिणवीधेहोजिनजिणवीधेगयवरदे
 व मोराहोजिनमोरामनजिममेहलोजी १ चातुरहोप्रभु
 चातुरश्रीभगवंत विणजहोप्रभुविणजवलावोरुडानेह
 नोजी थासेहोजिनथासेलाजअनंत वधतोहोजिनवध
 तोसखरोतेहनोजी २ चा०मीलतांहोजिनमीलतांस्पुंगु
 णवंत उत्तमहोजिनउत्तमनकरेआंतरोजी सांजलोहोजि
 नसांजलोएवीरतांत अमसुंहोप्रभुअमसुंप्रभुमतपांतरो
 जी ३ वलताहोजिनवलतादीननीछांह चढतीहोप्रभुचढ
 तीजिम२संचरेजी साजणहोप्रभुसाजणनिज२बांह

खिणरहोप्रभुखिणरतिणपरेआचरेजी ४ तारकहोजिन
 तारकहोज्योमुझ नवरहोप्रभुनवरसरणेतुमग्रह्योजी
 जोतुझहोप्रभुजोतुझप्रेमसलुज कांतिहोप्रभुकांतीसक
 लतोहिजलहूजी ५ इति ॥ अथ श्रीचंद्रबाहूजिनगी
 त ॥ गोकलगामनेगुदरेरे एवडीसीलुटालुटमाहरावा
 हलारे एदेशी ॥ मुझमनमंदीरआवीयरे चंद्रबाहूवल
 छोड माहरावाहलारे करजोडीलागुलाडलारे नोहरा
 कीजेछेकोड माहरावालारे १ मनतजीकरुणाकरीरे खी
 लेधर्युंछेसीस मा० आठपहोरतुझनामस्युरे चीनोधडी
 येवत्रीस मा० २ आजदीशाछेजागतीरे तिणमागण
 अधीकार मा० वापइडोनवीउलगेरे उन्हालेजलधार
 मा० ३ चिंताचूरणसाचीलारे सुरतरुनेअनुकार मा०
 साचीमानुंदेहडीरे सरससुधारससार मा० ४ वा
 ल्हेशरजगवंतजीरे प्रेमसहीतद्योदृष्ट मा० कांतिवि
 जयजपतांथकारे नांठांसघलांकष्ट मा० ५ इति ॥
 अथ श्रीभुजंगजिनगीत ॥ नवदशघरमायामरीरे ए
 देशी ॥ नवलरंगीसाहीवारै जयवंतोजगदीश अनोप
 मदेवभुजंगजी एतोमुगतिपुरनोइस १ गुणधारुप्यारो
 लागेहोराज मानेजगतिअमृतरसपाज्यो गु० राजमां
 नदरशाणशरणचखाज्यो गु० आंकणी ललचाणोतुम

(६४०) कांतिविजयजीकृतः

सेवामारे भुर्योभोजनजेम तुहीरसुतांजागतां मुझर
ठलागीछेएम गु० २ निसदीनदीलजरसिवतारे देइतु
हीजमान देखीअवगुणअमतणा करोआरुयुंआढाकान
गु० ३ जगमोहिजोतांथकारे अवरनकोतुझजोड सम
रथदेखीजाचवा जगआविजबकोड ४ गु० चौदसमा
जिनआगलेरे उलगकीधीएह कांतिकहेलेखेहुइ प्रनु
धन्यतेअवीचलनेह गु० ५ इति ॥ अथ श्रीइ
श्वरस्वामीगीत ॥ बैशाहमाआवीनेहजगावीबोलेवा
णीरेलो एदेशी ॥ श्रीइश्वरस्वामीकिहुसीरनामीअवस
रपामीरेलो जिनजीसांभलज्यारेलो उपसमछोगाला
नररढीआलाअंतरयामीरेलो १ जि० तुझबाहिरहिसुं
लीललहेसुरलो जि० नानावीधनीप्रलनिसुंदरिदील
नी वातकेहेस्युरेलो २ जि० पीस्योरससवलानेहजि
नवाल्हो नरि२नयणारेलो जि० पामीजेजाग्येसुदसा
जागे मीलतांसयणारेलो ३ जि० मुगतितुझसाचीनक
रुकाची सेवासाचीरेलो जि० तुझगायोगाआउवारी
जाआथाउअजाचीरेलो ४ जि० प्रेमप्रतिपालोनाथ
दयालो कांतिलहेसुखेरेलो जि० अवसायरअरजीत
सजनवरजित व्रीसरीयांदुखरेलो ५ जि० इति ॥

अथ श्री नेमप्रन्नस्वामीगीत ॥ साहरविशरगइरेमाइ

कांतिविजयजीकृतः (६४१)

माहरेनानडेदेवरपाईरेलाल एदेशी ॥ नेमीप्रचुंदर
सणजोपाश्रो निसदिनमुखपरिजाओलाल बलिहारी
वालेशर मोहनबलहारीजगतारणजीवनबलिहारी र
दयकमलसरशाईनपोखें प्रभुनीसनेहीधोखेलालबलि
हारी वा० १ ज० वीणजाण्यासुजोरठगणा गुणसा
टेवेचाणालाल सुंकहीयेनीरागीधीठानेसुंकहीये जग
गुरुमीठानेसुंकहीयेलालचीलायां दूखनदेखेउंचुननिचुं
विषेखे लालसुंकहीये २ ज० देवघणाउरवीसेषेविचु
समतिहूनेलेखेलाल कुणनगणेसमसाकरकांकरकुणग
णे चाकरपरिवाकुरणकुणगिणे आपदीगंबरजेनरअंके
तेवीजानेसुंढकेलाल कु० ३ स० वीतरागसुजगतिब
नाइ गाढीसीप्रीतलगाईलालअणगमते जालिमयोधी
नेअणगमते जेदिपकदेहपतंगजलावि दीपकमननवी
आवेलालअणगमते जा० ४ अ० सोवातेएकवातक
हाणी जगतियुगतिहीतजाणीलाल दरसणदेशोलमा
जिनवरदरशणदे परगटजगदिनकरदरसणदे प्रेमसं
जालीनवनवजाति इमसंस्तव्योकांतिलालदरसणदे
सो० ५ द० इति ॥

अथ श्री

वीरशेनजिनगीत ॥ लालदेमातमल्हार एदेशी ॥ वी

रशेनअरीहंत सतरमाजगवंत आजहोअलजोरेघणअ

लजोसाहिवनेटवाजी अंतरसत्रुकलाप विरहानलसं
 ताप आजहोसंगेरेनवरंगेदूरेमेटवाजी १ जावनिचर
 उजमाल रवीरपदगुणमाल आजहोजपतारितनतप
 तांजाइरातडीजी तुंमोटोमिहराण तमवडखोभ्याप्राण
 आजहोकहीयेरेजिनलहीयेतेमुझवातडीजी २ शांति
 सूधापरनाल वहिलोकरसंजाल आजहोआव्योरेमन
 जाव्योलागनचूकीयेजी गीरुआदिनदयाल सरणांग
 तरखवाल आजहोनयणीरेगुणखाणीटेकनमंकीयेजी
 ३ नवजलपुरतरुचंड त्रिजोवनमांहिप्रचंड आजहोन
 वलारेजगसवलोताहरोमाजनोजी तुंवांधवतुंतात तुंआ
 तमतुंमात आजहोदीठारे तुंमीठोधनदीनआजनोजी ४
 चिंतामणपरतक्ष पायोपुन्यसमक्ष आजहोतुठारेघणवु
 ठाआंगणमोरडेजी कांतिकहीकरजोड पुगीमननीको
 ड आजहोपाल्यारेसंजाल्याचतुरचकोरडेजी ५ इति ॥
 अथ श्रीमहान्द्रजिनगीत ॥ आषाडनूतीअणगारनेरे
 एदेशी ॥ मोहीरह्यामहान्द्रस्युरे नेहनीगडनिडायरे
 प्राणेशरमुणज्यो अवशरकेराबोलडाहोलाल चोकस
 चितडोहिवेरे उतारयोकिमजायरे प्रा० निरवहयिअं
 केधसाहोलाल १ दरशाणलंपटनेघणलारे घडीरउकु
 लायरे प्रा० हांशीस्युंफांसीपरेहोलाल परदेशेजइजे

वस्यारे तेहनेकीममेलायरे प्रा० मनहमनोरथवीसमे
 होलांल २ प्रभुस्युंवांध्योजीवडारे कोडिकरिमनोहा
 ररे हियडानाहार अलवैतेकीमवीसरेहोलांल परदे
 शीजनरंजननारे देखाडोदीदाररे जाचाशोजागी वार
 नीलांओमोरावांलहाहोलांल ३ नेहसुसेगुणधरनारे
 दुजणदीपकसमकह्याहोलांल ओचोसफलोसीयलोरेत
 रुवरछायादेवरे जिनराजसरीखो हृदयमारगतलछांइ
 योहोलांल ४ सुगणांसंगतिजेकरारे नहिरेतेवीहडंत
 रे जिमवज्रजडणी धुवमंडलधिस्राचरीहोलांल प्रेम
 प्रगटजगतारणारे जयवंताअरीहंतरे स्युंकाहियेबहुलु
 कांति सकलसुक्षमामिल्याहोलांल ५ इति ॥
 अथ श्रीदेवयसाजिनगीत ॥ निंदरडीवेरणहुइरही एदे
 शी ॥ देवयशास्युराचीओ मानससरहोजिमवालमरा
 लके मधुकरगणनवकेतकी कदलीवनहोमदक्षरसुडाल
 के दे० १ तिजजीवनपतीस्युंसती इंद्राणीहोजिमचा
 हेसुरींदके ग्रहपतिस्युंजिमकमलनी जलधरस्युंहोजि
 मचातकनंदके दे० २ चंदचाहेनितुरोहणी राधामनहो
 अहनीसगोवींदके शीतानरपतीरामस्युं जगतीजनहो
 नपवारिनारिंदके दे० ३ गिरितनयाधुंपसुपती कोकी
 लकुलहोसरसासहकारके गौतमत्रीसलानंदसुं राजुल

जिमहोश्रिनेमकुमारके दे० ४ प्रेमसीस्योनामसुं गंगा
जलहोनाह्योहुंआजके कांतिविजयप्रभुगुणनीला तेंसा
रघाहोसघलांमुझकाजके दे० ५ इति ॥

अथ श्री अजीतवीर्यजिनस्तवन ॥ नमोरेनमोश्रिशेत्रुं
जागिरवर एदेशी ॥ अजीतवीरजजिनवरमनमान्यो
धिगधवलपरतक्षरे सीवनगरीसारथपतीसाचो परही
तकारणदक्षरे १ धन२आजदीवशअतीरुडो आजद
शावडजागीरे वीरहतणीवेदनअतिनीठुर गाढीदुरेजा
गीरे धन्य० २ निरधननिधिविधिवलिजिम पांमीआ
णंदनवरंगेरे जनतीनंदनपापनीकंदन तिमराचुतुमसं
गेरे ध० ३ समकीततरुवरदरशणरयजर सींच्योअं
तरथांणेरे मूलोत्तरगुणवाध्योशीतल फलीओपुन्यप्र
माणेरे ध० ४ श्रीविजयप्रभसुरिशीरोमणी प्रेमवीजय
तसुसीसरे कांतिकहेआणंदिंसाहिव जय२जगदीसरे
ध० ५ इति ॥ इति कांतिवीजयजीकृत वीसी संपूर्ण॥

अथ श्रीदेवचंदजी कृत वीशी.

अथ श्रीसीमंधरजिनस्तवन॥ श्रीसीमंधरजिनवरस्वा
मी वीनतडीअवधारो सुद्धधर्मप्रगटयोजेतुमचे प्रगटो
तेहअम्हारोरेस्वामी वीनवीयेमनरंगे १जेपरिणामिक

धर्मतुमारो तेहवोश्रह्मचोधर्म श्रद्धाजासनरमणवियो
गे वल्लगोविजावअधर्मरेस्वामी वी० २ वस्तुस्वजाव
स्वजातितेहत्तो मूलअजावनथाय परविजावअनुगत
परिणतथी करमेतेश्रवरायरेस्वामी वी० ३ जेविजा
वतेपणनैमित्तिक संततिजावअनादि परनिमित्ततेवि
षयसंगादिक तेसंयोगेस्थादिरेस्वामी वी० ४ असुद्ध
निमित्तएसंसरता अत्ताकत्तापरनो सुद्धनिमित्तरमेजव
चिदघन करताचोक्ताघरनोरेस्वामी वी० ५ जेहनाथ
र्मअनंताप्रगठ्या जेनिजपरणितवरीयो परमात्मजिन
देवश्रमोही ग्यानादिकगुणदरीयोरेस्वामी वा० ६ आ
लंबनउपदेसकरीते श्रीसीमंधरदेव जजीयेसुद्धनिमित्त
अनोपम तजीयेजवजयटेवरेस्वामी वी० ७ सुधदेवआ
लंबनकरतां परहरीयेपरजाव आतमधर्मरमणअनुभ
वतां प्रगटेआतमजावरेस्वामी वी० ८ आतमगुणनी
रमलनीपजतां ध्यानसमाधिसजावि पूर्णानंदसिद्धता
साधी देवचंद्रपदपावेरेस्वामी वी० ९ इति ॥
अथ श्रीयुगमंधरजिनस्तवन ॥ देशीनारायणानि ॥
श्रीयुगमंधरवीनवुरे वीनतडीश्रवधाररे दयालराय ए
परपरणितिरंगथीरे मुझनेनाथउगाररे द० १ श्री०
कारकग्राहकजोग्यतारे मैकीधीमहारायरे द० पणतु

अक्षरिखोप्रचुलहिरे साचीवातकहायरे द० २ श्री०
 यद्यपिमूलस्वप्नावमेरे परकर्तृत्वविज्ञावरे द० अस्तिध
 रमएमाहरोरे एहनोतच्छत्रावरे द० ३ श्री० पर
 परणामिकतादसारे लहिपरकारणयोगरे द० चेतन
 तापरगतथइरे राचीपुदगलभोगरे द० ४ श्री० असु
 द्वानिमित्ततोजडअछेरे वीरयसकतिविहीनरे द० तूतोवी
 रजग्यानथीरे सुखअनंतेलीनरे द० ५ श्री० तिणका
 रणनिश्चकरचोरे मुझनिजपरणितजोगरे द० तुझसेवा
 थीनीपजेरे जाजेनवजयसोगरे द० ६ श्री० सुद्धरम
 एअनंदतारे ध्रुवनिस्संगस्वभावररे द० सकलप्रदेश
 अमुर्ततारे ध्यातांसिद्धउपायरे द० ७ श्री० सम्यग्
 तत्वजेउपदिस्थेरे सुणतांतत्वजणायरे द० श्रधाग्याने
 जेअहोरे तेहिजकार्यकरायरे द० ८ श्री० कार्यरुचीक
 रताथयोरे कारकसविपलटायरे द० आतमगतेआत
 मरमेरे निजघरमंगलथायरे द० ९ श्री० प्राणसरण
 आधारछोरे प्रभुजीनव्यसहायरे द० देवचंद्रपदनीप
 जेरे जिनपदकजसुपसायरे द० १० श्री० इति ॥
 अथ श्रीबाहुजिनस्तवन ॥ संभवजिनअवधारीये एदे
 शी ॥ बाहुजिणंददयामई वरतमानजगवानप्रभुजी म
 हाविदेहेविचरता केवलज्ञाननिधान प्र० १ बा० द्रव्य

थकोच्छकायनो नहणेजेहलगार प्र० ज्ञावदयापरिणा
 मनो एहिजछेव्यवहार प्र० २ वा० रूपश्रनुत्तरदेवथी
 श्रनंतगुणोश्रनिराम प्र० जोतांपणजगजीवने नवधेवि
 पयविराम प्र० ३ वा० कर्मउदेजिनराजनो जविजन
 धर्मसहाय प्र० नामादिकसंचारतां मिथ्यादोषविला
 य प्र० ४ वा० श्रातमगुणश्रविराधना ज्ञावदयानंडार
 प्र० क्षायकगुणपर्यायमें नविपरधर्मप्रचार प्र० ५ वा०
 गुणगणपरणतिपरणमे बाधकज्ञावविहीन प्र० द्रव्य
 श्रसंगीश्रन्यनो शुद्धश्रहिसकपीन प्र० ६ वा० क्षेत्रेस
 र्वप्रदेशमें नहीपरज्ञावप्रसंग प्र० श्रतनुश्रयोगीज्ञाव
 थी श्रवगाहिनाश्रजंग प्र० ७ वा० उत्पादव्ययध्रुवप
 णे सहजेपरणितथाय प्र० छेदनयोजनतानही वस्तुस्व
 ज्ञावसमाय प्र० ८ वा० गुणपर्यायश्रनंतता कारकपर
 णिततेम प्र० निजनिजपरणितपरणमे ज्ञावश्रहिसक
 एम प्र० ९ वा० एमश्रहिसकतामइ दीठोतुंजिनराज
 प्र० रक्षकनिजपरजीवनो तारणतरणजिहाज प्र० १०
 वा० परमात्मपरमेसरु ज्ञावदयादातार प्र० सेवोध्या
 वोएहने देवचंद्रसुखकार प्र० ११ वा० इति ॥
 श्रथ श्रीसुबाहुजिनगीत ॥ ढाला ॥ माहरोवालोल्लवारी ॥

श्रीसुबाहुजिनश्रंतरजामी मुझमननोविशरामरि प्र०

(६५०)

देवचंदर्जाकृत.

पाकरतार १ स्वा० द्रव्यधरमतेहोजोगसमारिवा वि
षयादिकपरिहार आतमशक्तिसजावसुधर्भनो साधन
हेतुउदार २ स्वा० उपसमजावेहोमिश्रक्षायकपणे जे
निजगुणप्राग्भाव पूर्णावस्थानेनीपजावतो साधनधर्म
स्वजाव ३ स्वा० समकितगुणथीहोसैलेशीलने आत
मश्रनुगतजाव संवरनिजराहोउपादानहेतुतासाध्यालं
बनदाव ४ स्वा० सकलप्रदेशीहोकर्मअजावता पूर्णा
नंदस्वरुप आतमगुणनेहोजेसंपूर्णता सिद्धस्वजावश्र
नुप ५ स्वा० अचलअबाधितहोजेतिरसंगता परमा
तमचिद्रुप आतमजोगीहोरमतानिजपदे सिद्धरमणए
रुप ६ स्वा० एहबोधर्भहोप्रभुनेनीपनो जाख्योएहबो
धर्म जेश्रादरतांहोचवीयणशुचिहवे त्रिविधविदारीक
र्म ७ स्वा० नामधरमहोठवणधरमतथा द्रव्यक्षेत्रति
मकाल जावधरमनाहोहेतुपणेभला जावविनासहुआल
८ स्वा० श्रद्धाजासनहोतत्वरमणपणे करतांतन्मयजा
व देवचंद्रजिनवरपदसेवतां प्रगटेवस्तुस्वजाव ९ स्वा.
इति ॥ अथ श्रीरुषभाननजिनस्तवन ॥ वीरा
रंगोडीपासने एदेशी ॥ श्रीरुषभाननवांदिये अचल
अनंतगुणवास जिनवर क्षायकचारित्रजोगथी ग्याना
नदाविलास जि० १ श्री० जेप्रसन्नप्रभुमुखग्रहे तेहि

जनयनप्रधान जि० जेजिनवरनेनामीये मस्तकतेहप्र
 माण जि० २ श्री० अरिहापदकजश्ररचीये सलही
 जेतेहृथ्य जि० प्रचुगुणचितनमेरमे तेहजमनसुकयथ्य
 जि० ३ श्री० जाणोछोसहुजीवनी साधिकबाधिक
 ज्ञात जि० पणश्रीमुखथिसांजले मनपामेनीरांत जि०
 ४ श्री० तनिकालजाणगजणी स्युंकहियेवारंवार
 जि० पूर्णानंदिप्रचुनणो ध्यानतेपरमश्राधार जि० ५
 श्री० कारणथीकारजहवे एश्रीजिनमुखवाण जि० पु
 ष्टेहेतुमुझसिद्धना जाणीकीधप्रमाण जि० ६ श्री०
 शुद्धतत्त्वनिजसंपदा ज्यांलगेपूर्णतथाय जि० त्यांलगेज
 गगुरुदेवना सेवुंधरणसदाय जि० ७ श्री० कारजपू
 र्णकरघाविना कारणकैममुकाय जि० कार्यरुचिकारण
 तणा सेवेशुद्धउपाय जि० ८ श्री० ग्यानचरणसंपूर्ण
 ता श्रव्याबाधअमाय जि० देवचंद्रपदपामीये श्री
 जिनराजपसाय जि० ९ श्री० इति ॥

अथ श्रीअनंतविरजजिनस्तवन ॥ अनंतविरजजिन
 राजनो सुचिवीरजपरमअनंतरे निजआतमजावंपर
 णम्यां गुणवृत्तिवरतजावंतरे १ मनमांहायांश्रमहारोप्र
 भुगुणे आंकणी यद्यपिजीवसहुसदा वीरजगुणसत्तावं
 तरे पणकर्मश्रावृततथा बालबाधकजावलहंतरे २

तारणोजगवन्तरे श्रांकणी. नवउपाधिगदटालवा प्रभु
 जीछेवेद्यश्रमोघरे रत्नत्रयश्रोषधकरी तुमेतारघानवि
 जनश्रोघरे २ श्र० नवसमुद्रजलतारवा निरजामिक
 समजिनराजरे चरणजिहाजेपामीये अक्षयशिवनगर
 नोराजरे ३ श्र० नवश्रटवीश्रतिगहनथी पारगप्रभु
 जीसथवाहरे सुद्धमार्गदर्शकपणे योगस्वेमांकरनाहरे ४
 श्र० रक्षकजिनछकायना वलिमोहनिवारकसामरे श्र
 मणसंघरक्षकसदा तिणेंगांपईसश्रभिरामरे ५ श्र० ना
 वश्रहिंसकपूर्णता माहणताउपदेशरे धर्मश्रहिंसकनीप
 नो माहणजगदीसविसेषरे ६ श्र० पुष्टकारणश्ररिहं
 तजी तारकज्ञायकमुनिचंद्ररे मोचकसर्वविजावथी जी
 पावेमोहश्ररिंदरे ७ श्र० कामकुंजसुरमणिपरे
 सहजउपगारीथापरे देवचंद्रसुखकरप्रभु गुणगेहश्र
 मोहश्रमायेरे ८ श्र० इति ॥

अथ श्रीवज्रधर
 जिनगीत ॥ नदीयमुनांकेतीर० एदेशी॥ विहरमानन
 गवानसुणोमुझवीनती जगतारकजगनाथश्रछोत्रिजुव
 नपती भासकलोकालोकतिणेजाणोछति तोपणावित
 गवातकहूछंतुझप्रति १ हूंमरुपनिजछोडिरम्योपरपुद
 गले झाल्योउलटश्राणीविषयतुझाजले श्राश्रवबंध
 विजावकरुरुचिश्रापणी नूल्योमिथ्यावासदोषयुंपरन

षोडश अवगुणढांकणकाजकरुंजिनमतक्रिया नतजुश्रव
 गुणचालअनादिनीजेप्रिया दृष्टीरागनोपोपतेहंसमाकि
 तंगिणं स्यादवादनीरीतनदेखुंनिजपणुं ३ मनतनुघप
 लस्वजावचनएकांतता वस्तुअनंतस्वजावनजासेजेछ
 ता जेलोकोत्तरदेवनमूलोकीकथी दूर्लभसिद्धसजावप्र
 जोतहर्काकथी ४ महाविदेहमझारकंतराकजिनवरु श्री
 वज्रधरश्ररिहंतअनंतगुणाकरुं तेनिर्यामिकश्रेष्ठसहीमु
 झतारस्यं महावैद्यगुणयोगरोगजववारस्ये प्रभुमुखन
 व्यस्वजात्रसुणुंजोमाहरो तोपामुं प्रमोदएहचतनखरा
 थायेसियपदआसराससुखचंद्रनी सहजस्वतंत्रस्वरुप
 खाणआणंदनी ६ बलगाजेप्रभुनामधामतेगुणतणा
 धारोचेतनरामएहथिरवासना देवचंद्रजिनचंद्ररिदयधि
 रथापज्यो जिनआणायुतभक्तिमुक्तमुझआपज्यो ७ इति
 अथ श्री चंद्राननजिनगीत ॥ वीराचंद्रला एदेशी ॥
 चंद्राननजिन सांभलीएश्ररदासरे मझमेवकजणी छेप्र
 भुनोवीसासारे १ चं० नरतक्षेत्रमानवपणारे लाधोदु
 समकाल जिनपूरवधरविरहथरि दूलहोसाधनचालो
 रे २ चं० द्रव्यक्रियारुचिजीवडारे जावधरंमरुधि
 हनि उपदेशकपणतेहवारे स्युंकरेजीवनवीनरे ३ चं०
 नत्वागमजाणगतजरि बहुजनसंमतजेह मूढहठीजन

(६५६)

देवचंद्रजीकृत.

आदर्योरे सुगुरुकहावेतेहरे ४ चं० आणासाध्यवि
नाक्रियारे लोकेमान्योरेधर्म दंक्षणनाणचरित्रनोरे मू
लनजाण्योमर्मरे ५ चं० गच्छकदाग्रहसाचवेरे मानेधर्म
प्रसिद्ध आतमगुणत्रकषायतारे धर्मनजाणोसुद्धरे ६ चं०
तत्वरसिकजनथोडलारे बहुलोजनसंवाद जाणोछोजि
नराजजीरे सघलोएहविवादोरे ७ चं० नाथचरणवंद
नतणोरे मनमांघणोउमंग पुण्यविनाकिमपामीयेरे प्रभु
सेवननोसंगरे ८ चं० जगतारकप्रभुवांदोएरे महावि
देहमझार वस्तुधरमस्यादवादतारे सुणिकरियेतिरधा
ररे ९ चं० तुल्लकरुणासहुउपररे सरस्वीछिमहाराय प
णत्रवराधकजीवनेरे कारणसफलोथावरे १० चं० ए
हवापणनवीजीवनेरे देवभगतिआधार प्रभुसमरणथी
पामीयेरे देवचंद्रपदसाररे ११ चं० इति ॥

अथ श्रीचंद्रबाहुजिनगीत ॥ श्रीअरनाथउपासना ए
देशी ॥ चंद्रबाहुजिनसेवना भवनासनीतेह परपरणित
नापासने निक्कासनरेह १ चं० पुदगलजावत्रसंसना
उदवासनकेत सम्यग्दर्शनवासना चाक्षणचरणसमे
त २ चं० त्रिकरणयोगप्रसंसना गुणस्तवनारंग वंद
नपूजनजावना निजप्रावनात्रंग ३ चं० परमातमपद

कामना कामनासनएह सत्ताधरमप्रकाशता करवाग

एगह ४ चं० परमेश्वरआलंबना राच्याजेजीव निर्म
लसाध्यनीसाधना साधेतेहसदीव ५ चं० परमानंद
उपायवा प्रभुपूष्टउपाय तुझसमतारकसेवतां परसेव
नथाय ६ चं० शुद्धांतमसंपतितणा तुम्हेकारणसार
देवचंद्रअरिहंतनी सेवासुखकार ७ चं० इति ॥

अथ श्रीचूजगस्वामिगीत ॥ देशी लूअरनी ॥ पुष्क
लावइविजयेहोकेविचरेतीर्थपति प्रभुचरणनेसेवेहोके
सुरनरअसुरपती जसुगुणप्रगट्याहोकेसर्वप्रदेशमां
आतमगुणनीहोकेविकसीअनंतरमां १ सामान्यसजा
वनीहोकेपरणतिअसहाइ धर्माविशेषनीहोकेगुणनेअनु
जाइगुणसकलप्रदेशहोकेनिजनिजकार्यकरे समुदाय
प्रवर्तेहोकेकरताजावधरे २ जडद्रव्यचतुष्केहोकेकरता
जावनही सर्वप्रदेशहोकेवृत्तिविचित्रिकही चेतनद्रव्यने
होकेसकलप्रदेशामिले गुणवरतनावरतेहोकेवस्तुनेसह
जवले ३ शंकरसहकारेहोकेसहजेगुणवरते द्रव्यादिकप
रणितीहोकेजावेअनुसरते दानादिकलब्धिहोकेनहुवे
सहायविना सहकारअकंपेहोकेगुणनीवृत्तिघना ४ पर्या
यअनंताहोकेजेइककार्यपणे वरतेतेहनेहोकेजिनवरगु
णपचणे ग्यानादिकगुणनीहोकेवरतनाजीवप्रते धर्मा
दिकद्रव्यनेहोकेसहकारेकरते ५ आहकव्यापकताहो

(६५८)

देवघंदजिकृत.

केप्रभुतुमधर्मरमी आतमअनुभवथीहोकेपरणतिअन्य
वमी तुझसक्तिअनंततीहोकेगातांनेध्यातां मुझसक्तिवि
कासनहोकेथायेगुणरमतां ६ इमनिजगुणजोगीहोके
स्वामिभुंजगमुदा जेनितवंदेहोकेतेनरधन्यसदा देवचं
द्रप्रभुनीहोकेपुन्येजगतिसधे आतमअनुभवनीहोकेनि
त्यशक्तिवधे ७ इति ॥ अथ श्रीइश्वरदेवजि
नस्तवन ॥ कालअनंतानंत एदेशी ॥ शेवोइश्वरदेव
जिणेइश्वरतानिजअदभुतवरी तिरोजावनीशक्ति आ
विर्जावेहोसहुप्रगठकरी १ अस्तित्वादिक
धर्म निर्मलजावेहोसहुनेसर्वदा नित्यत्वादिस्वजाव ते
परिणामीहोजडचेतनसदाकर्ताज्ञोक्ताजाव कारकआ
हकहोज्ञानचारित्रता गुणपर्यायअनंत पास्यातुमचाहो
पूर्णपवित्रता ३ पूर्णानंदस्वरुपजोगीअर्थोगीहोउपयो
गीसदा शक्तिसकलस्वाधिन वरतेप्रभुनिहोजेनचले
कदा ४ दासविजावअनंत नासेप्रभुजीहोतुझअवलंबने
ज्ञानानंदमहंत तुझसेवाथीहोसेवकनेबने ५ धन्यधन्य
तेजीव प्रभुपदवंदीहोजेदेसनासुणे ज्ञानक्रियाकरेशुद्ध
अनुभवयोगेहोनिजसाधकपणे ६ वारवारजिनराज
तुझपदसेवाहोहोज्योनिरमली तुझसासनअनुजाइ
वासनजासनहोतत्वरमणवली ७ शुद्धातमनिजधर्म

रुचिश्चनुचवधीहोसाधनसत्यता । देवचंद्रजिनचंद्र । ज
 क्तिपास्येहोहोस्येव्यक्तता ॥ ८ ॥ इति ॥

अथ श्रीनमिप्रजजितस्तवन ॥ अरजअरजसुणोनेरु
 डाराजीयाहोजी एदेशी ॥ नमिप्रजनमिप्रजप्रभुजीवी
 नवंहोलाल पामीवरप्रस्ताव जाणोछो२ विणविनवेहो
 लाल तोपणदासस्वजाव १ न० हुंकरता२ परजावनोहो
 लाल चुक्तापूदगलरुप ग्राहक२ व्यापकएहनोहोलाल
 राच्योजडजवभूप २ न० आतम२ धर्मविसारीयोहो
 लाल सेव्योमिथ्यामाग आश्रव२ बंधपणोकरयोहोला
 ल संवरनिर्जरत्याग ३ न० जडचल२ कर्मजेदेहनेहो
 लाल जाणोआतमतल बहिरातम२ तामेंग्रहीहोलाल
 तनुरंगेएकल ४ न० केवल२ ज्ञानमहोदधिहोलाल के
 वलदंसणवुद्ध वीरज२ अनंतस्वजावनोहोलाल चारि
 त्रक्षायकशुद्ध ५ न० विश्रामि२ जितजावनाहोलाल
 स्याद्वादीअप्रमाद परमातम२ प्रभुदेखताहोलाल जा
 गिभ्रांतिअनाद ६ न० जिनसम२ सत्ताओलखीहोला
 ल तसुप्राग्भावनीइह अंतर२ आतमतालहेहोलाल
 परपरणतनीरीह ७ न० प्रतिछंदे२ जिनराजनोहोला
 ल करतासाधकजाव देवदेवचंद्रपदअनुचवेहोलाल सु
 दातमप्राग्जाव ८ न० इति ॥ अथ श्रीवीरसे

नजिनगीत ॥ लाछलदेमातमल्हार एदेशी ॥ वीरसेन
 जगदीस ताहरीपरमजगीस आजहोदीसेरेवीरजता
 त्रिभुवनथीघणीजी १ अनहारीअसरीर अक्षयअजय
 अतिधीर आजहोअविनासीअलेशीध्रुवप्रचुतावणीजी
 २ अतिइंद्रियगतकोह विगतमायमयलोह आजहोसो
 हेरेमोहेजगजनाअणीजी ३ अमरअखंडअरुप पूर्णा
 नंदस्वरुप आजहोचिद्रूपेदीपेथिरसमताधणीजी ४ वे
 दरहितअकषाय शुद्धसिद्धअसहाय आजहोध्यायकना
 यकनेध्येयपदेग्रह्योजी ५ दानलाभनिजजोग सुद्धसगु
 णउवजोग आजहोअजोगीकरताजोक्ताप्रभुलह्योजी ६
 दरसणज्ञानचारित्र सकलप्रदेशपवित्र आजहोनिरम
 लनिरुसंगीअरिहावंदीयेजी ७ देवचंद्रजिनचंद्र पूर्णानं
 दनोचंद्र आजहोजिनवरसेवाथीचिरआनंदीयेजी ८ इति
 अथ श्रीमहाअद्रजिनस्तवन ॥ तटयमुनानोरेअतिर
 लीयामणोरे एदेशी ॥ महाअद्रजिनराज राजविराजे
 होआजतुमारडोजी क्षायकवीर्यअनंत धर्मअजंगेहो
 तुंसाहिवबडोजी १ हुंबलिहारीरेश्रीजिनवरतणीरे क
 र्तानोक्ताजाव कारककारणहोतुंस्वामीछितोजी ज्ञानप्र
 धानप्रधान सरववस्तुनाहोधरमप्रकाशताजी २ हुं०
 सम्यग्दर्शनमित्ति थिरनिर्द्वारेरेअविसंवादताजी अ

व्याबाधिसमाधि कोसत्रनश्वरेरेनिजआनंदताजी ३
 हुं० देशअशंखप्रदेश निजनिजरीतेरेगुणसंपतिभरचा
 जी चारित्रदुर्गअजंग आतमसकतेहोपरजयसंचरघा
 जी ४ हुं० धर्मक्षमादिकसैन्य परिणतिप्रभुताहोतुझब
 लआकरोजी तत्वसकलप्राग्जाव सांदिअनंतीरेरीते
 प्रभुधरचोजी ५ हुं० द्रव्यभावअरिलेश सकलनिवारी
 रेसाहिवअवतरचोजी सहजस्वजावविलास जोगीउ
 पयोगीरेग्यानगुणेभरचोजी ६ हुं० आचारिजउवझा
 य साधकमुनिवरहोदेसविरतधरुजी आतमसिद्धअनं
 त कारणरुपेरेयोगक्षेमंकरुजी ७ हुं० सम्यग्द्रष्टिजी
 व आणारागीहोसहुजिनराजनाजी आतमसाधनका
 ज सेवेपदकजहोश्रीमहाराजनाजी ८ हुं० देवचंद्रजि
 नचंद्र जगतेराचेहोजविआतमरुचीजी अव्ययअक्षय
 सुद्ध संपतिप्रगटेहोसत्तागतिसुचीजी ९ हुं० इति ॥
 अथ श्रीदेवजसाजिनगीत ॥ महाविदेहक्षेत्रसोहामणुं
 एदेशी ॥ देवजसादरसणकरो विघटेमोहविजावलाल
 रे प्रगटेशुद्धस्वजावता आनंदलहरीदावलालरे १ दे०
 स्वामीवसोपुष्करवरे जंबूजरतेदासलालरे क्षेत्रविनेद
 घणोषड्यो किमपुहचेउल्लासलालरे २ दे० होवत

जोतनुपांखडी आवतनाथहजुरलालरे जोहोतीचितआं

खडी देखतनितप्रचूनूरलालरे ३ दे० शासनचक्तिज
 सुरवरा वीनवुंसीसनमायलालरे कृपाकरोमुझउपरे तो
 जिनवंदनथायलालरे ४ दे० पुछुंपूर्वाविराधना सीकी
 धीइणेजीवलालरे अवरतिमोहटलेनही दीठेआगम
 दीवलालरे ५ दे० आतमतत्वस्वभावने बोधनशोध
 नकाजलालरे रतनत्रइप्रापतितणो हेतुकहोमहाराज
 लालरे ६ दे० तुझसरिखोसाहिवमिल्यो जाजेनवभ्र
 मटेवलालरे पुष्टालंबनप्रभुलहि कोनकरेपरसेवलाल
 रे ७ दे० दीनदयालुकृपालुओ नाथनविकआधारला
 लरे देवचंद्रजिनसेवना परमामृतसुखकारलालरे ८
 दे० इति ॥ अथ श्री अजीतवीर्यजिनगीत ॥

अजितवीरजजिनविचरतारे मनमोहनारेलाल पुष्कर
 अरधविदेह भविबोहनारेलाल जंगमसुरतरुसारिखो
 रे मन० सेवेधनधनतेहरे नवि० १ जिनगुणअमृत
 पानथीरे म० अमृताक्रियासुपसायरे न० अमृताक्रिया
 अनुष्ठानथीरे म० आतमअमृतथायरे न० २ प्रीतिन
 क्तिसेवाथकीरे म० वचनअसंगीसेवरे म० क
 रतांतनमयतालहेरे म० प्रभुगतिनितमेवरे न०
 ३ परमेस्वरअवलंबनेरे म० ध्याताध्येयअनेदरे
 न० ध्येयसमापतिहवेरे म० साध्यसिद्धिअवि

छेदरे ज० ४ जिनगुणरागपरागथीरे म० वासित
 मुक्षपरिणामरे ज० तजसेदुष्टविजावतारे म० सरस्ये
 आतमकामरे ज० ५ जिनजक्तेरतिचितनेरे म० वेधकरस
 गुणप्रेमरे ज० सेवकजिनपदपामस्येरे म० रसवेधत
 अयजेमरे ज० ६ नाथजगतिरसमाचिथीरे म० त्रिण
 जाणुं परदेवरे ज० चिंतामणीसुरतरुथकीरे म० अधि
 क्तिरिहंतसेवरे ज० ७ परमातमगुणस्मृतथकीरे म०
 फरस्योआतमरामरे ज० नीयमाकंचनतालहेरे म० लो
 हज्युंपारसपामरे ४० ८ निरमलतत्वरुचिथइरे म०
 करज्योजिनपतिजक्तिरे म० देवचंद्रपदपामस्योरे म०
 परममहोदययूतरे ज० ९ इति ॥

कलस ॥ रागधन्यासी ॥ वंदो वंदोरे जिनवरविचरंतावं
 दो कीर्त्तनस्तवननमनश्नुसरतां पुरवपापनिकंदोरे जि
 नवरविचरंतावंदो १ जंबूद्वीपेच्यारजितेश्वर धातकीआ
 ठआणंदोरे पुष्करअरधेआठमहामुनी सेवेचोसठइंदोरे
 जि० २ केवलीगणधरसाधुसाधवी आविकआविकावृ
 दंदोरे जिनमुखधरमअमृतअनुजवतां पामेमनआणंदो
 रे जि० ३ सिद्धाचलचोमासरहनि गायोजिनगुणछंदोरे
 जिनः ४ मुगातेनोभारग अनोपमसिवसुखकंदो
 र जि० खरतरगछजिनचंद्रसूरिवर पुन्यप्रधानमुणिं

दोरे सुमतिसागरसाधुरंगसुवाचक पीधोश्रुतमकरंदो
 रे जि० ५ राजसारपाठकउपगारी ज्ञानधरमदिणंदो
 रे दीपचंदसदगुरुगुणवंता पाठकधीरगयंदोरे जि० ६
 देवचंद्रगणिआतमहेते गायावीसिजिणंदोरे रीद्विवृद्धि
 सुखसंपतिप्रगटे सुजसमहोदयचंद्रोरे जि० ७ इति ॥
 इति देवचंद्रजी कृत वीशी संपूर्ण ॥

अथ श्रीजिनराजसूरीकृत वीशी.

अथ श्रीसीमंधरस्वामीगीत ॥ मुजहीयडोहेजालुओ
 नाखरगणेनर्जाति आवेजावेएकलो करवातुमसुंप्रीति
 १ सीमंधरकरज्योमया धरज्योअविहडनेह अमचाअव
 गुणजोइने रखेदीखावोछेह २ सी० तुम्हचीजगतिघ
 णुघणा अणहुंतेएककोड अम्हचीमिटनकोमिल्यो सा
 हिवतुम्हचीजोड २ सी० दक्षणाभरतअम्हेरहुं पुष्क
 लावतीजिनराय कोइकदीनमिलवातणो दीसेछेत्रंत
 राय ४ सी० दीधीदैवनपांखडी आवूकेमहजूर पणजा
 णज्योरेवंदना प्रहउगमतेसूर ५ सी० कागलीयेलिखि
 कारमि कीजेसीमनुहार अम्हचीएहिजवीनती आवा
 गमणनिवार ६ सी० परमदयालकृपालछो करज्योअ
 वसरसार श्रीजिनराजइसोकहे मतमुकोविसार ७

सी० इति ॥ अथ श्रीयुगमंधरस्वामीगीत ॥
 ढाल ॥ चरमजिनेसरु एदेशी ॥ सेमुखहुंनसकुंकही
 आडीआविलाज रहीपणनसकुंवापजी इमकिमासिजे
 काजोरे १ वीराचांदला तूजाइसतिणदेशोरे युगमंधर
 नणी कहेजोमुजसंदेशोरे २ वी० तूंअंतरजामीअछे
 जाणेमननीवात तोपणआसनपूरवे एसीतुमचीधातो
 रे ३ वी० मेंतोकरवोमोदिसा तुम्हसुंनिवडसनेह फ
 लप्राप्तसारुहुस्ये पणमतदाखोछेहोरे ४ वी० तेहनेक
 हीसमजाइये जेहुयआपअयाण पणजिनराजसमोअ
 छे अवरनएवडजाणोरे ५ वी० इति ॥

अथ श्रीबाहुस्वामीगीत ॥ बांहसमापोबाहुजी जिममो
 मनथिरथायरे जिणतिणबांहआलंबता मानमहातम
 जायरे १ बां० सवलानोसरणोलीये गंजीनसकेको
 यरे पाधरसीपाछलपाड्यां कारजसिद्धिनहोयरे २ व०
 तुमसरिखाथायेबलूं करेपखोजगनाहरे तोनाणुंसुपनं
 तरे हुंकेहनीपरचाहरे ३ बां० सरणागतवछछलतुम्हे
 हुंसरणागतसामिरे जिममनमानेतिमकरो सुंकहीयेले
 इनामरे ४ बां० जोसेवककरिजाणस्यो तोइतलेहीमुझरा
 जरे मीटेहीमोटातणी जीवीजेजिनराजरे ५ बां० इति ॥

अथ श्रीसुबाहुस्वामीगीत ॥ मनगमतोसाहिवमिल्यो

(६६६) जिनराजसूरीकृत.

एदेशी ॥ स्वामीसुबाहुजिणंदनो जइयेमुखनिरखेसरे
सकलमनोरथमालिका तइयेसफलकरेसरे १ धर्मजाग
रीयाजागतां समरंतागुणप्रामरे पाणीवलएहवोरह्यो
माहरेमनपरणामरे २ ध० अमीयसमाणाबोलडा वा
रहपरखदसाथरे सांजलीजवथोउजगी व्रतलेइशुंप्रजु
हाथरे ३ ध० जनमलगेपासेरही भगतिकरसुनिसदि
सरे तपजपसंजमपालस्युं मनसुधेविसवावीसरे ४ ध०
आपणपेंजाइगोचरी आणस्युंसुद्धआहाररे साधुसहु
नेसाचवी देस्युंदेहआधाररे ५ ध० च्यारकरमचकचू
रने पामीसुंकेवलनाणरे श्रीजिनराजपसाउले चढ
स्युंवलप्रमाणरे ६ ध० इति ॥ अथ श्रीसुजा
तजिनगीत ॥ ढाल ॥ आजनिहेजोरेदीसेनाहलो एदे
शी ॥ तुंगतितुंमतितुंसाचोधणी तुबंधवतुंतात तुजसम
अवरनकोमुजवालहो समरुंस्वामीसुजात १ तुं० ह
रीहरब्रह्मादिकआराधतां नटलेगरजावास तिणेइण
जवमेंकीधीआखडी सीसनमावणतास २ तुं० जेपोतेप
रनीआस्याकरे तेस्युंपुरेरेआस संतोप्योपिणरांकनदे
सके अविचललीलवीलास ३ तुं० अंतरगतमनस्युं
आलोचतां एकीधोनिरधार तुजविणदेवनकोबीजोअछे
सिवसुखनोदातार ४ तुं० करोमहिरजवजलधिलहरथ

जिनराजसूरीकृत, (६६७)

की प्रवहणसमंजिनराज जोकरग्रहसेवकनेतारस्यो
तोहिजरहस्येलाज ५ तुं इति ॥ अथ श्री
स्वयंप्रज्ञजिनस्तवन ॥ ढाल नणदलरी ॥ स्वामिस्वयं
प्रभुसांजलो करहुनिवाजसकांय जगजीवन विरुदग
रीवनीवाजनो जिमजगजसथिरथाय ज० १ स्वा०
पोतानाअरीघणहंप्या तिणअरिहंतकहंत ज० जोमु
जअरीयणनरदलो तोसाचोअरिहंत ज० २ स्वा० तुं
स्युंतारेतेहने जेसुधाअणगारं ज० तारकविरुदखरोक
रो तोमुजसरीखोतारं ज० ३ स्वा० अंतरजामीमाह
रो तुंकिणकारणहोय ज० अंतरगतिलेवाभणी नदी
येकागलकोय ज० ४ स्वा० नेहगहेलामानवी
भावेजिमजासंत ज० चारीखमाजिनराजजी केहने
छेहनदीयंत ज० ५ स्वा० इति ॥ अथ श्रीरिपज्ञाननजिनगीत ॥ ढाल ॥ आजधराउधुं
धलोमारुजी एदेशी ॥ मेंतोतेहजाण्योनही साहीव जे
हस्युंतुम्हचेरंग तोहीछांडीनकोसके साहिव पाणीव
लतुम्हसंग १कोडेगानेहेजालूवो आं० सा० मुजहेलेगुण
गेह फेरहेलोनकोतेदीयो साहिव तूंसाचोनिसनेह को०
२ आदरमाननकोदीये सा० करेनकोवगसीस तोपि
णउजाओलगे सा० इंद्रादिकनिसदिस को० ३ ए

(६६८) जिनराजसूरीकृत.

माहरोएपारको सा. नकरेकोइविचार तोपणआविनेजु
डे सा० आगलपरखदावार को० ४ सुखदुखपिणपु
छेनही सा० तोपिणतुम्हस्युप्रीत रिषभाननसहुको
करे सा० एतुजनवलीरीत को० ५ नयणेनषण
निहालतां सा० मोहथआवेराज आपणपेअगलारहे
सा० मोहथकीजिनराज को० ५ इति ॥

अथ श्रीअनंतवीरजजिनगीत ॥ ढाल ॥ पुजजीचोमासो
एदेशी ॥ अनंतवीरजजीमेंताहरो नामसुण्योजिनराज
साहिबजिमतिमबलफोरवी आपोसिवपुरराज १ अ०
जोहुंजोवुंमोदिसा तोनमलेतिलमात पिणचित्तवतांस
हु वरेपडेसीवात २ अ० जेमेंकीधीनवनवी करणीको
डिप्रकार तिणहुंतीप्रचूछोडवे तोहुवेछूटकबार ३ अ०
नवसायरबीहामणो जिहांकिणवाटनघाट तुंतारेतोही
जतरुं सबलांउजटवाट ४ अ० छोरुसहिजउछांछला
कोडिविणासेकाम पिणमावीतनमिटसके जिमतिमपूरे
हाम ५ अ० इति ॥ अथ श्रीविसालंजिनगीत ॥

आदरजीवक्षमा एदेशी ॥ आपणपेआवीहुंनसकुं मुं
कयोछेपरधानजी जोसाचीसीसेवासारे तोराखेज्योवा
नजी १ मुजमनतुजचरणेलयलीनो जिममधुकरअरविं
दजी पाणीवळपिणपासनछंडे लीणोगुणमकरंदजी २

मु० चपलपणेचुकेस्योतोपिण मतछोडावोतीरजी तुर
तउत्तरआपेत्रटकीने गुरुआहुवेगंजीरजी ३ मु० बीजा
नेवगसीसकरंता मतमुंकोवीसारजी पांतिवीचजपरलो
पातिक अवरनछेसंसारजी ४ मु० वातसहुतोएपरमा
रथ सांनलिस्वामिविसालजी श्रीजिनराजनिरासमक
रज्यो करज्योकामसंजाजजी ५ मु० इति ॥

अथ श्रीसूरप्रभुगीत ॥ मेघमनकांडमडोलेरे एदेशी॥
कीजेछेजेहनासहुजी वचनेवचनप्रमाण तेजोआपणापे
मिलेजी तोहुवेकोडिकल्याण १ सूरप्रभुअवधारोअर
दास जिमतिमपूरोआस सू० देइतीनप्रदक्षणाजी आ
णीअधिकजगीस करजोडिउजोरहिजी प्रश्नकरुंदस
विस २ सू० वलीपूछुहवेकेतलोजी नमवोछेसंसार आ
धीनासेटेपड्यांजी नमतांनावेपार ३ सू० पोतानीक
रणीपखेजी तारीनसकेसाम पणवाटेवहतांसहुजी पूछे
केतलेगाम ४ सू० जिणदिनप्रचूदरसणहुस्येजी लेखेपड
स्येतेह धनदिनतेजिनराजनोजी इणपरिवोलेजेह ५
सू० इति॥ अथश्रीवज्रधरजिनगीत॥ पंथीडानी एदेशी॥
एकसवलमननोधोखोटल्योरेलाधोसाहिवचतुरसुजाण
रे जेहुंनगतिकरिस्थुंतेजाणस्येरेवज्रधरकेवलनाणप्रमा
णरे १ ए० दुरथकीपिणजोसाचेमनेरे समरणकरस्युं

वारथिच्याररे तोपिणतेअहिलोजास्येनहिरे फलस्ये
 नवनवकोण्डिप्रकाररे २ ए० अंतरगतिअंतरजामील
 हेरे तेप्रनुसाचोसुखनोबीजरे जेगुणनेअवगुणजाणेन
 हीरे तेसुंनिसिदिनकरवोधीजरे ३ ए० चूकपडेजोकि
 णहीवातनारे तोपिणनधरेतिलनररीसरे तूसेपिणक
 हीपिरुसेनहीरे एमुजप्रभुनीअधीकजगीसरे ४ ए० ते
 तोकहीयेनाहनकीजियेरे जेहनेआठेपोहरअंधेरेरे श्री
 जिनराजअवरस्युंमीढतां मेरुअनेसरसवनोफेररे ५
 ए० इति ॥ अथ श्रीचंद्राननजिनगीत ॥ धर

महीयेधरो एदेशी ॥ समाचारीजूजूइरे अविमनसदेह
 सीसाचीकरीसदहूरे सबलविमासणएहोरे १ चंद्रानन
 जिन कीजेकवणप्रकाररे इणदूशभआरे मंलाध्योअव
 तारोरे २ चं० आगमबलतेहवोनहीरे संसयपडेस
 दीव सूधीसमजनकोपडेरे नारीकरमोजीवोरे ३ चं०
 द्रष्टीरागरातायछेरे केहनेपुछुरेजाइ आपणपोथापेसह
 रे तिणमोमनडोलायोरे ४ चं० विरहमानजिनसां
 नलीरे खरीयमिलणमनखंत हुवेदरशणजिनराज
 नारे तोजागेमनभ्रांतोरे ५ चं० इति ॥

अथ श्रीचंद्रबाहुजिनगीत ॥ आवोम्हारीसहीयांगछ
 पतिवांदवा एदेशी ॥ जोवोम्हारीआईउणादिसिचाल

तोहे कागलियो लिखदीजेहे अंतरजामियां अलगार
 ह्याहे कागलवाहीकीजेहे १ जो० साहिवीयांतोछेवय
 रागीयोहे फेरजवावनदेस्येहे पणप्रभुतीसेवीमांहेरह्या
 हे सहजेकाजसरेस्येहे २ जो० साहिवनेअमचीखप
 कोतहीहे पिणछेगरजअस्हारिहे जोसाचासामगतक
 हावीयेहे तोजवजलनिधितारेहे ३ जो० साजणियांप
 णंदुरगतिजदीयेहे तिणस्युंदुरराहेजेहे चोडावेजे
 गरभावासथीहे तिणसुंसगतिमिलिजेहे ४ जो० नाम
 जपीजेश्रीचंद्रवाहुनाहे निसदिनध्यानधरीजेहे तेसल
 हीजेकरजिनराजनाहे जिकरलेखलिखीजेहे ५ जो०
 इति ॥ अथ श्रीभुंजगजिनगीत ॥ श्रीविमलाच

लसिरतिलो एदेशी ॥ स्वामिभुजंगमताहरो नामजपे
 सहुकोइ पिणतेहनीपरितेतजी तिणमुजअचरीजहोइ
 १ स्वा० तूसपगोपगरोपने चाढेवोलप्रमाण आमव
 चनेतूचले नचलेहीयात्राणा २ स्वा० तूंगयवरगति
 चालतो नधरेतिलनरवाक मोरगरुडसेवाकरे नांएके
 हनीसांक ३ स्वा० दोजीहोपिणतूनही नधरेविषलव
 लेश अमीअसमाणेबोलडे घोसहुनेउपदेश ४ स्वा०
 अथवानामभुंजंगमसा चकहेकविराज अवरसहुसप्रलो

टीया तूमाणिधराजिनराज ५ स्वा० इति ॥

अथ श्रीनेमप्रभुगीत ॥ वरिवखाणिराणिचेलणाजी ए
 देशी ॥ नेमप्रभुमाहरीवीनतीजी सांजलोधरमधुरीण
 फेरवुंतुजविचतेहवोजी कोनहीजाणप्रवीण १ ने० हुंतुज
 दासतंमजघणीजी आपणेसगपणएह तेजणीस्युंकही
 दाखवुंजी जुगतजाणोकरोतेह २ ने० जगततुजअवर
 द्वारंतरेजी आसअणपुजताजाय आपविमासीनेजोइ
 ज्योजी लाजमेंएकेहनेथाय ३ ने० प्रारथीयांपहिडेन
 हीजी उत्तमएहआचार निपटउवेखमुंकेनहीजी नेट
 कांडककरेसार ४ ने० आपणउपरजेरहेजी अ
 वरकरेनहीस्वामि तेजिनराजनिवाजीयेजी आपणो
 अवसरपामि ५ ने० ॥ इति ॥

अथ श्रीइश्वरजिनगीत ॥ पासजिणंदजुहारीये एदे
 शी ॥ इश्वरजिनवयरागीओ रागथीअधिकदिवाजेरे
 जिणपरिप्रभुवखाणीयो तेपरिसगलीतुजछाजेरे १ इ०
 तुंक्रोधिक्रोधेचढ्यो अरीयणनाकंदनिकंदेरे अजिमानी
 सिरसेहरो तुंचालेआपणछंदेरे २ इ० मायावीमायार
 ची सहुकोनांमनतुंवंचेरे तुंलोजगिणमेलवी लाखेग्या
 नेलेइसंचेरे ३ इ० सेवकपिणपोतातणा तुंजोवेनिजरन
 देईरे देईकाननसांजले कीनहीनीवातकदेईरे ४ इ०

अलखअगोचरतुंजयो किणहीतुजअंतनपायारे जगत

वछलजगराजीयो तोपिणजिनराजकहायोरे ५ इ. इति ॥
 अथ श्रीवीरसेनजिनगीत ॥ वहिलीहोवणकरेज्योइण
 दिसिरे एदेशी ॥ मुजनेहोदरसणग्याननतंदीयेरे नव
 लीछेमुजरीत जेहस्युंनिसादिनतूम्हचेरुसणोहो माहरे
 उणस्युंप्रीत १ मु० जेहनेहोतेवनवासदीयोहुतोहो ध
 रंतोनविवेसास तेहनेहोआदरसुंतेडावनेहो मेरास्यो
 छेप्रास २ मु० जिणस्युंहोकईयेमीटनमेलतोहो कर
 तोकुरखसदीव मेतिणस्युंएकारोमांडीयोहो लाग्योमा
 हरोजीव ३ मु० वयणनलोपेतूपिणेजहेनाहो

नाकनमणपणनकरुतेहनेहो
 परठअछेमुजएह ४ मु० मुजकरणीसाम्हेनविजो
 इयेहो श्रीवीरसेनजिनराज परदुखकातरविरुदविचार
 नेहो दरसणदेमहाराज ५ मु० इति ॥

अथ श्रीदिवजसाजिनगीत ॥ वेगेपधारोहोमेहेलथी ए
 देशी ॥ सेमुखसाहिबनैमित्यां फेरपडेतुजक्रोय ओ
 लगडीअलगारह्यां संदेसडेनहोय १ देवजसादरसण
 दीयो एमुजखरीयरुहाड अतुलीबलजिमतिमकरी
 एहप्रमाणेचाढ २ दे० जोछोरुकरिजाणस्यो तोपूर
 वस्योलाड अलवेसरइणवातनो मतकोजाणोपाड ३

४ दे० मननीवातसहुकहुं जोनेटुंजगनाथ कहिवोतोछेमु

(६७४) जिनराजसूरीकृत.

जवसू करिवोछेतुम्हहाथ ४ दे० वहतीवातसहुकहे प
रपूठेजिनराज पणमुहढेनमिलीसके दीठानीहुवेलाज
५ दे० इति ॥ अथ श्रीमहाजद्रजिनगीत ॥

मनमोनीयेरी एदेशी ॥ लहिमानवश्रवतार गुरुमुख
त्रिविधत्रिविधव्रतउचरीनपलेंनिरतीचार परचवनोडर
तिलनरनविधरुं १ एप्रभुआगलजेवीवीतगतेआखा
ये मनकासलकूडकपटस्योराखीये आंकणी. परअव
गुणाविहुमांहि आणीसंकनकामेभाखते दीधांकुडकलंक
पोतानेस्वारथअणपूजते २ ए० द्युपरनेउपदेश आग
मनेवचनेआकरो जाणेलोकमहंत पिणपोतेतेमूलनआ
चरु ३ ए० निवडेच्यारकषाय तेपरिहुंकहिनसकुंला
जतो सदगतिकरणीसार दीसेछेअलगीप्रभुआजतो
४ ए० एकअछेआधार सरदहणासाचीप्रभुउपरे महा
जद्रजिनराज तेप्रचुजेसेवकनेउधरे ५ ए० इति ॥

अथ श्रीअजितवीर्याजिनगीत ॥ सुखदाइरे एदेशी ॥
मिलिआवोरे श्रीअजितवीरजगुणगावोरे मि० अति
सुस्वरसधवसहेलीरे मिथ्यामतिदूररहेलीरे बेसोदस
पांचमहेलीरे मि० १ परतक्षप्रभुनयननदीसेरे मेलोन
दयिोजगदीसेरे परपूठेध्यानधरीसेरे तोसहिजेकाजस
रिस्वरे २ मि० रावणवीणाधरखंधेरे तूटीतांतेनससं

ज्ञानविमलसूरीकृतः (६७५)

धेरे तिणगोत्रतिर्थक
 रबंधेरे ३ मि० चितभुगतवसेपूरीमांजेरे तो
 असुञ्जकरमचूरीजेरे सिवपुरनेहाथोदीजेरे मानव
 नवलाहोलीजेरे ४ मि० तंहिजजीहासलहीजे जि
 नप्रचुनोसुजसकहीजेरे जिनराजसखाईकीजेरे मनव
 छितसुखपामीजेरे ५ मि० इति ॥ इति श्रीजिनराज
 सूरीकृत वीशी संपूर्ण ॥

अथ श्रीज्ञानविमलसूरीकृतविशी

अथ श्रीसीमंधरस्वामीस्तवन ॥ मंत्रमोहनालाल ए
 देशी ॥ श्रीसीमंधरसाहिबा मनरंजनारेलालअतिश
 शयवंतउदाररे दुखनंजनारेलाल सुणीयेसेवकत्रजिती
 म० सत्यकीमातमहलारहो दु० १ व्युंचातकजलध
 रविना म० अवरनयाचेकोइरे दु० तुमविणअवरन
 प्रारथु म० ब्रह्मप्रतितएहरे दु० २ एकतारीकरीजेर
 हे म० तेकेमकीजेदूररे दु० एमशोजानवीसंपजे
 म० सेवकवंछितपुररे दु० ३ श्रीश्रेयांसनृपकुलतिलो
 म० सजननयणानंदरे दु० रुखमणिराणनिहलो
 म० वृषजलंछनसुखकंदरे दु० ४ पूर्वाविदेहपुष्कला
 वइ म० नयरीअयोध्याभूपरे दु० विजयामांहिदीप

बांधुमन्नतेश्रवरनश्रदेरेरेके अ. जण२साथेप्रीततेसंतन
 कोकरेरेके सं. पामेजनमीलाजतेकाजकिस्युंकरेरेके का.
 लोकतणीपरवाहनचित्तेतेहधरंरेके घी. ४ कपीलंछन
 जगवंतकेविजयनलनावतिरेके वी० नयरीश्रयो
 ध्यामांहेकेविघरेजिनपतीरेके वी० श्रज्ञानविमल
 गुणराशिसुरासुरसंस्तवेरेके सु० ५ इति ॥

अथ श्रीसुजातजिनस्तवन ॥ थारांमोहलाउपरमेहझरु
 खेवीजलीहोलाल एदेशी ॥ स्वामिसुजातजिणंददिणं
 दपरेतेपेहोलाल दि० मोहमाहातमदूरनिरंतरजेखपे
 होलाल नि.जविकरदयकजबोधविबोधनतेकरेहोलाल
 वि० निजवचकिरणसंसारसुपरेसुविस्तरेहोलाल सु०
 १ कुमतिकदाग्रहकोशिककुलमलिनीकरेहोलाल कु०
 परवादीग्रहतेजप्रजावनतेफुरेहोलाल प्र. निजनिजधर्म
 सुजावसदाहोयेपरगडोहोलाल स० जडताहिमपड
 लाडितहोवेवाकडोहोलाल हो० २ चकवाग्यानसुचं
 गकेचकवीचितनाहोलाल च० होयेताससंजोगधरीबहु
 जावनाहोलाल ध० आतमअमलउद्योतप्रतापदिशो
 दिशेहोलाल प्र. दुष्टकर्ममर्मघोरसविवित्तसेहोलाल
 चो० ३ धातकीखंडमझारपूर्वश्रर्धेजयोहोलाल पू० न
 यरीपुंडरीगीणसारपुष्कलविजयेथयोहोलाल पु० दे

वसेन नृपदेवसेनानो नंदनो होलाल से० जयसेनानोकं
ततरणीछेलंछनो होलाल त० ४ तुमेमतजाणोदुरव
स्याथीविसरघाहोलाल व० जेहुयेचित्तहजुरतेनयणश्रा
गलफिरेहोलाल न. ज्युंधनमोरकिशोरचकोरनेचंद्रमाहो
लाल व० श्रीज्ञानविमलप्रभुचीत्तवस्याजिनपंचमाहो
लाल व० ५ इति ॥ अथ श्रीस्वयंप्रभुजिनस्तवन ॥
सुणोमेरीसजनरजनीनजावेरे एदेशी ॥ स्वामिस्वयंप्र
भूसुणजिनवातरे दरिसणचाहुंहुंदिनरातरे एकघडीप
णनरहुंअलगारे एकपखीइमंप्रीतेवलगारे १ एआसाअ
वलंवनसाधीरे एकसभाविप्रीतमेबांधीरे जावअनंतातु
ह्येप्रभूजाणारे तोसेंदिलमांसेवकनाणारे २ जाणच
णीसुंझाझुकहीयेरे बांहग्रह्यानेइमनिरवहीयेरे इणिअ
लजेअमपावनदेहारे उत्तमनेहापथ्यरेहारे ३ मित्रनृ
पतिकुलकमलदिणंदारे विजयवप्रविजयपुरीचंदारे मा
तासुमंगलालंछनचंदारे प्रणामेसकलसुरासुरचंदारे ४
प्रियमंगलाराणीनोकंतरे धातकीखंडेप्रभूवीचरंतरे जि
वीतसफलथयंसुविहाणारे ज्ञानविमलप्रभूगुणसुनजाण
रे ५ स्वा० इति ॥ अथ श्रीरुषजाननजिनस्तवन ॥
नंदनवनमांआवीयेमाहारानाथजीरे एदेशी ॥ रुषजा
ननजिनसांजलोमाहारानाथजीरे सेवकनीअरदासके

शिवपुरसाथजारे तुह्यविणश्रवरनसिरधरं मा० नक
रुपरनीश्रासके शि० १ कोडिकपटकोइदाखवे मा० प्र
नूविणराचुंनंहिके शि० कोइकशुभमदुरतेचित्तवस्या
मा० दिनदिनश्रधीकउछांहके शि० २ आजवपरजव
जवेजवे मा० श्रवरकियाश्राधारके शि० तेसवितुह्येजा
णोछो मा० कहेवानोविवाहारके शि० ३ उछछकलक्षण
एहछे मा० नरहीसकेघणनेहके शि० कीर्तिनृपतिकु
लचंदलो मा० सीहलंछनगुणगेहके शि० ४ नंदनविरसे
नातणो मा० विजयावतिनोकंतके शि० वछविजयसुसीमा
पुरीरे मा० ज्ञानविमलादिगुणवंतके शि० ५ इति ॥
अथ श्रीअनंतविर्यजिनस्तवन ॥ अलबेलानीदेशी ॥
अनंतविर्यजिनश्राठमारे लाल श्राठकरमकरचांदूरजय
वारीरे श्राठअनंतलह्यातेहथीरेलाल अष्टमाहासिद्धि
पुरसुखकारीरे १ अ० श्राठसरुपेश्रातमारे लाल जेदा
जेदाविवेकनिरधारीरे प्रवचनजेददाखवेरेलाल अडदृष्टि
करछेकनयधारीरे २ अ० श्राठेमदजयजंजीयारे लाल
श्राठफरसनहिअंगश्रविकारीरे योगश्रष्टांगधीजह्योरे
लाल अडमंगलजससंगनीरधारीरे ३ अ० अनंतवी
र्यजसउहसेरेलाल नामेतेपरिणामतमवारीरे तेहश्रसं
खरीपुजयकरेरेलाल स्युंअचरीजनुठाममनोहारीरे ४

श्र० मेघनृपतिकुलचंदलोरेलाल ज्ञासनज्ञानुसमानगु
णचारारे मंगलावतीसुतचीरंजयोरेलाल ज्ञानविमल
गुणधामअतिवारीरे ५ श्र० इति ॥ अथ श्री
सुरप्रज्जिनस्तवन ॥ आसणरायोगी एदेशी ॥ श्रीसू
रप्रज्जिनवरवंदो जश्चदुखपापनिकंदारे मोराश्रंतर
जामी देवअवरमैमहीयलदीठा पणतेतोक्रोधिकामी
रे मो० १ सुरप्रजातोवादलचंपे राहुग्रसनथकिंपेरे
मो० नित्योदयनेअस्तनिरंतर वलीरजअभ्रादिकजा
पेरे मो० २ भ्रमणसालतापेजनपीडे परमीतखेत्रप्र
काशेरे मो० तूनित्यउदयत्रिभुवनसुखकारी वलीलो
कालोकविजावीरे मो० ३ ग्रहनकंपनवादलछाया न
रावरणगतदोखारे मो० गोवीलासथीजविकविबुधज
न हृदयकमलकृततोखारे मो० ४ विजयाकुलकमल
दिणंदा विजयावतीनानंदारे मो० ज्ञानविमलगुणम
धुकरवृंदा लीणापयअरविंदारे ५ मो० इति ॥

अथ श्रीवज्रधरजिनस्तवन ॥ देशीकडखानी ॥ वज्र
धरजिनतणापायवंदीघणा वज्रधरकोडिकरकमलजो
डी वज्रपरिसारथयोमोहगिरिजेदवा तासअनुबंधस्थि
तिदोरतोडी १ वज्रजेद्यतुह्यप्रकृतिदेखीकरी आपन
युधीअरीदुरजागा हारियावारियाचित्तनवधारीया जि

(६८४)

ज्ञानविमलसूरीकृत.

हाय रागीदोषादिमणाहोलाल ४ सा० आपतणाश्ररि
जेह कीधातेणेश्ररिहंतकहेहोलाल सा० पणपरनाश्र
रिजेह विणकीधेकिमजसरहेहोलाल ५ सा० आप
त्रिपतथइकोय दाताबिरुदनधारीयेहोलाल नार्जीयेजो
परभूख तोदातानामधरावीयेहोलाल ६ सा० करोनि
वाजसकांड बिरुदतोगरीबनवाजनोहोखाल सा० जि
मजगमांथिरथाय वाधेमोटोमाजनोहोलाल ७ सा०
मेंतोजाणुंएम बांहिग्रह्याछोडेनहीहोलाल सा० निरखा
नयणेनेह जोडेतेतोडेनहीहोलाल ८ सा० नेहगहे
लांहोय जिमतिमकरीदाखवेहोलाल सा० वलीतिहांन
गतिविशेष देखीसमकितदाखवेहोलाल ९ सा० ज्ञानवा
सलगुणवास दासगणिजेश्रापणोहोलाल सा० पुरेवं
छितश्रास तेसाहिबनांजांमणांहोलाल १० सा० इति॥
अथ श्रीञ्जंगजिनस्तवन ॥ पांडववांदतांमनमोहेरे
एदेशी ॥ श्रीञ्जंगजिनवंदीये चिरनंदीयेजिमजगमां
हिरे मनमांहिश्रानंदीये दुखकंदियेधरीउछांहिरे १ उ
छांहिसाहिबआज जगतगुरुनरखीयासुखकंदरे सुखकं
दश्रमंदश्रानंद चिदानंदजेटीयेजिनचंदरे आंकणीजे
माहरुमुझमांअछे प्रगटेतेअक्षयजावरे जेहश्रनादीसं
योजिना कर्मादिकपुदगलवृंदरे २ सु० आयातितोवि

संजोजिना रूपेनवियोग्यश्रतंद्ररेचवीयोग्यश्रतंद्रसजा
वना शदृशगुणयोग्यतामकरंदरे ३ सु० कारजेकारणमु
रूपता एदीसेसर्वसमानरे श्रापबलेश्ररिजीतवा तिहां
आणतुहपरधानरे तिहांआणतुहपरधान संवेगरसजा
वीयासुखकंदरे ४ सु० पवनप्रजावेकर्मनो तरतोदीसे
दृतिलोकरे ज्ञानविमलप्रभुध्यानर्था चवजलधितरेभ
विलोकरे चविलोकलहेसुखथोकरे नमितुज्ञचरणनाश्र
रिवंदरे ५ सु० इति ॥ अथ श्रीइश्वरजिनस्त
वन ॥ मोहागणिजाणि एदेशी ॥ इश्वरजगदीश्वरं के
सरचरचितकाय लीलाश्रलेवसर सुरपतिसेवीतपाय
१ श्रकलंकनिरीहा दीहाधनमुझआज श्राजधनंएजी
हा जिनगुणसंथुतिकाज २ नीरागीत्यार्गवैरागी शो
भागीशिरदार वडजागीतुझस्युं लयलागीएकतार ३
निरदूषणभुपीत शोषीतचवजलसिंधु सविउपकृताका
रक निःकारणजगबंधु ३ जसज्ञानविमलगुण गुहरी
वाणीगोजे उदाशीनसजावे जगठकुराइराजे ५ इति ॥
अथ श्रीनेमिप्रभजिनस्तवन ॥ रागंवसंत ॥ नेमि
प्रभजिननर्मियेदुखनगिमिये चवचवनविजमीयेप्रा
हे श्रीजिनचरणसरोजेरमिये श्रालिजिमधरीउछाहे १
० समकीतधानकनेगुणधानके नहीजछेजगमाहे जा

देवजसाजिनमुजवीनतीजी सांजलोधर्मधुरीण जाणप्र
 वीणतेहवाविनाजी चितहुयेअतिघणुंखीण १ दे० परघर
 भंजनखलघणाजी वासतेहमांअछेनित्य शंकपणतेह
 नीबहुरहेजी किममिलुंआवजगमीत्त दे० २ कागलपण
 तेहनीचवेजी यममुखेलेइसमाचार उजयजावेकरीए
 कनाजी तिहांथीनवआवणहार ३ दे० पणमनेतुंहीज
 वालहोजी अवरसविआकएरंड परसगणुवीपरजावने
 जी एकतुजआणअखंड ४ दे० ज्ञानविमलकरीसवी
 लहोजी जेहअह्मावितकवात एहरषस्युंतीरखीयेहे
 जथीजी तोहोयेसिसुतणीधात ५ दे० इति ॥

अथ श्रीअजितविर्यजिनस्तवन ॥ अजितविर्यकुं दी
 र्यनीजी कहुकेताकरतुत त्रिविध२करीउचरतांजी जा
 ग्यांत्रतअदभूत १ जिनेसरवीनतडिअिवधार आंक
 णी इंद्रीयार्थनेकारणेजी दुषांआगमबाले गुणीजनजाक्ति
 नसांसहीजी निर्दयनिगुणनीटोल २ जि० आपआलोय
 णआपनेजी करताअवरनेशुद्ध वचंकभावेउपादिश्याजी
 वासीबहुदुरबुध ३ जि० छठागुणठाणातणुंजी राख्युंदा
 ख्युरेसंच पणनगयोमनमांथकीजी बहुविधदंभप्रपंच ४
 जि० पणएकतुहपरतीतनोजी मोटोछेआधार ज्ञानवि
 मलप्रभुमाहराजी कीजेदासउदार ५ जि० इति ॥

इति श्रीज्ञानविमलसूरीकृतविशीसंपूर्ण. ॥

अथ श्रीजिनविजयजीकृतविशी.

अथ श्रीसीमंधरजिनस्तवन ॥ अरजरसुणोनेरुडा
 राजीयाहोजी एदेशी ॥ सुगुणरसोनागजिंबुद्धी
 पमांहोजी श्रीश्रीमंधरदेव गणधररमुनिवरसाहुणी
 होजी सुरनरकरेनितुसेव १ सु० त्रिगडेरचोमुखदेशना
 होजी चौविहधरमकहंत मेरुर्महिधरउपरेहोजी
 मानुमेहगाजंत २ सु० बाह्यरअभ्यंतरनयनहीहोजी
 जिहांविचरेजगदीश केवलरकमलाज्ञागवेहोजी आत
 मसंपदईश २ सु० मेरुर्महीमवेअंगुलेहोजी अंजला
 सायरनीर तेपणरप्रज्जुगुणसंततिहोजी गणवाहोयन
 धीर ४ सु० सुरपतिरमुनिगुरुबुधकवीहोजी शक्तेन
 क्केथुणंत हुंपणरजिनगुणगाईवाहोजी मोदेहोडकरंत
 ५ सु० पुष्कलरवड्ढपुंडरीगणीहोजी नयरीरुकमणी
 नाह नंदनरनृपश्रेयांसनोहोजी सत्यकीमातउच्छाह
 ६ सु० धरमरधुरंधरध्याइयेहोजी धोरीलंछनपाय
 सदगुरुरखिमाविजयतणोहोजी सेवकजिनगुणगाय
 ७ सु० इति ॥ अथ युगमंधरजिनस्तवने ॥

महाविदेहक्षेत्रसोहामणुं एदेशी ॥ वप्रविजयविजयापु

(६९०) जिनाविजयजीकृत.

री मातासुतारानंदलालरे तारकत्रिभुवनलोकनो अ
वतरचोकुरुणानंदलालरे १ अकलत्ररुपीमनवस्यो
आंकणी सुद्रढरकर्मनेहणे रोपीचरणरणथंचलालरे
प्रियमंगलाप्रियलोकने प्रियमंगलवईअचंचलालरे
२ अ० रीद्विअनंतीजोगवी भोगरहितजगवानलाल
रे वरणगंधादिकगुणविना गुणवंतनुंकंचनवानलालरे ३
अ० कामदहेकामितचरे धरेयोगअयोगीथायलालरे
करेक्रियाअक्रियावरे अक्षरपणलिपिनलखायलालरे
४ अ० गजलंछनदूखचंचनो श्रीयुगमंधरनाहलालरे
क्षमाविजयजिनसेवना शिवसुंदरीविवाहलालरे ५
अ० इति ॥ अथ श्रीबाहुजिनस्तवन ॥ देशी
जीहोनी ॥ जीहोवछविजयसुसीमापुरी जीहोनरपती
सुग्रीवजात जीहोमृगलंछनप्रीयामोहनी जीहोविजया
जेहनीमात १ सुगुणनर जिनवरबाहुजिएंद जीहोप्रण
मेचविजनवृंदसु. आंकणी जीहोच्यारअतिशयजन्मथी
जीहोघातीक्षयदशएक जीहोसुरकृतएगुणविसछे जीहो
एमचोत्रीसविवेक २ सु० जीहोअतुलअतिशयसंपदा
जीहोशोभितकंचनकाय जीहोउपगारीअवनीतले जी
होविचरेअमलअमाय ३ सु० जीहोरविकरचरवि
स्तारथी जीहोविकसेपंकजजात जीहोप्रभुगुणगणअ

जिनविजयजकृतः (६९१)

वलंबने जीहोप्रगटेगुणश्रवदात ४ सु० जीहोसुगुणां
 संगेगाजीये जीहोलाजीयेदुरजनसंग जीहोक्षमाविज
 यजिनतामथी जीहोदिनरंश्रतिउछरंग ५ सु० इति ॥
 अथ श्रीसुबाहुजिनस्तवन ॥ सुणोमेरीसजनीरजनीनजा
 वेरे एदेशी ॥ चोथोजिनवरचउगइवाररे चवौदधीतारेआ
 णेआररे संयमप्रवहणप्रगुणवतावेरे समाकितनाणसु
 खाणठरावेरे १ उपशमथंनअदंनसुठावेरे चरणकरण
 गुणदृढबंधावेरे मालिमपरिगणधरपदसोहेरे २ धरमसु
 कलसितपटआरोहेरे २ पंडितवीरजपवनपडूरेरे
 सिद्धिपुरीनगरीअनुकुलेरे आश्रवरोकेसंवरकीलेरे सा
 चवैमुनिवरसहजसलीलेरे ३ पापउदकअतीचारेआवे
 रे आलोयणदेईतुरतकढावेरे नूरनमांगेपंथेनचूकेरे
 योगनालिकाकबहिनमुंकेरे ४ मैत्रीमुदिताकरुणांगो
 पिररे समजावेआतमसुखजोपीरे वेठासुबाहुतिहांनाकु
 दारे निसढभूपसुनंदानंदारे ५ वानरंध्वजकिंपुरुषाकं
 तारे नलिनावंतीविजयजयवंतारे नयरीअयोध्यानाथ
 निवाजेरे क्षमाविजयजिनमहिमावीराजेरे ६ इति ॥
 अथ श्रीसुजातजिनस्तवन ॥ देशी बिदलीरी ॥ पूर
 वदिशेघातकीखंडे पुष्कलवइविजयेमंडेहो स्वामिसुजा
 तजयो देवसेननरिंदकुलदीवो देवसेनासुतचिरंजीवो

(६९४) जिनविजयजीकृतः

दोषपंखीयां एदेशी ॥ अनंतवीरजत्ररिहंतसुणोमुज
वीनती अवसरपामीआजकहुंजेदीलछती आतमसत्ता
हारसंसारेहुंनम्यो मिथ्यात्रविरतिरंगकपायेवहुदम्यो
१ क्रोधदावानलदग्धमानविपधरडस्यो मायाजाले
बद्धलोचनअजगरअस्यो मनवचकायायोगचपलथयाप
रवसा पुदगलपरिचयपापतणीअहनिशिदशा २ काम
रागेअणनाथयोसांडपरेधस्यो स्नेहरागनीराच्येनवपं
जरवस्यो दृष्टिरागरुचिकाचपाचसमकितगिणुं आग
मरीतेनाथननिरखुंनिजपणुं ३ धर्मदेखाडुंमांडनांडप
रेअतिलवुं अचरेरामशुकपरिजपुं कपटपटुनटुआप
रेमुनिमुद्राधरुं पंचविषयसुखपोषसदोपवृत्तिजरुं ४
एकदिनमानववारकरेमिजंतेकरुं त्रिविधरपचखाणेश
णएकनविठरुं मासाहंसखगरीतिनीतिघणीकहुं उत्तम
कुलवटवाटनतेपिणनिरवहुं ५ दीनदयालभुजालप्रभु
महाराजछो जाणआगलस्युंकहिवोगरिबनिवाजछो पु
रवधातकीखंडनलिनविजयावती नयरीअयोध्यानाय
कलायकयतीपति ६ मेघमहिपमंगलावतीसुतविजया
वती आनंदनगजलंछनजगजनतारती क्षमाविजयजि
नरायअपायनिवारस्यो वेहेरमानजगवानसुनजरेता
रस्यो ७ इति ॥ अथ श्रीसुरप्रजजि

नस्तवन ॥ कपुरहोवेअतिउजलुरे एदेशी ॥ पश्चि
मश्ररधेधातकीरे द्वीपेसुरप्रभदेव जलथलगिरिउल्लंघी
नेरे मुजमिलवानीहेवरे १ वहिनीजेहनेजेहस्युंकाम
तेहनेतेविसरामरे व० नगमेअवरतोनामरे व० आंक
णी. पुष्कलवइपुंडरीगिणीरे महीपतिविजयमल्हार
विजयावतीनोनंदनारे नंदसेनाचरताररे व० २ जम
रोचंपकपरिहरीरे मालतीमिलवाजाय मुंकीकदलीसे
लडीरे कोकीलअंबसुहायरे व० ३ रथवालीवल्या
नेमजीरे जइचढ्यागढगिरनार राजीमतीलाहरेगइरे
लीधोसंयमभाररे व० ४ जानकीरावणहरीगयोरे देवरम
णलघान लालचेघणोलंपटकरेरे सीतानेरामनुंध्यानरे
व० ५ रयणीनिद्राचरखनेरे छंडीचल्योपरदेश कौतिक
करीदमदंतीयेरे नलअण्योनिजदेशरे व० ६ विपमसा
यररामेतरचारे सीताआणीगेह उदायिकजावनिहथी
रे सयणमिलेसत्यनेहरे व० ७ गुणवंतास्युंगोठडीरे छा
नीतेनरखाय चंद्ररह्योकरेचाकरीरे लच्छनमिसिप्रभुपाय
रे व० ८ अनुभवढांक्योनविरह्योरे इक्षुपलालेजेम गु
णगुणअनुबंधीथयारे क्षमाविजयजिनप्रेमरे व० ९ इति ॥
अथ श्रीविशालजिनस्तवन ॥ देशीविंछियानी ॥ धा
तकीश्ररधसुपश्चिमे वप्रविजयस्वामीविशालरे पुरीवि

(६९६) जिनविजयजिकृत.

जयानागरनरेशरु नंदनदेवरसालरे मनमोह्योत्रमारे
साजनो १ आंकणी. नद्रंकरनद्रामावडी विमलारा
णीउरहाररे निजतेजेहरव्योदिनमणी लंछनमिसिचर
णोधारे म० २ वीतरागतेस्युंफलत्रापस्ये इममनमांम
जाणोमितरे चिंतामणीघटवांछीतदीये जेसेवेथइचित्त
रे म० ३ गयणांगणशाश्वतरविशशी चालतजगहो
तउद्योतरे अनुकुलसमीरसजावथी लहेपारजलधीनो
पोतरे म० ४ जिमधरमअधरमआकाशमां गमणस्थि
रअवगाहदाणरे श्रीक्षमाविजयजिनसहजथी साधक
नेसाधनठाणरे म० ५ इति ॥ अथ श्रीवज्र
भजिनस्तवन ॥ देशीजीरेजीनी ॥ जीरेमारेधातकीखं
डमझार पश्चिमअरधसोहाकरीजीरेजी जीरेमारेवच्छ
विजयमंडाण शाश्वतीतिहांसुसीमापुरीजीरेजी १ जी
रेमारेपदमरथभूनाथ नंदन२वनसमोजीरेजी जीरे
मारेहरिचंदनमंदार देहसुगंधसदानमोजीरेजी २ जी
रेमारेनिर्मलगतउपताप सरससुगंधसुखकारछेजीरे
जी जीरेमारेशुचमतीसरस्वतीपुत्र विजयावतीनरता
रछेजीरेजी ३ जीरेमारेउज्वललोहीमांस साससुरभी
घणोमहमहेजीरेजी जीरेमारेआहारनीहारअद्रश्य च
रमचक्षुकोइनविलहेजीरेजी ४ जीरेमारेशंखधरयोनिज

पाय निरंजनउपमानथीजीरेजी जीरेमारेसुखीयासेव
 कलोक कीधासमकीतदानथीजीरेजी ५ जीरेमारेवंदो
 वज्रधरदेववज्जीयशचरणेमेजीरेजी जीरेमारेक्षमात्रि
 जयजिनभक्ति कामगवीमनधररमेजीरेजी ६ इति ॥
 अथ श्रीचंद्राननाजिनस्तवन ॥ तुनेशोकुलबोलावेका
 न्हगोविंदगोरीरे एदेशी ॥ चंद्राननचतुरसुजाण धात
 कीखंडेरे नालिनावतीविजयाविशाल अयोध्यासंडेरे १
 वृषभपदपदमावतीपुत्र पुन्यविलासिरे त्रयदंसणन्यान
 निधान जवधीउदासीरे २ जयकरुणारसकासार का
 मितेदातारे वाल्मीककुलांबुधीचंद लीलावतीकंतारे
 ३ अंगारतजीअणगार धरमजगावेरे मानुविरतसंकेते
 नाणा चीथुंआवेरे ४ घनघातकिर्मखपांवि केवलभासी
 रे अगीयारअतिशयचंग रंगविलासीरे ५ एकजोय
 णक्षेत्रेदेवदानवंकोडिरे सुरनरनारीतीर्थेच रहेमदमो
 डीरे ६ निजरजाषासमजंत सघलेसरसीरे पांत्रीस
 गुणेषुतवाणि अमृतवरसीरे ७ तनुकांतिसमोहअमार
 नेलोकीधोरे जामंडलरुपअनुप लोकप्रसीधोरे ८
 साधिकदोसयगव्यूत विचरोजिहांथीरे समकालेसातेईत
 नासेतिहांथीरे ९ धन्यमहाविदेहनालोक नयणेनिरखे
 रे श्रीखीमाविजयजिनचंद्र चक्रौरज्युंहरखेरे १० इति ॥

(६९८) जिनविजयजीकृत.

अथ श्रीचंद्रबाहुजिनस्तवन ॥ पदमपुरंजजगजाणयि
एदेशी ॥ चंद्रबाहुहृदयांवरं उग्योत्रजिनवचंदरे
पूरणजावसहोदयी वरणसुधारसकंदरे १ चं०
देशनासीतचंद्रातपे समकितकुमुदजगावेरे जावनाश्रो
षधीपोखतो तृश्नातापसमावेरे २ चं० संवरशुद्धक्षीरो
दधी चउदिशीवेलवधाररे मुनिगुणताराअलंकरयो
समताछांहसुधाररे ३ चं० पुष्कलअरधपूरवदिशे वि
जयपुष्कलवइमांहरे पुंडरीगीणीपावतकरे नारीसुगंधा
नाहरे ४ चं० देवानंदननरिंदनो नंदनरेणुकाजायारे
कजलंछनकंचनवनो क्षमाविजयजिनगायारे ५ चं० इति ॥
अथ श्रीजुजंगप्रज्जजिनस्तवन ॥ प्रणमीसरसतीमाइ
एदेशी ॥ प्रणमोदेवजुजंग जोगीजमरशिवनारीनोजी
महाबलरायमल्हार महीमाकुखेउपनोजी १ पुष्कल
द्वीपमझार वप्रविजयविजयापुरीजी छंडीलोकप्रवाह
लोकौत्तरविधिअनुसरीजी २ परणीपंचनीसाखिं पद
मनीगंधसेनातजीजी मांटोमहीललोकाय सिद्धशिला
सज्याजलोजी ३ अनंतचतुष्टयधाम सादिअनंतविलास
छेजी केवलनाणप्रकाश श्रद्धारमणनीवासछेजी ४ अक्ष
यअव्याबाध अनोपमलीलाअनुजवेजी क्षमाविजयाजि
नपाय कमललंछनलखमीठवेजी ५ इति ॥

अथ श्रीइश्वरजिनस्तवन ॥ ढाल ॥ रामपुरावजारमां
एदेशी ॥ पुष्कलत्ररपूरवदिसे वछछविजयसुसीमाइग म
हाराज गजसेतांगजगुणनीलो जद्रामुद्रामननंग महारा
ज १ नमो २ इश्वरदेवने अतिशयचूतीविशाल म जिनः आं
कणी ३ चवदवतीपसमावती वाणीगंगप्रवाह म ४ चवि
कहदयभूमंडले पसरेत्रिहुपंथअथाह म ५ र न ६ अध्या
तमकैलाशमां ७ अणीमादिकश्रडासिद्धि म ८ सीसमतागो
रीशुरमे ९ मुनीगणप्रगणतिरीद्ध म १० वी ३ न ० १ द्वीजप
तीलेंछनमहाव्रती शिवशंकरमहादेव म ० २ जोगीयोगी
संयमी ३ कर्मसंहारणदेव म ० ४ न ० ५ च्यारनिखेपेच
उमुखे पीडस्थपदस्थसरूप म ० ६ माययशोदाउरधरयो
क्षमाविजयजिनभूप म ० ७ न ० ८ इति ॥ ९ ॥ अथ श्रीने
मीप्रभाजिनस्तवन ॥ ढाल ॥ अजीतजिनेश्वरचरणतीसेव
एदेशी ॥ नलिनावतीविजयेपूरवदिशे पुष्कलत्ररधेसो
हेरे १ सहसकिरणचिन्हवचनविलासे जविककमलपडि
बोहे २ साहिबजोरगुणछिरे ३ सहीरोश्रीनेमीप्रभनमीये
आंकणी ४ वीरनरेशरवंशविजूपण सेनाराणीजायोरे दा
नायुधतपधीरपराक्रम ५ सुयशमहोदयपीयो ६ २ सा ०
मोहनधणीयाणीमनवल्लभ मोहनीनोखयकीधारे ७ घा
तीकरमहणालिहीउकेवल करुणावंतप्रसिद्धो ३ सा ०

(७००) जिनविजयजीकृत.

बत्रीसथानकजीवतणांकह्यां तेहमांजेएकत्रीसरे अ
ज्ञानेजमतांनवीदीठो जगबंधवजगदीस ४ सा० काल
अनादेकर्मप्रदेशे आतमहेलेहलीयोरे इगक्षेत्रेगुणथी
अलगोजिम कंचनमाटीमीलियो ५ सा० मुजआतम
सत्तानोकारण परसत्तानेवाररे क्षमाविजयजिनजोय
एल्लटके पोतपवनपरितारे ६ सा० इति ॥

अथ श्रीवीरप्रज्जजिनस्तवन ॥ रागविहागडो ॥ पुष्क
लवइपुष्करवरे विजयपुंडरगिणीनयरी भूमीपालनरिं
दनीं सुतजीत्वासघलावयरी १ मनमांआवज्योरेना
थ हुंथाउंजेमसनाथ आंकणी श्रीवीरसेननरेसरु जा
नुमतीजसमाय राजसेनाराणीनोवर वृषजल्लनपाय
२ म० अनंतगुणमणिआगरो मनअणुयमांकिममाय
कटिरहितआदरसमां अतिमोटोहाथीसमाय ३ म०
सहजेमनचंदनतरु क्षणपकपुरोवास कर्मबंधनसवीट
लो जिमकेकीयेअहिपास ४ म० द्वीपसागरअंतरे ज
ईवसीयादेव पणध्यानदोरेआणस्युं करगवणपडाईहे
व ५ म० अनंतवल्लअरिहंतछो तीकवजरायकहाय
जोधरमेलेराजीकरो तोछेडोकोयनासाय ६ म० रठी
याकरीवाखकरे तसमननावोस्वाम जेदजावतजीमिलो
वधेक्षमाविजयजिनमाय ७ म० इति ॥ अथ श्री

महान्द्रजिनस्तवन ॥ पुन्यप्रसंसीये एदेशी ॥ नन्दन
 देवनरिन्दनरे पुष्कलपश्चिमजाग वप्रविजयर्वाहरतीरे
 विजयापुरीमहान्द्रजागरे १ सुगुणशिरोमणी ज्ञावधरम
 दाताररे महान्द्रजगधणी आंकणी मातउमाउरआ
 गरेरे चिंतामणिसुखहेत इन्द्रठवैलछनमीसेरे गजसेवा
 संकेतरे २ सु० कामीनीसुरकांतातजीरे आदरेसंयम
 योग अक्षयलिलाअनिलखीरे किमकरेघरनोजोगरे ३
 सु० सुरुवोवयारअतिशयारे तिविहासंपदनाम महा
 गोपमहामिहणारे नियामकसत्थवाहरे ४ सु० चारगु
 णोप्रभुदेहथीरे वृक्षअशोकमहंत छत्रत्रइत्रिभुवनधणी
 रेजामंडलझलकंतरे ५ सु० ठीचणमितवृष्टिफुलनीरे पं
 चवरणसुरसाल चंचलचामरउजलारे मुखकजमानुमरा
 लरे ६ सु० गयणगेजिदुंदुहीरे जणवेजगसघ्राज्य मा
 नुवैमानिकदेवनरे तडेसेवाकाजरे ७ सु० रत्नसीहा
 सनबेसीनेरे दिव्यध्वनीवरसंत छरागछत्रीसरागणारे
 सुरनरतीरीसमझंतरे ८ सु० सदहणासुरवेलडीरे मु
 झमनमंडपरोपि सीचीसमश्रमृतरसेरे तृश्रातापनेला
 पिरे ९ सु० केवलरूपफालस्वरे फलसेश्रव्यावाघ क्षमा
 विजयजिननिमित्तथीरे प्रगटपरमसमाधिरे १० सु० इति

अथ श्रीचंद्रयशाजिनस्तवन ॥ इडरआवाआबलारे

एवमत्राराम प्रचुपदरजपावन पंचकल्याणकठाम ६
 धन्यराजाराणी धन्यपुरजनभवीप्राणी पीथिकानकचो
 ले जिनवचसाकरपाणी ७ बहुरागेश्रनुजवे रसजागे
 शुचइहा रसनाफललीधो धन्यजीहाधन्यदीहा ८ स
 तरनव्यासी राजनगरचोमासी मुनिदिपविजयना क
 हणथीकिधिवीसी ९ तपगणउदयाचल तरुणतरणीउ
 प्रमान विजयसिंहसूरीश्वर जिनशासनसुलतान १०
 निजहस्तेदीक्षीत सिद्धितआगमरास संवेगसुरंगी स
 त्यविजयपंन्यास ११ गंगाजलउल्लल कीरतीकामनी
 कंत श्रीकपुरविजयकवि महीमंडलजयवंत १२ वयरा
 गीत्यागी जद्रकशुजगुणरागी श्रीक्षमाविजयगणी से
 वाथीमतिजागी १३ आजपुण्योदयमुज परमेसरगुण
 गाया जिनविजयसुजक्ते धम्मध्यानसुखपाया १४ इ
 ति कलस ॥ इति जिनविजयजीकृत विशी संपूर्ण ॥

अथ न्नायसागरजीकृत विशी

अथ श्रीसीमंधराजिनस्तवन ॥ रागविहागडो ॥ कही
 योवंदनजाय दधिसुतकहियोवंदनजाय महाविदेहमां
 स्वामीमेरो जयोत्रिभोवनराय द० १ नृपतिश्रीश्रेयांस

नंदन सत्यकीजसमाय सकलसुरपतसिवसारे तमेन

रपतिपाय द० २ तारखीजमतगारअपनो चरतमांगु
 णगाय नाथसाथिसततध्यावत मिलनकोमनकाय द०
 ३ पांखपोतेहोयमाहरे तोमिलुंजइध्याय आपजाइदू
 रेवेठा मिलुंकिणपिरेआय द० ४ पतितपावननामते
 रो समरतांसुखथाय धरेवचनप्रतितनिश्चल एहीमो
 क्षउपाय द० ५ रागराखेनहीकोसुं सेवतांसुखथाय
 एहअचरिजवडुंमनमां वीतरागकहाय द० ६ ताहरी
 गतितुंहीजाणे अकलअमलअमाय न्यायसागरदास
 कोप्रनू कीजीयेसुपसाय द० ७ इति ॥ अथ
 श्रीयुगमंधरजिनस्तवन ॥ क्याजानुंकुछुकीनोरेफकीर
 वा० एदेशी ॥ क्याजानुंकुछुकीनोरे युगंधरा क्या.आं
 कणी विधिउद्यमसूत्रादिकप्रवचन पादनमेकछुदीनोरे
 यु० १ क्या० तुंहीजगतमतिस्थितिमेंतेरो ध्यानामृ
 तरसपीनोरे यु० २ क्या० परमपुरुपतुंअलखनिरंजन
 चिदानंदमेचीनोरे यु० ३ क्या० तुंहीजब्रह्माब्रह्मस्व
 रुपी तुंउपसमरसलीनोरे यु० ४ क्या० जगव्यापी
 तुंविशुनमहेसर इश्वरत्रिणजगतनोरे यु० ५ क्या० स
 बदेवनकोदेवतुंप्यारो तुंहीजयोगनगिनोरे यु० ६
 क्या० न्यायसागरप्रभुवंछितदाता तुंहिजसर्वसुधीनो
 रे यु० ७ क्या० इति ॥ अथ श्रीसुबाहुजिनगी

(७०६)

न्यायसागरजीकृत.

त ॥ होरीरेत्राजरंगनरीरे एदेशी ॥ परणरेबाहुरंगन
रीरे रंगनरीरसनरीरसहुनरीरे प० आंकणी क्षपकश्रे
णिवरघोडेचढीया त्रिचोवनशोनाआपहरीरे प० १ अ
ध्यातमतिहांमंडपरचियो सुमतिगुपतिवृतिशोनाकरीरे
प० २ तरुणीघरणीसवदुखहरणी संयमधरणीपतिकु
मरीरे प० ३ शुन्नमतिसोहगमंगलगावे रंगोजिनगु
णमनसमरीरे प० ४ परणितसासुपुंखीवधावे समकि
तमुगताथालनरीरे प० ५ उपसममाहिरामांहिवेठा
देखीआंखांहमहुठरीरे प० ६ दानादिकचोचोरीवांधि
मुगतीवधूजिनराजवरीरे प० ७ परमानंदकंसार
आरोगे दोयपरस्परमुखहूधरीरे प० ८ न्यायसागरप्रभु
भगतिनिजशिर धारेश्रीजिनआणखरीरे प० ९ इति ॥
अथश्रीसुबाहुजिनस्तवन॥दीनानाथदर्शनदेरे एदेशी॥
ठाकुरीयादर्शणघेरेश्रीसुबाहुदर्शनदेरे साहि. आंकणी
कालअनंतनम्योहुंसांइरे तुमदरिशाणाविणलेरे श्री० १
दरिसणाविणकिरियासविजुठीरे शिवसुंदरीकरनग्रहे
रे २ श्री० घनघातीआडाबहुडुंगररे किमआवुंहुंमुझ
कहेरे ३ श्री० खटदरसणदरसणविणभूलारे भ्रम
णकरेभवमेरे ४ श्री० तुझदर्शनअबमेप्रनुपायोरे
तेतोराखबहुयतनेरे ५ श्री० तुझदरशाणशिवतरुनुंबी

जकरे पुण्यहीणकुणलेरे ६ श्री० चिदानंदघनअह
निशिजावेरे न्यायसागरप्रणमेरे ७ श्री० इति ॥

अथ श्रीसुजातजिनस्तवन ॥ रागकाफी फागरमेरस
रंगेरे प्रभूखेलेहोरी अतिउलसंतवसंतजिनशासन स
मतासुंदरीजोरीरे प्र० १ फा० आंकणी समकितकुंक
मपुष्करपुरी पिचकारीगुणटोरीरे प्र० २ फा० चित्तप्र
मोदफलदबहुफुले संवरशोनाजोरीरे प्र० ३ फा० स
त्यसुवासचिहुदिशिमहके छापवनीमतिकोरीरे प्र० ४
फा० श्रीजिनराजजगतिअतिनीकी लालगुलालकी
ओरीरे प्र० ५ फा० शासनवासनअबरिअरगजा जा
इचिहुंदिशिदोरीरे प्र० ६ फा० नयकेविदअतिसुंदर
वादक चंगसुदंगनयोरीरे प्र० ७ फा० चिदानंदपद
सहजविलाशी खेलेणहारोधोरीरे प्र० ८ फा० अ
गमतत्वकेसरीएपहेनी गावेशुजमतिगोरीरे प्र० ९
फा० श्रीसुजातशुंअरजकरंतहे वातसुणोएकमोरीरे
प्र० १० फा० गोठदीओहमकुंशिवसाहिब मतकोकी
नोछोरीरे प्र० ११ फा० न्यायसागरप्रजुसेवकसाथे
इणिपरेखेलेहोरीरे प्र० १२ फा० इति ॥

अथ श्रीस्वयंप्रजस्तवन ॥ माहरावालिमीयाछविरु
डोरे एदेशी ॥ माहरासाहिबीयाछबीनीकोरे उनकेआ

(७०८) न्यायसागरजीकृत.

गत्रोरसबहुकी कांतिलगेमोहिफाकीरे १ मा० काचकिर
णसमहेहरिहरकी पाचकिरणजिनजीकीरे २ मा० दर
शनदुर्लजलहिप्रभुतेरो विहसेलोचनकीकीरे ३ मा०
शोचालहेतुझत्रिजोवनभाले ठकुराइकीटीकीरे ४ मा०
आकधतुरोपमपरसुरजिन कल्पतरुकहुंहीकीरे ५
मा० शांतिसुधारसकुंडलहीनि दुरितमयलत्यजिझी
कीरे ६ मा० न्यायसागरप्रभुस्वयंप्रभसेवो आ
सफलेसवहीकीरे ७ मा० इति ॥

अथ श्रीरुषज्ञाननजिनस्तवन ॥ जिनजीजोरकरेछेरे
माहरुंमन्नहरेछेरे आंकणी. नित्यानित्यमहत्तनुत्ताइ ए
कअनेकस्वरुप जाणेपिणकुणटाणेतोरु भाखेकोविदरु
प १ जि० मानरहिततिणेचित्तनमावे गगनपरिगुण
पीव राख्योपणअणुमनमांभगते निश्चलरहेसदीव २
जि० गुणअनंतप्रचुघटवसिया जवनमिलेपरसुरहीर
सुरतरुपामीपरगडोकांइ सेवेकोणकरीर ३ जि० वीत
रागप्रभुजाणिनसेवे नविपामतेदान खासोसेवकआप
णोकांइ थापेश्रापसमान ४ जि० जण्याविनातुंपडित
सहूथी द्रव्यरहितजगदीश अलंकारविणसुजगजिता
हित मूलनराखेरीस ५ जि० सकलकर्मकलाथीअल

गो कजावंतमांलीह परमात्मपरब्रह्मस्वरुपी टालीज

वनीवीह ६ जि० ताहरीगतिकोइपारनपामे तुझवि
 णत्रिचोवनइश न्यायसागरप्रचूरुपज्ञाननने नितनित
 नामेशीस ७ जि० इति ॥ अथ श्रीअनंतवीर्य
 जिनस्तवन ॥ शिवफगवामांगिनवेरेहोहोरीकेखेलइया
 तुंतोजिनजजविलंबनकरहोरंगीलेदईया आंकणी. नर
 चवमानुवसंतरुतुफूली समकितवासनधरेहो रंगी० १
 शि० अरथीजनतिहांमधुकरगुंजत पृष्ठनामकरंदहरेहो
 रं० शासनवासनवासितकोकिल बोलतमधुरेस्वरेहो
 रं० २ शि० जिनमतलालगुलालउडावत छरकतिशु
 चमतिजरेहो रं० चंगमृदंगतिहांनयशमदम अवीरअ
 रगजोधरेहो रं० ३ शि० तालकंसालगुणावलीवाजे
 खेलेचिदानंदधरेहो रं० अनंतवीर्यप्रभूहोरीखेले न्या
 येचवोदधितरेहो रं० ४ शि० इति ॥

अथ श्रीसूरप्रजजिनस्तवन ॥ रागवसंत ॥ आयोरेघर
 आंगणमोरेलाल पाघसिरझलकेतारे एदेशी ॥ आवो
 रेमनमंदिरमोरे प्रभुब्रह्मिहारीजाउंतारे आंकणी. तिन
 चुवनकोतुंपरमेसर अरजकरुदिलजोरे प्रार्थीयांपाहिडे
 नहीसोइ. दानेसरनहीआरे १ आ० रिद्धिसिद्धि
 नवनिधिघरआंगण तुमआव्येहुइमोरे. त्रिभोवनआण
 सवेतुझमाने कर्मअहितमदमारे २ आ० समकितशु

द्वकरतुङ्गआगम चारितधर्मश्रमोरे खिणपणतुङ्गआण
 थीजिउरो प्रगटेशुइजिमडोरे ३ आ० आनश्रधिक
 तुङ्गजाणीजगमां किमरहीयेकठोरे मानुंसुरतरुसुर
 मणीसुरगवी दूररह्याजइकोरे ४ आ० हरिहरप्रमुख
 श्रवरसुरबहुले कोणश्रावेतुमहोरे न्यायसागरसूर
 प्रभुतोरी आणवहुशिरजोरे ५ आ० इति ॥ अथ श्री
 विशालजिनस्तवन ॥ होरीखेलेगे एदेशीं द्रव्यस्वरुप
 इमउपदिसे बुद्धिखोलेगे श्रीविशालजिननाथ वचनमु
 खबोलेगे निःकारणउपगारीश्रो वु० मुगतीपुरीनासा
 थ वच० १ अपनेअपनेस्वरुपमें वु० द्रव्यरह्याखटश्रा
 प व० तिहांउतपातविनाशछे वु० ध्रुवतापणसविव्या
 प व० २ तिहांउतपातद्विविधिकरयो वु० प्रयोगज
 वीससाजात व० तिहांपहिलोश्रविशुद्धछे वु० समुद
 यवादनोघात व० ३ सहेजेथायतोविशरसा वु० तेपणद्धि
 विधवखाण व० समुदयकृतपहेलोन्नयो वु० बीजो
 एकत्विकजाण व० ४ समुदयअचेतनखंधनो वु०
 वलीसचितमीसालीद्ध व० संयोगविनाएकतत्वनो
 वु० तेद्रव्याविज्ञागेकीद्ध व० ५ जिमखंधविज्ञागेश्रणु
 पणु वु० वलीकर्मविज्ञागोसिद्ध व० इमजविनाशद्धि
 विधकह्यो वु० आगममांहिप्रसिद्ध व० ६ रुपांतरपरि

णामजे बु० प्रथमकह्योतसनाम व० अर्थांतरजावगम
 नवली बु० बीजोएअनिराम व० ७ तिमरनेजेउद्योत
 ता बु० रुपांतरपरिणाम व० अणुनेअएवंतरसंक्रमे
 बु० अर्थांतरगतिठाम व० ८ एपर्यायस्थिकनये बु०
 चाख्योद्रव्यविचार व० द्रव्यास्थिकनयेद्रव्यपणुं बु०
 खटद्रव्यनयेनिरधार व० ९ द्रव्यस्वरूपइमकुणकहे
 बु० तुजविणज्ञानअनंत व० न्यायसागरप्रचूक्षिरधरे
 बु० तुजआणाभगवंत व० १० इति ॥

अथ श्रीवज्रधरजिनस्तवन ॥ गारीमतघेरेफकीरवा
 एदेशी॥वातांसुणिलेरेठाकुरीया वा० आंकणी श्रीवज्र
 धरदुररह्याजइ थासुंअरजकरुअलवेरे ठा० वा० १
 ध्येयपणेमनमंदिरवसीओ तुजमुहकीकुणसलकेरे ठा०
 वा० २ जोतुंगरीबनिवाजनुंसाचु विरुदवहेतोशि
 वेदेरे ठा० वा० ४ तुजआणाथीपतितहुंसाइ थारेपती
 तपावनगुणछेरे ठा० वा० ४ तुजमुंकीकुणदेवअवरनी
 हुंसेवकरुंमुजकहेरे ठा० वा० ५ तुंहिजतनधनजिवन
 तुंहि थारेनामेदुखटरेरे ठा० वा० ६ न्यायसागरप्रभु
 दरशनयोगे माहरेज्ञानक्रीयासुफलेरे ठा० वा० ७इति॥
 अथ श्रीचंद्राननजिनस्तवन ॥ श्रोरनसुखेलतहेफाग

मासेमुखहूनवोलेरे मेरेरेअचरोनचूये वाकीबहीयां

(७१२)

न्यायसागरजीकृत.

जेरोरे एदेशी ॥ ओरनकोदेतशिवदान मोसेदिलहून
खोलेरे आंकणी ॥ पकरोरेअचरोतेरो नमुंकुकहुहुवा
जतेढोलेरे १ ओ० ओरदेवजगमेंबहोतेरे तेरेकोणतोले
रे २ ओ० मूकीचिंतामणीकोणमुरख काचनेमोलेरे ३
ओ० गुणअनंतप्रभुसेवकरतां जवदुखडोलेरे ४ ओ०
तुजमुंकीपरभुरनेसेवे वाह्यामिथ्याझोलेरे ५ ओ० सुख
अनंतकारणतुंमिलिओ मारांदुरीतनेफोलेरे ६ ओ० चि
दानंदपूरणगुणपावन न्यायसागरएमबोलेरे ७ ओ०
इति ॥ अथ श्रीचंद्रबाहुजिनस्तवन ॥ दाउद

खानदेयारमेथारीवो एदेशी ॥ अध्यातमहाथीशिणगा
रथो सुमतीवनीअंबारीवो १ चंद्रबाहुजिनमेंथापरवारी
वो आंकणी वीरसेनझलामलझलकत धारतध्यानकटा
रीवो चं० २ धीरमतीरकवानतनुकी मनसमसेरसुधा
रीवो चं० ३ सुमतिगुपतिदृढकंचुकपाहिन्यो लरनेकी
कीनीतइयारीवो चं० ४ ज्ञानकीफोजहठेनहीपीछी मा
रतअहितअटारीवो चं० ५ क्षपकश्रेणिअस्वारीजा
री हण्योमोहनिरधारीवो चं० ६ जीतिहुइतबचंद्रबाहु
की न्यायसागरसुखकारीवो चं० ७ इति ॥

अथ श्रीभुंजगजिनस्तवन ॥ तेरेनयननमारीवो नजी
वांबरछीवो मारिचलोमीयारंझां घायलकूकपुकारीवो

नजीवा एदेशी ॥ तीरेदर्शनटारीवोनमानु आंकणीः कि
 रियाकष्टकरोतोहुसाचुं चाखुंगाढपुकारीवो तो० १
 जोगीजंगमशठमठवासी देखतदुष्करकारीवो तो० २
 ज्ञानीध्यानीजगबहुतेरे सवतहुतासनवारीवो तो० ३
 पीतजांगअपनेमतमाते देतजगतकोगारीवो तो० ४
 पंचांगनिसाधतअतिदुष्कर घामसहेनिरधारीवो तो०
 ५ ज्ञानक्रियाखटदर्शनभाखे आपमतेसविसारीवो
 तो० ६ न्यायसागरप्रजूकरियासाची देवभुजंगसकारी
 वो० तो० ७ इति ॥ अथ श्रीइश्वरजिनस्त
 वन ॥ लंगरकान्हारे एदेशी ॥ दानशीलबहुजगसाते
 रो अक्षतदानअमानारे १ इश्वरदानारे आंकणी सुर
 तरुसुरमणीसुरगवीतुंहिज तुंहिजपरमनिधानारे इ०
 २ जनममरणभयवारकतेरो दर्शनअमृतपानारे इ० ३
 दानसूरतुझजाणीसुरतरु सुरमणीलीधाकान्हारे इ०
 ४ मेरनिगतिसवहीतुंजाने अबकहाकहुछानारे इ० ५
 सुपनेदिलनविधारुंपरसुर मेरेतेराध्यानारे इ० ६ न्या
 यसागरप्रभुसेवामेवा स्वादेवधतावानारे इ० ७ इति ॥
 अथ श्रीनेमिप्रभुगीत ॥ जिनराजजुहारणजास्यांजी
 एदेशी ॥ श्रीनेमिजिनेसरवंदारे जोगीसरपणध्यानध
 रजस उपसमरसनोकदारे श्री० १ मनचवतनुशुद्धे

आराधो जिमाचिरकालितंदारे श्री० २ बोधिवीजनं
 मूलनीबंधन तुंहिजगतदुखदंदारे श्री० ३ खिजमन्नि
 गारगरीबनिवाजो दूरकरोजवफंदारे श्री० ४ ग्रहगणतो
 लत्रवरसुरनासे तुंहिजतेजदिणंदारे श्री० ५ इंद्रत्रनु
 तरसुरगणधरथी रुपअनंतजिणंदारे श्री० ६ न्याय
 सागरप्रभुसेवारंगे पामेपरमाणंदारे श्री० ७ इति ॥
 अथ श्रीवीरसेनजिनस्तवन ॥ गाडीवालेललनांजाडा
 करेरे एदेशी ॥ वीरसेनजिणदवातांसुणरे आंकणी का
 लअनंतभम्योतुमपाखे म्हेंकोइनपायोगुणरे १ वी०
 मेरेपासेकहावेक्यातुं तुंहिआपेसविमुणरे २ वी० तुंमे
 रासाहिबमेतेराबंदा मांगुंअवरकहेकुणरे ३ वी० मेरे
 आधीपोथीतुंहि सविजव२नांदुखधुणरे ४ वी० मन
 वचतनुप्रभूतुंहिजकीनो हुंअवरनमुंकिमपुणरे ५ वी० अब
 रदेवतुझआगेझांखे तुंज्ञानअनंततरुणरे ६ वी० न्याय
 सागरप्रभुचरणकमलनी सेवारंगेअरुणरे ७ वी० इति ॥
 अथ श्रीमहाजद्रजिनस्तवन ॥ वालीमबेसीप्रीतिकरी
 वो० एदेशी ॥ पारगतोरीआणखरीवो आंकणी महाज
 द्रपरसुरनीकबहु आसकरीनाफिरीवो १ पा० कोडिकप
 टकरेतोइनमुंकु प्रीतिठरीसोठरीवो २ पा० बहुभवज
 मतांतुंप्रभूमिलीओ दुरगतिदुरटरीवो ३ पा० तुझआ

णादूरलनदूरविध त्तुंगुणमणिमालजरीवो ४ पा०
 न्यायसागरप्रभूसचीजाणी अपणेमोलधरीवो ५
 पा० इति ॥ अथ श्रीदेवयशाजिनगीत ॥ आ
 वेरेमेरोप्रीयआवे एदेशी ॥ भावेरेपूजोजिनजावे आ
 कणी हरिहरब्रह्माबुधकौलजिन खटदरसनतुझध्यावे
 जा० १ जोगीजंगमजगतसंन्यासी दर्शनतुझमांमावे
 २ जा० तुझसिरआणवहेजेतसतुं मूक्तिवधूपरणावे ३
 जा० कारणविणउपगारीतुंजग भविजननेसमझावे ४
 जा० माप्रितायतुंबंधवदेवो तुंहिसहायकहावे ५ भा०
 तुझरागेरेगाणोउज्वल एमुझअचरिजथावे ६ जा० ता
 हरीअगमअगोचरवातां तुझविणअवरनपावे ७ जा०
 जावजगतिवशदेवयशाना न्यायसागरगुणगावं ८
 जा० इति ॥ अथ श्रीअजितवीर्यजिनस्तवना ॥ अरजसु
 णोटुकमोरीरेघावदकेघोटा एदेशी ॥ अरजकरुदिलग्या
 नीरे १ सुणसाहिबमेरा अजितवीर्यजिनशिवसुखदाता
 मेंतेरीगतिजानीरे २ सु० मेरीगतिसंबतुंहिपिछानी क्या
 राखुंअबछानीरे ३ सु० ज्ञानअनंतकुणमूरखतेरी होडे
 करेअनिमानीरे ४ सु० पृथवीउरणिकीधीवरसी दानि
 तेशुचध्यानीरे ५ सु० जन्ममरणअधदुरनिवारि तेरी
 अमृतवानीरे ६ सु० कथनीकरणीदोनुंसरखी ते

रीसबहीबखानीरे ६ सु० न्यायसागरप्रचूवांछितप
दवी दानेकरोमहेरबानीरे ७ सु० इति ॥ इति न्या
यसागरजी कृत वीशी संपूर्ण ॥

अथ श्रीनीतविजयजीकृतवीशी पूजासाधे.

अथ श्रीसीमंधरजिनपूजा ॥ दुहा ॥ श्रीमनमोहनपा
सजीसकलजंतुहितकार सदगुरुचरणपसायथीगुणी
गुणमालाकार १ पंचविदेहेविहरता वेहेरमानजिनवीस
नक्तिनरेपूजारचूं नारतीपूरेजगीस २ विस्तीरणजि
नमंदिरे थापीजिनवरवीस द्रव्याष्टकपूजाकरी जावअ
पूर्वजगीस ३ श्रीमंधरजुगमंधरु बाहुसुबाहुसुजात
स्वयंप्रनरुषभाननजिन अनंतवीरजसुजगात ४ सुर
प्रनविशालवज्रधर चंद्राननचंद्रबाहु जुजगेश्वरनमीवी
रसेन महाचद्रजसचाहु ५ देवजसाश्रजितवीर्यजिन
दारिसनकरोमनखांत द्रव्यतेकारणजावनो सीमंजव
दृष्टांत ६ नृपश्रेयांसकुळादिनमणी सत्तकीमाताजास
रुकमणीराणीनाहलो लंछनवृषजनुंतास ७ ॥

पूजा ॥ प्रथमपूरवद्रिसे एदेशी ॥ रागप्रजाति ॥ धन्वतुं
२ स्वामी श्रीमंधरु धन्वतुजशक्तिव्यक्तिसनुरी कार्यकार
णदिशासहेजउपगारता सुद्धएकत्वपरिणमनपूरी १ न

यरीपुंडरगीणीस्वर्गपूरीसमवनी जिहांजिनवरविधरे
 सदाये वृषजलछनमीसेबोधीआरोपता आतमखेत्रे
 प्रगटेजदाये २ ध० स्वामीगुणओलखीसाधीसाधक
 दशा दर्शनसुद्धतातेहपामे ज्ञानचारित्रतपवीर्येउल्लास
 थी कर्मजीपिवसेमुक्तिधामे ३ ध० अथपीनावत्रिका
 लनाजाणता तोपणातिजवितककहूए जूलयोअनिमान
 मेंजील्योपरजावमें विषयकषायआश्रवबहुए ४ ध०
 संवरवच्छलुसुणीश्रीमंधरुजैनदरिसनअहिओसतोए
 आसनीजपदतणीस्वामीश्रवलंबने अनुपमसुखनीत्य
 सास्वतोए ५ ध० उँ ही श्रीपरमपुरुपायपरमात्मने
 अनंतज्ञानशक्तिए श्रीमंधरजिनवरायद्रव्याष्टकअजा
 स्हेस्वाहा इति ॥ एमंत्रपुजादीठकहेवो ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥
 अथ श्रीयुगमंधरजिनपूजा ॥ दुहा ॥ वंप्रविजयविज
 यापुरी सुधडत्पतिनंद मातसुताराजनमीओ पूरण
 पुनमचंद १ घातीकर्मनेक्षयकरी ज्ञानदरसनघनेभोग
 जुगमंधरजिनपूजिये शुचिकरत्रिकरणजोग २ ॥ ढाल
 संचवजिनअवधारीये एदेशी ॥ साहेबसांचलोविनती
 ओलंजेअरदाससनेही हेजेहसीयंबोलावतां करसुगु
 णगणवाससनेही १ श्रीजुगमंधरजिनसुणी आंकणी
 तारकनामधरावता तुमेतारोछोअनेकस्नेही तोकिमंप्र

मुहुं विसरयो देजोसमकितछेकसनेही २ श्री०
 लोकसजावेदेखता एमनसरेमुजकाजसनेही दास
 सभावेजोगणो एटलेपामुंराजसनेही ३ श्री० करु
 णानिधिकहियेकिसुं जाणोमनोगतजावसनेही जेद
 जावमुकीपरो मुजस्युंरमोएकदावसनेही ४ श्री० सक
 लप्रदेशेसक्तिमेंज्ञानदर्शणसुखवीर्यसनेही उतपात्वय
 द्रूठ्यअनुजवी उपादानअतीधीर्यसनेही ५ श्री० संश्र
 हनयथीअनादिनो एवंजूनयआद्यसनेही बुद्धीविजय
 नित्यध्यानथी निजगुणसमताजाद्यसनेही ६ श्री०॥
 काव्य ॥ इति ॥ अथ श्रीबाहुजिनपूजा॥ दु

हा ॥ पुरिसुसिमासुग्रिवपीता विजयाराणीनंद तेजेज
 लहलदीपतो विचरेत्रिचोवनइंद १ ज्ञानीपणवचनेक
 री कहिनसकेजसपार आतमअनुजवसुंलहे चिदानंद
 विस्तार २ ॥ ढाल तोणरथीरथफेरीयोरेहां एदेशी ॥
 बाहूजिणंदकृपामडरेहां चंदनशीतलवाण वारीमोरा
 साहेबा देवदानवविद्याधरारेहां सेवेजोडीपाण वा० १
 शुधातमबलमोगरेरेहां मोहमदनकरीघात वा. राजली
 योप्रभुआपणारेहां परमानंदविरूपात वा० २ धर्मच
 क्रीविचरेजिहारेहां कनककमलठवेपाय वा. जोयणसबा
 सोमंडलेरेहां रोगादिकनविथाय वा. ३ चरणनृपति

नीतंदनीरेहां केवलकमलानारवाः वितरागतामेहेल
 मारेहां वीलसेजगत्रआधार वाः १४ चोत्रीसश्रतीसय
 सांजतारेहां साहेवजुगसुलतान वाः १५ ज्ञानदर्शनसुख
 वीर्जनीरेहां रिधीश्रतंतश्रपार वाः १६ एहवाप्रभुनी
 सेवनारेहां बहिसतमत्यांगवान वाः १७ बुधिनिव्यसुमति
 कहेरेहां श्रापोसमकितदान वाः १८ इति ॥ काव्य ॥
 अथ श्रीसुबाहुजिनपूजा ॥ दुहा ॥ १ ॥ भुपनसिठविनि
 तापुरी नूनदानोनंद पदतलकपीलंछतजसु सेवेसुरनर
 वंद १ ॥ पुरणानंदसरुपमे सुबाहुजितेशज वस्तुतत्वश्रो
 लिखाणथी श्रापेचरणजिहाज २ ॥ ढाल ॥ हारेमारेठा
 मधरमनासाडीपचवीसदेसजो एदेशी ॥ हारेमारेसुबा
 हुजिणंदस्युलाग्योधर्मरुनेहजो पुरणपुन्येमलीयात्रास
 यसुधथीरेलोल हां० छांडीमिथ्यादूरजयनिंदपरमाद
 जोनाठीभूलश्रनादिसन्यकबुधथीरेलोल १ ॥ हां० सेहे
 जेप्रगट्योतिजप्रजावविवेकजो अंतरश्रातमसाधिसा
 धनइष्टतारेलोल हां० त्यागीपरपरणंतरिसरमणी
 रीझजो जागीश्रातमश्रनुचवस्वादनीमीष्टतारेलोल
 २ ॥ हां० सेहेजेछुटिश्राश्रवचालश्रनादजो जालमप्रग
 टिसंवरचावनीसीष्टतारेलोल हां० बंधहेतुजेपापस्थान
 श्रदारजो तेपणपास्यानीर्जरासावगरिष्टतारेलोल ३ ॥

(७२०) नितविजयजीकृत.

हां० सुद्धसरुपेवलग्योगुणउपयोगजो तेथीपाम्योध्या
यकध्येयसमस्ततारेलोल हां. परमात्मपूजानुंफलजा
णजो चंद्रवदनजिनचोथाप्रभुनीसरलतारेलोल ४ हां०
जगसुखदायकजंगमसुरतरुसाखजो सेवकनेफलआपो
समाधीलयवरैरेलोल हां० जेअतीदुस्तरजलधीसमो
संसारजो बुधिविजयनित्यगोपदसमतेहीजकरैरेलो
ल ५ इति ॥ काव्य० ॥ अथ श्रीसुजातजिनपू
जा ॥ दुहा ॥ देवसेनथीनीपन्यो देवसेनानोपूत्र जानुं
लंछनराजतो त्रीचोवनपतीअबधूत १ ध्येयस्वरुपजो
गीसरु अलखअरुपीरुप श्रीसुजातजिनपूजतां पामेनि
जगुणभुप २ ॥ ढाल ॥ ब्रह्मचर्यपदपूजिए एदेशी ॥
क्युंजाणुंक्युंबनीआवसे श्रीसुजातजिनसेवहो विनित
पुदगलपरिचयत्यागथी करवाजसमनटेवहो विनित १
श्रीसुजातजिनसेवीये आंकणी. परमात्मसोहंकरु व
स्तुगतेतेअलीप्तहो वि० द्रव्येद्रव्यमिलेनही जावते
अन्यअव्याप्तहो वि० २ श्री. आत्मविभूतिपरणामो
सहसाधकनोध्येयहो वि० आगमबलेकांड्रजाणीये मी
लवातुमप्रभुज्ञेयहो वि० ३ श्री० जडचलजगनीएठनो
नघटेभव्यनेजोगहो वि० उपादानताआदरी त्यागी
असुद्धप्रयोगहो वि० ४ श्री० सहसकीरणलंछनमी

से दिपेश्रद्धतवानहो बुद्धिविजयनित्यचक्तिथि मांगेसे
 वादानहो वि० ५ श्री० इति ॥ काव्य ॥ अथ श्रीस्व
 यंप्रज्जिनपूजा ॥ दुहा ॥ नरपतीमीत्रसुमंगला जा
 याश्रीजिनराय पदतलससीलंछनजलो त्रीजोवन
 पतीसुखदाय १ आत्मबोधनोहेतुए स्वयंप्रभुजिन
 जूप भावधरीद्रव्यपूजना शीवसुखलहेअनुपर ॥ आ
 चारजत्रिजेपदे एदेशी ॥ रागकाफी ॥ स्वामीस्वयंप्रभु
 देशनासुणोत्यागीसर्वजजालरे पामिनरजवदोहिलोम
 तखोवोआलपंपालरे १ स्वामीस्वयंप्रभुदेशनां आकणी
 जीवअनादिअनंतछे कर्मसंजुतप्रवाहरे चारित्रश्रुतदो
 यभेदथी धर्मपरखीजेत्रणराहरे २ स्वा० एककसनेवी
 जोछेदथी तापकनककसोटीएदानरे जिहांसावद्यनिसे
 धछे रागादिकंतहीशुजध्यानरे ३ स्वा० जिहांसंजम
 अप्रमतता लीयेआहारादिकसविसुद्धरे छेदसुद्धतेधर्मछे
 एणिपरैजाखेस्वयंबूद्धरे ४ स्वा० जीवअनादिअनंतछे
 आरुतीनास्तीतेविचाररे तापधर्मतेजाणीये आलखो
 आतमनिरधाररे ५ स्वा० मिथ्यात्वादिकबंधना हेतु
 करीबांधेकर्मरे सम्यकतादिकनावथी क्षयकरी
 लहेशीवसर्मरे ६ स्वा० एणिपरैधर्मनेआदरे पाल
 जेधननरतेहरे बुद्धिविजयनित्यध्यानथी ज्ञानमहो

(७२२) नितविजयजीकृत.

दयगेहरे ७ स्वा० इति ॥ काव्य ॥

अथ श्रीरुषज्ञाननजिनपूजा ॥ दूहा ॥ किर्तिनृपकुल
तीलकसम वीरसेनानोद मृगपतिलंछनसोभतोकन
कदेहजगचंद १ क्षायकजावविराजतो कर्मकलुपतादु
र रुपज्ञाननजिनसेवतां उपजेअनुपमनुर २ ॥ ढाल
अनीहारेवालहोवसेविमलाचलेरे एदेशी ॥ अनीहारे
श्रीरुषज्ञाननजगविभुरे स्यादवादानाजासणहार पूर्व
धातकीखंडेजगधणीरे बछ्छविजयसुसामिसार १
स्वामीवसेमहाविदेहमारे एआंकणी अ० राजरमणीरी
धीसहुतजीरे संजमश्रीवरीशुचवान क्षपकश्रेणिशुच
ध्यानेचडीरे प्रनुपाम्याकेवलग्यान २ स्वा० अ० दो
षअठाररहितप्रभुरे च्यारमूलअतीशयधार ओगणी
सकृतदेवजाणीयेरे कर्मक्षयधीप्रगटेअगीयार ३ स्वा०
अ० पुहवीमंडलविहरतारे रागरहितनेगुणगंजीर
स्वामीअनीनवोसायरुरे समतारसनिर्मलनीर ४
स्वा० अ० देसनालहरीअतीघणीरे जोजनवाणीति
गाज खेमादिकनदीबहुमलीरे नवीजलजंतुहितकाज
५ स्वा० अ० गणधरमेघसोहामणारे त्रीपदीखहे
सलीलसनुर संजतखेत्रमांवरसतारे नित्यसंपति

पुन्यपडुर ६ स्वा० इति ॥ काव्य० ॥

नितविजयजीकृत. (७२३)

अथ श्रीअनंतवीर्यजिनपूजा ॥ दुहा ॥ मेघनरेसरमंगला
 नंदनपदमातंग नीजनावेवरतेसदा केवलकमलारंग
 १ नित्यादिकनावेरमे अनंतवीर्यजिनदेव कुसमादि
 कधीपूजतां वांछितफलसुखहेव २ ॥ ढाल ॥ नगक्तिसु
 धारसघोलनारे एदेशी ॥ अनंतवीर्यजिनवंदनारे दिन
 परतेसोसोवार धरमलाजघोसाहिबारे मोहतवधार
 णहार १ होजिनजी तेजेतरणीथीवडारे दोयसाखा
 नोदीवडारे अनंतवीर्यजिनजाण आंकणी आतिदुरब
 लमनमाहरंरे तोपणराखुंतोय मोटोमनप्रचतुमतणारे
 केमनवीराखोमोय २ हो० ते० मोहमायारागखेदेप
 ड्यारे आतमआपनबुझ दरपणेनिजप्रतिबिंबधीरे कु
 कडपरकरेजुझ ३ हो० ते० प्रभुनीवाणीसुरगविरे अ
 नुपमअमृतदूध भवदुखसविदूरेटलेरे पीतांसमाक्तिसु
 ध ४ हो० ते० जीरणहोयमुझदेहडारे प्रीतनजीरण
 जोय वागोविणसेजरकसीरे सोनुंसामनहोय ५ हो०
 ते० संदेशोकुणपोचवेरे कागलदेवुकुणहाथ बुद्धिविज
 यनित्यजाणजोरे चिततुमारीसाथ ६ हो० ते० का
 व्य ॥ इति ॥ अथ श्रीसुरप्रज्जिनपूजा ॥
 दुहा विजयमहिपतीनीपनो वीजयावतीसुनंद वाजी
 लंछनसोहतो विचरेश्रीजिनचंद १ सूरतेजसमसुरप्रज्ज

(७२४) नितविजयजीकृत.

परिसहस्रैःसूर थीरचितेप्रभुसेवतां पामेपुन्यपटुर २॥
ढाल ॥ होमनमान्यामोहनजी एदेशी ॥ मुनिम
नमंदिरनोदिवोरेहोमनमान्यासाहेबजी श्रीसूरप्रज
जिनचिरंजीवोरे हो० समताचारित्रनोनिवोरे हो०
ज्ञानदरिसणत्रमृतपीवोरे हो० १ हिंसाअनुबंधहेतुस
रुपरे हो० देवत्रिविधअहिसकरुपरे हो० नीकलंकी
अनंतीआथरे हो० निजविरुदसंनारीनाथरे हो० २
प्रभुआलंबनसुन्नराजरे हो० उपादानसमारुआजरे
परमात्मपूरणानंदरे हो० सास्वतचरणनोकंदरे हो०
३ नीखेपाचारतेमानुरे हो० नयसातनेजंगप्रमाणुरे
हो० उदयाचलआसयसुधरे हो० उगोसूरप्रजस्वयंबुध
रे हो० ४ मैत्रीप्रमोदमनधारीरे हो० करुणामध्यस्थ
विचारिरे हो० तुझदरिसणमानुंधनरे हो० जडचेतन
जिन्नाजिन्नरे हो० ५ केइतारचासंसारसेतीरे हो० अम
नेपणआस्याएतीरे हो० सरधासंवेगेभरीयेरे हो० बु
धिनित्यपदअनुसरीयेरे हो० ६ काव्य ॥ इति ॥
अथ श्रीविसालजिनपूजा ॥ दूहा ॥ जद्रादरिकेसरीज
यो नागभुषसंजोग राजरमणीसद्गुछांडाने लीनोसाध
संयोग १ पूर्णसाधनताकरी पाम्योपूर्णानंद जिनवि
सालपदपूजतां लाहियेपरमानंद २ ॥ ढाल ॥ जिन

पदजपीये जिनपदत्रयिणे एदेशी ॥ रागकाफीठुंमरी ॥
 श्रीविसालजिनवन्दनकीजे अनुभवअमृतपीजे मिथ्या
 तत्रव्रतजोगकपाय तेसविदूरेछिजे १ श्री० धर्माधर्म
 आकासअचेतनतेहवीजातीअग्राह्यपुदगलग्रहवरकर्म
 कलंकतावाधेबाधकवाइय २ श्री० तेणेअवजमतांमाट
 ककीधावेसमेसारअसारो मुजरोमानोसंपतिआपो न
 हितोनुपतिनिवारो ३ श्री० अंतरध्यानमीठाइचखा
 वो हे लवीयोहुंवाल संपूर्णदर्शनविणस्वामी नतजुंचर
 णत्रिकाल ४ श्री० आरोपितसुखअहंठलेसवि सामं
 ग्रीसंजोग उपादानकारजनीपजसे करतातणेप्रयोग
 ५ श्री० नीरागीधीरागजोडवो चेतनसक्तिप्रकास अत्र
 सस्तटालीपरसस्ता धरताआश्रवनास ६ श्री० संवर
 वाधेबंधनवांधे नीर्जरांमोक्षनेसाधे बुद्धिविजयनित्याजि
 नवरसेवा करतांगुणगणवाधे ७ श्री० इति ॥
 अथ श्रीवज्रधरजिनपूजा ॥ दूहा ॥ संखलक्ष्मतनुक
 नकसम भुपपदमरथयोग सरसतीकुखेजनमीधो खे
 टकसैकलसुंनयोग १ मोहमल्लजणीवज्रसम श्रीवज्र
 धरजिनराय चवतरुमूलउछेदवा अंतरवाइयउपाय २
 ॥ ढाल ॥ चारित्रपदशुभचितवस्युं एदेशी ॥ तालजे
 तमनसोरठनीदेशी ॥ श्रीवज्रधरजिनपूजिये अतीउ

(७२६) नितविजयजीकृत.

लसीतहोनितहर्षअपारके दहतीगअग्निगमसाचवी
धरिनिश्चलहोमनवचतनुकायके १ श्रीवज्रधरजि
नपूजिये आंकणी. द्रव्यपूजाअंगअग्रथी वलीजावथी
होकहीविविधप्रकारके तुरीयजेदप्रतिप्रतीथी उत्तराध्ये
नेहोसम्यग्अधिकारके २ श्री० एहनुंफलदोयभेदथी
अनंतरनेहोपरंपरसारके चित्तप्रसन्नआणापालतां सू
रप्रथमेहोबीजेभवपारके ३ श्री० प्रथमअंगनिर्युक्ति
मां नीतुंकरतांहोअविवेकताजायके समरससाधकतास
जे बहिरातमहोत्यांगअंतरपायके ४ श्री० मुख्यपणे
परमात्मा आलंबनथीहोआपसिद्धिकहायके वस्तुत
त्वअवलोकतां नित्यरिद्धिहोअनंतीजोयके ५ श्री०
इति ॥ काव्य ॥ अथ श्रीचंद्राननजिनपूजा ॥
दुहा ॥ नृपवाल्मीकपदमावती नंदनगुणअग्निराम वृ
षजांकितकेवललहि पुरीविनीताठाम १ करमतपतन
वजंतुने ससिकौमोदिसमजान श्रीचंद्राननजिनवरु पू
जोज्ञाननिधान २ ॥ ढाल ॥ संजमरंगलाग्यो ॥ ए
देशी ॥ श्रीचंद्राननसेवीयेरे कीजेएहस्युंप्रीत साहेबरं
गलाग्यो ब्रह्ममुरतजेप्रातनोरे तीहांकीजेएरीत १ द
र्शणरंगलाग्यो रंगलाग्योचोलमजीठ जिनस्युंरगला
ग्यो आंकणी. आलसनिंद्राबेतजरिे आतमचित्तकहोय

सा० थीरमनतनुवचनेकरीरे ज्ञाननयनकरीजोय २
 द० हुंकुणकिहांथीआवीयोरे कुणछेमाहरोरुप सा०
 मीत्रशत्रुकुणमाहररे मोहमायाएकुप ३ द० द्रवनये
 आतमआतमारे एकनिश्चयनहीजेद सा० विवहारेव
 हुजेदछेरे तिणमांहेजवखेद ४ द० परमारथसाधनज
 णीरे कीजेएहउपाय सा० जनमजरादुखमेटीयेरे ज्ञा
 नलब्धिसिद्धथाय ५ द० आतमनोअनुभवहोवेरे पाप
 तिमिरदुखदूर सा० बुद्धिविजयनितसेवतारे सास्वतसु
 खजरपूर ६ द० इति ॥ काव्य ॥ अथ श्रीचंद्र
 बाहूजिनपूजा ॥ दुहा ॥ भूपतिदेवानंदनो महेश्रीरेणु
 कारूयात पद्ममांकितसुजवासरः जन्म्योकनकस्युंगात
 १ स्यादवादजावेकरी चउविहधर्मकहंत चंद्रबाहूजिन
 पूजिये जिमपामोमनखंत २ ॥ ढाल ॥ थारेमांथेछेप
 चरंगीपाघसोनारोछोगलोमारुजी एदेशी ॥ रागमारु ॥
 तालजेतमन ॥ चंद्रबाहुस्वामीगुणमणीखाणीतुंधणी
 साहेवजी तुझगुणगणगाउंअवरनध्यावुंनिगुणी सा०
 प्रभुसुरतरुसरिखोपररुधोजिमचिंतामणि सा० मनवं
 छितदाताकिरतिविरूयातातुमतणी १ सा० प्रचुदीठो
 मिठोपरमसमाधिरसेजरयो सा० तिणेजास्योआतम
 सरुपअनादिनोविसरयो सा० समयविजावउपाधिय

क्रीमनत्रोसरद्यो सा० हवेसत्तासाधनमार्गचण्डिहंसच
 रद्यो २ सा० प्रभुजाणगरीतेसर्वजगतनेदेखता सा०
 परपरणतीजावचद्वेषपणेउवेखता सा० नीजपरणती
 जाविगुणअनंतगवेखता सा० प्रभुआणंदकारीगुणीगु
 णधारीलेखता सा० ३ गुणसहजतुमारोजाणीमाहसे
 आतमा सा० उल्लसीओसरीयोछांडीअवरतणीतमा
 सा० तुझचरणेवलग्योनवीरहूंअलगोतुझथी सा० तो
 सोहवेराखोअंतरजाख्योमुझथी ४ सा० प्रभुमुद्राजी
 गेध्यानअज्ञोगेरुचिवधे सा० तेरुचिअनुजाइवीर्जचरण
 धारासधे सा० बुद्धिविजयनित्यजाणीजावेसेवाजेकरे
 सा० तेनीजगुणकामीआतमरामीतीस्तरै५सा० इति ॥

काव्य ॥ अथ श्रीभुजंगजिनपूजा ॥ दुहा ॥
 महाबलमहिमासरवरे विमलमरालसमान पदसरोज
 लंछनजलो जितविचरेप्रधान १ समवसरणसिंहासने
 द्वादसपरखदमांहे सिरिभुजंगजिनदिपतो पूजाजाविक
 उछांहे २ ॥ ढाला ॥ त्रवीयणवंदारेसूरीस्वरगळछराया
 एदेशी ॥ रागखटताल ३ ख्याल ॥ जयपरमेश्वरजगदा
 नंदन जयजगवल्लभनाथ जयत्रिजोवनएकमंगलरुपी
 जयतुंशिवपूरसाथ १ भवियणवंदारेभुजंगदेवजिणंदा
 दुरितनीकंदारेभुजंगजिनप्रणमंता प्रणमीपदआणंदा

आंकणीः जयजोगीश्वरसेवितपदकजः जयइंद्रियगज
 सिंहः जयदुरजयनीरजीतकंदर्पहः जयतुंभ्रकलत्रविह
 २० जयजविकमलेविकासकदिनकरः जयसूरनर
 नतपायः जयमनवांछितपूर्णसुरगविः जयतुंभ्रमलत्रमा
 यः ३० जयपारंगतजयनीकलंकीः जयस्यादवाद
 सरुपीः जयगुणरहितगुणाकरस्वामीः जयश्रसरीरश्रु
 पीः ४० जयगतरागद्वेपगतवेदोः जयगतरोगनेसोग
 जयगतमानमच्छररतिश्ररतिः जयगतभोगवीयोगः ५
 ० जयसर्वज्ञश्रनेसर्वदाशीः जयतुंचरणश्रनंतः जयश्रपु
 नरचवजयजपनिरुपमः जयजगवंतचदंतः ६० जयजग
 वंधवजयजगरक्षकः जयनीरीहनीसंगः जयसास्वतसु
 खश्रव्याबाधकः जयनिजश्रातमरंगः ७० जयगुणानंत
 श्रल्पमुजबुद्धिः जयजितवरकिमकंहिये बुद्धिविजयनित्य
 ध्यानेध्यातां परमानंदपदलहिये ९० इति ॥ काव्यं ॥
 अथ श्रीइश्वरजिनपूजा ॥ दुहा ॥ दंतिसेनमहिपति
 जलोमातजसोदानंद चंद्रांकितइश्वरप्रभु दीपितेज
 दीनंद १ गुणश्रनंतजिनवरतणा दयाकुशलजंडार
 ज्ञानदानदियोजिके तप्रणमंसुखकार २ ॥ ढाल ॥ रा
 जानहिमिले एदेशी ॥ रागबंगाल ॥ इश्वरजिनवरप

रमश्राधारः कर्मकलंकनोटाक्षणहारः स्वामीसेवाये आ

तमगुणश्रनुजवथामेलाप द्रव्यसेवनतेजावआलाप
स्वा० १ जावश्रनेदथवानीहाम परजावथीनहीसाधन
कामस्वा० नइगमप्रभुताश्रंसथीश्रंब संग्रहनयसत्ताश्र
वलंब स्वा. २ द्रव्यादिकव्यवहारेबुद्ध रजुसूत्रेपरिणाम
विसुद्ध स्वा. सब्दशुद्ध्यानेश्रारोह संजीरुडगुणदसमे
श्रमोह स्वा. ३ एवंभूतसुद्धधर्मविशेष जावसजोगीश्रजो
गीसैलेस स्वा० श्रंतमध्यगुणठाणेसक्त साधनतायेनिज
गुणवक्त स्वा० ४ आतमजावेश्रनंतरवर्ग द्रव्यथीभाव
सेवननीसर्ग स्वा० इश्वरसेवातनमयतान बुद्धिविजय
नित्यपामेज्ञान स्वा० ५ इति ॥ काव्य ॥

अथ श्रीनेमीप्रभजिनपूजा ॥ दुहा ॥ भूपतिवीरसेना
तणो नंदनजगविरुयात सहसकिरणसेवामीसे जसु
विलसेपदगात १ नवोदधिथीजनतारवा श्रीनेमीप्रभ
चंद काष्ठपोतसमजाणिये सेवेसुरनरइंद २ ॥ ढाल ॥
जुमखडानीदेशी ॥ नमीप्रभुनमीप्रभुविनवुरे जरतखेत्र
श्रवदात जीनेश्वरपुजीये दुशमकालमानवपणुर
ज्ञानीवीरहतेथात १ जी० द्रव्यक्रियारुचीजीवडारे
जावधर्मसंभ्रांत जी० गळळकदाग्रहसाचवेरे उपदेश
कएकांत २ जी० शिलरहितप्रवंचकारे नद्रकपणगुरुक
धर्म जी० आणासाधविनाक्रियारे लोकेमान्योधर्म ३ जी०

श्रातमगुणश्रकसायतारे दुलहोसाधनेदाव जी० जा
 णोछोजिनराजजीरे एसघलोपरजाव ४ जी० तत्वाग
 मजनथोडकारे श्रध्यातमश्रवबोध जी० श्रागमसदगु
 रुधीसुणीरे जावेश्राश्रवरोध जी० ५ नाथचरणवदनत
 णारे मतमांधणोउमंग जी० बुधिनित्यध्यानेमिलरे
 प्रनुसेवननोसंग ६ जी० इति ॥ काव्य ॥
 अथ श्रीवीरसेनजितपूजा ॥ दुहा ॥ जानुंसेननृपनं
 दलो जानुमतिसुतजाण जसुपदसेवेवृषभवर कनकव
 रणतनुमान १ चिदानंदचितचाहसुं प्रणमुंपरमउल्ला
 सतेजेतमसजित्याजेणे लोकालोकप्रकास २ ॥ ढाल ॥
 धनधनतेजगजीवडा मनमोहनमरे एदेशी ॥ तुमहममे
 लेएकठे मतमोहनमरे श्रागुंकालश्रनंत म० सीयंप
 णैकेमसाहेबा म० श्रापहुवाजगवंत म० १ समोवसर
 णारचेदेवता म० तेकहुंकांडप्रकार म० वायुकुमारजो
 जनलगे म० अपहरेवृणसंहार म० २ मेघकुमारतिहां
 वरसता म० सुरभीसीतलनार म० रुतुसुरवरसेकुसु
 मने म० पंचवरणतारुचिर म० ३ रयणप्रकारविमा
 नीया म० बीजोकनकप्रकार म० जोतसिसूरविरचेति
 हां म० हवेत्रीजाघडसार म० ४ रजतनोभुवनपतिक
 रे म० हवेवितरकरेकाम म० द्वारप्रतेतारणठवे म०

(७३२) नितविजयजीकृत.

मध्यत्रसोकत्राजिराम म० ५ चमरखीचाणालोचसुं
म० कुसुमचरेनमीडाल म० रयणसिंहासनमंडीया
म० पादपीठसुविशाल म० ६ त्रणछत्रसिरउजला म.
आपेआणंदठाण म० त्रिजोवननाथछेसाहिबो म०
बुद्धिनित्यगुणखाण म० ७ ॥ काव्य ॥ इति ॥

अथ श्रीमहाभद्रजिनपूजा ॥ दुहा भुपदेवमहिपतिउ
मा नंदनजगपरसीध पदतललंछनईभ्यनुं शिवरम
णीवसकीध १ निश्चयनयनिजगुणकरी सदाविराजे
जेह आतमअविकारीअचल विवहारेधरेदेह २ ॥ ठा
ल ॥ अचिनवज्ञानजणोमुदारेलाल एदेशी ॥ प्रणमोम
हाभद्रजिनवरुरेलाल परखदासेवेपायरे हुंवारीलाल
पुर्वध्वारेपेसनिरेलाल तीर्थनमेजिनरायरे १ हुंवारीला
ल प्रणमोमहाभद्रजिनवरुरेला ल आंकणी बंठाप्रदक्ष
णादेइनेरेलाल पूरवसनमुखनाथरे हूं० सिहांसनरत
नेजडचोरेलाल जोगमुद्राधरीहाथरे हूं. २ प्र० त्रिहुदि
सेजिनवरसारीखारेलाल प्रतिबिबधरेविरुयातरे हूं०
धूपघटीतिहांमहमहरेलाल आवस्यकेघणीवातरेहूं. ३
प्र.कुमतिमदजेहथीगलेरेलाल जिनवरसमदेखायरे हूं.
चमरढालेचिहुदिसेरेलाल निर्मलतिहांसुररायरे हूं०

४ प्र० पसेपूरवबारणेरेलाल मुनीवैमानिकनाररे हूं०

साधवीतिमप्रणमीकरिरेलाल अग्निकुण्डेअधिकाररे
हूं० ५ प्र० भुवनपतीवणज्योतसीरेलाल तेहनीदेवी
जेहरेहूं० पेसेदक्षणवारणेरेलाल उनीतैरतकुणेतैहरे
हूं० ६ प्र० भुवनपतीवणज्योतसीरेलाल पेसेपछम
द्वाररेहूं० वावकुणेतैउपविसैरेलाल जिननेकरीनम
स्कार हूं० ७ प्र० वैमानीकसुरतिमवलीरेलाल नरने
तरनीताररे हूं० पेसेउत्तरवारणेरेलाल पेसेइसाणकु
णठाररेहूं० ८ प्र० अजितवदेवअठारमारेलाल प्रण
मुआसायसाररे हूं० बुधिविजयनित्यध्यानथीरेलाल
पामेभवनोपाररे हूं० ९ प्र० ॥ कौण्ये ॥ इति ॥
अथ श्रीदेवजसाजिनपूजा ॥ दुहा ॥ सरवचुतीनृपव
लजो गंगानंदनमानसेवामिसउडुपतीरहो पदतलरे
खाजान १ उदासीनतापरीनमन ॥ ज्ञानध्यानरंगरेल
जेअष्टांगमुनीजोगके एहअमृतनीचोल २ ॥ ढाल ॥
तीरथनीआशातनानवीकरीये एदेशीता ॥ रागसारंग ॥
देवजसाजिनराजनेनित्यवंदो नीतवंदीनेपरमाणंदो ए
छेशीवतरुसुखनोकंदो भवंतरणजिहाज १ दे० त्यासी
लांखपूर्वसंसारमांसुनजावे पछेसंजमस्युंदिलजावे घा
तीयांकर्मच्यारखपावे पाम्याकेवलज्ञान २ दे० पुष्क
रअर्थचोर्वासुमीवीजयामे विछछत्रगुरीसुसीमातामे ना

(७३४) नितविजयजीकृत.

मगोत्रतणेक्षयकामे विचरेन्नगवान ३ दे० श्रुतधरग
णधरजेहनेचोराशी दसलक्षकेवलीअविनासी त्रण
जोडथइजीतकाशी करशेसीवपुरवास ४ दे० साधुसो
कोडविचरताप्रभुचरणे नित्यप्रणमंजोडीकरने गुणप्र
मकरंतससरणे टालोदुकृतपाप ५ दे० द्वादशांगीपण
सास्वतीश्रुतवाणी विजयाएकसोनेसाठवखाणी कहेग
णधरकेवलनाणी बुधिनित्यगुणखाणी ६ दे० काव्य ॥
इति ॥ अथ श्रीअजीतवीर्याजिनपूजा ॥ दुहा ॥
राजपालनृपगेहनी कनिकाश्रुतअजिराम स्वस्तिकलं
छनदीपतो पुरिविनितानोस्वाम १ पुन्यपापथायेनही
अनुपमजोतीअजंग जनमकहोजोगीस्वरे उदासीन
तासंग २ ॥ ढाल ॥ रागधन्यासी ॥ अजीतविरजजिन
पूजारे गुणीजन अजित २ गुणजास एत्रांकणी. जतना
स्नानेमिथ्यातटालो उज्वलचितवस्त्रधारो अष्टकर्मसं
वरमुखकोसे एकाग्रओरशीयोसारोरे १ अ. नक्तिकेस
रसरधाचंदन ध्यानधर्मरंगरोल जालतिलकश्राणाप्र
भुताहरी स्वजावाभरणबहुमोलरे २ अ० जेनववाडवि
सुधअंगपूजा आचारपचरंगीफूल ज्ञानदीपकनयर्चिता
घृतथी तलपात्रबहुमूलरे ३ अ० धुपक्रियाकृष्णागरजो
गे सुधवासनाअनुभवजोगे मंगलअष्टबुधीगुणधारी

नितविजयजीकृत. (७३५)

निश्चलमननैवेद्यअनुयोगेरे ४ अ० आरतीकरतीमधर्म
 उतारी सुधधर्मतेमंगलदीप गीतवाजीत्रश्रनाहदनादे
 थैकारसमरतीजीपरे ५ अ० विहरताजिनध्यावोगुण
 गात्रो पंचरंगीपुष्पमालावो पोसजरीजरीप्रभुनेवधावो
 गुणअनंतदिललावोरे ६ अ० एणीपरेप्रभुनीजक्तिकरंता
 नरजवलाहोलीजे बुद्धिविजयनित्यधानधरंता तत्वश्र
 मृतरसपीजेरे ७ अ० ॥ काव्य ॥ इति ॥

अथ कलस ॥ थूणीयाथूणीयारे मेवेहेरमानजिनथूणीया
 आंकाणी गणधरमुनीवरसंघप्रमाणे समोवसरणविर
 चायो जंगमतीर्थश्रठचतगुणजडो आणामुगटधरायो
 रे मे० तपगछपतिविजेसिंहसूरीना सत्यविजयगुण
 न्नुप कपुरविजयतसखिमाविजयवर जिनउत्तमपदरुप
 रे २ मे० कित्तितपमणाबुधीविजयगुरु नित्यविजय
 तसुजक्ते जिनवरपूजातेनिजपूजा प्रगटेअन्वयसक्तेरे
 ३ मे० तत्वइंदुनिधिचंद्रसंवछर सुरतरहिचौमास क
 तारगामआदिनाथप्रसादे उद्यमजावउल्लासेरे ४ मे०
 नेवुंजिनकल्याणकदिवशे आतमआपठराया प्रनुगुणग
 णमुक्ताफलमाला संघनेकंठसोहायारे ५ मे० इति॥ इ
 तिनितीविजयजीकृतवेहेरमानजिननीपूजावीसीसंपूर्ण.

वीशीयो समाप्त.

जशोविजयजीविगरेकृत

राग रामकली ॥ रुखनदेवहीतकारी जगतगुरु रु०
 प्रथमतीर्थकरप्रथमनरेश्वर प्रथमयतीब्रह्मचारी ज० १
 वरशीदानदेइतुमजगमें इलतइतिनिवारी तइशीक्या
 हिकरतनाहीकरुना साहिबबेरअमारी ज० २ मागतन
 हिहमहाथीघोरे धनकनकचननारी दीयोमोयचरण
 कमलकीसेवा याहीलगतमोहेप्यारी ज० ३ चवलीला
 वासितसुरडारे तुमपरसबहीउवारी मेंमेरोमननीश्रेकी
 तो तुमआणाशीरधारी ज० ४ एसोसाहीबनहीकोउजग
 में यासुंहोयदील्यारी दिलहीदिलालप्रेमकेबीचमे
 क्याहठस्रेचेगमारी ज० ५ तुमहीसाहबमेंहुंबंदा या
 मतद्योनवीसारी श्रीनयवीजयवीबुधशेवककुं तुमहोप
 रमउपगारी ज० ६ इति ॥ राग फाकी ॥ अ
 जीतदेवमुजवालहा ज्यौंमोरामेहा ज्यौंमधुकरमनमा
 लती पंथीमनगेहा अ० १ मेरेमनतुहीरुच्यो प्रभुकं
 चनदेहा हरीहरब्रह्मपूरंदरा तुजआगलकेहा अ०
 २ तुहीअगोचरकोनही सजनगुनरेहा चाहेताकुंचा
 हीए धरीधर्मसनेहा अ० ३ नगतवछलजनताहरे तुं
 बिरुदवहेहा वीतरागहोयवालहा क्युंकरिदोछेहा
 अ० ४ जेजीनवरहेचरतमां श्रैवरतवीदेहा जसकहेतुज

(७३८)

छुटकस्तवना.

पदप्रणमतां सत्रप्रणमेतेहा अ० इति ॥ रागगोडी ॥
संजवजिनजवनयनमिल्योहो प्रगटेपूरणपुन्यकेअंकुरे
तवथेदिनमोहिसकयवल्पोहो सं० १ आंगणडेअमियमेह
वुठ्याजनमतापकोठ्यापगल्पोहो बोधविजप्रगटचोत्रि
हुजगमें तपसंजमकोखेतफल्पोहो सं० २ जेसीजाकितेसी
प्रचुकरुणा स्वेतशंखमेदुधमिल्योहो दरशनथेनवनि
धिमेंपाइ दुखदोहगसविदुरटल्पोहो सं० ३ डरतफीरत
हेदुरहीदिलथे मोहमलजेणेजगत्रछल्पोहो समकीतर
त्तलहुदरशनथे अवनवीजावुंकुगतीरल्पोहो सं० ४ नेह
नजरजरनिरखतहीमुज प्रभुस्युंहइडोहेजेहल्पोहो श्री
नयविजयविबुधशेवककुं साहीवसुरतरुहोयफल्पोहो
सं० ५ इति ॥ रागनट ॥ प्रभुतेरेनेननकीबली
हारी प्र० याकीशोनावीजीततपश्या कमलकरतुहेजल
चारी विधुकेशरणगयोमुखअरीके वनथेगगनहरीणहा
री प्र० १ सेजहीअंजनमंजननिरखत खंजनगरवदीयो
डारी छीनलइहेचकोरकीशोना अगनिजखेसोदूखजा
री प्र० २ चंचलतागुणलीयोमीनको अलीज्यौंतारी
हेकारी कहुशुनगताकेतिइनकी मोहीसबहीअमरना
री प्र० ३ घुमतहेसमतारसपाने जेशेगजवरमदजारी
तीनभुवनमेनहीकोइनीको अजीनंदनजीनअनुकारी

प्र० ४ मेरेमनतोतुहीरुचतहे परेकोणपरकीलारी तेरे
 नयनकीमेरेनयनमे जसकहेदिश्रोछवीश्रवतारी प्र०
 ५ ॥ रागमारु ॥ सुमतीनाथसाचाहो सु० १ पर
 परपरखतहीभया जेसाहीराजाचाहो श्रोरदेवमेंपरह
 रचा जाणीकाचाहो सु० १ तेरीकिरियाहेखरी जेसीतु
 जवाचाहो श्रोरदेवसबमोहेजरचा सवीमीध्यासाचा
 हो सु० २ चोराशीलखनेखमां हुंवहुपेरेनाच्याहो मु
 गतीस्थानदेइसाहीवा श्रवकरउवाचाहो सु० ३ ल
 गीश्रगनीकखायकी सबठोररहीयाचाहो रक्षकजा
 णीश्रादरा तुमसरणमाचाहो सु० ४ पक्षपातनहीको
 उस्युं नहीलालचर्लाचाहो श्रीनयविजयसुशीपको तो
 स्युंदीलराच्याहो सु० ५ ॥ रागपुरवी ॥ घडी
 घडीसांभरेसांइसलुणा घ० पदमप्रभुजितदीलथीनवि
 सरे मानुक्युंकछुगुनकोटुना दरसनदेखतहीसुखपा
 उं तोवीनुहोतहुंउंनाडुना घ० १ प्रभुगुणज्ञानध्यानवी
 धीरचना पानसोपारीकथाचुता रागजयोदीलमेयाजो
 गे रहेछीपायानंछानाछुना घ० २ प्रभुगुणचीतवांध्योस
 वसाथे कुनपइसेलेइपरखुना रागजग्योप्रभुसुंमोही
 परगट कहोनयाकोउकहोजुना घ० ३ लोकलाजथेजेची
 तचोरेसोतोसहजविवेकहीसुना प्रभुगुणध्यानविगरभ्र

(७४०)

छुटकस्तवनो.

मञ्जुला करेकिरियासोरानेरुना घ० ४ मेंतोनेहकियोतो
साथे अबनीवाहतोवेइहुंना जशकहेतोवीनुश्रोरनसेवुं
श्रमीयखाइकोनचाखेलुना घ. ५ ॥ रागकल्याण ॥ एसे
स्वामीसुपाससुंहारेदीललगा दुखजगासुखजगाजग
तारणा राजहंसकुंमानसरोवर रेवाजलज्युंवारणा खीर
सिंधुज्युंहरिकुंप्यारे ज्ञानिकुंतत्वविचारणा ए० १ मो
रकुंमेहचकोरकुंचंदा मधुमनमथचीतठारना फुलश्रमु
लजमरकुंश्रंबही कोकीलकुंसुखकारना ए० २ सीता
कुंरामकामज्युंरतिकुं पंथीकुंघरवारना दानीकुंत्यागया
गबहानकुं जोगीकुंसंजमधारना श्र० ३ नंदनवनज्युंसु
रकुंवलज न्यायिकुंन्यायनीहारणा तीउंमेरेमनतुंहसिहा
वे श्रोरतोचितथेउतारणा श्र० ४ श्रीसुपासदरशनप
रतेरे कीजेकोडीउवारणा श्रीनयविजयाविबुधशेवककुं
दीयोसमतारसपारणा श्र० ५ इति ॥

राग रामगीरी ॥ श्रीचंद्रप्रज्जिनराजराजे वदनपुनमंघ
दरे जवीकलोकचकोरनीरखत लहेपरमानंदरे श्री. मह
महेमहीमायेजसजर सरसजसश्ररविंदरे रणमणेजवी
जनजमररशीया लहेसुखमकरंदरे श्री० २ जसना
मेदोलतअधिकदीपे टलेदोहगदंदरे जसगुणकथाज
वव्यथाभाजे ध्यानशीवतरुकंदरे श्री० ३ वीपूलहृदय

वीशालजुजयुग चलतीचालगयंदरे अतुलआतिशयम
हीमामंदिर प्रणमतसुरनरवृंदरे श्री० ४ हुंदासचाक
रदेवतोरो शीशतुजफरजंनरे जसविजयवाचकएमवीन
वे टालमुजभवफंदरे श्री० ५ इति ॥ राग केदा
रो ॥ मेकीनोनहीतुमबीनआरस्युराग दीनदीनवांन
वधेगुणतेरो जीउंकंचनपरजाग आरनमेहेकखायकी
कलीयां सोक्यौंशेवालाग मे० १ राजहंसतुंज्ञानसरो
वर आरश्रुचीकाग विखयभुजंगगरुडतुंकहीए आ
रवीषयवीखनाग मे० २ आरदेवजलछीलरसरीखे
तुंतोसमुद्रअथाग तुंसुरतरुजनवंचीतपुरण आरतेसुके
साग मे० ३ तुंपुरुषोत्तमतुंहीनिरंजन तुंशंकरवडभाग
तुंब्रह्मातुंबुधिमाहाबल तुंहीजदेववीतराग मे० ४ सुवी
धीनाथतुजगुणफुलनको मेरोदीलहेबाग जशकहेजम
ररशीकहोयताकुं दीजेनक्तीपराग मे० ५ इति ॥
रागअडाणो ॥ शीतलजिनमोहेप्यारा शीतलजिनमो
हेप्यारा भुवनविरोचनपंकजलोचन जीउकेजीउहमारा
शी० १ जोतशुंजोतमिलितजबध्यावे होवतनहीतब
न्यारा वांधीमुठीखुलेजवमाया मीटिमहाभ्रमचारा शी०
२ तुमन्यारेतबसबहिन्यारा अंतरअमाराउदारा तुमही
नजीकनजीकहेसबही रीधीअनंतअपारा शी० ३ वि

(७४२)

छुटकस्तवनो.

षयलगनकीअग्निबुझावन तुमगुनअनुभवधारा भइम
गनतातुमगुनरसकी कुनकंचनकुनदारा शी० ४ शी
तलतागुनहोरकरततुम चंदनकाहबीच्यारा नामहीतु
मचातापहरतहे वाकुघसतघसारा शी० ५ करहोकष्ट
जनबहोतहमारे नामतिहारोआधारा जसकहेजन्म
मरणजयजागो तुमनामेभवपारा शी० ६ इति ॥

रागसामेरी ॥ हममगनजयेप्रनुध्यानमे वीसरगइदुवी
धातनमनकी अचीरासुतगुणज्ञानमे ह० १ हरीहरब्र
ह्मपूरंदरकीरीध आवतनहीकोइमानमे चीदानंदकीमो
जबनीहे समतारसकेपानमे ह० २ इतनेदीनतुमनाही
पीछाने जन्मगयोसोअजानमे अबतोअधिकारीहोय
बेठे प्रनुगुणअखयखजानमे ह० ३ गईदीनतासबही
हमारी प्रभुनुजसमकितदानमे प्रभुगुणअनुभवरसके
आगे आवतनहीकोउमानमे ह० ४ जीनहीपायातीन
हीछुपाया नकहेकोउकेकानमे तालीलागीजबअनुभव
की तबजाणेकोउसानमे ह० ६ प्रनुगुणअनुभवचंद्रहा
स्युं सोतो नरहेम्यानमे वाचकजसकहेमोहमहाश्री
जीतलीयोमेदानमे ह० ६ इति ॥ रागलीव ॥ मेरेसाहब
तुमहिहो श्रीपासजिणंदा खीजमतगारगरीबहुंमेंतेराबं

दामे. १ मेंचकोरकरुचाकरी जबतुमहोचंदा चक्रवाकमे

हुइरहुं जवतुमहीदिणंदा मे० २ मधुकरपरमेरनज्ञनुं ज
 वतुमश्रविंदा जगतीकरुखगपतिपरे जवतुहीगोर्वादा
 मे० ३ तुमजबगरजीतघनजये तवमेंशीखीनंदा तुम
 सायरजवमेंतदा सुरसरीतश्रमंदा मे० ४ दुरकरोदा
 दापासजी जवदुखकाफंदा वाचकजसकहेदासकुं
 दीयोपरमानंदा मे० ५ इति ॥

अथ श्रीरिपभाजिनस्तवन ॥ ढालकडखानी ॥ रिपज
 जिनराजमुझआजदिनश्रतिजलो गुणनिलोजेणतुंनय
 णदीठो दूखटल्यांसुखमिल्यां देवतुझनिरंखतां सुकृत
 संचेहुवोपापनीठो १ रि० कल्पसाखेफलयोकामघटमु
 झमिल्यो आंगणेश्रमीयनामेहवुठा मोजमहिराणम
 हीजणतुझदरसणे खयगयाकुमातिश्रधारजुठा २ रि०
 कवणनेरकनकमणिछोडित्णसंग्रहे कवणकुंजरतजी
 करहलवे कवणवेसेतजीकल्पतरुबावले तुझतजीश्रवर
 सुरकोणसेवे ३ रि० एकमुझटेकसुविवेकसाहिवसदा
 तुझविनादेवदूजोनहीहुं तुझवचनरागसुखसांगरेझील
 तां कर्मजरघर्मथीहुंनवीहुं ४ रि० कोडिछेदासप्रभुता
 हरेजलजला माहरेदेवतूएकप्यारो पतितपावनसमोज
 गतनोधारिकर महिरकरिमोहिजवजलधितारो ५ रि०

मक्तिथीअधिकतूझनक्तिमूझमनवसीजेहसोसवलप्रति

(७४४)

छुटकस्तवनो.

बंधलागो चमकपाषाणजिमलोहनेखेंचस्ये मुक्तिनेसह
जतुम्हन्नक्तिरागो ६ रि० गुणान्नतेसदातुझखजा
नोन्नर्यो एकगुणदेतमुझस्युंविमासो रयणइकदेतशी
हाणरयणायरे लोकनीश्रापदाजिणनासो ७ रि० धन्य
जेकायजिणेपायतुझप्रणमीये तुझथुणेजेहधन्यधन्यजी
हा धन्यरिदयजिणेतुझसदासमरिये धन्यजेदातजेध
न्यदीहा ८ रि० गंगसमरंगतुझकिर्तिकिलोलेने रवि
थकीश्राधिकतपतेजताजो नयविजयबुद्धसेवकहुंश्रापरो
जसकहेश्राबमोहिबहुनिवाजो ९ रि० इति ॥ अथ श्री
महावीरजिनस्तवन देशीकडखा श्राहोवीरजगवीरव्य
वहारनिश्रेमये सुगमकरिपंथशिवपंथदीनो एकरुचिश्रा
रुचिजिमश्रागुणजोजनकरे परिहरेश्रानुसरेधर्मनीनो १
श्रा० पंचदर्शनधरेएकपखश्रादरे किमवरेश्रापनिधिदू
रवर्ति कथनरुपीहुश्राएहमतजूजुश्रा व्योमनाफूलजि
मछेश्रामुर्ति २ श्रा० समयजिनताहरेउन्नयपखजेधरे
ज्ञानकिरियाकरीसुद्धपरखे चेतनारुपनिजरुपसंपतिस
दा अनंतचतुष्टयसहीजीवनिरखे ३ श्रा० जेमपाषाण
मेंहेमवृतदुधमें तेलजिमतलविखेरह्योव्यापी काष्ठमें
श्रागनिश्रैलखेलोकसवि प्रगटप्रतक्षव्यवहारथापी ४
श्रा० शुद्धनिराकारश्राविकारनिजरुपस्यो धरतगुण

आठसिवरुपदंहे कर्मपरणतिखिरेज्ञानउदयोधरे ताम
 किरियाकरेपामिगेहे ५ अ० द्रव्यनेकर्मनोकर्मविरहि
 तन्नयो निश्चयाकारचेतनविराजे एकउपदेशधरवेशति
 एअवसरे अवरजगजालसंगतिनछाजे ६ अ० प्रगट
 एवातदिनरातआगमवहे उन्नयचारित्रविनाशिवनसा
 धे आप्तअनंतपरंपरातीनविधि एकताथापीएकिमवि
 राधे ७ अ० कल्पनाकर्मगुणआपचेतनअगुण सर
 णाथितिवंधगुणविविधभावे एहविपरीतनिजदरससक
 तेसहज नोजआनंदघनरुपपावे ८ अ० इति ॥

अथ श्रीवीरजिनस्तवन ॥ अमलकल
 पउद्यानमांदेवाचीनारी एतोरुपकलागुणजारीहो एतो
 धारिरेसंजारीरे आवीवांदीवीरनेजी १ देइप्रदक्षणा
 स्वामीनेदेवाचीनारी एतोनियरनामसुणावीहो एतो
 नावीरेवधावीरे आगेनाचेरंगसूंजी २ छमछमछमके
 तेवीछीया देवाचीनारी एतोघमरघूधरवाजेरे एतोश
 गेरेप्रभुआगे सुरआलापतीजी ३ झणणणवेणवजाव
 ती देवाचीनारी एतोगणणणधूमणीजेतीरे एतोदेतीरे
 करताजेरे तालीगातीगीतनेजी ४ दौंदौइपमपछंदसुं
 देवाचीनारी एतोथायेमृदंगसुगंधीरे एतोरंगीरेगुणसं
 गीरे चंगीवायेवांसलीजी ५ थेइरथेइमुखउचरे देवाचो

(७४६)

छुटकस्तवनो.

नारी एतोवीचरअंगनेवालीरे एतोवालीरेसुकमालीरे
नालीमुखडुंवीरनुंजी ६ लालिरेलेतीवारणादेवाचीनारी
एतोसमकितनिरमलकरतीरे एतोधरतीरेगुणधुणतीरे
धनप्रभुजिहांविचरताजी ७ इणीपरेनाचीनमीकरीदे
वाचीनारी एतोअनुभवसुखमतवालीरे एतोगालीरेदु
खडानेतेवालीरे पडुंतीस्वर्गमांजी ८ वाचकरामविजयक
हेदेवाचीनारी एतोसमकितवंतनीकरणीरे एतोवरणी
रेजिनभगतीनिसरणीरे सीवमंदरनणीजी ९ इति ॥

अथ श्रीरुषभजिनस्तवन ॥ धन्यसुमतासुचीवधुवरी
जससुमताघरेनाररे तेणेचिंतामणीपामीयो फलीयोसु
रवेलीतसवाररे १ धन्यसुमतासुचिवधुवरी आंरणी
तससुरसुंदरीकिंकरी नहीतसमोहअंधाररे ज्ञानदीवो
तसचरेतपे त्रीभुवनदीयेसतकाररे २ ध० क्रोधभोजं
गनवीपेखीये नवीवसैभुतनेप्रेतरे देवनीक्रोडसेवाकरे
नहीतसभवदुखहेतरे ३ ध० सर्वजगमित्रतालेखवे
उपजेकेवलपुत्ररे बेटडीव्रतीमतीघरेरमे इसोजोगेंद्रघ
रसुतरे ४ ध० सर्वजगजावचितजावजे जावजेतत्वनुं
अंतरे कल्पनाकोडीमांमरुले अरतीरतीमकरतुकंतरे
५ ध० कोइकवारेतुझनवीनमे नवीकरेपुज्यबहुमानरे
हरषवीखवादतुममकरे जोहोयकथतुजसानरे ६ ध०

अपरपाखंतुडममकरे रुपजसमताधरध्यानरे परतणी
 आसवीपिवेलडी रोपमांसुगुणनीधानरे ७ ध० रुपज
 समतासुताकुमदनी महमहत्रिजिगवनखंडरे सकलचं
 द्रादीकमधुकरा लहेसुखआनंदपुररे ८ ध० ॥ कलस ॥
 रुपजसमतासुरलतानी चंतवीमेंसुखकरी वरपारतासं
 सारसागर तरणतारणवरतरी ज्ञानदरीसणचरणसु
 चिगुण रयणमंडीतमुनीपूरी श्रीवीजयदाणमुणंदसेवक
 सकलचंदकृपाकरी ९ इति॥ श्रीसामान्यजिनस्तुनी॥
 रागरामगिरी ॥ सकलसुमतासुरलतानो तुंहीअनोप
 मकंदरे तुंहीकृपारसकनककुंजो तुंहीजिणंदमुणंदरे १
 तुंहीतुंहीतुंहीतुंही तुंहीकरताध्यानरे तुजसरुपिजेथया
 ते लहेताहरुतानरे तुं० २ तुंहीअलगोजवथकिपण
 नविकताहरेनामरे पारजवनतिहपामे एहअचरिजठा
 मरे तुं० ३ जनमपावनआजमाहरो निरखियोतुझनु
 ररे भवोजवअनुमोदनाजे थयोतुझहजुररे तुं० ४ ए
 हमाहरोअखयआतम असंरुयातप्रदेशरे ताहरागुण
 छेअनंता किमकरुतामनिवेशरे तुं० ५ एकएकप्रदेश
 ताहरा गुणअनंतनिवाशरे एमकहितुजसहजमिलता
 होवेज्ञानप्रकाशरे तुं० ६ ध्यानध्याताध्येयएकि जाव
 होयेएमरे एमकरतासेव्यसेवक भावहोयेखेमरे तुं० ७